

इमं ग्रन्थकं प्रकाशकं महानुभावोक्तं स्वर्गाय नित्यं श्री  
श्री मेवजीभाई दामजीभाई — स्मृतिग्रन्थ

महंतन्त्रस्थतन्त्र-परमहंसपरिव्याप्तक "पण्डितराज"  
स्वामिश्रीभगवदाचार्यमहाराजविरचितः

पारिजातसौरभम्

(श्रीमहात्मगांधीचरितम्)

(भारतपारिजातस्य तृतीयो भागः)

प्रकाशक —

श्रीमान् राजजीभाई मधजामाई

श्रीमान् कानजामाई मधजामाई

मोम्बासा (केन्या-ईस्ट आफ्रिका)

प्रथमप्राप्तिसंकेत —

(१) पारिपाल-प्रकाशन-समिति

पा० बा० २७४,

मोम्बासा (ईस्ट आफ्रिका)

(२) धा सहित मेहता

C/o थियासाफिकल सासाइंग

बनारस सिटी

सदक —

परिचित वा क शार्की

—यातिप प्रसाश प्रम

बनारस सिटी

प्रयाण भाग्य सुदृष्ट

मृत्समटादग मुद्रा

तीनो भागोंका मूल्य १८)

## पारिजातसौरभकी विषयसूची

**प्रथम सर्ग** — काण्ण्डहर्म निवास करत हुए महामार्जीके पार भारतके अंग्रेजी सरकारने एक भाषण भेजा । उममें सन् १९४२ ई० के भारतमें हुए उपद्रवोंका दोष महामार्जीपर धीरे काट्टेसपर अगोपित हुआ था । उसीका उत्तर ।

**द्वितीय सर्ग** — उपयुक्त दोपारापणका ही उत्तर ।

**तृतीय सर्ग** — जगदम्बा श्रीकरतूरबाका परधान प्रयाण ।

**चतुर्थ सर्ग** — श्री महामार्जीकी काण्ण्डहर्म मुक्ति । स्टैफर्ट क्रिससे दिल्लीमें भेंट । नवान्नीलीमें मुसलमानोंके उपद्रवको शान्त करनेके लिये प्रयाण । कलकत्तामें विलम्ब ।

**पञ्चम सर्ग** — कलकत्तामें फलकर रामपुर ( बंगाल ) में पहुचना । वहा भाषण ।

**षष्ठ सर्ग** — वहा हिन्दुओंको उपदेश । मुहम्मद साहिबके शब्दोंद्वारा मुसलमानोंका उपदेश । टालतापुरमें वहाके एक जर्मनदागद्वारा महामार्जीको भूमि-समर्पण ।

**सप्तम सर्ग** — दुमारी श्रीमनुगावीजीको गीताका पढ़ाना ।

**अष्टम सर्ग** — हिन्दू-मुसलमानोंको उपदेश । हिन्दु शक्ति दशाका दणन जिसे महामार्जीने यात्राक लमे देखा था ।

**नवम सर्ग** — श्री० पुमारी मनुगाजीको आगे करके सब जनताका उपदेश । आनरी मन्दमें महामार्जीका मूर्तित होना । गमनागमनाम्य । स्वतन्त्रतादिकगोमर्षके अवसरपर त्रिगो शक्ति उदानी अर्थात्कृत ।

**दशम सर्ग** — टी० महामूर्दमयदके पत्रमें, महामार्जीका, विशारमें श्रुत होने हुए हिन्दुओंकी शान्तिके लिये, विहारमें आगमन । पत्रमें भाषण ।

एकादश सर्ग — पटनामें पुनः भाषण ।

द्वादश सर्ग — पटनामें पुनः भाषण ।

त्रयोदश सर्ग — बिहारमें शान्ति स्थापित करके महात्माजीका चाइसरायके आमन्त्रणमें दिल्ली आगमन । दक्षिण एशियाके सब देशोंमें आये हुए लोगोंकी सभामें महात्माजीका भाषण । ईश्वरनिष्पण । जोपण्डियोंमें ही भारतका वास्तविक दर्शन हो सकता है इसके समर्थनकेलिये एक इतिहास । भाषणसमाप्ति ।

चतुर्दश सर्ग — दिल्लीमें हिन्दुओंद्वारा मुसलमानोंपर आक्रमण होता हुआ देखकर महात्माजीका रोद । उपवासकी घोषणा । उपवासके कारणका निरूपण । निश्चल उपवासका आरम्भ ।

पञ्चदश सर्ग — उपवासके समयका भाषण । श्री बानूजिन्द्र-प्रसादजीका हिन्दुनेताओं, मुस्लिमनेताओंके साथ सभामें आगमन । परस्पर न लड़नेके प्रतिज्ञात्रका वाचन । उपवाससमाप्ति ।

षोडश सर्ग — बन्नेसे आये हुए हिन्दुओंकी दुःखगाथाका श्रवण । हिन्दुओंका क्रोध करना । उत्तर । महात्माजीपर गोली-प्रहार ।

सप्तदश सर्ग — पण्डित जवाहरलालजीका विलाप ।

अष्टादश सर्ग — पुनः पण्डितजीका भाषण ।

एकोनविंश सर्ग — श्री महात्माजीके परधाम प्रयाणकालमें श्रीमान् लार्ड माउन्ट बेटन, श्रीमती माउन्ट बेटन, छठे वाजें, सर्दार बन्धुभभाई, श्रीकिसोरलाल मशस्वाला, श्रीमीरा बहिन, मौलाना श्री-अबुयक़्कम आज़ाद, श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन, श्रीगोविन्द कलम पन्त, श्रीसम्पूर्णानन्द, डाक्टर भगवान्दासजी, आचार्य कृपलानी, आचार्य बरेन्द्रदेव भारत एकार जदिकी शोक-समवेचना और सन्देश ।

विंश सर्ग — परधाममें श्रीमहात्माजीके देहकी उत्तरक्रिया । अन्तर्गत भागमें और अन्य प्रायः सभी देशोंमें विस्तृत ।

## पारिजातसौरभस्य विषयनिदर्शनम्

प्रथमे सर्गे — कारागारमधिवसता महात्मना गार्धिमहोदयानः  
सविधे द्वाचन्वाग्निदधिकानविधे यौशवीयसंपत्तरे जातानामुपद्रवाणा भारते  
महामा राष्ट्रियमहासमा च कारणमित्ति किन्तु तदानीन्तनमानशासनेन  
प्रहितमेकं भाषणम् । तस्योत्तरं च ।

द्वितीयस्मिन्सर्गे — उपर्युक्तद'पारोपणपरिहार ।

तृतीयस्मिन्सर्गे — श्रीमत्या · कस्तूराम्बायाः परधामप्रयाणम् ।

चतुर्थे सर्गे — श्रीमहात्मना कारागारान्मुक्तिः । दिव्या म्स्टेफडे

किष्पेन सहलापः । वक्ष्ये नवरत्नया मुसमानै · वृत्तम्योपद्रवस्य हिन्दुनि-  
पीडनस्य च निवारणाय नरस्वर्गी गन्तु प्रयाणम् । कलिकाताया निम्बः ।

पञ्चमे सर्गे — कलिकातातो रमपुरं तत्र भाषणं च ।

षष्ठे सर्गे — तत्र हिन्दुम्य उपदेशः । मुहम्मदमहोदयस्य

शब्दैर्मुसमानेभ्य उपदेशः । दाऊतापुरे मद्रामभ्यां भूमिसमरणम् ।

सप्तमे सर्गे — कुमायै गार्धिमन्तये गीताप्रवचनम् ।

अष्टमे सर्गे — हिन्दुमुसलमानभ्य · सर्वेभ्य उपदेशः । नवमस्मि-

मन्ता मद्रामना दृश्या हिन्दुदशाया उपवर्णनम् ।

नवमे सर्गे — कुमारी मनुष्याधि पुरस्कृत्य सर्वेभ्य उपदेशः ।

आमदीश्रामे महात्मनो मूर्त्तौ । रामनाम्नहास्यम् । स्वतन्त्रतादिवसोत्सवा-  
दगरे त्रिरहारादूरतासेत्तोलनस्यास्वीकारः ।

दशमे सर्गे — विहारेषु हिन्दूना मुसमानभ्य · कंध ।

दाक्टरमहमूदगैयदस्य पत्रमधिगम्य महामर्ता पाटलिपुत्रगमनम् ।  
पाटलिपुत्र भाषणम् ।

एकादशे सर्गे — पाटलिपुत्रे पुनर्भाषणम् ॥

**द्वादशे सर्गे** — पुनस्तत्रैव भाषणम् ।

**त्रयोदशे सर्गे** — विहारेषु शान्तिं सखाय्य नराश्रयत्राप्रतिनिधे  
( वाइसरायस्य ) निमन्त्रणन दिखीगमनम् । पश्चिमायि रभामन्थ महात्मना  
भाषणम् । ईश्वरनिरूपणम् । भारतीयप्रजाना ग्रामाज्ज्वर भारतस्य  
वास्तविक दर्शन भविष्यमर्हतीति तत्रैव इतिहास । भाषणसमाप्ति ।

**चतुर्दशे सर्गे** — दिव्या मुखमनेषु हिन्दूनामाश्रमणन महात्मना  
खेद । उपवासस्य घापणा । उपवासकारणनिरूपणम् । निश्चलाप-  
वामारम्भश्च ।

**पञ्चदशे सर्गे** — उपवासकालिक भाषणम् । श्रीमान्नायराजन्द्र-  
प्रसादस्य हिन्दूमुसलमानसिखादिनेतृभि सह सभायामागमनम् ।

**षोडशे सर्गे** — वनप्रदशादागताना हिन्दूना दुःखकथाश्रवणम् ।  
हिन्दूना महात्मन्य क्रोध । उत्तरम् । महात्मनेहे गालिकाप्रहार ।

**सप्तदशे सर्गे** — पण्डितजवाहिरलालकृता विलाप

**अष्टादशे सर्गे** — पुनस्तत्रैव भाषणम् ।

**एकोनविंशे सर्गे** — ब्रह्मभाव गतषु महात्मसु, लॉर्ड माउन्ट बेटन,  
श्रीमता लॉर्ड माउन्ट बेटन, पट्ट ज्ञान, सर्दार लालमभाई पटेल, श्रीविशार-  
लाल मशरवाला, श्रीमीरा, मौलाना अजुक्तकाम आजाद, श्रीपुरुषोत्तमदास  
उष्ण, आगायिन्दवलभ पन्, आसम्पूर्णानन्द, डाक्टर अगबान्दास,  
आचार्य ज० वी० कृपलाना, आचार्य नरेन्द्रदेव भागत सर्कार प्रवृत्तीना  
शाफमस्यदना मददाश्च ।

**विंशे सर्गे** — परधामस्थस्य महात्मना देहात्तरक्रिया । भारत  
देशेषु चान्येषु तद्देहभ्रमविसर्जनम् ।

## पारिजातसौरभीयच्छुन्दसां नामानि

सर्गे	श्लोकसंख्या	सर्गे	श्लोकसंख्या
१	वनसन्ततिलका ८२	१०	वसन्ततिलका ४६
	मृगोन्द्रमृगम १		शिखरिणी १
२	वंशस्थविलम १०३	११	इन्द्रवज्रा ६७
	मालिनी १		मन्दाकिनी १
३	अनुष्टुप् ७५	१२	वंशस्थविलम ३०
	शिखरिणी १		मालिनी १
४	वंशस्थविलम ४१	१३	इन्द्रवज्रा ५६
	मन्दाकिनी ३		मालिनी ४
	अनुष्टुप् १३	१४	अनुष्टुप् १९९
	वसन्ततिलका १		रथोदता १
५	द्रुतविलम्बनम ५५		वसन्ततिलका १
	मालिनी ३	१५	सुन्दरी ५५
६	रथोदता ८०		इन्द्रवंशोपेन्द्रवंश-
	वंशप्रविलम १		गोपजान्यादिः १७
	मरुती १		वसन्ततिलका १
७	मालिनी ३८	१६	इन्द्रवंशोपेन्द्र-
	वसन्ततिलका १		वंशगोपजातिः ३७
८	उपजातिः ५२		शिखरिणी २
	मालिनी ३		शार्दूलचिकी-
९	उपजातिः ५४		तिलम १
	वसन्ततिलका १	१७	सुन्दरी ८३
	इन्द्रवज्रा १		प्रवृषिणी १

शार्दूलविक्री-		शालिनी	३
डितम्	१	रसगता	८
१८ अनुष्टुप्	५७	अनुष्टुप्	१
मात्रिनी	१	वसन्ततिलका	४
१९ वशस्थविक्रम्	४	अनुष्टुप्	१
अनुष्टुप्	६	वसन्ततिलका	५
उपजाति	३	मञ्जुभाषिणी	१०
मञ्जुभाषिणी	७	वसन्ततिलका	५
वसन्ततिलका	१४	ग्रहपिणी	४
अनुष्टुप्	१८	२० अनुष्टुप्	१९८
शार्दूलविक्री-		लीलाखेल	१
डितम्	३	अनुष्टुप्	८
उद्गता	४	शार्दूलविक्री-	
शालिनी	१०	डितम्	१
वसन्ततिलका	१		

सकलिता सख्या १५५५



# पारिजातसोरभस्य

## शुद्धाशुद्धपत्रम्

अशुद्ध पाठ	शुद्ध पाठ	पृष्ठ	पङ्क्ति
समन्वित	समन्वित	२	२४
एतु	हेतु	७	४
विधाध्यत	विधाप्यत	१७	१७
महत्तपा	महत्तपा	२२	१०
तथा	तदा	,	२२
द्यपि	यदि	२६	३
नह रहीं	नहीं रह	४	१
लात्त्वमभू	लादभू	,	३
न्तिमफले	न्तिम काल	४	१०
अ तन्त	अन्तन	५०	३
पीतितु	पीति तु	५३	१८
तिथौ स्वसा	तिथावसाँ	५४	२०
चार्ययत्त	चाय यत्त	७०	३
रिलेभ्य	रिलेभ्य	८०	२१
मभित्दु	मभित्दु	८१	१६
वगिन्न मुम्नि	वग्विलमुस्ति	८५	१२
युंधा	युधा	"	१८
रितान	रितान	८६	१०
नावात्मन्या	नावात्मन्या	९३	१
ताव इर्नि	तावद्यत्रपृति	९५	१७
प्राप्त	प्राप्त	९६	१

...सा तान्मन	...स्वातन्त्र्यम नः	२४७	८
श्वस्तुका	त्यस्तु का	२५२	२
युयं	यूय	"	१३
प्रपम्प	प्रयस्थ	२५८	२
श्रुतिंशा...	उभापिशा...	२६४	५
तथे ..	तथे...	"	"
...वचः सुधा	...वच'सुधा	२६७	४
मर्वेअस...	मर्वे हाना...	२७०	६
...द्रष्टुन्	...द्रष्टुन्	२७१	१६
म महा	स हि महा	"	२२
...वचः प्रवा...	...वचप्रयो...	२७९	१
निर्नायनि	निनीयति	"	९
यत्तमांश्व	यत्तमां	२८३	७
गाधिद्वेय...	गाधिः श्रीद्वेय ..	२८६	१०
...म्ने पन्व...	...म्ने स पन्व...	२८९	४
तत्पथा नक्ष	तन्व यानस्थ	२९२	८
दूर दूर...	दूरदूर...	२९३	१५
...तरामन...	...तरामन...	२९९	१६
वन्गर्तं तपान्नन...	'वादायो च तदुन्मत्त...	३०१	११

शुद्धिप्रःतुतारेण पूर्ण भेकाः सौधनीयाः  
पश्चाद्वाचनीया इति विद्वद्भ्यसेना ।

पृ० २२७ पङ्क्ति २० का इस प्रकार सुधारिये-

भासेधिज्ञान्युभरि भासमुन्वयो तथा नवे त्रिंशदिने महेद्वरः ॥

पृ० २२७ पङ्क्ति २३ में "ता. २९-१-१९४८ ई०" के बदले  
"ता ३०-१-१९४८ ई० सुधारिये।

## पारिजातसौरभमें अन्य लोगोंके आये हुए नाम

	सर्ग	श्लोक		सर्ग	श्लोक
अ			रानजी (भाई)	२०	१७३
अकर हेदरी	२०	९२	किशोरलाल (मगम्बाला)	२	७२
अबुलकलम आजाद	१५	५८	"	"	७३
	१९	५५	"	"	७४
अमनुमलाम	६	४६		१९	३४
अमृतकोर राचकुमारी	२०	१२	कुमाराप्पा	२	९९
अम्बालाठ (साराभाई)	१४	११०	कुपलानी (जे० वी०)	१९	१०५
				२०	२१
आ			कृष्ण	१९	२९
आभा गाधी	१६	३५	केटली	३	६०
ऐ				"	६४
एन्ड्रू	१	२५	क्रिस	४	४८
इ			ग		
इन्दु गाधी	३	६८	गिडर (डाक्टर)	३	७
	१६	३५	गाम्बिन्दरल्लभ पन्त	१९	७०
इमडनयन	३	६८		२०	१२
इन्दुवा	३	१		"	२१
	"	२९			
	"	४०			
	"	४३	चित्तरजनदाम	६	७६
	"	७६			
	४	२५			
	"	२७	ज		
	"	३४	जनक	१२	६

प्रभावनी	३	६	यनु मगव्याग	३	४८
	३	३३		३	४९
	३	३४	महमूद सैयद (डाक्टर)	१०	१
	३	४०		१०	७
	३	४६	महादेवभाई दसाइ	३	४५
	३	७५		२	७६
	४	१	गाउन्ट बेटन	१३	१२
	४	१०		१३	१८
प्रेमशीला	३	६०		१३	१५
				१९	४
वद्विमयन्द्र	५	१९		२०	१४
वलदेवसिंह	२०	२०	,, , श्री धमपानी	१९	१०
बुद्ध	१३	५१	मीरा	२	२०
				३	७
				३	८०
भगवानूदाम (डाक्टर)	१९	८७		१९	५२
भण्डारी	४	२३		२०	८८
भागत मर्जर	१९	१११	मुहम्मद साहब	६	४५
				१३	५०
				१३	५२
मनुगाधी	३	६	मृसा	१३	५२
	४	१०	मृदुला	१४	११२
	४	२०		१४	११३
	४	३४		१४	११४
	४	३९		१४	११५
	७	१	मकगनन्ट	१४	१६७
	९	१	मेघत्री	२०	१७३
	९	१८			
	९	२४			
	९	-९			
	१६	३५	या	२	४

मुशीला ( डाक्टर )

३	६,		३	४६
३	१५		४	१८
३	२७		९	३०
३	२८	मुहरावदों ( शहीद )	१५	९
३	२९	सोकटीस ( मुक्रात )	१९	२९
३	३३	स्टेफर्ड विध्य	४	४८
३	३४	ह		
३	४५	होरेम् एल्ग्रेण्डर	९	१३
३	४६			



गणतन्त्र  
संस्थापक  
१० ११ १२

पतित-पावन

नमो नमो भारतमूजनम्

सर्वतप्रसूतप्र-परमहंसपरिवाजरु-स्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराज-  
प्रणीतं स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहितं

# पारिजातसौरभम्

( श्रीमहात्मगांधिचरितम् )

## प्रथमः सर्गः

अयं प्रतान्तेपि यतिक्षितीश्वरोभ्युयास कारां सह्यायिभिः सह ।  
स्वदेशदास्वापनयाय चिन्तितस्तपस्तपन्धोरतरं गलद्वयाः ॥ १ ॥

उपवासके पश्चात् भी श्रीमहात्माजी अपने साथियोंके साथ जेलमें ही निवास करते थे । भारतकी वास्तविकी दूर करनेके लिये चिन्तापरायण वह बुदानस्वामें भी घोर तप कर रहे थे ॥ १ ॥

तदा समीपे यमिनः समागतं विरोधिभाषाप्रतिभाभिभाषितम् ।  
प्रकाशितं हिन्दुमहीमहीभुजा स वाचयामास सुधीरमानसः ॥ २ ॥

उसी समय उनके पास एक भाषण आया जिसे विरोधियोंने किया था और भारत सरकारने प्रकाशित किया था । धैर्यपूर्ण मनसे वह उसे पढ़ गये ॥ २ ॥

अगस्तमासेधिवसत्युत्क्रमे निग्रन्धशालां सकलप्रजाप्रिये ।  
महीपवृत्त्या क्षुभिताः समाः प्रजाः प्रकाशयामासुरनुद्धरां रूपम् ॥ ३ ॥

समस्त प्रजाके प्रिय प्रतापशाली श्रीमहात्माजी जब जेलमें भगवत् महीनेमें निवास करते थे तब अंग्रेज राजाके व्यवहारसे क्षुब्ध बनी हुई प्रजाने बहुत बड़ा रोष प्रकट किया ॥ ३ ॥

तवीय आसीत्सकलो भरो यतौ सिताङ्गराजेन समर्पितो बलत् ।

तदुत्तर दातुमना मनस्विना धुरन्धरो वाचमुवाच सद्ब्रुवा ॥ ४ ॥

अंग्रेजी राज्यने उस सभी अशान्तिना भार दटात् महात्माजीके ऊपर आरोपित किया था । उसका उत्तर देनेकी इच्छासे परम उदात्त मनवाले सत्यवादी महा माजी बोले ॥ ४ ॥

उपोषणे फेब्रुवरीत्रयोदशीतिथौ यदास नितरां क्षयद्वल ।

तदैतदाभाषणमाशु मुद्रित कथ न जाने तव हेतुरस्ति क ॥ ५ ॥

यहाँसे अब लडन सभामें रिचर्ड टाटन्ने जो विरुद्ध भाषण किया था उसका उत्तर प्रारम्भ होता है ।

१३ फरवरीके उपवास में जब मैं अत्यन्त निरबल था उसी समय इस भाषणको धापने शीघ्र क्यों छपवा दिया ? इसमें आपका क्या हेतु था, इसे कौन जाने ? ॥ ५ ॥

यथा तथा वेस्तु मनीषित पर वित्तध्यवाचा निचय प्रदृश्यते ।

तवात्र तस्यैव रहस्यदारणे मम प्रयत्नोयमिति प्रतीयताम् ॥ ६ ॥

अच्छा, आपकी चाहे जो इच्छा रही हो, परन्तु उसमें जो असत्य का भण्डार भरा हुआ है उसीका रहस्योद्घाटन करनेकेलिए मेरा यह प्रयत्न समझें ॥ ६ ॥

महासभाया समितिर्यदान्वशात्प्रजा विधातु बत सामुदायिकम् ।

विरोधमेतत्क्षितिपालशासने तदैव जातोत्र महानुपद्रव ॥ ७ ॥

कांग्रेसकी महासमितिके जब समस्त प्रजाको इस राज्यशासनके प्रति सामुदायिक विरोध करनेकी आज्ञा दी तभी यह महान् उपद्रव हुआ ॥ ७ ॥

ततोत्र गांधी च महासभाजना दधत्यवधोत्तरदायितां पराम् ।

तदय विस्पष्टयितु समर्जित प्रमाणराशि सततप्रयत्नजः ॥ ८ ॥

अत इस विषय में गांधी और महासभाके लोग निरालोचन उत्तरदाता



हैं। इसी बलुको अत्यन्त स्पष्ट करनेके लिये बड़े प्रयत्नोंसे प्रमाण इकट्ठे किये गये हैं ॥ ८ ॥

इदं वचस्ते नितरा निगूहते यदस्ति सत्यं तदतीव यन्नतः ।  
तथात्वमास्ते न कथंचन त्वया यथोक्तमस्माद्विपरीतमेव तन् ॥ ९ ॥

७, ८ श्लोकोंमें किये गये आक्षेपका उत्तर। जो उच्ची बात है उसे बहुत यत्नके साथ आपका यह कथन ठिपा रहा है। जैसा आपने कहा है वैसा तो कुछ भी नहीं। सब बात उसके विपरीत ही है ॥९॥

यदा गृहीत्वा सकलान्महाजनान्यवेशयच्छासनमुद्रतासु तान् ।  
विचारमुत्सार्य निगन्धनालये तदा प्रजा कोपसमाकुलाभयत् ॥१०॥

जब बिना विचारके ही इस निष्पाग राज्यने सभी महापुरुषोंका जेठमें मर दिया तब प्रजा क्रोधसे व्याकुल हो गयी ॥ १० ॥

विलिख्य पद्मं प्रतिहस्तके तव प्रमाणमायाचिपमात्मसंस्थले ।  
परं ततो नोत्तरमागतं तदा महाप्रमादाद्ब्रथवा मदादपि ॥११॥

तब मैंने आपके प्रतिनिधि ( गवर्नर जनगल ) के पास पत्र लिखकर याचना की कि मेरा अपराध बताया जाय। परन्तु उस समय बहसि प्रमादके कारण अथवा घमण्डके कारण मुझे कोई उत्तर नहीं मिला ॥११॥

प्रमाणजातं निस्त्रिलं पुरस्कृतं भवेद्दिद वत्समये मया कृतम् ।  
सदुत्तर स्याच्छ्रुतमेव तावकैस्त्वयापि लोकैरपि वा क्रमात्तनु ॥१२॥

यदि उस समय यह सब प्रमाण उपस्थित किये गये होते तो आप, आपके अनुयायी और समस्त सभार मेरे सत्य उत्तरको भी क्रमसे अवश्य ही बुने होते ॥ १२ ॥

तदा भवेदेव विलम्ब ऊहिते मया व्रते वा यदि शासनेन तत् ।  
श्रुत भवेद्वीरतया विचारतस्ततो भवेन्नावसरो व्रतस्य स ॥१३॥

जिस व्रतका मैंने संकल्प किया था उस व्रतमें भी मैं अवश्य ही

विलम्ब कर देता यदि सर्कार धैर्य और विचारसे मेरी बात सुनती ।  
और तब तो उपवासके लिये कोई कारण भी न होता ॥ १३ ॥

उपोषणैरेभिरयं गतासुतामघदयमाश्लेक्ष्यति चिन्त्यजीवनः ।  
इति प्रसिद्धैर्भिषजां गणैः सदा निशाम्य कालोयमलङ्कृतस्त्वया ॥१४॥

आपने बड़े बड़े वैद्योंसे यह सुन लिया था कि इन उपवासोंसे गार्धी  
अवश्य ही मृत्यु पावेगा । इसीलिये आपने यह सब प्रकाशित करनेका  
इसे ही उत्तम समय समझा होगा ॥ १४ ॥

उपस्थितो नास्त्यभियोज्यमानवः कृतोतिदूरे पिहिताननोपि यः ।  
स पापभागित्यनुघोषणं तव त्रपाभरायैव विद्वां मते मतम् ॥१५॥

जिसके ऊपर अपराध लगाया जा रहा है वह उपस्थित नहीं है,  
उसे बहुत दूर रख दिया गया है, उसका मुँह भी बन्द कर दिया गया है  
और तब यह घोषणा करना कि “वह अपराधी है” विद्वानोंके मतसे  
यह आपके लिये शर्मकी बात है ॥ १५ ॥

पुनः पुनर्वाचितमेव ते वचस्तथा च लेखा निखिला ममात्यमी ।  
निभालिताः सूक्ष्मदृशा मयाद्य ये त्यया गृहीताः स्ववचःप्रवृत्तये ॥१६॥

मैंने आपके वचनको—कथनको फिर-फिरसे पढ़ा है, तथा मेरे जिन  
लेखोंको लेकर आपने यह भाषण छपाया है उन्हें भी सूक्ष्मदृष्टिसे  
मैंने पढ़ा है ॥ १६ ॥

न विद्यते तत्र स शब्दसंप्रहो यमाश्रयंस्त्वं तव चाग्विडम्बनम् ।  
मुधारचप्यात्र विडम्बयन्द्वा मा स्वयं भवस्येद्य विडम्बितो बुधैः ॥१७॥

मेरे इन लेखोंमें वह शब्द ही नहीं है जिनका आश्रय लेकर  
आपने यह व्यर्थ भाषण करके मुझे अप्रतिष्ठित करते हुए विद्वानों की  
दृष्टिमें आप स्वयं अप्रतिष्ठित बन गये ॥ १७ ॥

निरीक्ष्य देशे परदेशिसैनिकानतिघतात्मा मम चेति ते वचः ।  
असत्यभूमिं स्पृशति व्यथाकरं यदस्ति सत्यं शृणु तद्वचो मम ॥१८॥

देशमें—भारतमें परदेशी लडकरको देखकर मेरा मन दुःखी बन गया, यह जो आपका कथन है वह सर्वथा असत्य अत एव दुःखकर है । जो कुछ मेरा सत्य बचन है, उसे आप मुनें ॥ १८ ॥

यदीहते श्रेतमचो विरक्षितुं भुयं ममेमां द्ययाद्य भारतम् ।  
कथं वहिः प्रेषयितुं समीहते सुशिक्षितान्भारतसैनिकान्तिवः ॥१९॥

यदि अंग्रेजी राज्यको आज दया उत्पन्न हुई है और वह इस भारत-भूमिकी रक्षा करना चाहता है तो क्या कारण है कि जो शिक्षित ( ट्रेन्ड ) भारतीय सैनिक हैं, उन्हें भारतसे बाहर भेजनेकी सकार इच्छा कर रही है ? ॥ १९ ॥

कुतश्च तेषां परदेशदेशना कुतो विदेशालुतनासमागमः ।  
कुतो विघाताय सदा समुद्यमो महासभाया इति मे वचोरसः ॥२०॥

भारतीय सैनिकोंको परदेशमें क्यों भेजा जा रहा है ? और परदेशसे सेना यहाँ क्यों आ रही है ? तथा कांग्रेसका नाश करनेकेलिये क्यों उद्यम सदा होता रहता है ? यही मेरे लेखका सार है ॥ २० ॥

ततोधिकं वक्तुमिदं मनोद्य मे प्रकाममाकाङ्क्षति यत्र रक्ष्यते ।  
अयं मुदेशः परिपीड्यते परं स्वराज्यनिष्ठापगता भवेत्ततः ॥२१॥

इससे मी अधिक आज यह कहनेकी मन चाहता है कि यह सुन्दर देश बचाया नहीं जा रहा है बरिक्त अधिक पीडित किया जा रहा है । जिससे कि यहाँसे स्वराज्यकी भावना ही चली जाय ॥ २१ ॥

सिताङ्गजा भारतवर्षतो वहिः प्रयान्तु माङ्गल्यभृतः अणादिति ।  
यतः प्रभृत्येतदपीपद्वत्ययं प्रजासु गांधिर्भगवांस्ततः परम् ॥२२॥  
अगस्तमासस्य तिथौ च सप्तमे महासभाया अधिवेशनावधि ।  
महासभायाः सकला महाजनाः सिताङ्गनिष्काशनकार्यतत्परा ॥२३॥

गांधीजी जबसे यह कहने लगे कि अंग्रेज भारतवर्षसे क्षगभरमें बाहर निकल जायें तबसे ही महासभाके ७ अगस्तको होनेवाले अधिवेशन तक

काग्रेसके समी बड़े-बड़े लोग अंग्रेजोंको निकालनेके काममें लगे गये थे ॥ २२-२३ ॥

इति त्वदीयं वचनं निरर्थकं स्वतन्त्रतायाः प्रतिपादनं दृढम् ।  
नवीनकार्यं न मया प्रवर्तितं प्रवर्तते विंशतिवर्षतोधिकान् ॥२४॥

आपका यह कथन भी व्यर्थ है । स्वतन्त्रताका प्रतिपादन कोई नया कार्य नहीं है । बीस वर्षोंसे भी अधिक हो गये, मैं इस कार्यका प्रतिपादन करता आ रहा हूँ ॥ २४ ॥

स्वचक्षुरङ्केशमिताद्धि वत्सरात्प्रवर्तते साङ्घिकयत्न आदरात् ।  
इमं स्वदेशं सितहस्ततः क्षणाद्विमोच्य कल्याणपथेस्य चालने ॥२५॥

निश्चय ही १९२० ई० से ही अंग्रेजोंके हाथसे इस स्वदेशको शीघ्र छुड़ाकर इसे कल्याणमार्गमें चलानेका सामूहिक प्रयत्न आदरपूर्वक चल रहा है ॥ २५ ॥

महासभातन्त्रगता महानरा इतोपि पूर्वं समुदायसत्कृतम् ।  
प्रणेतुमेतत्प्रधानं ममाप्रतः पुनः पुनः प्रार्थित्यपन्महाप्रहात् ॥२६॥

महासभाके बड़े बड़े नेता इससे भी पहलेसे सामुदायिक युद्ध चलानेकेलिये मेरे समक्ष बड़े आग्रहसे प्रार्थना कर रहे थे ॥ २६ ॥

परं मयैषां हृदये ज्वलन्महानलोपि यूनां सततं विचारतः ।  
कथंचिद्ब्राह्मणशितः स्वतन्त्रताप्रहोत्सुकानामिति वस्तुसत्कथा ॥२७॥

परन्तु स्वतन्त्रताप्राप्त करनेकेलिये उत्सुक इन जवानोंके हृदयमें ओ भाग सुलझ रही है उसे विचारपूर्वक मैंने अङ्गुशमें रखा था । यह है इस सम्बन्धमें सच्ची बात ॥ २७ ॥

नयो न यन्नोयमितीद् साधितं प्रयत्नकालः समकोचि यत्नया ।  
न सत्समीचीनमकारि सर्वथा महासभाकीर्तिकलाविरोधिना ॥२८॥

मैंने यह सिद्ध किया है कि स्वराजप्राप्तिका यह कोई नया यत्न नहीं है । तो भी आपने इस लम्बे कालको छोटा बना दिया, यह किसी प्रकार

भी अच्छा नहीं किया गया। आपको तो महासभाकी कीर्तिका विरोध करना है, अतः चाहे जो कह सकते हैं ॥ २८ ॥

प्रवर्तते यः समरोधुना महान्प्रवर्तितो राष्ट्रियसंसदा स कम् ।  
समैत्य एतुं गतिमानिति स्फुटं भवेदवश्यं ज्ञपनीय आशयः ॥२९॥

महासभा द्वारा चलाया हुआ यह महायुद्ध किस हेतुको लेकर चलाया गया है, इस आशयको स्पष्टरूपमें प्रकट करना चाहिये ॥ २९ ॥

इयं तवोक्तिर्भजतेर्यशून्यतां समस्तकार्य्यावलिरस्ति पुस्तके ।  
समङ्किता हेतुगवेषणाकृते न विद्यते हेतुरतो न कोपि ते ॥३०॥

यह आपका कथन भी व्यर्थ ही है। क्योंकि यह युद्ध क्यों शुरू किया गया, यह सब महासभाके रजिष्टरमें लिखा हुआ है। अतः इसके कारणका शोध करनेकेलिये आपके पास कोई कारण नहीं है ॥३०॥

न संकुचत्येव कदापि मे मनः प्रवक्तुमेतद्यदनावृत्ताः समे ।  
भवन्ति मे हेतव एतदर्थकं किमर्थमास्ते लुलितं मनस्तव ॥३१॥

यह पूछनेमें मेरा मन जरा भी संकुचित नहीं हो रहा है कि जब मेरे सभी कारण स्पष्ट हैं—लिपाये गये नहीं हैं, तो आपका मन इसकेलिये, इसकी शोधकेलिये चंचल क्यों है ? ॥ ३१ ॥

अतः सितास्ते जिहतां स्वतन्त्रतासुखं समाश्लिष्यतु भारतं पुनः ।  
अखण्डशक्तिः परमस्य सिद्धये ममास्तु कायस्य तद्स्य संख्ययेत् ॥३२॥

अतः अंग्रेज यहाँसे चले जायें। भारत पुनः स्वतन्त्रताके सुखका आस्वाट ले। इस महान् कार्यकी सिद्धिकेलिये मेरी अखण्ड शक्तिका व्यय हो ॥ ३२ ॥

ब्रजन्तु देशादत पेद्गलैण्डिकाः ससाधना वा सबलाः समे च वा ।  
न विद्यते मे वचनं तथाविधो ममाशयो नास्ति तथाविधोपि वा ॥३३॥

इस देशसे अंग्रेज अपनी सेना और अन्य साधनोंके साथ चले

जायँ। आपने जैसा कहा है वैसा न तो मेरा वचन है और न आशय है ॥ ३३ ॥

यहूनि मित्राणि सिताङ्गजा मम प्रियाणि सन्त्येव न तत्र चोदना ।  
समे ब्रजेयुर्भरतक्षितेर्वाहिः कदापि नेत्थं मनसाप्यचीकमे ॥३४॥

इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि बहुतसे अंग्रेज मेरे प्रिय मित्र हैं। अतः सब अंग्रेज भारतभूमिसे बाहर चले जायँ, ऐसा तो मैंने कभी भी विचार नहीं किया है ॥ ३४ ॥

यथैकचन्द्रो गगने स्थितो नृणां मनासि चक्षुषि हरत्यनारतम् ।  
तथेदमैण्डूजसखित्वमेव मे सितैः सखित्वाय मनोहरं परम् ॥३५॥

जिस प्रकारसे आकाशमें रहनेवाला एक ही चन्द्र मनुष्योंके मन और नेत्रका हरण सदा करता है वैसे ही श्री० ऐन्दूजकी मित्रता ही अन्य अंग्रेजोंके साथ मित्रता करनेकेलिये मेरे मनको खींचती है ॥३५॥

प्रयान्तु सेना अपि यातु शासनं सिताङ्गजानामिति कामितं मम ।  
तदस्य वाक्यस्य दुर्यथा भवच्छिवं कदाचिन्न समर्धयेत्कचित् ॥३६॥

मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि अंग्रेजी सेना भी जाय और राज्य भी जाय। अतः मेरे इस वाक्यका दुष्ट अर्थ करनेसे कभी और कहीं आपकी भलाई न होगी ॥ ३६ ॥

गते सिते शासन आत्मना चमूरदृश्यता यास्यति सेति कल्पना ।  
परं सितानामनुगामि शासनं रिरक्षिपेत्तां न हि तत्र मे क्षतिः ॥३७॥

अंग्रेजी शासनके चले जानेपर सेना तो अपने आप ही चली जायगी, यह मेरी कल्पना है। परन्तु अंग्रेजी राज्यके बाद जो अनुगामी राज्य आयेगा, वह उस सेनाको रखनेकी इच्छा करे तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है ॥ ३७ ॥

लुई पिदार् सघ्नन आगतो ममाश्रमे कदाचिच्च दिनानि सप्त सः ।  
मया सहारथाय दिनेदिने प्रमात्किमप्यपृच्छत्तदिदं निशम्यताम् ॥३८॥

श्रृं लईं फिश्चर नामक एक सज्जन एक समय मेरे आश्रममें आये थे और सात दिन तक मेरे साथ रहे थे । प्रतिदिन वह कुछ न कुछ मुझे पूछते थे, उसे सुनिये ॥ ३८ ॥

स्वदाह्वया चेतिसतदेहजा इतो ब्रजेयुरायाद्यदि हिन्दशासनम् ।  
तदा दलानां कियतां भवेत्सुरादुपार्जिता तेन सहायता शिवा ॥३९॥

यदि आपकी आज्ञाके अनुसार अंग्रेज यहाँसे चले जायँ और हिन्द शासन आये तो उसे किनकिन पक्षोंकी—दलोंकी सहायता मिलेगी ? ॥३९॥

ममेतदासीत्सरलं तदुत्तरं प्रयातु देशात्सत्तशासनं तदा ।  
चपद्रुतः स्याद्यदि देश एपको न चिन्तनीयं किमपीह तैः सितैः ॥४०॥

उनके इस प्रश्नका मेरा सीधा उत्तर यह था कि अंग्रेजी राज्य तो यहाँसे चला जाय । उसके पश्चात् यदि देशमें उपद्रव हो जाय तो अंग्रेजोंको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ४० ॥

भवेद्व्यवस्थाविपरीततेह चेरक्षणेन शान्तिः समुपागमिष्यति ।  
अनेक पक्षैर्मिलितैः परस्परं व्यवस्थया देश ऋधक् समर्घ्यते ॥४१॥

यदि उस समय यहाँ कुछ अव्यवस्था भी हो जायगी तो थोड़े समयमें ही शान्ति हो जायगी । अनेक पक्ष परस्पर मिलकर व्यवस्थासे देशको मले प्रकार समृद्ध करेंगे ॥ ४१ ॥

इह स्वराज्याश्रितशासनेन तद्विरोधिरोधाय बहूथिनीक्रमः ।  
भवेदनुज्ञात एतापमानितोन्वययुद्धं मामेषमक्षौ महामना ॥४२॥

फिर उन्होंने पूछा कि जब यहाँ स्वराजशासन आवेगा तब अंग्रेजोंके विरोधियोंको रोक्नेकेलिये सेनाका यहाँ आना स्वराज्यसर्कार स्वीकृत करेगी या नहीं ? ॥ ४२ ॥

यथा भया कल्पितमेव तादृशं प्रवर्तितं स्याद्यदि राष्ट्रशासनम् ।  
विरोधपक्षानपनेतुमागतैः स्वरक्षणार्थं समयः कृतो भवेत् ॥४३॥

यदि मेरी कल्पनाके अनुसार ही राष्ट्रिय सर्कारकी स्थापना होगी

तो विरोधी पक्षको दूर करनेकेलिये आये हुए अंग्रेजोंके साथ अपनी रक्षाकेलिये सन्धि करनी ही पड़ेगी ॥ ४३ ॥

सहायता का च कृता भवेत्तदा विरोधिपक्षैः सह युद्धकर्मणि ।  
सितप्रजानामिति सोन्वयुङ्क्त मां पुनस्तदा प्रत्यवदं सदिच्छया ॥४४॥

उन्होंने पुनः पूछा कि यदि अंग्रेजोंको शत्रुओंके साथ युद्ध करना पड़े तो हिन्दुसर्कार अंग्रेजोंको युद्धमें क्या सहायता देगी ? इसके उत्तर में मैंने कहा— ॥ ४४ ॥

प्रतिष्ठितं राष्ट्रियशासनं यदि स्वरूपतोस्त्येव मयानुमोदितम् ।  
तदा तदेषां सितभूसुजां परं सहेत भूमाविह केवलास्तिताम् ॥४५॥

जैसाकि मैं चाहता हूँ वैसा ही राष्ट्रशासन यदि यहाँ स्थापित हुआ तब तो इन अंग्रेज लोगोंको या मित्रराज्योंको केवल इस भूमिमें रहने देनेकी अनुमतिके सिवा अन्य कोई सहायता नहीं मिल सकती ॥ ४५ ॥

निसर्गतः स्यात्पृतनाविसर्जनं गते सिते किन्तु यदि स्वकामतः ।  
धनेन देहेन सहायतां ददन्न कोपि वार्यो भविता कुतोपि वा ॥४६॥

अंग्रेजोंके जानेपर स्वाभाविक ही सेनाका विसर्जन हो जायगा । उस समय यदि कोई धन और शरीरसे उसे सहायता देगा तो कभी कोई मना न करेगा ॥ ४६ ॥

परं स्वराज्यागमनात्परं न मां कुतोपि हेतोर्गणयेदियं प्रजा ।  
इदं भवेच्चेदिदमव्ययो भवेद्रणैपिणः स्युर्भूतक्षितेर्जनाः ॥४७॥

परन्तु यह हो सकता है कि स्वराज्य मिलनेके पश्चात् मुझे कोई कुल गिने ही नहीं । परन्तु यदि ऐसा हुआ तब ही भारतवासी युद्धप्रेमी भी माने जायेंगे ॥ ४७ ॥

परं शिष्यं चेद्भिलष्यते सितैर्जयश्च निश्चप्रचमेव काङ्क्ष्यते ।  
तदस्य देशस्य समस्तयन्धनं विभेदनीयं न थिलम्यकारणम् ॥४८॥

परन्तु यदि अंग्रेज भला चाहते हैं और अपना विजय निश्चय ही



चाहते हैं तो इस देशको सर्वथा स्वतन्त्र कर देना चाहिये । विलम्बका कोई कारण नहीं है ॥ ४८ ॥

न मित्रराज्येषु न फ्रांसिवादिषु मयान्तरं किञ्चिद्वेक्ष्यतेघुना ।

निजार्थसिद्धौ कुशलाःकुलीनता न दृश्यते क्वपि निभालिते स्थिरम् ॥४९॥

आज मित्रराज्यों और फ्रांसीसीवादियोंमें मैं कोई अन्तर नहीं देखता हूँ । सभी अपने स्वार्थकी सिद्धिमें कुशल हैं । अच्छी तरहसे ढूँढनेपर भी कहीं कुलीनता नहीं दोख पड रही है ॥ ४९ ॥

अमेरिका वा ब्रिटनोपि यद्यपि महत्तमं राज्यमिति प्रकथ्यते ।

न वैशिया नापि तदफ्रिकाऽवचा निरीक्षते तत्र महत्त्वमण्वपि ॥५०॥

यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन यह दोनों सबसे बड़े राज्य कहे जाते हैं तथापि एशिया और मूक अफ्रिका इन दोनों राज्योंमें तनिक भी महत्त्व नहीं देखते हैं ॥ ५० ॥

न यावदेते स्वकरे समाश्रितं मलं विमृष्टां परितापपूर्वकम् ।

अधिक्रियेते वदितुं न तावता मनुष्यजातेर्निजतन्त्रतां प्रति ॥५१॥

जबतक यह दोनों बड़े राज्य अपने हाथमें लगे हुए मलकी पश्चात्तापके साथ घी नहीं डालते हैं अर्थात् जबतक एशिया और अफ्रिकाको स्वतन्त्र नहीं बना देते तबतक मनुष्य जातिकी स्वतन्त्रताके प्रति उनका कोई अपिकार नहीं ॥ ५१ ॥

धनेन मार्गेण विजेय ईश्वरो महारिपुश्चापि परन्तपोपि च ।

मुखानिदृष्टानि हि कोटयःशुभाशिपःप्रदास्यन्ति ततो जयो ध्रुवः ॥५२॥

इस मार्गसे ईश्वर भी बीता जा सकेगा और शत्रुओंको तपानेवाला महान् शत्रु भी । करोड़ों मुख प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देंगे तब चय निश्चित है ॥ ५२ ॥

अमेरिकन् प्रोवर एकदाश्रमे समागतः प्रश्नचयं विकीर्णवान् ।

तवावसोधाय क्रमादिहाय स प्रसादतोद्योत्र मया विलिख्यते ॥५३॥

एक समय मेरे आश्रममें अमेरिकावासी प्रोवर आये थे और उन्होंने अनेक प्रश्न किये थे। आपको उन प्रश्नोंका ज्ञान हो, इसलिये उन्हें यहाँ नीचे प्रसन्नतासे मैं लिखता हूँ ॥ ५३ ॥

किमप्यकस्माद्दृष्टये विधित्सितं नवं तवाद्येति जना विवृण्वते ।  
निधाय कर्णे वचनं च तस्य तत्तदोत्तरायाव्रचमीदृशं वचः ॥५४॥

उन्होंने कहा कि, लोग कहते हैं कि आपके हृदयमें अकस्मात् कोई नया कार्य करनेकी इच्छा हुई है। उनके इस वचनको सुनकर उत्तर देनेके लिये मैंने यों कहा—॥ ५४ ॥

कथं मनोभाव उत प्रतिध्वनि' सिताङ्गजानामुत देशवासिनाम् ।  
तथा परेपामिति वेदनात्परं प्रकाशयिष्ये निजयोजनाकृतिम् ॥५५॥

अग्रेजोंकी, भारतीयोंकी तथा अन्योकी मनोदशा और प्रतिध्वनिको जानकर ही मैं अन्तमें अपनी योजनाका स्वरूप प्रकट करूँगा ॥ ५५ ॥

न योजना सा परिपेवते मनाद् निगूढतां स्पष्टतरैव सा भम ।  
सिताः परित्यज्य निजाधिकारितां प्रयान्त्वितः शीघ्रमितिप्रबोधिनी ५६॥

वह मेरी योजना किसीसे भी छिपी नहीं है। वह तो इतनी ही है कि अग्रेजी राज्य यहाँसे अपना अधिकार छोड़कर शीघ्र चला जाय ॥५६॥

स्वतन्त्रता पूर्णतयैव भारते प्रसादिता स्याद्यदि तर्हि भारते ।  
स्थितैर्वैर्मिन्नमहीभृता युधः प्रवृत्तये शङ्कर शक्यते न वा ॥५७॥

यदि भारतमें पूर्णस्वतन्त्रता दे दी जाय तो हे कल्याणकारिन्, भारतमें मित्रराज्योंकी सेना युद्धकी प्रवृत्ति कर सकती है या नहीं? ॥ ५७ ॥

उवाच वाचं मृदुलां यतीश्वरस्त्यदुत्तरे शक्यमितिब्रुवे यलात् ।  
स्वतन्त्रताप्राप्तिमुदा प्रमोदितं सहायता दास्यति भारतं ननु ॥५८॥

श्री महात्माजी बोले कि मैं जोर देकर कहता हूँ कि मित्र सेना यहाँ युद्धप्रवृत्ति कर सकती है। स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके आनन्दसे आनन्दित भारत अवश्य ( इतनी ) सहायता देगा ॥ ५८ ॥

जयाय जापानमुद्यः स्वतन्त्रताविहीनदेशीयमुपानयत्यलम् ।  
किमप्यपूर्वं प्रतिघातमुद्भ्रलं जगाद् देवो जगदंजनन्दनः ॥५९॥

यह परतन्त्र देश जापानको जीतनेके लिये अपूर्व और बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसा महाभारतने कहा ॥ ५९ ॥

मुद्गन्तृपाणां पृथक्ताविवासनं भवेदवार्यं न कदापि भारतान् ।  
स्वतन्त्रताप्राप्तिरपेक्षिता परं भवेत्समेपां हृदये शमो महान् ॥६०॥

मित्रराज्योक्ती सेनाका निमर्जन भारतमें कमी भी अनिवार्य नहीं होगी । परन्तु स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । इससे सरके हृदयमें महती शान्ति होगी ॥ ६० ॥

यदीहितं मे न समीहितं भवेत्सितेन राज्ञा विरमं भवेत्तदा ।  
न मानहानेन कदापि भारतं करिष्यते कामपि तत्सहायताम् ॥६१॥

जो मैं चाहता हूँ यदि उसे अप्रेजी राज्य न चाहे तो काम कटिन हो जायगा । स्वमानहानि करके भारत कमी भी उनकी सहायता नहीं करेगा ॥ ६१ ॥

समाकुलं स्वात्सितशासनं यथा तथा न क्षिप्रिन्करणीयमत्र नः ।  
शिवा मुनीतिर्विधृता परं फलं सर्वैष लब्धं विपरीतमीहितान् ॥६२॥

अंग्रेजी सरकार घबड़ा जाय, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे । हमने सदा अच्छी नीति ही रखी है परन्तु उसका फल सदा इच्छाके विरुद्ध मिला है ॥ ६२ ॥

परःसहस्रान्गृहभूमिसायनान्यपास्य गन्तुं मनुजान्समादिशत् ।  
न शासनं संत्रपते मनागपि प्रसुत्वमोहादिति नः शमात्फलम् ॥६३॥

सकारने हजारों आदिमियोंको घर-बार छोड़कर घले जानेकी आशा दे दी है । राज्यके मदसे उसे बरा भी शर्म नहीं लगती है । यह हमारा शान्तिसे पैदा हुआ फल है ॥ ६३ ॥

क गम्यतां तैरधनैरसाधनैः कुटुम्बिभिः स्वीयमपास्य पैतृकम् ।  
स्थलं गृहं चेति विचारयत्ययं सितो नृपो नेति शमस्य न फलम् ॥६४॥

अमेज सकार इसे नहीं विचारती है कि यह बेचारे गरीब और साधनहीन अपनी पैतृक सम्पत्ति—गाँव घर छोड़कर कहाँ जायेंगे । यह हमारी शान्तिका फल है । ॥ ६४ ॥

यदीत्थमद्यापि सितानुशासनं प्रवत्स्यति श्रेय उदस्य तरपुन ।  
कदापि नास्माभिरनर्गलेहरी सहिष्यते वृत्तिरमुष्य भूपतेः ॥६५॥

यदि अभी भी इसी प्रकार कल्याणको छोड़कर अमेज सकार चलेगी तो हम उसके इस अनर्गल व्यवहारको कभी भी सहन नहीं करेंगे ॥६५॥  
पुन स पप्रच्छ यतीश्वरं यदि स्वहस्तमाराच्छ्लथयेदुराग्रहे ।  
तदा न विघ्नो भवतोपपादितश्चमूप्रवृत्ताविति सत्यमस्ति किम् ॥६६॥

श्री प्रोवरने पुन पूछा कि यदि (राज्य) दुराग्रह करनेमें अपना हाथ टीलाकर दे तो आप सैनिक-प्रवृत्तिमें विघ्न नहीं करेंगे, क्या यह सत्य है ? ॥ ६६ ॥

चमूप्रवृत्तिर्यदि भारतं दृढ सितैर्वशीकर्तुमिहोहिता भवेत् ।  
अवश्यमस्या अपि मे विरोधन भवेत्परो धर्म इवेति मे मतम् ॥६७॥

यदि सैनिक-प्रवृत्ति भारतको अधिक दृढताके साथ पराधीन बनानेके लिये होगी तो अवश्य ही उसका भी विरोध करना मेरा धर्म जैसा ही हो जायगा, यह मेरा मत है ॥ ६७ ॥

शया न फतुं श्वसता सहायता क्षमा इति स्यात्कथनाश्रयो भम ।  
अनेकदेशान्परतन्त्रतागुणान्निवध्य कोपीह न नीतिमान्भवेत् ॥६८॥

मेरे कहनेका आशय यह है कि मुझे कभी जीवितोंकी सहायता नहीं कर सकते । जिसने अनेक देशोंको गुलामीकी रस्तीमें बाँध रखा हो वह कभी नीतिमान् नहीं कहा जा सकता ॥ ६८ ॥

कथं न धैर्यं धरणीयमाजयात्सुहृन्नुपाणां भवतेत्यसौ पुनः ।  
यतीश्वरं प्रष्टुमना मुखात्रिजात्रप्रसार्यामास गिरां समुच्चयम् ॥६९॥

श्री प्रोवरने पूछा कि मित्रराज्योको विजय प्राप्त हो तबतक आप क्यों न धीरव रहें ? ॥ ६९ ॥

यतिर्जगादेति न कामितं पुना रँडेट ऐकटं नहि मार्शलस्य लॉ ।  
न जालियाँवाग इतो न चाज्यं प्रतीक्षणीया निजतन्त्रतागतिः ॥७०॥

श्री महामात्रो बोले : मैं इस देशमें क्लिसे न तो रँडेट ऐकट चाहता हूँ, न मार्शल लॉ चाहता हूँ और न जालियाँवाला वागडा अन्वाम चाहता हूँ इसीलिये उनके विजय तक स्वतन्त्रताके आगमनकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती ॥ ७० ॥

अमेरिका तं ब्रिटनेश्वरं सखा प्रबोधयेदेवमुतात्स्यपेक्षितम् ।  
अमेरिकन् प्रोवर उडसंशयः पुनर्मुनीनां समबोचदक्षितम् ॥७१॥

श्री प्रोवरने पुनः श्री महात्माजीको पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि अमेरिका ब्रिटेनको समझावे ? ॥ ७१ ॥

अवश्यमेवेति यतीश्वरोऽप्रीदमेरिका चेन्मनुतेषु भारताः ।  
यदर्थयन्ते नयसंगतं हि तत्करोतु साहाय्यनिहोचितं तदा ॥७२॥

महात्माजीने कहा कि अवश्य ही मैं ऐसा चाहता हूँ । यदि अमेरिकाको ऐसा प्रतीत होता हो कि भारतवासी जो चाहते हैं वह न्यायमग्न ही है तो अवश्य उसे उचित सहायता करना चाहिये ॥ ७२ ॥

ब्रिटन्सदा तिष्ठतु भारतश्रिताममेरिका नीतिनिमां कथंचन ।  
अनुग्रहीतुं विपरां विचिष्टते त्वाम्नि किं ह्यापय तत्र संनतिम् ॥७३॥

ब्रिटेन सदा भारत भूमिमा न्यायी बनकर रहे, इस नीतिको मान लेनेके लिये अमेरिका लाचार है, इस कथनमें आरक्षी क्या संनति है ? प्रोवरने पूछा ॥ ७३ ॥

भवेदिदं नेति पर भवेदिदं सहायतां कर्तुममेरिकामन ।  
सदा समिच्छेत्परमव्यवस्थितै प्रचारकार्यैरिभिः कृतै पतेत् ॥७४॥

महामात्राने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा परन्तु यह हो सकता है कि अमेरिकाकी इच्छा तो सहायता करनेकी हो परन्तु शत्रुओंने बहुत व्यवस्थितरूपसे जो प्रचारकार्य किया है उससे उसकी इच्छा नष्ट हो जाय ॥ ७४ ॥

तथा जड तादृशमस्त्यमेरिकानृपत्वतन्त्र न हि तत्र कस्यचित् ।  
प्रमुत्वमस्तीति ततोपि शक्नुयान् कर्तुमस्मद्वचन महाफलम् ॥७५॥

तथा, अमेरिकाका राज्यतन्त्र इतना जड है कि उसपर किसीकी सत्ता नहीं चलती है। इस कारणसे भी हमारी बातको सफल वह न कर सकता हो ॥ ७५ ॥

स्वतन्त्रता चेज्जपिता भवेत्सितैस्तयास्य देशस्य तदा तु भारतम् ।  
तनिष्यते कामधुना सहायता स्वधर्मभूतेषु च चीनरक्षणे ॥७६॥

मारने पुन पूछा यदि अप्रेज भारतको आज स्वतन्त्रता देनेकी घोषणा कर दें तो भारत चीनकी रक्षा करनेमें जिसे कि यह भी अपना धर्म समझता है—क्या सहायता देगा ? ॥ ७६ ॥

परिष्यते तनिष्यत स्वशक्ति सहायता तस्य महापदस्त्विति ।  
विना प्रयासेन यदेयमद्य नो क्षमे कथंचिद्विपरीतुमत्र तत् ॥७७॥

विषदमस्तु धानकी भारत अवश्य सहायता करेगा, इतना तो मैं विना परिश्रमके ही कह सकता हूँ। परन्तु यह सहायता क्या होगी उसका विवरण आज नहीं कर सकता ॥ ७७ ॥

अनेकपक्षा इह सन्ति भारते ततो न यक्तु कथमेव शक्यते ।  
प्रतिष्ठितं कीदृशमत्र तद्भवेत्स्वतन्त्रतानन्तरतन्त्रयाहनम् ॥७८॥

भारतमें अनेक मत हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ स्वतन्त्रताकी प्राप्ति परस्पात् किस प्रकारका तन्त्र स्थापित होगा ॥ ७८ ॥

शिरा न काप्यत्र परिस्थितिस्ततः सितानुकम्पासकलैः प्रतीक्ष्यते ।  
शयः शयसन्कि च कथं च कीदृशं करिष्यते कार्यमिदं नयेद्व्यहम् ॥७९॥

यहाँ पर कोई स्थिर परिस्थिति नहीं है । अत एव सब लोग अग्नेबीड़ी  
दयाको प्रतीक्षा करते हैं । मुझं मन जो उठेगा तब वह क्या, कैसे थोर  
कैसा कार्य करेगा, यह मैं नहीं जानता हूँ ॥ ७९ ॥

अमेरिका चेद्विवशं कथंचन त्रिदेनराज्यं घुस्तां भवत्कृते ।  
तदा भवेदेव भयजनैर्नवानुमोदितो यत्र इतीह निश्चिनु ॥८०॥

श्रोवरने पुनः क्वाः यदि अमेरिका किसी प्रकारसे आपनेलिये  
त्रिदेनकी लाचार बनावे और इसनेलिये अमेरिका जो यत्न करे उसका  
अनुमोदन मारतीय करेंगे या नहीं, इसका आप निश्चय करें ॥ ८० ॥

यदस्ति शक्यं सकलं भयानिशं विधीयते चापि विधास्यतेपितत् ।  
नृशंसता राजगता न च प्रजां नयेत् जापानविरोधभूमिकाम् ॥८१॥

महात्माजीने क्वाः : हुलसे जो हो सकता है सदा करता रहा हूँ और  
मविष्य में भी करता रहूँगा । परन्तु सर्वांसकी क्रूरता प्रजाको जागानके  
विरोधकी थोर नहीं ले जा सकती ॥ ८१ ॥

अरण्डाभ्याधरहस्यरोधनाद्विनैत्र दोपास्वदतामहं त्यया ।  
अवापितोस्मीति पुनः पुनर्मया विधीयते तत्सकलैर्निशान्यताम् ॥८२॥

महात्माजीने हय अपराध आरोपणका उच्चर इस प्रकार देकर क्वा  
कि मेरे सम्पूर्ण वाक्यका अर्थ समझे बिना ही मुझे अपराधी ठहराया  
गया है, यह मैं पुनः पुनः घोषणा करता हूँ । सब लोग मुझे ॥ ८२ ॥

अनरतं य इहात्मलाभलोभा—

क्षरति किमप्यथवा ब्रवीति सर्वम् ।

भवति तदत्र मनोनिपादहेतुः,

प्रभवति तस्य सुखाय शान्तये नो ॥८३॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमईसरीयाजकस्वामिधीमद्भागवदाचार्यपण्डितराज्यगीते  
पारिनातपौरभे

प्रथमः सर्गः

जो मनुष्य सदा स्वार्थलाभके लोभसे कुछ करता है या कुछ कहता है वह सब उसके मनको चिन्तित बनानेवाला ही होता है। उसके सुख और शान्तिके लिये नहीं होता ॥ ८३ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकायां  
प्रथमः सर्गः





## द्वितीयः सर्गः

विजेष्यते जर्मनभूमिजास्ततो मयेद्मारम्भि समीकमित्ययम् ।  
 वचोविलासस्तत्र दुःखहेतुको न दुःखिनो ज्ञानपरम्पराभुजः ॥ १ ॥

जर्मन लोग विजय प्राप्त करेंगे, इष्ट भयसे मैंने यह सत्याग्रह शुरू किया है यह आपका कहना केवल दुःखके कारण है ! परन्तु ज्ञानी लोग तो कभी दुःखी होते नहीं ॥ १ ॥

अचिन्तितं सङ्घटमापतेद्यदि ब्रिटैनराज्ये सहस्रा कदाचन ।  
 तदस्तु साम्राज्यसमृद्धिफलमनाफलं तत्रैवेति निवेद्यते पुनः ॥ २ ॥

यदि कभी ब्रिटैनराज्यके ऊपर अकस्मात् संकट आ पड़े तो मैं फिर भी कहूँगा कि यह संकट साम्राज्य बढ़ानेकी आपकी ही इच्छाका एक परिणाम है ॥ २ ॥

स्वमाक्षिपी मां यदुपात्तत्राक्यतस्तदर्थप्रोधाग्रह एव कारणम् ।  
 समस्तसन्दर्भमतस्तत्राप्तो निधाय सर्वं विवृतं करिष्यते ॥ ३ ॥

जिन वाक्योंको लेकर आपने मुझपर आरोप किया है, उन्हें न समझना ही आपको दूसरी दिशामें ले जा रहा है । अतः मैं आपके समक्ष सम्पूर्ण सन्दर्भ रखकर विवरण दूँगा ॥ ३ ॥

समागतो लन्दनतः शुभाशयः स यङ्गनामा मम संनिधौ यदा ।  
 अपृच्छदान्दोलनमेतदतिदं भवेत्सितानां नियतं न वेति ह ॥ ४ ॥

श्री० यद्ग लन्दनसे जब मेरे पास आये तो उन्होंने पूछा कि यह आन्दोलन अंग्रेजोंको हिरान करनेके लिये ही है या नहीं ? ॥ ४ ॥

अनेन मे संयदुपक्रमेण किं भवेन्न जापानप्रलापहेलना ।  
 भयत्स्यदेशात्कठिना निरन्तरं तदीयवृच्छाभयदेवदाशया ॥ ५ ॥

उनके इस प्रश्नका आशय यह था कि मेरे इस युद्धके आरम्भसे भारतसे जापानी सेनाको हराना कठिन हो जायगा ॥ ५ ॥

मया तदोक्तं न भवेत्तथा यथा त्वयोहितं प्रत्युत मे प्रचारितः ।  
अयं समाघात इहागमे द्विपा नितान्तमारोत्स्यति नात्र संशयः ॥ ६ ॥

मैंने उस समय उत्तर दिया था कि जैसा आप कहते हैं वैसा नहीं होगा । मेरा यह युद्ध यहाँ शत्रुओंके आगमनको अवश्य रोकेगा ॥ ६ ॥

परन्तु न स्याद्विटनस्य वा सुहृन्महीपतीनां सहयोग ऐच्छिकः ।  
तदा भवेत्किं तदहं न हेतुना भवामि केनापि विभाषितुं प्रभुः ॥ ७ ॥

परन्तु यदि ब्रिटेन और मित्रराज्योंका ऐच्छिक सहयोग नहीं मिलेगा तब क्या होगा इसे मैं निश्चय कारणसे नहीं कह सकता ॥ ७ ॥

इदं भयद्युद्धमरिन्दम भवेत्सुहृन्महीपतीनां विजयस्य कारणम् ।  
अवश्यमेव भयिता मदर्थना भवेन्मता चेदिति मे तदुत्तरम् ॥ ८ ॥

पुनः यद्गने पूछा : शत्रुओंको नष्ट करनेवाला आपका यह युद्ध मित्र राजाओंको विजय दिलावेगा ? मैंने कहा : अवश्य ऐसा होगा परन्तु यदि मेरी प्रार्थना मान ली जायगी तब ॥ ८ ॥

अहिंसक युद्धमितीह तेर्थनाथयान्यदेवेति स मामवोचत् ।  
न नेति सैतत्समुपैतु शासनं मम स्वदेशे क्षयमित्यपेक्ष्यते ॥ ९ ॥

उन्होंने, पुनः पूछा, “आपकी माँग तो यही है न कि अहिंसक युद्ध हो ! या अन्य कुछ !” मैंने कहा, “नहीं, नहीं, मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरे स्वदेश भारतमें अंग्रेजी राज्य नष्ट हो जाय ॥ ९ ॥

सितप्रयाणान्त इतो जयो भवेत्सितप्रजानां परमस्य मद्रणः ।  
अपश्यता तैरुपरोत्स्यते भृशं तदा दुरुहं पल्लमेव शङ्कयते ॥ १० ॥

यहाँमें अंग्रेजोंके पले जानेपर उठका विजय तो होगा परन्तु यदि यह निराश्रय युद्धमें मेरे युद्धको रोकेगा तब मुझे शङ्का है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है वह परिणाम आवेगा ॥ १० ॥

पुनः स ऊचे भवतापि लन्दने पुरोप्यते स्मेति सितप्रजा समा ।  
असौढ बॉम्बप्रह्वति मुदुस्तरां किमस्ति गच्यं भवताद्य तां प्रति ॥११॥

फिर बड़ बोले—आप भी तो लन्दनमें रह चुके हैं । वहाँकी सभी प्रजाने अतिकठिन बम्बके मारको सहन किया है । क्या आपको उनके प्रति कुछ कहना है ? ॥ ११ ॥

यतो हि तिलः शरदः पुरामयं निवासशीलस्तव एव लन्दने ।  
अवैमि रथ्याः सकला इतस्तवः स्मरामि ताश्चाय भवामि दुःखितः ॥१२॥

मैंने कहा—मैं लन्दनमें तीन वर्षोंतक रहा हूँ अतः वहाँकी गली गली जानता हूँ । उनकी स्मरण करता हूँ तब मुझे दुःख होता है ॥१२॥

सनादिनर् टेम्पलपुस्तकालयेत्रजं तथावाचयमेत्य पुस्तकम् ।  
श्रुतानि वा पाकैरभाषणान्यपि प्रियाणि चिन्त्यान्यधुनापि गौरवान् ॥१३॥

मैं नित्य इनर् टेम्पल पुस्तकालयमें जाता था । वहाँ जाकर पुस्तक पढ़ता था । पाकैरके प्रियभाषण भी मैंने सुने हैं और आदरपूर्वक भाव भी मैं उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १३ ॥

भमामवत्स्निग्धमतीथ मानसं प्रियेषु तत्रत्यजनेषु सर्वदा ।  
यदा श्रुतं बॉम्बनिपातवाचिकं द्विवेव जातं हृदयं तदा मम ॥१४॥

वहाँके प्रियजनोपर मेरा मन सदा स्निग्ध रहता था । जब मैंने वहाँ मन पड़नेकी बात सुनी तो मेरा हृदय फट गया ॥ १४ ॥

यदानुरागो हृदयेस्ति तावकेषुनापि नः प्रत्यविकल्प एव तत् ।  
कथं प्रतीक्ष्यो न भवेज्जकारयोर्जयः हृतोस्माभिरिति प्रयुक्तयान् ॥१५॥

रुद्धने फिर पूछा कि जब आत्र भी आपके हृदयमें हम लोगोंके प्रति वैसा ही अविकल्प प्रेम स्थिर है तो बाराण और बर्मनीपर इनारा विजय हो तब तक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ? ॥ १५ ॥

पिनैव चास्मान्मिटनः कदापि नो रिजेप्यतेरीनिति चेद्बह्वं तवः ।  
स्वतन्त्रतां प्रार्थयतेद्य भारतं विद्यानुभारादतुलां सहायताम् ॥१६॥

हमारे बिना ही ब्रिटेन शत्रुओंको कदापि नहीं जीत सकेगा, यह मैं जानता हूँ। इसीलिये—बड़ी भारी सहायता पहुँचानेकेलिये भारत आज ही स्वतन्त्रता माँग रहा है ॥ १६ ॥

कृते स्वतन्त्रे ब्रिटनेन भारते भवेदवाप्तं बहु नैतिकं बलम् ।  
अवाप्य सौहार्दममुप्य निर्मलं बलं तदीयं हि समृद्धिमेप्यति ॥१७॥

ब्रिटेन जब भारतको स्वतन्त्र कर देगा तब उसे नैतिक बल प्राप्त होगा। भारतका सोहार्द प्राप्त करके उसका निर्मल बल समृद्ध बन जायगा ॥ १७ ॥

विधाय सन्दर्भमिमं हृदि स्थितं विचार्यतां तेन तत्रापि मानसे ।  
धृतं त्वयैतन्मयि दूषणं महन्नपाङ्कुरस्तत्कृत उद्गमिष्यति ॥१८॥

इस सन्दर्भको हृदयमें रखकर आप विचार करें तो आपके भी मनमें, मुझपर किये गये दोषारोपणकेलिये लज्जा पैदा होगी ॥ १८ ॥

अहं ब्रिटेनीयजयं न कामये पुनः पुनस्तत्समकेति यत्त्वया ।  
विचित्रमेतत्प्रतिभाति मां यतः स्थले स्थले त्वद्विजयो मयेहितः ॥१९॥

आपने बार बार कहा कि मैं ब्रिटेनका विजय नहीं चाहता हूँ, यह मुझे बहुत विचित्र मालूम होता है। क्योंकि मैंने सर्वत्र आपका—ब्रिटेनका विजय चाहा है ॥ १९ ॥

यदा च मीरा सविधे ममालिखत्सिताङ्गजा पद्ममथो कुलोद्भवा ।  
तदा मया दत्त उदार उत्तरे समैपभावः प्रकटीभविष्यति ॥२०॥

अंग्रेज कुलीन महिला श्रीमीराने जब मेरे पास पत्र लिखा था उसको जो मैंने उत्तर दिया था उसमें मेरा यह भाव प्रकट होगा ॥ २० ॥

तयालिखत्प्राय इहोत्कलाङ्गने क्वचिज्जपानध्यजिनी तरस्विनी ।  
अरक्षिते विघ्नविहीन उत्कटा पदं यथेच्छं मुमुत्सं निधास्यति ॥२१॥

श्रीमीराने लिखा था कि उड़ीसा प्रान्त अरक्षित है अतः विघ्नरहित है। बागानकी चलती सेना मुत्सपूर्वक इच्छानुसार यहाँ आ सकेगी ॥२१॥

महामुताराः सरितः समं धरातलं च झालेयमुद्यः पदादिभिः ।

विना श्रमेणैव चगाह्य सौत्कलाग्निगिरिप्रदेशानधिरेण चास्यति ॥२२॥

छिछली नदियोंको, समधरातलको और धानके खेतोंको पैदल विना-  
धमके ही पारकरके जापानकी सेना उटीसाके पहाड़ी प्रदेशोंमें शीघ्र ही  
था जायगी ॥ २२ ॥

न रक्षितुं देशमिमं न तां चमूं विरोद्धुमाराद्वरोद्धुमेव वा ।

इहास्ति काचित्सित्तवाहिनी स्थिता न वाजनाः प्रान्तभवाः समुद्यताः ॥२३॥

न तो इस देशकी रक्षा करनेकेलिये और न जापानी सेनाका विरोध  
या अवरोध = रुकावट करनेकेलिये कोई सेना तैयार रखी गयी है ।  
इस प्रान्त की जनता भी तैयार नहीं है ॥ २३ ॥

परन्तु जमशेदपुरम्य वर्त्म तद्विरक्षितुं प्राणपणेन केवलम् ।

प्रयत्नमास्थास्यति शासनं भवेत्तयो न चात्रेति विकल्पते मनः ॥२४॥

परन्तु सर्गार जमशेदपुरके मार्गको रोकनेकेलिये प्राणोंकी बाजी लगा-  
कर भी प्रयत्न करेगी । त्रिषय मिले जा न मिले इसमें सन्देह है ॥ २४ ॥

ततो जपानीयरुह्यिनी विशेद्विहारदेशं समिता समन्ततः ।

अदृश्यतामेव गतं भवेत्तदा सिन्धीयराज्यव्यवहारशासनम् ॥२५॥

वहसे जापानकी सेना बिहारप्रदेशमें प्रवेश करेगी और धारों और  
फैल जायगी । तब अप्रेसी राज्यमें सब व्यवहार और हुकूमत अदृश्य हो  
जायगे ॥ २५ ॥

जपानसेनासथान्प्रविश्य चेद्वेद्रेण युष्माकमहं क्षतिप्रदा ।

प्रणाशयेयं त्रिटिशाम्पिकाजनाद्वप्रयत्नं न ततोस्तु वो मयम् ॥२६॥

जापानी सेना यदि गर्धोमें घुसकर यह कहे कि हम तुमको बरा भी  
क्षति नहीं पहुँचावेंगे । हम तो ब्रिटिश और अमेरिकीके युद्ध प्रयत्नको नष्ट  
करेंगे अतः तुमको कोई भय नहीं होना चाहिये ॥ २६ ॥

तदा भवेत्किं करणीयमित्ययं महान्परिप्रश्न उदेति संमुखे ।  
विलोक्य सैतन्न्यवहारमोदशं जनाः कदाचित्प्रतियन्तु तेषु ते ॥२७॥

तब क्या करना होगा, यह एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। अंग्रेजों-  
के इस प्रकारके (रराध) व्यवहारको देखकर कदाचित् वह लोग  
जापानियोंमें विश्वास कर लें ॥ २७ ॥

इमे सिता लाभपरायणाः प्रजा न शिक्षयन्तीह कथं स्वरक्षणम् ।  
विमानबॉम्बाधिनिपातनात्कृतं भवेत्ततस्तेन च ता उदासिताः ॥२८॥

यह अंग्रेज ऐसे स्वार्थी हैं कि प्रजासे विमानसे गिराये जानेवाले  
बमसे कैसे रक्षा करनी चाहिये, इसका शिक्षण नहीं देते हैं। और इसी-  
लिये प्रजा अंग्रेजोंसे उदासीन बनी है ॥ २८ ॥

निकार एषां हृदयेषु यत्कृते विरूढमूलं कथमद्य ते क्वचित् ।  
मनस्विनस्तत्सहयोगमात्मना बुधा दधीरन्निति शङ्कते मनः ॥२९॥

जिनकेलिये इनके प्रजाजनोके हृदयोंमें तिरस्कार पैदा हो चुका है  
वह मनस्वी और समझदार लोग स्वयं कैसे सहयोग देंगे, यही मनमें  
शङ्का है ॥ २९ ॥

व्यलोकिपीडं परमत्र मानवा जपानसेना व्रजितुं स्वभूमितः ।  
तटस्थतायाः परिरम्भणाय ते समुद्यताः सन्ति समुत्सुका अपि ॥३०॥

परन्तु मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग अपनी जमीनमें से जापानकी  
सेनाओंको जाने देनेकेलिये तथा तटस्थता स्वीकार करनेकेलिये तैयार  
हैं और उल्लूक भी हैं ॥ ३० ॥

धनं भवेद्द्रोपितमन्नमप्यलं न चापि भृत्यत्वमुपासितं भवेत् ।  
एचित्कचित्किन्तु सिताद्दिशान्वयं समादरं तान्प्रति तानयेदपि ॥३१॥

कहीं तो ऐसा होगा कि लोग धन और अन्न छिपा देंगे और जापान-  
नियोंकी दासताका स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु जहाँ जहाँ ऐसा भी होगा  
कि अंग्रेजोंकी शत्रुतासे कारण उनके प्रति प्रजा आदर भी प्रकट करे ॥३१॥

जपानसेना धनभूगृह्णादिकं ग्रहीतुमासाङ्गति कस्यचिद्यदि ।  
तदा प्रतीकारमहिंसकं प्रजा तनोत्यतो नाधिकमत्र वाञ्छ्यते ॥३२॥

जापानी सेना यदि किसीके धन, धरती, घर आदि लेना चाहे तो  
प्रजा अहिंसक प्रतीकार करे, इससे अधिक की इच्छा नहीं है ॥ ३२ ॥

न तस्य कार्यं विदधीत वा प्रजा ततो ग्रहीतव्यमथो न किंचन ।  
तद्दीयकार्येण्यखिलेषु चाखिलैर्न योग आधेय इतीह शक्यते ॥३३॥

लोग जापानका कार्य न करें, जापानसे कुछ लेना न चाहें और  
जापानके कामोंमें कोई सहयोग न दें, इतना ही यहाँ हो सकता है ॥३३॥

परं त आगत्य भुञ्जीह वेतनं तथान्नमूल्यं त्रिटिरीयमुद्रया ।  
प्रदातुमिच्छां विशदेयुःसत्मानो गृधिर्निरोध्या कथमेव कृष्णजाम् ॥३४॥

परन्तु वह इस भूमिपर आकर वेतन और अनाजना मूल्य अंग्रेजों  
सिफोंमें देना चाहेंगे तो लोंभियोंके लोभको कैसे रोफा बाधगा ॥ ३४ ॥

सिताधिराज्यं यदि सेतुमञ्जनं पयःप्रणालीपरिमर्दनं तथा ।  
यदादधीतात्र तदास्य निर्मितां प्रयत्न आसेव्य एनो न हीति वा ॥३५॥

यदि अंग्रेजों यकार कोरं पुल तोड डाले, अथवा नहर नष्ट करे तो  
पुनः उसके बनानेका प्रयत्न करना योग्य है या नहीं ? ॥३५॥

निजोपयोगाय जपानसेनया क्रियेत सेत्नादिपुनरिनिर्मितिः ।  
तदा तु तत्कर्मणि तत्सहायता कृता भवेद्वा न विचार्यतामिति ॥३६॥

अंग्रेजों के तौटे हुए पुल आदिको यदि जापानी सेना पुनः बनाना  
चाहे तो उस काममें उसकी सहायता करना चाहिये या नहीं, इसे नी  
आज विचारें ॥ ३६ ॥

जपानराज्येन च भारता नराः कष्टी गृहीता यदि जापर्मनिकैः ।  
सहायजेयुष्यंरहार एषु तत्क्रियेत कीदृग्निपमास्त्विद्यं स्थितिः ॥३७॥

जापानके साथ युद्धमें परुडे गये भारतीय यदि जापानी सेनाके साथ

यहाँ भावें तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ? यह विषम परिस्थिति होगी ॥ ३७ ॥

पलायतां चेत्सितशासनं तदा निरीक्ष्य शत्रोर्बलमुत्कटं यदि ।  
तदा च मुद्राविषये सुवर्त्म किं भवेद्गृहीतं तदपीह चिन्त्यताम् ॥३८॥

यदि शत्रुकी विशाल सेनाको देखकर अंग्रेज भाग जायें तब स्वयंको विषयमें क्या अच्छा मार्ग लिया जाय, इसे भी सोचें ॥ ३८ ॥

नियोत्स्यमाने समरे जपानिनः स्वकीयलोकान्समराहृतान्दतान् ।  
निपात्यमानान्पतितानितस्ततः प्रवाहयिष्यन्ति निवेशमात्मनः ॥३९॥

जब यहाँ युद्धारम्भ हो जायगा तब जापानी लोग युद्धमें धायल हुए अथवा मरे हुए या मारे जाते हुए तथा इधर उधर पड़े हुए अपने आदमियोंको अपने शिविरमें ले जायेंगे ॥ ३९ ॥

परं परांस्ते समराङ्गणे क्षतान्दतांस्त्यजेयुर्व्रणितांश्च सव्यथान् ।  
भवेयुरेतेपि सुरक्षिता यदि भवेत्परो धर्म इति प्रभातिमाम् ॥४०॥

परन्तु जापानी लोग समरभूमिमें धायल हुए, मारे गये हुए और गोलीसे बीधे गये हुए अन्वोंको वहाँ ही पीड़ित छोड़ जायेंगे । मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनकी भी रक्षा की जाय तो बड़ा धर्म होगा ॥ ४० ॥

वद्वनि शस्त्राणि पलायनं भृतां भवेयुराप्तानि च युद्धभूतले ।  
जपानसेनाभिरनाहितानि तान्यनुग्रहीतुं तत औचित्यं न वा ॥४१॥

अंग्रेजोंकी सेना जब भागेगी तब उस युद्धभूमिमें बहुतसे शस्त्र ऐसे पड़े हुए मिलेंगे जिन्हें जापानी सेनाने नहीं लिये होंगे । उन अस्त्रोंको धर्रासे लेना उचित होगा या नहीं ? ॥ ४१ ॥

रणाद्गनं लुण्ठितुमापतन्त्यलं जनाश्च दाज्ञाप्यगणः शवं यथा ।  
महद्भवेत्तेन निरस्त्रभारतं प्रष्टृष्टदोषायतनं निरन्तरम् ॥४२॥

जैसे गिद्ध मुँदोंको छूटते हैं वैसे ही रणभूमिमें छूटनेके लिये बहुतसे



लोग आते हैं। यदि वह अन्न लूट लिये गये तो निरस्त्र ग़रतमें निरन्तर मार पाड आदि बड़े-बड़े अपराध होने लोंगे ॥ ४२ ॥

ततः समेषां निश्चितास्त्रशस्त्रसंग्रहो प्रहीतव्य उतेह न प्रभो ।  
न निश्चयो मे सचिषेद्य विद्यते कृपानिधे ज्ञापय तत्कृपावशात् ॥४३॥

वहाँसे उन तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रोंका संग्रह करना चाहिये अथवा नहीं ? मेरे पास कोई निश्चय नहीं है अतः हे कृपासागर, आप कृपाकर आशा दीजिये ॥ ४३ ॥

अथो भवान्संमनुते महोदधौ समानि चास्यानि विचारमन्तरा ।  
यदादिशेदेव उदारचेतसा तदेव कर्तव्यमिहास्ति मे मतम् ॥४४॥

और यदि आप समति दें तो सब शस्त्रोंको बिना किसी विचारके समुद्रमें डाल दिया जाय। आप उदार मनसे जो आशा इस विषयमें देंगे, वही मुझे करना है ॥ ४४ ॥

अयाप्य पत्रं परदुःखपात्रकोपपीडितायाः परिपीडितान्तरः ।  
यदुत्तरं तत्सविधे ह्यजीगमं तदप्यवेक्ष्यं विदुषा त्वया ननु ॥४५॥

परदुःखकी आगसे बन्नी हुई श्री मीराके पत्रको पढ़कर दुःखित होकर मैंने जो उत्तर उनके पास भेजा था उसे भी आप अवश्य देखें ॥ ४५ ॥

समस्तसाकाङ्क्षसदर्थबोधकं तयाप्य निर्दोषदलं प्रसीदति ।  
मसान्तरं त्वं समये यथोचिते यथोचितं स्थानमत्राप इत्यतः ॥४६॥

बिना बिना बातोंकी आवश्यकता थी उन सबका शान करानेवाला तुम्हाग निर्दोष पत्र पाकर मेरा अन्तःकरण प्रसन्न हुआ है। क्योंकि तुम योग्य समयपर योग्य स्थानमें पहुँच गयी हो ॥ ४६ ॥

विचारितं साधुतरं त्वयाधुना जपानिनां नैप्यत एव यदयता ।  
न तैः प्रणेयः सहयोग आत्मनः प्रतीपता स्यात्तु विपद्विवर्धिनी ॥४७॥

तुमने इस समय बहुत अच्छा विचार किया है। जापानियोंकी अधीनताका स्वीकार नहीं ही इष्ट है। उनके साथ अपना कोई सहयोग नहीं करना चाहिये। इससे विपरीत करनेसे अपनी विपत्ति बढ जायगी ॥ ४७ ॥

न कोपि साहाय्यमुपाचरेत्कचिज्जपानिनां ते सह नैव कस्यचित्।  
कदापि मोहात्क्रयविक्रयौ न वा धनाधिकप्राप्तिजिघृक्षयापि नो ॥४८॥

जापानियोंकी कोई भी कोई सहायता न करे। उनके साथ, अधिक लाभ प्राप्त करनेकी इच्छासे भी भूलकर भी क्रय विनय व्यवहार नहीं करना चाहिये ॥ ४८ ॥

जपानिनां भीतिवशेन वश्यता जनैर्विहेया निखिलैर्निरन्तरम्।  
तथैव तेषां प्रतिकारभावनावलेन मुद्राविपयोपि शाम्यताम् ॥४९॥

सबको चाहिये कि भयके कारण कभी जापानियोंकी अधीनताका स्वीकार न करें, त्याग करें। उनका प्रतीकार करना है अतः रुपयोंका प्रश्न स्वयं ही शान्त हो जाता है ॥ ४९ ॥

न सेतुभङ्गात्परमस्य निर्मितौ सहायता स्याद्विहिता कदाचन।  
भवेदयाप्याल्पतमापि येन तत्सहायता किञ्चन नो विधीयताम् ॥५०॥

यदि पुल तोड दिये जायें तो उसके पश्चात् उसके बनानेमें कभी सहायता नहीं करना चाहिये। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये जिससे कि उन्हें अत्यल्प भी सहायता प्राप्त हो ॥ ५० ॥

उदारभावेन जपानसेनिकैस्पागतेर्भारतभूमिजन्मभिः।  
जनैश्च सर्वैर्व्यवहार आर्यतामयो विधेयो न भवन्ति तेरयः ॥५१॥

जापानी सेनाके साथ यदि भारतवासी धार्मिक तो उदारभावसे उनके साथ सहयोग करना चाहिये। क्योंकि वह शत्रु नहीं हैं ॥ ५१ ॥

अयदयमेव प्रणितेषु पातितेष्वपि प्रदर्श्या करुणा यथोचितम्।  
अनुष्यता प्रत्यहमेतदिच्छति प्रपश्यति स्वं न परं न सा पचित् ॥५२॥

वो घायल हों, पड़े हुए हों उनपर अवश्य दया करनी चाहिये ।  
मनुष्यता यही तो चाहती है । बड़ कमी भी अपने और परायेका  
विचार नहीं करती ॥ ५२ ॥

पलायितानां हननादिसाधनं महास्त्रशस्त्रादिकमाप्यते यदि ।  
सुहृज्जनैस्तर्हि महाप्रयासतः सुरक्ष्यते चेदभिरक्ष्यतां हि तन् ॥५३॥

भाग्ये हुए लोगोंके जितने अस्त्र-शस्त्र मिलें उनकी रक्षा यदि प्रयास-  
पूर्वक प्रामाणिक लोग करते हों तो करें ॥ ५३ ॥

परं यदि स्यादतिहीनमानुषैस्तदात्मस्मादुरपहृत्वा भवेत् ।  
दुरर्था तस्य ततो निमग्ध्यतामपास्यतां वारिधिगर्भगह्वरे ॥५४॥

परन्तु यदि वह सब नीच लोगोंके हाथमें पड़ जायेंगे तो उनका  
दुष्प्रयोग रोकना कठिन होगा । अतः उन्हें हटा दो और समुद्रमें  
फेंक दो ॥ ५४ ॥

मया प्रदत्तं निखिलं तदुत्तरं भवेदिदं सारमयं ततो ध्रुवम् ।  
मदीयं वदो हृदयस्थितो भवेत्त्वयात्र भावो विदितोप्रयासतः ॥५५॥

मैंने श्री मीराको जो उत्तर दिया था उसका यह सार है । मेरे  
हृदयमें कैसा प्रचल भाव मरा है तैसे बिना श्रमके ही आप इस पत्रसे  
ज्ञान सकते हैं ॥ ५५ ॥

यदि स्वतन्त्रा भरतक्षमा भवेत्तदाविलम्बेन जपानभूमिजा ।  
करिष्यते मन्त्रमसौ स्वयं ततस्तथेति वा मे हृदयं तुदत्यलम् ॥५६॥

“यदि भारत स्वतन्त्र हो तो बिना किसी विलम्बके जापानके साथ  
स्वयं मन्त्रमाला करेगा” आपका यह वाक्य दुःख है ॥ ५६ ॥

यत्स्वतो चाभ्यगतांशमादधद्दुर्यमापादयितुं यदिच्छसि ।  
न तद्भवेत्सल्लजप्रसूतिजा कदापि रीतिर्भयदा सदा विदाम् ॥५७॥

क्योंकि आप वाक्यके एक अंगको लेकर अनर्थ करना चाहते हैं ।

जवाहरः श्रीसरदारवल्लभस्तथा ह्यसौ शंकररावदेवकः ।  
कदापि विद्यार्थिगणं सतेजयन्न संव्यधार्तिकचन दोषमन्दिरम् ॥६८॥

पण्डित जवाहिरलाल, सरदारवल्लभभाई और श्रीशंकररावदेव यदि कभी विद्यार्थियोंको उत्तेजित करते हैं तो उन्होंने यह कोई अपराध नहीं किया ॥ ६८ ॥

एतेन्रसंख्येशमिते हि वत्सरे मया स्वतस्तान्सहयोगभङ्गने ।  
सित्ताधिपत्येन सह प्रवर्तिते न्यमन्त्रये तेन नवं न तैः कृतम् ॥६९॥

सन् १९२० ई० में मैंने स्वयं राज्यके साथ सहयोग त्याग करनेकेलिये छात्रोंको निमन्त्रण दिया था । अतः उन्होंने कोई नया काम नहीं किया ॥ ६९ ॥

प्रजाधिनेतृनुपगृह्य वन्दियु निवासनानन्तरमत्र वर्णिभिः ।  
रूपा परीतैः किमकारि तन्मयावबुध्यते नैव विविक्तवासिना ॥७०॥

प्रजाके बड़े बड़े नेताओंको पकड़कर कैदियोंके बीचमें रखा गया । उसके पश्चात् विद्यार्थियोंने क्रोधमें आकर क्या किया उसे मैं नहीं जानता क्योंकि मैं यहाँ जेलमें एकान्तवासी हूँ ॥ ७० ॥

जवाहरस्यात्र निरूप्य हेतुतामसाधनस्त्वं न कथं विशङ्कुसे ।  
स्वराज्यसिद्धौ परमं हि साधनं नजासने श्रद्धयत दृढव्रतम् ॥७१॥

जो पण्डित जवाहिरलालजी स्वराज्य प्राप्तिकेलिये अहिंसाको ही परमसाधन मानते हैं, अर्थात् रखते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञावाले हैं उनको विद्यार्थियोंके तूफानका कारण बतानेमें, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो भी आपको शङ्का नहीं आती ? ॥ ७१ ॥

तथा घनदयामतनूजनी भवान् किशोरलाले परमाहते मम ।  
अधत्त यं दोषमहं न तं कथंचनानुमन्ये विदितैतदान्तरः ॥७२॥

ऐसे ही आपने भीकिशोरलालघनदयामदास मगरूवाला जिन्हें 'कि' मैं स्वयं आदर देता हूँ और जिनके अन्तःकरणको मैं अच्छी तरहसे

पहचानता हूँ उनके ऊपर जो दोषारोपण किया है उसे मैं नहीं मान सकता ॥ ७२ ॥

अहिंसकानां स महाग्रणीर्भवन्नशिक्षयद्यद्भ्रजनालिभञ्जनम् ।  
अहिंससीमानमुपेत्य तत्स्थितं न तां तदात्मान्यति मन्मतौ ध्रुवम् ॥७३॥

श्रीकिशोरलालभाई तो अहिंसकोंके अगुवा हैं । उन्होंने जो सडक वगैरः तोड़नेकी शिक्षा दी है वह अहिंसाकी सीमामें रहकर ही । मेरे विचारमें वह शिक्षा अहिंसाकी सीमाका उल्लंघन नहीं करती है ॥ ७३ ॥

यदि त्वयाङ्गीक्रियते न मन्मतिस्तथापि नो साधयितुं तदस्यलम् ।  
स हिंसनायासपरायणो भवेत्कुतोपि हेतोरिति मामकं मतम् ॥७४॥

यदि आप मेरी सलाह नहीं मानते हैं तो आप उसे सिद्ध भी तो नहीं कर सकते । मैं तो मानता हूँ कि यदि श्रीकिशोरलाल भाई हिंसक बने हों तो कोई कारण अवश्य होना ही चाहिये ॥ ७४ ॥

यदान्ध्रुदेशात्परिपत्रमागतं त्वया धृतं स्वप्रमितेः सुसाधनम् ।  
तदप्यलं न क्षमते कथंचन प्रमाणभूमिं प्रतिगन्तुमीडिताम् ॥७५॥

आन्ध्रसे जो परिपत्र आया है और जिसे आपने अपने कगनका प्रबल साधन समझकर रख छोड़ा है वह प्रमाण बननेमें असमर्थ है ॥ ७५ ॥

विलोक्यते तत्र विटङ्कितं मया युधोस्ति मूलं परिमर्दवर्जनम् ।  
ततो न कैश्चित्प्रतिकूलमिष्यतां न गुप्तरूपेण च शिशुिभञ्जनम् ॥७६॥

मैंने उस परिपत्रमें लिखा हुआ देखा है कि "हिंसाका त्याग ही इस सत्याग्रह युद्धका मूल है । अतः प्रतिकूल कार्य करनेकी कोई भी इच्छा न करे तथा गुप्तरूपसे आज्ञाकी अवहेतना न करे" ॥ ७६ ॥

अहिंसनाच्छादनमाश्रयन्नहं प्रजामि हिंसापयमित्यवोचथाः ।  
तदस्तु ते मोहपरम्पराभुजो मनोनुबिम्बं न मयापराध्यते ॥७७॥

मैं अहिंसाका आड लेकर हिंसाके मार्गमें जा रहा हूँ यह जो आपने

कहा है वह अज्ञानियोंके मनका प्रतिबिम्ब है। उसमें मेरा क्या दोष ? ॥ ७७ ॥

प्रियोस्त्यहिंसा परमो मतो दृढः सदैव धर्मो मम शैशवाद्यपि ।  
महासभासभ्यजनैरपि स्वयं तथैव सा स्वे हृदये निधीयते ॥७८॥

अहिंसा तो मेरे बाल्यकालसे ही मेरी दृष्टिमें मेरा परम प्रिय दृढ धर्म बना हुआ है। महासभाके सदस्य भी उसे उसी प्रकारसे स्वीकार करते हैं ॥ ७८ ॥

निपिञ्जने ये रतिमन्त आदधत्यरिप्रणाशाय शतत्रिकाः सदा ।  
ततोपि तीत्रायुधसंप्रयोगतः परेण ते स्युर्नियतं पराजिताः ॥७९॥

जो लोग हिंसामें प्रेम रखनेवाले हैं वह अपने शत्रुओंको मारनेकेलिये सदा बन्दूक धारण करते हैं। परन्तु जिसके पास बन्दूकसे भी भयङ्कर अस्त्र शस्त्र होंगे वह अवश्य ही बन्दूकवालेको हरावेंगे ॥ ७९ ॥

परं त्वहिंसा परमास्त्रशस्त्रभृज्जनेष्वनेकेषु महाबलेष्वपि ।  
अभीर्भवन्ती रिपुदुर्दलान्यपि प्रयाति भेत्तुं सधलैकिकापि सा ॥८०॥

परन्तु अहिंसा तो बड़े बड़े अस्त्रशस्त्रोंसे सजे हुए महाबलवानोंके बीचमें भी निर्भय होकर शत्रुओंके हिंसकदलोंको फाड़नेकेलिये अकेली ही जाती है ॥ ८० ॥

शुतः सिताङ्गावनिपस्य शासन करालरूपाण्यधुना तनोत्यदः ।  
मया कदापीह न तद्विलोकितं समुद्रिरद्रोपमभद्रकान्तिकम् ॥८१॥

अब यह अंग्रेजी राज्य भयङ्कररूप क्यों धारण करता है? मैंने इतना शोक करते हुए थीर अमर फागिताला इसे कभी नहीं देखा है ॥ ८१ ॥

जहादि देशं भरतेन पालितं यचो न वैतत्तव रोपकारणम् ।  
षपद्रयो वा जनवाश्रुतोपि नो विभाति हेतुर्गतदूपणो मम ॥८२॥

“भारत छोड़कर चले जाओ” यह वचन तो क्रोधका कारण बन नहीं

सकता । जनताने खो लपटव किया है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, अतः वह भी रोपका कारण नहीं है ॥ ८२ ॥

सिताधिरार्यं त्रिजहातु भारतं मुषोप एपोस्ति जनार्तिहृद्रवः ।  
अखण्डनीया प्रतिधोपणेयमाजगत्तलं व्यापद्जस्रमस्रभृत् ॥८३॥

अंग्रेजी राज्म भारतको छोड़ दे यह आमाज तो लोगोंके दुःखित हृदयकी आवाज है । यह धोपणा अखण्डनीय है और आंतुभ्रोसे भरी हुई है । इसी लिये सारे जगत्में फैल गयी है ॥ ८३ ॥

प्रजात्रयं युद्धदमानले यदा पतन्महारक्तनदी यदा वहत् ।  
महावमिस्रा लगदाभुवाशु सा तदार्वरावः स जगत्समामृणोत् ॥८४॥

त्रिदिश, अमेरिका, जापान यह तीन प्रजाएँ जब युद्धरूप दावानलमें पडीं और जब रक्तकी महानदी चढ़ निकली तथा जब घोर अग्निारसे जगत् ढँक गया तब यह कदम स्वर निकला और जगत्में छा गया ॥ ८४ ॥

परन्वगस्तस्य महाष्टमी तिथिं स भाति यावन्न रवो यशोधरः ।  
यदा नवम्यां विनिगृह्य नायकानगोपयत्तद्वि कलाकलाभयः ॥८५॥

परन्तु अगस्तकी ९ वीं तारीखतक तो “भारत छोड़ो” यह यशस्वी शब्द प्रकट हुआ ही नहीं था । नवमी तारीखको जब सप्त नेताओंको पकड़कर लिया गया तब यह शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ८५ ॥

समीक्षनं यत्परमं विशुद्धिमन्मतं मया न्याय्यतमं च तत्पुनः ।  
सिताङ्गशिष्टेरभषद्विधेयैसादमर्षैतुर्हृतदैयमेव धिक् ॥८६॥

वो इच्छा अत्यन्त पवित्र है, और मेरी दृष्टि अत्यन्त न्याययुक्त है यही विधिवश अंग्रेजीके शासनके क्रोधका कारण बन गयी । देवको ही धिक्कार है ॥ ८६ ॥

मुषः परं भारतमेप्यति स्त्रिकां स्वतन्त्रामित्यवदत्पुनः पुनः ।  
सिताधिरार्यं तदपीह शङ्कितं जनैः सितक्रौर्यपरम्परेक्षकैः ॥८७॥

सर्कारने बारबार कहा था कि मुझके बाद भारत स्वतन्त्रता प्राप्त

करेगा परन्तु सरकारकी कूरता देखकर लोगोंको उस कथनमें भी सन्देह होने लगा ॥ ८७ ॥

विशुद्धबुद्धिप्रतिबुद्धशासनं भवेद्यपि प्रेमरतिप्रबद्धया ।  
उपस्कृता श्रीसभया सहायतां तदा तिरस्कारपदं न तन्नयेत् ॥८८॥

यदि सरकारकी बुद्धि पवित्र होती तो प्रेमसे बँधी हुई महासभाकी दी हुई सहायताका वह अस्वीकार न करती ॥ ८८ ॥

महासभासभ्यजनाः समेत्य तां स्वतन्त्रतां रक्षितुमात्मसंमिताम् ।  
प्रयासलब्धामरिसंक्षयाय तत्रिमित्रराष्ट्रध्वजशालिनो ध्रुवम् ॥८९॥

महासभाके सभ्य बड़े प्रयाससे मिली हुई प्राणसमान स्वतन्त्रताकी प्राप्त करके उसकी रक्षाकेलिये शत्रुओंका नाशकरनेको मित्रराज्योंके ध्वजके नीचे आ जाते ॥ ८९ ॥

परं सितं शासनमत्र भारतान्समानभागान् इति मन्तुमादरात् ।  
न षाह्वति स्मेति महाहितैपिणो निरास्यदत्रैकपदेदित्लान्सतः ॥९०॥

परन्तु सरकार भारतवाकियोंको समान भागीदार आदरपूर्वक माननेकी तैयार नहीं हसीलिये सरकारने इन हितैपियोंको क्षण भरमें पैस दिया ॥९०॥

जयप्रकाशं बहुलान्परानपि प्रहीतुकामं सितशासनं महत् ।  
प्रवेयते न्यप्रमिय प्रतिक्षणं मुहूर्त्तने हन्त भृशायतेस्य रुद् ॥९१॥

श्रीजयप्रकाश नारायण और अन्य अनेकोंको पकड़नेकेलिये यह विशाल अपेक्षा राज्य क्षणक्षण व्याकुल प्रतीत हो रहा है । दुःखकी बात है कि अरने मित्रों पर ही इसका क्रोध बढ़ रहा है ॥ ९१ ॥

जयप्रकाशप्रहृणाय शासनं सहस्रमुद्रं दश पारितोषिकम् ।  
अजुपुपशतुमयापयेत तं य एष तस्मै प्रियदासनाय तत् ॥९२॥

श्री जयप्रकाश नारायणको पकड़नेके लिये सरकारने दस हजार रुपये इनाममें देनेकी घोषणाकी है । जयप्रकाशको जो पकड़ा देगा-मिलेदेगा वह तो सरकारका प्रियदास बनेगा और उर्माको यह पारितोषिक मिलेगा ॥९२॥



तदीयसिद्धान्तमहं समर्थये न सर्वथा किन्तु परा तपस्विता ।  
निजस्य देशस्य हिताय संततं त्रिलोक्यतेसूक्ष्महरास्य सामया ॥९३॥

ब्रह्मप्रकाश नारायणके सिद्धान्तका सर्वथा समर्थन नहीं करता परन्तु अपने देशके हितकेलिये वह कितनी तपस्चर्या कर रहे हैं, इसको मैं सूक्ष्मदृष्टिसे देखा करता हूँ ॥ ९३ ॥

अपप्रथद्यानगुणान्मनोहरे प्रिये च तस्मिन्वत तान्विचारयन् ।  
श्रवत्कुमेतद्वचनं समुत्सहे समे स्वदेशप्रियतां विवृण्वते ॥९४॥

उस मनोहर और प्रिय ब्रह्मप्रकाशमें जिन दोषोंका आपने घोषगानी है उनकी विचार करनेसे यह कहनेका साहस करना पड़ता है कि “स्वदेशानुराग तो सभी प्रकाशित करते हैं” ॥ ९४ ॥

विदेशिनां शासनमत्र कर्हिचिन्न शक्यते सोढुमनेन तद्विद्वा ।  
इदं मते ते स्पृह्यन् प्रतीयते मतं महद्गौरवमेव चापरैः ॥९५॥

वह विद्वान् आदमी है । परदेशियोंका शासन यहाँ वह सहन नहीं कर सकते । यह काम आपके मतसे अपराध है और अन्योके मतसे बहुत बड़े गौरवकी बात है ॥ ९५ ॥

अकिंचनानां भरणार्थमुद्यतो वितीर्णकोटित्रयराप्यमुद्रकः ।  
स चार्त्तसंधोपि निपातितः क्षणादनार्यवर्षेण कुशासनेन ह ॥९६॥

गरीबोंके पालन पोषणकेलिये जो चरखासंध सदा तैयार है और जिसने तीन करोड़ रुपये गरीबोंको बाटे हैं उसे भी इस दुष्ट राज्यके क्षम मरमें नष्ट कर दिया ॥ ९६ ॥

तदाधिपत्यं दधत सहापरैः सहायकैर्नाजुमहोदयं तदा ।  
निगृह्य काराभवने ह्यतिप्रिपदुरन्तमेतत्तव शासनं हतम् ॥९७॥

उसी समय उसके-श्वर्त्तासंधके समापति श्रीब्राह्मजीकी भी उनके अन्य सहायकोंके साथ पकड़कर जेलमें आपकी दुष्ट सरकारने रख दिया ॥९७॥

समाधिकारस्थितचारुकेन्द्रकः समूह आनायि निजाधिकारिताम् ।  
सितेन तत्कार्यमनिन्द्यकीर्ति कैर्जनैर्विकर्मापि च तद्विनिन्दितम् ॥९८॥

महासभाके अधिकारमें जितने भी चर्खा केन्द्र थे सबको सकारने अपने कब्जेमें ले लिया । प्रतिष्ठित सज्जनोंने इस क्रूरता और दुष्ट कर्मकी खूब निन्दा की ॥ ९८ ॥

महाधिकारिप्रमुखाः ससाधनं करोतवस्त्राद्यदहन्सितेरिताः ।  
तथा कुमारप्यसंधकेपि तैः कृतं नराकार्यमिदं घृणास्पदम् ॥९९॥

बड़े बड़े अधिकारियोंने अग्नेजोके कहनेसे हाथके बुने हुए पत्र ( खादी ) की तथा उसके साधन चर्खा आदि जला दिये । इसी प्रकार श्री कुमारप्याके सपमें भी अमनुष्योचित निन्दनीय कार्य उन्होंने किये ॥ ९९ ॥

मुनिर्विनोया स्वयमेव सास्थिको बहुक्रियाकर्तृजनप्रणेवृकः ।  
सहायकास्तस्य समे च सोधुनाधिवन्दिशालं क्षपयन्ति शर्वरीः ॥१००॥

मननशील विनोवा स्वय एक संस्थारूप हैं तथा अनेक कार्यकर्ताओंको पैदा करनेवाले हैं । वह भी अपने साधियों के साथ जेल में रात्रियाँ बिता रहे हैं ॥ १०० ॥

यदीदमुद्वेजकमाहितं भवेन्न शासनेनात्र विकर्म दुःखदम् ।  
विलोकितं स्याज्जनतोपकारकं युधोपि वेगप्रदमेय किंचन ॥१०१॥

यदि सरकार दुःखद और घ्याजुल करनेवाले इस दुष्ट कर्म को न करती तो जनताके उत्तराखेलिये और युद्धकी वेग देनेकेलिये कुछ दिये गये कार्य को देखती ॥ १०१ ॥

यथा विहारे पृथिवीनिपानिपशणे स राजेन्द्रमहागयोक्त्रोत् ।  
जनस्य सपरस्य महायता तथा स्थिते ममीके विदधीत ता ध्रुवम् ॥१०२॥

बाबू श्रीराजेन्द्रप्रगादशी ने त्रिग प्रकार विहार में पृथिवी जब ऊँचे नीचे हो रही थी क्षयान् जब भूकम्प हुआ था तब सबलोगों की सहायता

की थी वैसे ही इस वर्तमान युद्धमें वह अवश्य सहायता करते ॥ १०२ ॥

यथा महाभीषणवारिसंप्लवे स गुर्जरैर्प्पारचयच्च बलम् ।  
सहायतां सर्वशरीरिणां तथा तत्रापि युद्धे रचयेत्सर्ता मतः ॥१०३॥

जिस प्रकारसे श्रीवल्गममाईने गुजरातमें महामयङ्कर बाद आने-पर सबकी सहायता की थी वैसे ही आपकी सहायता भी वह इस युद्ध में करते ॥ १०३ ॥

इति यतिवर उद्धैः सत्प्रयत्नैर्विधाय,  
प्रतिपद्मतिशुद्धं बोधिवोच्यं समाधिम् ।  
सितपतिनरतर्क्यप्रभ्रसंभारकस्य,  
प्रतिदिनमभिलग्नो देशकल्याणसिद्धौ ॥१०४॥

इति सर्वतत्रस्वतन्त्रपरमहृत्सपरिभ्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे  
द्वितीयः सर्गः

इस प्रकार से प्रशंसनीय प्रयत्नों द्वारा, समझदार समझ सर्वे ऐसा शुद्ध जवाब सरकारके आदिभियोंके प्रश्नोंका देकर स्वयं देश-के कल्याणमें प्रतिदिन सलग्न रहते थे ॥ १०४ ॥

इति श्रीपरमहृत्सपरिभ्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारवराष्ट्रभाषाटोकाया  
द्वितीयः सर्गः



## तृतीयः सर्गः

उपोषणप्रवृत्तस्य मोहनस्य सतीशित्या ।  
सेयायां निरता पत्नी कस्तूराम्बा प्रतिक्षणम् ॥ १ ॥

जब श्री महात्माजी आगाखॉमहलमें उपवास कर रहे थे उस समय सतीशिरोमणि श्री कस्तूर बा उनकी सेवामें सदा लगी रहती थीं ॥ १ ॥

दयनीयां दशां दृष्ट्वा तदानीं श्रीमहात्मनः ।  
शोकातुराभवत्सद्यो हृद्रोगेण पराजिता ॥ २ ॥

उस समय महात्माजीकी करुण दशा देखकर वह बहुत शोकातुर थीं और तबसे उन्हें हृदयरोग हो गया ॥ २ ॥

उपवासे समाप्तेसौ महात्मा स्वास्थ्यमाभजत् ।  
कथञ्चित्सापि निःशोका समजायत वन्दिनी ॥ ३ ॥

उपवास पूरा होनेपर श्री महात्माजी स्वस्थ बने और तब श्री कस्तूरबा भी किसी किसी तरह शोकसे छुटकारा पायीं ॥ ३ ॥

परं तस्याः स हृद्रोगो वृद्धिमेव शनैः शनैः ।  
अभजत्क्षीणकायायां सत्यमूयायां भयङ्करः ॥ ४ ॥

परन्तु उनका शरीर क्षीण होने लग गया था और वह भयङ्कर रोग धीरे धीरे बढ़ता ही गया ॥ ४ ॥

श्रुतिश्रुतिप्रह्वन्नहमितेवदे यैश्वे सती ।  
पेन्नुवर्याश्च सप्ताहे सान्तिमेतीव पीडिता ॥ ५ ॥

१९४४ ई० के फरवरी महीनेके अन्तिम सप्ताहमें वह बहुत पीडित हुईं ॥ ५ ॥

मुञ्चोला श्रीमती यैशा मनुगाधिं कुमारिका ।  
श्रीमञ्जयप्रकाशस्य धर्मपत्नी प्रभावती ॥ ६ ॥

श्रीमीरा गिल्डरः श्रीमान् स्वयं बापू च सर्वदा ।

अभ्याया नियता आसन्परिचर्यापरायणाः ॥ ७ ॥

श्री० डाक्टर सुर्वाल, श्री० कुमारी मनुगाभी, श्री जयप्रकाशनारायण-  
की धर्मपत्नी श्री प्रभावती, श्री मीराब्रह्मिन, श्री० डाक्टर गिल्डर और  
स्वयं श्री महात्माजी बाकी सेवामें नियुक्त थे ॥ ६-७ ॥

जगदभ्या महावृद्धा विषमज्वरपीडिता ।

असह्यां वेदनां यद्वा तद्वा शान्त्या व्यपोढि सा ॥ ८ ॥

बाका शरीर वृद्ध था । निमोनियासे पीडित थीं । उक्त अछूत  
वेदनाको जैसे-तैसे वह सहन करती थीं ॥ ८ ॥

बन्दिशाला सिवं राज्यं युद्धकालश्च शत्रुता ।

बन्धनानि बहून्यासन्संचेतुभगदादिकम् ॥ ९ ॥

जेलखाना, अंग्रेजी राज्य, युद्धका समय ( सत्याग्रह ) अंग्रेजोंके मनमें  
शत्रुता, यह सब बहुतसे बन्धन थे दवा, डाक्टर आदि इकट्ठा  
करनेमें ॥ ९ ॥

येन केन प्रकारेण संचिता औषधाद्यः ।

उपचारश्च संजातः श्रीमदम्बाज्वरापहा ॥ १० ॥

किसी-किसी प्रकारसे डाक्टर, वैद्य, औषधि सब प्राप्त हुए और बा-के  
द्वारको दूर करनेके लिये उपचार भी हुआ ॥ १० ॥

आनर्थक्यं परं जातं कोप्युपायः पफाल नो ।

सर्वङ्गपं हि देवस्य को वाधेत समीहितम् ॥ ११ ॥

परन्तु सत्र निरर्थक हुआ । कोई भी उपाय फलीभूत नहीं हुआ ।  
सच है, ईश्वरकी इच्छा सबसे बलवती है, उसे कोई रोक नहीं  
सकता ॥ ११ ॥

निद्रा च नयते त्यक्त्वा मनः शान्तिर्विहाय च ।

गते एव समस्तायां तनी व्याकुलतावृषत् ॥ १२ ॥

निद्रा ओंलें छोडकर खली गयी । शान्ति मनको छोड गयी । सारे शरीरमें व्याकुलता बढ गयी ॥ १२ ॥

न्युमोनिया जन्तुघयो ववृधे परितोम्बिकाम् ।  
ततस्तत्र यतीशस्य स्थितिर्नेष्टा भिपद्भ्रते ॥ १३ ॥

बा के चारोंओर न्युमोनियाके जन्तु बहुत बढ गये थे । महात्माजीको उन जन्तुओंका ससर्ग न होने पावे, इस दृष्टिसे डाक्टर चाहते थे कि यह बाके पास बहुत न आवें ॥ १३ ॥

द्वापष्टिं शरदो यावद्या छायेव व्यतिष्ठत ।  
सविधे सर्वदा तस्याः सान्निध्यं स कथं त्यजेत् ॥ १४ ॥

६२ वर्षोंतक जो बा उनके साथ छायाके समान रही हैं उनका सान्निध्य यह कैसे छोड सकते थे ? ॥ १४ ॥

हस्ते कृत्वा स्थिता नाडीमम्बिकाया महाभिपक् ।  
सुशीला दिवसं यावत्तद्व्यथाविह्वलान्तरा ॥ १५ ॥

डाक्टर सुशीला सारे दिवस बाकी नाडीपर हाथ रखकर, व्याकुल होकर बैठी थीं ॥ १५ ॥

रोगाक्रान्ता महादेवी नैर्वल्येन समन्विता ।  
तदानीं कोपना भूता सा शान्तापि स्वभावतः ॥ १६ ॥

उस समय बा रोगाक्रान्त थीं, निर्बलता बढ गयी थी अतः वह यद्यपि शान्तस्वभावनी थीं तथापि क्रोधवाली हो गयी थीं ॥ १६ ॥

महात्मा शिग्धया चात्वा तस्याः पार्श्वे स्थितोऽब्रवीत् ।  
शान्ता भव जहि क्रोधं रोगवृद्धेर्हि कारणम् ॥ १७ ॥

महात्माजी उनके पास बैठकर मधुर वचनसे बोले कि तुम क्रोध छोड दो, शान्त बनो । क्योंकि क्रोध अवश्य ही रोग बढ़ावेगा ॥ १७ ॥

अन्तरेण प्रकोपेण स्थिरा त्वं न भवेद्यदि ।  
तत्प्रुष्य मष्टमेव त्वं स्थिताय तव सन्निधौ ॥ १८ ॥

यदि तुम क्रोधके बिना स्थिर नह रही सकती हो तो मैं तुम्हारे पास  
बैठा हूँ। मेरे ऊपर क्रोध करो ॥ १८ ॥

आरभ्य ह्यल्लनात्कालात्त्वमम् रामपरायणा ।  
तेन वाद्य ममात्यन्तमन्तरात्मा प्रसीदति ॥ १९ ॥

कहते तुम रामनाम बपने लग गयी हो इससे वा—मेरा अन्तरात्मा  
अत्यन्त प्रसन्न हो गया है ॥ १९ ॥

हृदये रामनामैव समहृदय सुखिनी भव ।  
तदेव परमं दिव्यमौषधं रोगनाशनम् ॥ २० ॥

हृदयमें रामनामको अक्षित करके तुम सुखी बनो। रामनाम ही  
रोगनाशक दिव्य औषध है ॥ २० ॥

जीवन्निष्यति रामश्चेत्जीविष्यात् शतं समाः ।  
अनुसृत्यान्यथा तस्य कर्म गन्तास्य आदरात् ॥ २१ ॥

यदि राम बिश्रामेण तो हम १०० वर्ष तक जीवेंगे, नहीं तो उसकी  
इच्छाका अनुसरण करके आदरसे घले चारोंगे ॥ २१ ॥

अन्येन प्रेरितो रोगी सेवते सर्वमौषधम् ।  
दुःखितोपि निराशोपि न स्वयं तत्समीहिते ॥ २२ ॥

रोगीको जब कोई अन्य प्रेरणा करता है तभी वह औषध सेवन  
करता है। वह मले दुखी हो, निराश ही परन्तु स्वयं दवा नहीं  
चाहता है ॥ २२ ॥

इदानीं त्वामहं यच्चि संत्यक्तुं सर्वमौषधम् ।  
दधाना स्वं मनो रामे सर्वमैराद्य विस्मर ॥ २३ ॥

मैं तुम्हें अब करता हूँ कि सब औषधि छोड़ दो। राममें अपने  
मनको त्यागकर सब कुछ भूल जाओ ॥ २३ ॥

पुत्रान्सम्बन्धिनोन्यान्वा यत्किञ्चिद्वस्तु वा प्रियम् ।  
विस्मृत्य निखिलं कृत्स्नं मा त्वं स्मार्पाममापि वा ॥ २४ ॥

पुत्रोंको, अन्य सम्बन्धियोंको अथवा किसी प्रिय वस्तुको, सब कुछ सम्पूर्ण भूलकर मुझे भी भूल जावो ॥ २४ ॥

भ्रमणाय बहिर्गन्तुं महात्मानं समुद्यतम् ।  
उपदेशमुधापानवृत्ता सा तं न्यवर्तयत् ॥ २५ ॥

बापूजीके उपदेशरूप अमृतपानसे तृप्त होकर, भ्रमणके लिये बाहर जानेको जब बापूजी तैयार हुए, तो बाने रोक दिया ॥ २५ ॥

तत्पर्यङ्के सनीडेसौ तस्याः शान्त्या ह्युपाविशत् ।  
सुप्ता क्रौडे शिरस्तस्य निधाय परमेश्वरी ॥ २६ ॥

महात्माजी बा के पलंगपर बाके पास शान्तिसे बैठ गये तथा बा उनके गोदीमें तिर रखकर सो गयीं ॥ २६ ॥

स्नानार्थं च तदा वापू गतवाञ्छोकसंकुलः ।  
मुशीला श्रीमदम्यायाः सन्निधानमसेवत् ॥ २७ ॥

बापूजी शोकातुर बने थे । स्नानके लिये गये । डाक्टर मुशीला बाके समीपमें बैठ गयीं ॥ २७ ॥

तस्या अह्येपि सा सुप्ता जगन्माता महेश्वरी ।  
स्मरन्ती हृदये रामं चक्षुषी संनिमील्य च ॥ २८ ॥

या डाक्टर मुशीलाजी गादमें भी सो गयी । आँखें बन्द करके हृदयमें रामका स्मरण कर रही थीं ॥ २८ ॥

या पप्रच्छ क्षणेनेति मुशीले मृत्यनन्तरम् ।  
ए गमिष्यामि घस्त्यत्पा किं भविष्यति मे ततः ॥ २९ ॥

भी० बाने तुरन्त ही पूछा कि, मुशीला, मरनेके बाद मैं कहाँ जाऊँगी और उसके बाद क्या होगा ? ॥ २९ ॥



धीर भव जगन्मातर्मा स्म भूर्दुःखविद्धला ।

सर्व एव गमिष्यामः क्रमज्ञो रामधाम तत् ॥ ३० ॥

वा, आप धैर्य रखें। दुःखसे व्याकुल न बनें। हम सभी क्रमज्ञः-  
धामों पाँछे, रामके उस नित्य धाममें पहुँचेंगे ॥ ३० ॥

न रागो यत्र नो मोहो न शोको न विरोधिता ।

परमानन्दसन्दोहं धामास्माकं भविष्यति ॥ ३१ ॥

जहाँ न तो राग है, न मोह है, न शोक है, न विरोध है वह परमानन्द  
धाम हमारा निवासस्थान होगा ॥ ३१ ॥

जरामरादिरहितं दिव्यदेहमनन्धरम् ।

अवाप्य परमानन्दस्वरूपा त्वं भविष्यसि ॥ ३२ ॥

वा, "जरा और मरगसे रहित अग्निनाशो दिव्यदेहको प्राप्त करके  
आप परमानन्दस्वरूप बनेंगी ॥ ३२ ॥

स्नातुं प्रार्थयितुं देवं श्रीसुशीला वहिर्ययी ।

देवी प्रभावती तत्र समतिष्ठत सेवया ॥ ३३ ॥

श्री डा० सुशीला स्नान और प्रार्थनाके लिये बाहर चली गयी।  
श्री प्रभावती देवी सेवाके लिये वहाँ बैठी ॥ ३३ ॥

नित्यक्रियां समाप्यासी सुशीला पुनरागतत् ।

तत्र प्रभावती याता भोजनाय विपादिनी ॥ ३४ ॥

स्नानादि नित्यक्रिया पूरी करके डा० सुशीला पुनः वहाँ आ गयी  
और श्री० प्रभावती देवी भोजन करने गयी ॥ ३४ ॥

वापू तत्र समायातो दीनशामेहता तथा ।

देवदासः समाहूतः सपदि प्राप दुःखिनः ॥ ३५ ॥

श्री बापूजी वहाँ आये। डा० दीनशा मेहता आये। श्री देवदास  
गापीको बुलाया गया, वह भी दुःखित होकर भी आ गये ॥ ३५ ॥

देवदाससमानीतं गाङ्गेयं घारि निर्मलम् ।

यतिना वामुखे क्षिप्तं चमसेन शनैः शनैः ॥ ३६ ॥

श्री देवदासगाधी गङ्गाजीका जल ले आये थे । बापूजीने उसे बाके मुखमें चमचसे धीरे धीरे डाला ॥ ३६ ॥

जगद्मवाल्पकालेन निमील्य निजचक्षुषी ।

ईश्वरप्रार्थनां कर्तुं जिह्वां श्रान्तामलोलयत् ॥ ३७ ॥

थोड़ी देरके बाद श्री० बाने आँखें बन्द कर लीं । जीभ थक गयी थी परन्तु ईश्वर प्रार्थनाके लिये बाने उसे हिलाया ॥ ३७ ॥

कृपालो राम भक्तिं ते प्रेम चापि निरन्तरम् ।

याचेस्मिन्नन्तिमेकाले पूरयस्व मनोरथम् ॥ ३८ ॥

श्री बाने प्रार्थनाकी कि हे कृपालु राम अब तो केवल तेरी भक्ति और तेरा प्रेम ही सतत मुझे चाहिए । इस अन्तिम क्षणमें यही मांगती हूँ । मेरा मनोरथ पूर्ण करो ॥ ३८ ॥

उदार करुणासिन्धो मया सर्वज्ञ नित्यशः ।

आकण्ठं केवलं मुक्तं पशुवत्तत्क्षमस्व माम् ॥ ३९ ॥

हे उदार, हे दयाके सागर, हे सर्वज्ञ, मैंने हमेशा पशुओंके समान पेट भर भरकर खाया है । आप मुझे क्षमा करेंगे ॥ ३९ ॥

स्वरेण करुणेनाम्ना बापूजीत्यश्वरथम् ।

व्यकृतातः प्रभावत्या समाहूतो चर्तीश्वरः ॥ ४० ॥

श्री० बाने इतना स्वरसे "बापूजी" हूँ तीन अश्वरोंका एकबार उच्चारण किया । अतः प्रभावती देवनि बापूजीको बुलाया ॥ ४० ॥

आजगाम यतीशोर्त्सी सपत्नीव कृपानिधिः ।

संदरभे संनिर्धां तस्याः शान्तिस्तस्या अजायत ॥ ४१ ॥

दयालु यतिराज धर्म ही पदाँ आये और बाके पाठ बैठ गये । बाकी शान्ति हुई ॥ ४१ ॥

किं भवतीति पृष्टा सा न किञ्चिद्वचुष्यते ।

इत्युक्त्वोत्थाय तस्याङ्घ्रेपतदाच्छिन्नजीवना ॥ ४२ ॥

बापूजिने पूछा कि "क्या होता है" ? बाने उत्तर दिया "कुछ समझाता नहीं है" । इतना कहकर, उठकर, बापूजीकी गोदमें पड़ गयीं । जीवन टूट चुका था ॥ ४२ ॥

मासे प्रेक्षुअरीत्याख्ये सायं द्वारिंशके त्रिथौ ।

सप्तहोरेत्यजत्प्राणान्पञ्चत्रिंशत्पञ्चाधिके ॥ ४३ ॥

ता० २२-२१९४४ को सायंकाल ७-३५ बजे बाने शरीरका त्याग कर दिया ॥ ४३ ॥

एव ख स्याक्षिमिते संवद्वेक्रमे फाल्गुने शिवे ।

शिवरात्रौ तनुं त्यक्त्वा शिवतां प्रापदम्बिका ॥ ४४ ॥

फाल्गुन मास शिवरात्रिकी रात्रिमें ( २००० वि० सबत् ) शरीर त्यागकर वा कल्याण पदको चली गयीं ॥ ४४ ॥

महादेवस्य सविधे निद्रास्यामीति तद्वचः ।

वभूव सफलं साद्य निद्रास्यति तदन्तिके ॥ ४५ ॥

बा कहती थीं कि मैं तो महादेव माईके पास ही सोऊँगी । उनका यह वचन सफल हुआ । वह आज उन्हींके पास ही सोवेंगी ॥ ४५ ॥

यतिराजः सुशीला च घर्भशीला प्रभावती ।

पल्पूलनं समादाय शवस्नानभकारयन् ॥ ४६ ॥

श्री महात्माजी, डा० सुशीलाजी, और प्रभावती देवीने सावू लेकर शवको स्नान कराया ॥ ४६ ॥

यतिराजस्वहस्तेन निर्मितैः सूत्रसंचयैः ।

समुतां शाटिकां दिव्यां तत्तनौ पर्यधापयत् ॥ ४७ ॥

महात्माजीने अपने हाथोंसे सूत्र काता था । उसीकी साड़ी बनाकर

रखी हुई थी। उसी दिव्य साडीको बाके शरीर पर धारण कराया गया ॥ ४७ ॥

मश्रूवाला मनुदेवी शुक्लमैरलिपत्तनुम् ।  
विशाले भालपटले चान्दनं तिलकं दधौ ॥ ४८ ॥

श्रीमनु मशरूवालाने बाके शरीरपर शुक्लमका लेप किया। विशाल मस्तकपर चन्दनका तिलक किया ॥ ४८ ॥

यशस्विनी मनुः सैव जगदम्बा महासतीम् ।  
आराविषेन तां घन्यामन्तिमेन समार्चयत् ॥ ४९ ॥

उन्ही मनु मशरूवालाने महासती जगदम्बाकी अन्तिम आर्तसे पूजा की ॥ ४९ ॥

धौमीरा मुषया धीरं चतुष्कं तत्र संव्यधात् ।  
ओमुजरस्यामाश्रयां दक्षिणस्यां च स्वस्तिषम् ॥ ५० ॥

धौमीराकाने चतुष्के एक पदा चौक बनाया था। उसमें उत्तर दिशामें ओ और दक्षिण दिशामें स्वस्तिष बनाया था ॥ ५० ॥

सप्रेमप्रान्दप्र रामेति ह्यलिखत्स साद्वक्षरैः ।  
तदा राममयी सर्वा सयैर्भूमिरदृश्यत् ॥ ५१ ॥

अप्यव गर्भा इतिह सुदर आरोगे उद्योगे "राम" लिख दिया। उस समय सर्वा देखा कि पृथिवी राममय हो गई थी ॥ ५१ ॥

पृथिवीममृणादेवचन्द्रिहालीयथासता ।  
नमोऽर्चि महादेव्या घन्यं शयमशोभत् ॥ ५२ ॥

पृथिवी पर अमृणादेवी चान्दर बिठा दी गयी और उन्ही पर चन्दरी चन्द्रको मुखा दिया गया ॥ ५२ ॥

आरात्रि तत्र रामभूर्गंगानाट प्रियमवर्तैः ।  
शङ्कामध्वनि शशं शान्तरं पर्य्यदृश्यत् ॥ ५३ ॥

सारी रात मधुर स्वरसे गीता पाठ होता रहा । रामनाम की धुन से सारा आगाखौं महल मर गया ॥ ५९ ॥

शयं वेष्टयितुं शुद्धां खादीमानाययत्तदा ।  
कटेली चतिराजस्य सविधे तामवापयत् ॥ ६० ॥

मि० कटेलीने देहको लपेटनेके लिये शुद्ध खादी मैंगानी थी और वह महात्माजीके पास पहुँचायी गयी ॥ ६० ॥

केपामपि दरिद्राणामुपयोगाय सा भवेत् ।  
इत्युक्त्वा स महानात्मा दाहनात्तामरश्चयत् ॥ ६१ ॥

यह खादी किसी गरीबके काममें आवेगी ऐसा कहकर महात्माजीने उसे चलानेसे बचवा लिया ॥ ६१ ॥

काष्ठैर्मलयजैः कर्तुं चित्तां श्रीमद्यतीश्वरम् ।  
श्रीमती प्रेमलीलासाग्न्ययुहृक्त जगाद् सः ॥ ६२ ॥

चन्दनकाष्ठसे चिता बनानेकेलिये श्रीमती प्रेमलीला टाकरमाने श्रीमहात्माजीको पूजा । उन्होंने कहा कि— ॥ ६२ ॥

दीनान्द्रघुं वयं शक्ताः काष्ठैर्यदि न चान्दनैः ।  
कथं धक्ष्यामि तैस्तर्हि दीनदीनस्य मार्षिकाम् ॥ ६३ ॥

जब हम गरीबोंको चन्दनकी लकड़ीसे नहीं बल्ल सकते तो मैं तो गरीबोंसे भी गरीब हूँ, अर्थात् धर्मपत्नीको चन्दनसे कैसे चलाऊँ ? ॥ ६३ ॥

केटलो राजपुरुषः प्रोवाच विनयानवः ।  
उन्नं विष्टाव मत्पादर्थे चान्दनं विटपिद्वयम् ॥ ६४ ॥

श्रीकेटलीने नम्रतासे कहा कि उनके पास चन्दनके दो बट्टे हुए वृक्ष पड़े हैं ॥ ६४ ॥

यदि तस्मोपयोगाय कृपया भक्तवत्सलः ।  
भवांश्चेदनुजानातु मुदाहं तत्समर्पये ॥ ६५ ॥

यदि आप कृपाकर उसके उपयोगके लिए प्रसन्नतासे आज्ञा दें तो मैं लाकर अर्पण करूँ ? ॥ ६५ ॥

अन्तन्तः शासनेनैव व्यवस्था निखिला इह ।

कर्तव्येति तथा कर्तुं तमाज्ञापयदीश्वरः ॥ ६६ ॥

अन्ततो गत्या तो सरकारको ही सब व्यवस्था करनी है, ऐसा कहकर श्रीमहात्माजीने उन्हें वैसा करनेकी आज्ञा दे दी ॥ ६६ ॥

द्वितीयस्मिन्दिनेन्त्येष्टिक्रिया सम्पादिताभवत् ।

श्रोत्रियैर्ब्राह्मणैः श्रौतमार्गणैव यथायथम् ॥ ६७ ॥

दूसरे दिन श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके द्वारा वेदमार्गके अनुसार योग्यरीतिसे अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई ॥ ६७ ॥

गाँधी जयसुखलाल कनुगाधिस्तथैव च ।

कमलनयनः शान्तिकुमारोरचयञ्चिताम् ॥ ६८ ॥

श्रीजयसुखलाल गाधी, श्रीकनुगाधी, श्रीकमलनयन बजाज, श्रीशान्ति-कुमारने चिता बनायी ॥ ६८ ॥

प्रथमं वेदविधिना मातुर्देहः प्रपूजितः ।

ततश्चित्तार्या संस्थाप्य यतिर्मन्त्रानवोचत ॥ ६९ ॥

पहले वेद विधिसे बा के शरीरकी पूजा की गयी । पश्चात् चितापर देहकी रखकर महात्माजी मन्त्र बोलने लगे ॥ ६९ ॥

सार्धं शवेन तत्रासीत्वाचकङ्कणपञ्चकम् ।

संस्थापितं महाभागासौभाग्यं परिचायकम् ॥ ७० ॥

शयके साथ ही चितापर सौभाग्यवतीके चिह्न स्वरूप काँचकी पाँच चूड़ियों भी रखी गयीं ॥ ७० ॥

गाधिना देवदासेन चान्दने हि ज्ञापासने ।

अग्निरापीयत श्रौतमन्त्रैर्मौद्गिनिना तदा ॥ ७१ ॥

मौद्गलिः—श्रीमहात्माबीके पुन भीदेवदासगार्पिने वेदमन्त्रोंके साथ चन्दनकी चितामें अग्न्याधान किया ॥ ७१ ॥

देहो दग्धो गता देहसम्बन्धाः सकलस्तदा ।

तदाध्यात्मिकसम्बन्धश्चिरं स्थास्यति भूतले ॥ ७२ ॥

देह बल गया । समस्त देहसम्बन्ध भी चले गये । परन्तु उनके साथका आध्यात्मिक सम्बन्ध चिरकाल तक पृथिवीपर रहेगा ॥ ७२ ॥

मयि लीनाभवत्साद्य मदीया चिरसद्भिनी ।

इत्युवाच महातेजा यतिराजो ययौ ततः ॥ ७३ ॥

“आज वर मेरी चिरसद्भिनी मुझमें लीन हो गयी” कहकर महातेजसी यतिराज श्रीमहात्माबो बहसि चले गये ॥ ७३ ॥

द्वितीयस्मिन्दिने शान्ते चित्तमस्मनि संचिते ।

पश्चापि प्रकृतिस्थानि काचानां कङ्कणानि च ॥ ७४ ॥

दूसरे दिन जब चित्त टढ़ी हुई और मन इरट्टा किया गया तब वर पक्षों ही चूड़ियों ज्योंकी त्यों मिली ॥ ७४ ॥

न द्रुवानि न भिन्नानि न स्फुटानि च कुप्रचित् ।

अद्भुतानि च तान्याप रघुनाथः प्रभावती ॥ ७५ ॥

वह न तो गन्धी थी, न डुकड़े-डुकड़े हुई थी न तो कहीं फूटी अथवा लटकी थी । श्री रघुनाथ और श्रीप्रभावती बहिनको यह मिली थी ॥ ७५ ॥

महादेवो यातः परमयमिनः पङ्कजपद-

द्वयी सेवित्वासायजरममरं शादचतपदम् ।

शिष्या कस्तूराम्बा यतिपतिगतेनैव मुपया,

सदा याम्नी तस्मिन्नमपदिह लीना यतिपती ॥ ७६ ॥

इति सर्वतत्त्वव्युत्तरमहसरित्वाजकृष्णामिधोमद्गवदावापैरगिद्वततत्रप्रगांते

पारिजातसौरभे

तृतीयः सर्गः

श्री महात्माजीकी चरण सेवा करके श्रीमहादेव भाई अजर, अमर, शाश्वत धामको प्राप्त हो गये । परमकल्याणी श्रीकस्तूराम्बा अपने समस्त जीवनमें उन्हीं मार्गसे जाती रहीं, जिससे महात्माजी जाते थे । और अन्तमें वह उन्हींमें लीन हो गयीं ॥ ७६ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे स्वोपश्रुताभापाटीकायां  
तृतीयः सर्गः





## चतुर्थः सर्गः

जयप्रकाशस्य महाप्रिया सती प्रभावती स्वल्पदिनैर्महात्मनः।

वियुज्य सा भागलपूरबन्धनालयं गमिष्यत्यतिदुःखसागरम् ॥ १ ॥

श्रीजयप्रकाश नारायणकी पत्नी श्रीप्रभावती देवी योड़े ही दिनोंमें महात्माजीसे वियुक्त होकर भागलपूर जेलमें जायेंगी जो अत्यन्त दुःखपूर्ण है ॥ १ ॥

वियोगजन्यामविपद्यवेदनां कथं सहिष्ये नु यती यतीश्वरात् ।

विचार्यसेतन्मनसा मनस्विनी गता विपादं न विपादिनी क्वचित् ॥ २ ॥

महात्माजीके पाससे जाती हुई मैं वियोगजन्य असह्यवेदनाको कैसे सहन करूँगी, ऐसा मनमें विचारकर, जो कभी विपाद नहीं करती थी वह विपादको प्राप्त हुई ॥ २ ॥

यतीश्वरः प्राह गमस्त्वय स्थलादितो मनो मेतिदुनोति तत्त्वतः ।

परं गतिस्ते तव लाभदायिनी तपस्विता त्वां परिचारयिष्यति ॥ ३ ॥

मापूजी बोले कि, तुम्हारा यहाँसे जाना मुझे भी दुःख प्रतीत हो रहा है । परन्तु तुम्हारा जाना तुम्हारे लिये लाभदायक है । अब तपस्विता तुम्हारी सेवा करेगी, अर्थात् अबसे तुम तपस्विजीवन व्यतीत करोगी ॥३॥

इहास्ति किञ्चिन्न विपत्करं तव प्रसादलाभाय च वस्तु विद्यते ।

समस्तमत्रेति न जीवनं तपस्तपेत्कदापीतितु नास्ति शङ्करम् ॥ ४ ॥

यहाँ कोई दुःख नहीं है । प्रसन्नता—आनन्दकेलिये यहाँ सब वस्तु उपस्थित है । अतः जीवन कभी तपोमय नहीं बन सकता; यह अच्छा नहीं है ॥ ४ ॥

विहाय हर्म्यानुगतं स्वजीवनं प्रपद्य किञ्चिद्विपदन्विते स्थले ।

प्रपत्त्यसे त्वं ह्यनुभूतिसंकरं ततो यत्परिभविता मनस्यलम् ॥ ५ ॥

महलके अपने जीवनको छोड़कर, किसी दुःखमय स्थान में जाकर, तुम अनेक प्रकारके अनुभवोंको प्राप्त करोगी । इससे तुम्हारा मानसिक बल बढ़ेगा ॥ ५ ॥

विहारशास्ता यदि बन्धनालयाद् विमोक्षणं ते विदधातु सत्वरम् ।  
तदा त्वया किं करणीयमित्यहं न वक्तुमौत्सुक्यमुपाददेधुना ॥ ६ ॥

यदि विहार सरकार तुमको शीघ्र ही जेलमेंसे छोड़ दे तो तुमको क्या करना चाहिये, यह मैं आज नहीं कह सकता ॥ ६ ॥

न वेद्मि वातावरणं बहिः स्थितं स्थितोत्र काराभवने चिरेण तत् ।  
बहिर्गतान्यान्मतिशालिनो बहून् जनानुपेत्य स्थितिमाशु संचिनु ॥ ७ ॥

बाहर कैसा वातावरण है, मैं इसे यहाँ जेलमें चिरकालसे रहनेके कारण जानता नहीं हूँ । यदि तुम बाहर जावो—अर्थात् सरकार तुमको छोड़ दे तो बुद्धिशाली लोगोंके पास जाकर स्थितिको समझो ॥ ७ ॥

भयन्ति ये तत्र च कार्यवाहका भवन्ति मिथ्याणि च यानि ते तदा ।  
गृहाण तेषां मुमतिं च संमतिं ततो यथायोग्यमुपास्त्व सत्कृतिम् ॥ ८ ॥

वहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, उनकी मुमति और सम्मति प्रदण करना । पश्चात् कोई योग्य अच्छा काम करने लग जाना ॥ ८ ॥

ततो विनीता सितराजकिष्कुरैस्ततश्च नीता सरला प्रभायती ।  
पदान्तिफाच्छ्रीमद्वितान्महात्मनो विहारदेशीयनिबन्धनालयम् ॥ ९ ॥

उसके पश्चात् अंग्रेज सरकारके नौकर विनीत और सरला भी प्रभावती बहिनको महात्माजीके पूज्य शरणोंकी अनिधिमेंते भागलपुर ले गये ॥ ९ ॥

समुद्रवेदमहत्सर्वदेयतामिते गिरिस्तीयमते हि पत्सरे ।  
अनुपममासे द्विदशे तिथौ स्यसा प्रभायती श्रीयतितो ध्ययुज्यत ॥ १० ॥

तादीप दो, अप्रैल महीना और उर्जास यो घोयालीस ई० एनमें प्रभावती बहिन भीमहात्माजीसे अलग हो गयीं ॥ १० ॥

ततस्तृतीयेहनि देवतात्मको मलेरियाख्येन गदेन पीडितः ।  
महान्मर्त्यः सहसा ततः शनैः शनैर्बभूवातिरुशोतिदुर्बलः ॥११॥

तीसरे दिन ता० १४-४-१९४६ ई० को महात्माजीको अकस्मात् मलेरिया हो गया और उससे धीरे-धीरे यह बहुत कुछ अत एव निर्बल हो गये ॥ ११ ॥

दिने च पट्टेवद्देप नायकः पियारलालं मनुगाधिरेपिका ।  
इहागमद्वापरिचर्यया गता विहाय सास्मात्परिचारिका निजाः ॥१२॥

छठे दिन ता० २०-४-४६ ई० को महात्माजी श्रीप्यारेलालजीसे कहने लगे कि यह मनु गांधी तो वा की सेनाकेलिये यहाँ आयी थी । वा तो सब अपनी परिचारिकाओंको छोड़कर चली गयी ॥ १२ ॥

न सेवितुं मामिह सा समागता निरीक्ष्यतेस्या न ततः प्रयोजनम् ।  
ततश्च तस्या गमनं हितप्रदं प्रतीयते मे हृदयेनुपदयतः ॥१३॥

वह मेरी सेवाके लिये तो आयी ही नहीं थी अतः अब उसका यहाँ प्रयोजन नहीं देख रहा हूँ । मैं मनमें विचार करता हूँ तो उसका यहाँसे जाना ही हितकारक मालूम होता है ॥ १३ ॥

विचारितं पूर्वतरं मया पुनः स्थितेह सा स्वाद्य मयैव पाठिता ।  
परं रुजा क्षीणमना भ्रमन्नहं तथा न कर्तुं क्षमतां दधेधुना ॥१४॥

घरुत पहले मैंने दिवार किया था कि वह यहाँ रहे और मैं ही उसे पढ़ाऊँ । परन्तु इस रोगसे मेरा मन कमबोर हो गया है अतः अब मैं उसे पढ़ानेमें अक्षम हूँ ॥ १४ ॥

इहावदद्दुर्गमहं मलेरिया न मत्समीपेपि समागमिष्यति ।  
गतो मद्गो मे मनसाद्यलोभवं सदैव सा निर्मलमेव वाचते ॥१५॥

मुझे गर्व था कि यहाँपर मलेरिया जर मेरे पास भी नहीं आवेगा । परन्तु मेरा मद् बला गया । मैं मनसे कमबोर बन गया । कमबोर ही मलेरियासे दूरान होता है ॥ १५ ॥

मनो हि यस्यास्ति नियन्त्रितं परं रुजा विहीनं च कदाप्यसौ न हि ।  
निरामयत्वाच्च्युतिमेत्य संपतेद्ब्रुदाधिकारे सहसा महाबलः ॥१६॥

जिसका मन नियन्त्रण में रहता है और जो सदा रोगरहित रहता है वह कभी भी नीरोग दशासे गिरकर रोगके अधिकारमें अकस्मात् नहीं आ पड़ता ॥ १६ ॥

अहं समुन्नम्य पतन्निधास्मि तन्मदीयचेतो विकलं भवत्यलम् ।  
दशामदम्यां मनसो ममाद्य नो विदन्ति केचित्सहस्रासिनो जनाः ॥१७॥

मैं ऊँचे जाकर नीचे गिर रहा हूँ, ऐसा मुझे मालूम होता है ।  
अतः मेरा मन अत्यन्त विकल रहता है । मेरे मनकी आज अदम्य  
दशाको मेरे कोई सहवासी नहीं जानते हैं ॥ १७ ॥

मुशीलयोचे न किमप्यहीयत किनाश्नेनैव निपातितो भवान् ।  
दिनेषु गच्छत्सु भवच्छरीरगं धलं मनोप्याशु फरिष्यते बलि ॥१८॥

डा० धीमुशीलाने कहा कि कुछ भी नहीं घटा है । किनाहन ने  
आपको इस तरह नीचे गिरा दिया है । कुछ दिनोंमें जब आपके  
शरीरमें बल आ जायगा तो आपके मनको भी बलवान् बनावेगा ॥१८॥

परं शरीरं नयलं भवेत्परं मनोयमं सन्दधदत्र नो यतिः ।  
रुजा ममात्रान्त इहातु संततं भतिर्मदीयेति मनस्यपुष्यत ॥१९॥

मले शरीर निर्बल हो जाय परन्तु मेरे मनमें सदा यह विचार परिष्क  
रणा है कि जो संयमी पुरुष मनकी संयम रखता है उसपर रोगका  
आक्रमण नहीं होना चाहिये ॥ १९ ॥

मनोरितः स्यात्परिपुर्तिता पुनर्नियन्धशालेति विमुक्तिरस्त्विति ।  
इयेष षाप् परमभुजाद्वयोर्मनोन्वयेधीरतमितं च सत्ततः ॥२०॥

महात्माश्रीजी इच्छा थी कि मनुगोपीजी फिरसे जेल बदली कर दी  
जाय अथवा पर छोड़ दी जाय । परन्तु मनु बहिनके आँगुथोने

महात्माजीको ऐजा करनेसे रोना, और इसलिये यह विचार स्थगित रहा ॥ २० ॥

अहन्यहन्यस्य शरीरभातुरं क्षणं क्षणं क्षीणत्रलं घभूय तत् ।  
सिताधिकारिष्वपि चिन्तया कृतं पटं स्वकीयं मरुलेषु सर्वथा ॥२१॥

महात्माजीका शरीर प्रतिदिन और प्रतिउग निर्मल होता जा रहा था अतः सभी अप्रेत्र अधिकारियोंके मनमें चिन्ता पैदा हो गई ॥ २१ ॥

विधानचन्द्रोपि समाजगाम तं परीक्षितुं बद्धमुग्धे यतीश्वरम् ।  
महाभिपक्षस्य च संमतिश्रुत्सिताङ्गचेतश्चलितं हि चिन्तया ॥२२॥

रङ्गालसे डॉक्टर विधानचन्द्रजी काजूनी परीक्षा करने आए। उनकी समतिकों मुनजर अप्रेब्रीका बिच चिन्तासे निचलित हो गया ॥ २२ ॥

उवाच भण्डारिमहाशयो यतिं भयस्थितिः स्यान्परिवर्तिता भवेत् ।  
स्थले कचिदोग्यवमे भयकृते विचार्यते शासनसूत्रधारिणा ॥२३॥

श्री भण्डारोंने आकर महात्माजी से कहा कि आपनेलिये किसी योग्यतम स्थानमें आपने स्थान परिवर्तनके विषयमें सकार विचार कर रही है ॥ २३ ॥

उवाच दीनार्तशिरोमणिलज्जा ध्वयो महानत्र घनस्य जायते ।  
मदर्थमेतेन च रोचतेघ मे स्थलान्तरं गन्तुमित्सद्विच्छया ॥२४॥

दीन दुखियोंके शिरोमणि महात्माजीने कहा कि दर्शर मेरे लिये घनका बहुत बड़ा व्यस हो रहा है अतः दूसरे स्थानमें सर्कारों इच्छासे ही जाना मुझे पसन्द है ॥ २४ ॥

इती महादेव इतोच्युतां गतिं ययापितो वा पुनरच्युताश्रयम् ।  
ततो मियाधाधितमेव शासनं विचारयत्यथ भ्रमान्यत्रो गतिम् ॥२५॥

फिर वह बोले, यहाँसे ही महादेव वैकुण्ठवासी बने और यहाँसे ही वा मी परगाम गयीं। अतः सर्कार मयके मारे ही मेरा अन्यत्र जाना विचार रही है ॥ २५ ॥

परं स्थलं चैतदतीव मे प्रियं प्रियो मदीयो वसतोत्र शाश्वतम् ।  
विहाय तावन्न गतिर्न रोचते कथंचनाप्यद्य हि मेतिरोगिणे ॥२६॥

परन्तु मुझे तो यह स्थल अत्यन्त प्रिय है । मेरे दो प्रियजन यहाँ ही सदाकेलिये निवास करते हैं । मैं अतिरोगी हूँ तो भी उन दोनोंको यहाँ छोड़कर जाना मुझे किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता है ॥ २६ ॥

जहत्यसौ वा जगदीयुपी परं प्रभोर्भहाधाम परं च तेन मे ।  
मनोतितुन्नं हृदयं स्फुटत्कथंचिदेव संरक्षितमायुपो बलात् ॥२७॥

बा तो इस जगत्को छोड़ती हुई प्रभुके परम धाममें पहुँच गयी हैं । परन्तु उससे मेरा मन बहुत व्यथित है । फटते हुए हृदयको किसी प्रकार आयुष्यके बलसे बचा रखा है ॥ २७ ॥

इदं तु सत्यं परमोत्तमां मृतिं गता हि सा तेन न शोच्यतां गता ।  
परं वियोगानल इष्टबान्धवान्दहत्यजस्रं नियतेति पद्धतिः ॥२८॥

यह तो सत्य है कि बा अत्युत्तम मृत्युको पायी हैं । अत एव वह शोक करने योग्य तो नहीं ही है । तथापि वियोगानि इष्ट बन्धुओंको छलाता ही है, यह नियत मार्ग है ॥ २८ ॥

सदेहनीयापि मयेहिता मृतिर्न तादृशी प्रार्थय ईश्वरं सदा ।  
षट्तिर्नयादवेय सजीवितं च मां परं क्रियाक्षेत्रमवापय प्रभो ॥२९॥

यद्यपि बा का मरण आदर्श मरण था । यह सब सत्याग्रहियोंकी इच्छा था विषय होना चाहिये; तथापि मैंने उसकी इच्छा नहीं की है । मैं तो भगवान्के सदा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जीता ही बाहर दीप ले जा और मुझे कार्य करनेकेलिये क्षेत्र भी प्राप्त करा ॥ २९ ॥

रुग्नादितोग्माद्यदि बन्धनालयाद्भजेद्बुद्धिः कोपि सदाग्रही भवन् ।  
अपश्यमेतद्भृदयत्रययाकरं भवेत्सदा तस्य मनो विलज्जितम् ॥३०॥

यदी कोई आशमी सत्याग्रही होकर, रोगसे पीड़ित होकर इस जलसे

बाहर जाय तो अवश्य ही यह बात उसके हृदयको दुःखित करेगी और उसका मन सदा लजित रहेगा ॥ ३० ॥

गतोपि कारानिलयाद्बहिः पुनः कृतिं करिष्यामि च कांसुशोभनाम् ।  
परिस्थितिः संकथितास्ति भारते सितास्तुदेयुः सततं सतां सृतिम् ॥३१॥

बाहर जाकर भी मैं क्या अच्छा काम करूँगा ? भारतकी परिस्थिति इस समय अव्यवस्थित हो गयी है । अंग्रेज अच्छे लोगोंके मार्गको पीड़ित करेंगे ॥ ३१ ॥

हठादिदं शासनमुद्यतं भवैद्विमोक्तुमस्मान्यदि वन्धनालयात् ।  
कृतं तदास्माभिरिहास्तु किंपुनर्न काशते कोपि च मार्गं ऊर्जितः ॥३२॥

यदि यह सत्कार हमको दृष्टसे छोड़ ही दे तो हम क्या कर सकते हैं ? कोई भी सुन्दर मार्ग नहीं दीख रहा है ॥ ३२ ॥

स पञ्चमे मासि च पञ्चमे तिथौ सदैव सर्वैरनुयायिभिर्विभुः ।  
चकार कर्णे निजमुक्त्युदन्तकं दिनावसाने व्यथितो यतीश्वरः ॥३३॥

तारीख पाँच मई १९४४ को दिनान्तमें श्री महात्माजीने सारे अनुयायियोंके साथ अपने छूटनेका समाचार दुःखके साथ सुना ॥ ३३ ॥

मनुर्महादेवसमाधिमन्वहं समेत्य कस्तूरसमाधिमप्यय ।  
सकम्पमभ्यर्थयते स्म मा स्म भूद्वियोगयोगो मुनिपादपद्मतः ॥३४॥

मनुबहिन गौरी रोज महादेव माई और श्री-कस्तूर बा की समाधिके पास जाकर प्रार्थना करती थीं कि बापूजीके चरगमलोंसे कभी वियोग न हो ॥ ३४ ॥

मनोर्महामोदकरो मनोरथोफलत्तदानीं सकलाशिर्षां च तौ ।  
पवित्रमावेण समर्चितो महाजनः फलं यच्छति दैवतापि वा ॥३५॥

मनुबहिनरा आनन्दप्रद वर मनोरथ सफल हुआ । श्री बा और महादेव माईका आशीर्वाद भी सफल हुआ । पवित्र मानसे महापुरुष

अथवा देवताकी पूजाकी गयी हो तो वह महापुरुष और वह देवता फल देते ही हैं ॥ ३५ ॥

निशम्य वृत्तान्तममुं यतीश्वरोभवन्महाव्याकुल एव मानसे ।  
यवाञ्छ नासौ निजरोगहेतुना स्वमोक्षमद्धा सितवन्दितां वहन् ॥३६॥

इस छुटकारेके वृत्तान्तको सुनकर महात्माजी हृदयमें अत्यन्त व्याकुल हो गये । क्योंकि अग्रेजोंके कैदी बने हुए वह अपने रोगके निमित्तसे मुक्ति चाहते ही नहीं थे ॥ ३६ ॥

महाविपद्रस्त इवावदन्मुनिः शिरश्च मे भ्राम्यति कम्पते तनुः ।  
यहिर्गते हन्त मयि प्रवत्स्यति प्रहार आपातत एव वागसेः ॥३७॥

किसी महाविपत्तिमें फँसे हुएके समान महात्माजी बोले कि मेरा सिर घूम रहा है । शरीर कांप रहा है । बाहर जानेपर पहिले तो बिना विचारके ही लोग मुझपर कटुचर्च प्रहार करेंगे ॥ ३७ ॥

गतः शमोघ प्रभृति श्रितो मया तटस्थता चापि गतैव मामिका ।  
अशान्तयातावरणेषु जीवनं कथं कथञ्चित्पुरतः प्रवत्स्यति ॥३८॥

यहाँ जो मुझे शान्ति मिली थी वह गयी । मेरी तटस्थता भी खली गयी । अशान्त यातावरणमें जीवन किसी-किसी प्रकार खलेगा ॥ ३८ ॥

स रोगशय्यामधिशिश्य आतुरो भवन्प्रतीतस्तत एव योगिराट् ।  
न विस्मृतं देहाहितं न दुःखतो भयस्य बाधास्पृशदप्यमुं न वा ॥३९॥

वह रोग शय्यापर पड़े थे अत एव आतुरके समान प्रतीत होते थे । परन्तुतः न तो वह देहाहितको भूले थे और न दुःखके भयकी बाधाने ही उनका खर्च किया था ॥ ३९ ॥

परेहनि धीपतिसंनिभप्रभो विरागरोपो महतां स पूजितः ।  
अमुच्यत श्वेतमहाधिकारिणा समस्तलोकैकमहामुहूर्धनः ॥ ४०॥

विष्णु समान कान्तिवाले, राग-श्रीपरहित महान् छोगोसे पूजित समस्त



लोकके एकमात्र सुहृन् श्री महात्माजी अधिकारियो द्वारा दूसरे दिन  
ता० ६-५-१९४४ को छोड दिये गये ॥ ४० ॥

गतो महात्मानिजपादर्यवर्तिभिः समाधिभूनावुभयोर्निजात्मनोः ।  
समर्च्य सर्वैः कुमुमादिभिः प्रियद्वयीसमाधी न्यवृतद्गलञ्जितिः ॥४१॥

महात्माजी अपने सभी समीपवर्ती बनोंके साथ अपने ही आत्म-  
स्वरूप दोनोंकी-महादेवमाई और बा की समाधिपर गये । सभीके साथ  
पुष्पादिने दोनों प्रियबनोंकी समाधिही पूजा करके, चेतना शक्ति बली  
जाती न हो, इस प्रकारसे लौट आये ॥ ४१ ॥

सर्वे लोका मुद्गितमनसा शुश्रुषांसो विमुक्ते-  
वृत्तान्तं तं परमयमिनो गांधिदेवस्य हृद्यम् ।  
द्रष्टुं स्म्राटुं चरणरुमले वन्दिशालामुराग्रे,  
गांधिर्जायादितिपद्ममी नैरुवारं जगज्जुः ॥४२॥

महात्माजीके छूटनेका समाचार सब लोग मुनकर प्रसन्न हो गये ।  
उनके चरणोंके दर्शन तथा स्वर्णके लिये जेलजाने ( आगार्या मरल )  
के आगे ( उपस्थित ) उन लोगोंने "गांधी विजयो बनें" अनेकों बार  
गर्जना की ॥ ४२ ॥

स्वास्थ्यं लब्धस्य च यतिपतेः स्वाश्रमं संनिपत्य,  
सेवाप्राने हृदय उदगादेशकल्याणसिद्धेः ।  
तस्याद्याह्ना पुनरपि ततो देशकाष्ठौ विचार्य,  
भिन्ने भिन्ने पथि परियता कोपि कालोपनिन्द्ये ॥४३॥

सेवाप्राममें अपने आश्रममें पहुँचकर स्वास्थ्य सम्पन्न होनेपर पुनः  
उनके हृदयमें देश कल्याणकी सिद्धि की आशा उतरा हो गयी ।  
अतः देश, काष्ठ विचार करके उन्होंने भिन्न भिन्न मार्गोंके चलकर  
चित्तना ही समच व्यर्तित किया ॥ ४३ ॥

स्वातन्त्र्यदस्य प्रतिदिनमसौ एन्त पुण्यावतारं,  
कतुं यन्नैरिषिधरचनेमारते भारतेस्मिन् ।

वार्तामार्तार्त्यपहृतिपरो विश्ववन्द्याब्जपादो,  
यातः शिम्लां तनितुममितो राजकीयैर्नरैः सः ॥४४॥

स्वतन्त्रताके पवित्र भवतारको शोभायुक्त भारतमें विविध रचनावाले  
यत्नोंके साथ ले आनेके लिये दीनोंके दुःखहर और विश्ववन्द्य महात्माजी  
राजकीयपुरुषोंके साथ वार्तालाप करनेके लिये शिमला गये ॥ ४४ ॥

सितानां मानसे जाता जिहासा भारतक्षितेः ।  
तस्माद्रिटिशसचिवैर्नियुक्ता आगता बुधाः ॥४५॥

अंग्रेजोंके मनमें भारतको छोड़नेकी इच्छा हो गयी थी अतः ब्रिटिश-  
मन्त्रियों द्वारा नियुक्त विद्वान् यहाँ आये ॥ ४५ ॥

रसवेदप्रद्वद्मामिते यैशवत्सरे ।  
चतुर्विंशे तिथौ मासे जान्युआरीतिभाषिते ॥४६॥  
राजधान्यां महापुण्यां तैः सहैव महाबुधः ।  
स्वराज्यमार्गशोधाय सेवाप्रामाज्जगाम सः ॥४७॥

ता० २४-१-१९४६ ई० के दिन महानगरी राजधानी दिल्लीमें  
उन महाविद्वानोंके साथ स्वराज्यके मार्गका शोध करनेके लिये वह सेवा-  
प्रामसे गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

ततश्च पञ्चमे मासे मयोत्याख्ये इयाय सः ।  
स्टेफर्डे क्रिप्सं देहत्या द्रष्टुं प्रष्टुं च किञ्चन ॥४८॥

उससे पाँचवें महीने बाद = मई महीनेमें वह सर स्टेफर्डे क्रिप्सको  
देखने-मिलने और कुछ पूछनेके लिये पुनः दिल्ली गये ॥ ४८ ॥

म्वरश्रुतिप्रद्वद्मामिते संयत्सरेमिताः ।  
नपश्यत्या मुसल्माना अनुजगमुः पिशाचताम् ॥४९॥

१९४६ ई० छनमें अगमनीय मुगलमान नोवाणली ( बंगाल ) में  
विशाच संज्ञा करने लगे ॥ ४९ ॥

हिन्दूनां ते सहस्राणि निजघ्नूर्नरपामराः ।

देहुर्भामाश्च सद्धानि व्यपलहुः स्त्रियः शिशून् ॥५०॥

उन पामर मुसलमानोते हजारों हिन्दुओंको मार डाला । हिन्दुओंके गाँवके गाँव और घर सब बर्बाद किये गये । स्त्रियों और बच्चोंको उठाकर वह ले गये ॥ ५० ॥

जहुर्घनानि सर्वेषामाभरणानि राक्षसाः ।

पलाच्छतानि हिन्दूनां स्वमते निन्युत्सुराः ॥५१॥

सब हिन्दुओंके धनको मुसलमानोने चुरा लिया । गहने चुरा लिये । और बचतखानोंसे सैकड़ों हिन्दू मुसलमान बना दिये गये ॥ ५१ ॥

इदं सर्वं कृतं दुष्टैः स्वीयसंख्याभिवृद्धये ।

मुसल्मानप्रायदेशे पाकिस्तानपदाप्तये ॥५२॥

उन दुष्टोंने यह सब इसलिये किया कि उनकी तादाद बढ़ जाय और जिस प्रदेशमें मुसलमान अधिक हैं वहाँ पर पाकिस्तान बन जाय ॥५२॥

तत्र शान्तिविधानाय यथा सानुचरः प्रभुः ।

वदन्मूर्ध्ना नवास्तल्यां चिन्ताचक्रविचूर्णितः ॥५३॥

चिन्ताके चक्रसे चूर्णित होकर भीमहात्माओं अग्ने सादियोंके साथ नवाखलीमें शान्ति स्थापनके लिये गये ॥ ५३ ॥

आसीद्द्वेपु सर्वेषु मुस्लिमलीगशासनम् ।

फालिक्तापुरे तस्माद्विलम्बः फोप्यजायत ॥५४॥

गारे पद्मादर मुस्लिमल गद्दी हुकूमत थी । अतः फलकत्तेमें घोड़ा सा उन्हे दिलम्ब हुआ ॥ ५४ ॥

तत्रत्याश्च मुसल्माना निहन्युश्चेष्टतोक्षरम् ।

महदेय रिजायत तदनिष्टं फलकृदम् ॥५५॥

इत्यनुचिन्त्य योगांशः प्रार्थितः सैनिकैः सह ।

तत्र गन्तुं परं धीमानस्वीचक्र इदं पथः ॥५६॥

वहाँकी सरकारने विचार किया कि यदि नोवाखलीके मुसलमान् महात्माजीको मार डालें तो बडाभारी कलङ्क देनेवाला अनिष्ट बनाव बनेगा । ऐसा विचारकर सरकारने महात्माजीसे प्रार्थना की कि वह सरकारी फौजके साथ वहाँ जायँ । परन्तु उन्होंने इस बातको स्वीकार नहीं किया ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

शासनेन ततस्तस्य नवरत्न्यां न्यरुध्यत ।  
गमनं यतिराजस्य बभूव तदरन्तुदम् ॥५७॥

तब सरकारने महात्माजीको नोवाखलीमें जानेकी आज्ञा नहीं दी । यह घटना महात्माजीकेलिये बहुत दुःखद बन गयी ॥ ५७ ॥

अगमनात्परं श्रेयो गमनं सैनिकैः सह ।  
परामृश्येति धर्मात्मानुमेने शिष्टिनिर्णयम् ॥५८॥

महात्माजीने विचार किया कि वहाँ सर्वथा न जानेकी अपेक्षा फौजके साथ जाना अच्छा है, अतः उन्होंने सरकारके निर्णयको मान लिया ॥५८॥

तच्छासनेन यतिरक्षणकामनेन,  
संप्रेषिताः स्वपुरपाः पृतनाः सनाथाः ।  
तेनैव सार्धमिति सैनिकमानवान्स,  
कर्पञ्चाल नरपेव च सार्धभौमः ॥५९॥

इति सर्वतद्वस्वतद्वपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते


पारिजातसौरभे

चतुर्थः सर्गः

यतिराजकी रक्षाकी इच्छावाली उस सरकारने उनके साथ सिपाही और सैनिक तथा सेनापति भेजे । उन सैनिकोंको रींचते हुए महात्माजी एक चमकती राजाके समान चले ॥ ५९ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकरयामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे स्वोपश्राष्ट्रभाषाटीकायां  
चतुर्थः सर्गः

# बापपुर का श्री लिंगा ज



श्री लिंगा ज

श्री लिंगा ज

## पञ्चमः सर्गः

कलिकृतात् छपेत्य महामतिः मुखिनया च विवर्धितचिन्तया ।  
यतिपतिर्विव रामपुरे निजां निरचिनोत्कृतिमाकृतिमुन्दराम् ॥ १ ॥

श्री महात्माजीने कलकत्तेसे मुम्बसे परन्तु चिन्ताके साथ श्रीरामपुर  
आकर वहाँ ही अपने मुन्दर कार्यका निश्चय किया ॥ १ ॥

अधिसभं यतिपात्र द्वाच तामुपगतां जन्तां यतिमीक्षितुम् ।  
कथमहं समुपागममत्र तत्प्रणिगदामि भवत्पुरतोत्थितम् ॥ २ ॥

सभामें उनके दर्शनकेलिये आया हूँ जनताको उन्होने कहा कि मैं  
यहाँ कैसे आया हूँ सो सब आपके समक्ष कहता हूँ ॥ २ ॥

अतितरां पतितान्मनुजानहं गुरुरपहं प्रतिनेतुमुपस्थितः ।  
एतकुसिष्यति मामभितोमिता सकलतेति न वक्तुमहं क्षमः ॥ ३ ॥

मैं वहाँपर अत्यन्त पतित मानवोंको उच्च पदपर पहुँचानेके लिये  
आया हूँ । इसमें पूर्ण सफलता पारो ओर मुझे मिलेगी या नहीं, यह मैं  
नहीं कह सकता ॥ ३ ॥

हृदयतो यसता हि सता शिवं यदि न लभ्यत ईहितमात्मनः ।  
किमपि तत्र न लोक्ष्यत ऊर्जितं परिशुचःकटु बीजमथो द्वियः ॥ ४ ॥

हृदयसे कोई प्रयास करता हो और कल्याणकारी मनोरथकी सिद्धि  
न हो तो इसमें शोक अथवा लज्जाका कोई बलवान् कारण नहीं है ॥ ४ ॥

सफलत्वापि च निष्फलत्वापि च प्रभवतो मितये न कदाचन ।  
प्रयतनस्य जनस्य हि कस्यचिन्निरवधिर्ह्यथ सास्तु सहायधिः ॥ ५ ॥

सफलता और निष्फलता यह दोनों चाहे थोड़ी हो, चाहे अधिक हो  
किसीके प्रयत्नका मात्र वाटनेमें असमर्थ है ॥ ५ ॥

प्रयतते यदि कोपि शुभाशयो भवति तत्र गतासुरपव्ययः ।  
-भवतु तज्जगतोस्य च भव्यतामहितमोदसुतोपसुकारणम् ॥ ६ ॥

यदि कोई आदमी शुभेच्छासे प्रयत्न करता हो और उसमें वह मर भी जाय परन्तु मृत्युना उसे शोक न हो तो उसका मरण समस्त जगत्के आनन्द और सन्तोषका कारण बनना चाहिये ॥ ६ ॥

प्रयतमान उपस्थितकर्मणि प्रयतते सततं विरतोन्यतः ।  
भवति यन्नगता परिदर्शिता जगति निर्भ्रमतो मिततथ्यता ॥ ७ ॥

यदि कोई आदमी सब ओरसे विरक्त होकर उपस्थित काममें ही सतत प्रयत्न करता है तो उसके यत्नमें रही हुई प्रामाणिक तथ्यता निर्भ्रम रूपसे दिखायी जा सकती है ॥ ७ ॥

परमनिष्ठुरमानसमानया अचिरतो न भवन्ति दयालयः ।  
परमयत्नभरः समपेक्षितः फलमनिन्द्यमभीप्सितमाप्स्यते ॥ ८ ॥

अत्यन्त निर्दय मनुष्य जल्दी दयालु नहीं बन जाता । बहुत बड़े यत्नकी वहाँ आवश्यकता है । प्रयत्न करनेपर पवित्र इष्ट फल मिलेगा ही ॥ ८ ॥

भवतु शासननीतिरपीहचेद्वितकरी समभावपरायणा ।  
फलमनूनमथो परिलिप्सितं भवति हस्तगतं नचिरेण तत् ॥ ९ ॥

यदि सरकारकी नीति भी हितकारक और समभाव वाली हो तो अवश्य ही शीघ्र ही इष्ट फल मिल जाता है ॥ ९ ॥

जडतया निखिलं यदि हिन्दुवो प्रियशतः परिपोढुमनीहितम् ।  
शुशालतामनुसन्दधते भवत्वयमतिर्हृदये न विपश्चिताम् ॥ १० ॥

यदि हिन्दूलोग जडताके कारण एतवार होकर अनिष्ट सहन करनेमें कुशल हैं तो विद्वानोंके हृदयमें उनके लिये अपमान नहीं होना चाहिये ॥ १० ॥

इयमसह्यदशा निखिलैष्विह प्रतिगता हृदयेन विचार्यताम् ।

अहमिमां जडतामपरोपि सन्क्षपयितुं क्षम एव न संशयः ॥११॥

आप हृदयसे विचार करें, यह असह्य दशा यहाँ सबसे दिखमान है । मैं इस जडताको अपर=असहाय होकर भी नष्ट करनेमें समर्थ हूँ ॥ ११ ॥

अहमिहायमवापयितुं फलं सुखकरं बहुधैकतरं न हि ।

इमथ तोषयितुं ननु केवलं मम समागतिरित्यनुमन्यताम् ॥१२॥

मैं यहाँ अनेक प्रकारका सुफल प्राप्त करानेके लिये आया हूँ, केवल एक ही फलने लिये नहीं । अथवा तो आप यह मान लें कि यहाँ मेरा आना केवल मेरे सन्तोषके लिये ही है ॥ १२ ॥

मम मनोनिहिता परमार्थिका परनिर्दिसनवृत्तिविरोधिता ।

भवतु सानिरिच्छैः सुपरोक्षिता सह मयैव न प्राप्तलिभूतले ॥१३॥

मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे मनमें जो हिंसाकी विरोधिनी अहिंसाके भाव भरे हुए हैं, लग मेरे साथ ही उसकी परीक्षा करें ॥ १३ ॥

यदि फलं न लभेहमर्हिसया भवतु सा न कदाप्यफलोहिता ।

मम तपो न गतं परिपूर्णतामिति विदन्तु तदा निरिच्छा जनाः ॥१४॥

यदि मुझे यहाँ अहिंसासे कुछ फल न मिले तो यह नहीं समझना चाहिये कि अहिंसा निष्फल वस्तु है । इतना ही मानना चाहिये कि उसके लिये जितनी तपस्या चाहिये, मुझमें पूर्णतया नहीं है ॥ १४ ॥

अहमथापि जगद्गुरुपण्डितः कथयितुं न कदाचन क्षम्युः ।

इह न शासनमिच्छति शाश्वतं क्षमदमाद्युभयोरपि वर्गयोः ॥१५॥

मैं आर पण्डित जगद्गुरुपण्डितकी क्षमा यह नहीं कह सकते हैं कि वह शासन चाहें दोनों जातियोंमें शाश्वत शांति नहीं चाहती है ॥ १५ ॥

अधिविहारमकुर्महि किं धयं किमकरोदिदमत्र च शासनम् ।

इति विचारणया परिसाधिता भवति स्वात्मगता लज्जा परा ॥१६॥



बिहारमें हमने क्या किया और यहाँकी सरकारने क्या किया, ऐसे विचारसे केवल अपनी हलकाई ही सिद्ध की जा सकेगी ॥ १६ ॥

विहितमस्तु मयात्मपरीक्षणं यदि जनैः सकलैर्हरिसाक्षिकम् ।

उपकृतिर्वहुधा विहिता भवेज्जगत एव दामाय शिवाय च ॥१७॥

यदि मैं और आप सभी भगवान्को साक्षी बनाकर आत्मपरीक्षा करें तो जगत्की शान्ति और कल्याणके लिये विविध उपकार किये जा सकते हैं ॥ १७ ॥

अहमुपायमिहाद्य न केवलं मुसलमानगणं परिनिन्दितुम् ।

अपितु हिन्दुजनानपि पीडितान्किमपि वक्तुमथापि विनिन्दितुम् ॥१८॥

मैं केवल मुसलमानोंकी निन्दा करने यहाँ नहीं आया हूँ । प्रत्युत पीडित हिन्दुओंकी भी निन्दा करने और कुछ कहने आया हूँ ॥ १८ ॥

किमभवन्नबला इह हिन्दवः क्व गतबल्लसाहससद्भृति ।

न हि मनोबलमस्ति न दैहिकं बलमिहास्ति विलोकितमैहिकम् ॥१९॥

हिन्दूलोग निर्बल क्यों हो गये हैं ? उनके बल, साहस, धैर्य यह सब कहाँ चले ? न मनोबल है, न शरीरबल है और न अन्य ऐहिक बल है ॥ १९ ॥

हरिजना मुखजानतिशिशिरये भुजजनीनुरुजांश्च पराक्रमैः ।

उदयते न हि यावदुदारता द्विजजनेषु न तावदुदेति शम् ॥२०॥

हरिजन = अन्नयज्ञ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंसे अच्छे साबित हुए हैं । यह निर्बल नहीं बने हैं । जबतक द्विजातिमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंमें उदारता नहीं आती तबतक कत्यागोदय भी नहीं होता ॥२०॥

सृशतु नायमिमं न च तं सृशत्वयमिति व्यवहार उदस्यते ।

द्विजगणैर्न यदि प्रतियोगिता न हि समेष्यति हन्त कदापि तान् ॥२१॥

यह इसे न छूये और यह उसे न छूये यह व्यवहार जबतक ब्राह्मणादि-

कैंकि सभी वर्ग नहीं छोड़ेंगे तबतक मुकाबिला करनेकी शक्ति उनमें नहीं आवेगी ॥ २१ ॥

यदि वद्वारप्रतिघर्ममवापिता अवग्रहिन्दुमना न पुनर्निजम् ।  
सपदि धर्ममुपेयुररातिता ह्यभिभविष्यति गाढमुभावपि ॥२२॥

जर्मरंतीसे मुसलमान बनाये गये हुए हिन्दू यदि फिरसे अपने धर्मको शीघ्र नहीं ग्रहण कर लेते तो दोनों जातियोंमें गाढ शत्रुता पैदा होगी ॥ २२ ॥

निप्रिलघर्मगता गुरुता समा भम मतास्ति तथैव पुनः पुनः ।  
उपदिशामि यथोदयमाप्नुयान्मनसि सा परधर्मसहिष्णुता ॥२३॥

सब धर्ममें गुरुत्व समान ही है । ऐसा ही मैं बार-बार सबको उपदेश देता हूँ जिससे कि मनमें परधर्मसहिष्णुता उत्पन्न हो ॥ २३ ॥

उपदिशोद्यदि कोपि कुमार्गितां परधनाहरणादि च यश्चनान्म् ।  
स हि भवेद्रिह निन्द्यतमस्तथा सततमेव जनैः स रिशयनाम् ॥२४॥

यदि कोई कुमार्गमें जानेका, परधन-हरदार आदि हर- करनेका और बखना करनेका उपदेश करे तो वह अव्यक्त निन्दनीय है और गदा ही उसका सम छोट देना चाहिये ॥ २४ ॥

भयति धर्मतर मुमहान् भवे स च सदैक शक्य तनः परे ।  
जनिमवापुरिमे जितपा इयानुगमय प्रथमप्रथमं मे ॥२५॥

किसी कारणके, छोड़कर अन्यको ग्रहण करना कभी भी उचित नहीं है। इसलिये यह कार्य मुझे तनिक भी रुचता नहीं है ॥ २६ ॥

मतिविकासमुपेत्य विचार्ययत्तमिह संपरिवर्तयते जनः ।  
भवति तन्न विपादविधायकं क्वचिदिति प्रथिता हि सतां सृतिः ॥२७॥  
बुद्धिका विकास हो और मनुष्य विचार करके यदि धर्म परिवर्तन करे तो यह कार्य चिन्ताजनक कभी न बने, ऐसा सज्जनोंका प्रसिद्ध मार्ग है ॥ २७ ॥

भवति धर्मतरो रचनेदृशी न सहसे परिवर्तनमल्पकम् ।  
न निखिला रचना निखिलान्तरग्रहविधौ क्षमतां दधते क्वचित् ॥२८॥  
धर्मवृद्धि रचना ही ऐसी है कि वह जरा भी परिवर्तनको नहीं सह सकती। सभी रचना उसके अंतकरणको पकड़नेमें समर्थ नहीं है ॥ २८ ॥

जनधनामुमुक्षुणहेतवे भविकलाभमपेक्ष्य च कर्हिचित् ।  
न सुगुणं षचिदावहते ततो दुरितमेव च तत्परिवर्तनम् ॥२९॥  
धर्मपरिवर्तन यदि जन, धन, प्राणोपी रक्षाके लिये यहाँ सांसारिक लाभार्थी अपेक्षासे किया गया हो तो कभी भी यह अच्छा लाभ नहीं देता है। अतः धर्मपरिवर्तन पाप ही है ॥ २९ ॥

अमयदत्र जनेषु पिशाचता गतदिनेषु जनैरपलोकिना ।  
समं नये षयसि प्रविशोक्षिता ननु मयैव निरद्भुशतान्ग्रहम् ॥३०॥  
एक दिनमें लोगोंके यहाँ पर जो शैतानियत देगी है उसे तो मैंने धरनी नया अधस्यामें गढ़ा देखा है ॥ ३० ॥

यदि सद्गुरुपमित्रमेवमाप्युपनतं विनतं प्रतिवादितम् ।  
भयतु तन्त्रमपश्यममुष्य सा ननु हसेद्विमयैव मनुष्यता ॥३१॥  
यदि जनताके हृदयका एक भी नग्न तार मैं यज्ञा करूँ तो अमुष्य = मनुष्यता ही मनुष्यता ही टूटगी ॥ ३१ ॥

बहुलतास्त्यधुनापि विलोकिता प्रतिदिनं नरराक्षसतोदितेः ।  
अतिकठोरमपि प्रतिवेपते हृदयमत्र न कापि विसंगतिः ॥३२॥

अमी भी यहाँ भारी शैतानियत रोज दिखायी पडती है । अत्यन्त  
कठोर हृदय भी काँप रहा है । इसमें कोई विसंगति नहीं है । हृदयका  
कण स्वाभाविक ही है ॥ ३२ ॥

अहमपृच्छमिहाधिकृतान्वहून्बलवता बलतोबलहिन्दवः ।  
स्वमतधर्ममुपेक्ष्य विवर्तिता वदत नेत्यथबोमिति यस्तुतः ॥३३॥

मैंने बहुतसे अधिकारियोंको पूछा है कि यहाँ निर्बल हिन्दुओंको  
बर्दस्तीसे अपने धर्मको छुट्टाकर मुसलमान् बना लिया गया है  
या नहीं ? ॥ ३३ ॥

अपहृता अवला अपि हिन्दवः समभवन्निह ता अपि धर्पिताः ।  
धृतमहेशभया बहवोवदन्सकलमेतदभूदिति निश्चितम् ॥३४॥

मैंने पूछा कि यहाँ हिन्दूस्त्रियोंका अपहरण किया गया है ? उन्हें  
सताया गया है ? ईश्वरसे डरनेवाले बहुतोंने कहा है कि हाँ, यहाँ यह  
सब अवश्य ही हुआ है ॥ ३४ ॥

किमपि कर्तुमिहाद्य न शक्यते निजबलादपि राजबलादपि ।  
विमलधर्मबलाद्यदभीप्सितं निरिलमाप्तमतः सुकरं भवेत् ॥३५॥

स्वबलसे अथवा सकारके बलसे आज यहाँ कुछ नहीं किया जा  
सकता । पवित्र धर्मके बलसे जो अभीष्ट है सब प्राप्त करना  
मुगम है ॥ ३५ ॥

विमतयोपहृतानबलाजनानित इतः परिगोपयितुं क्षमाः ।  
सुमतिदानमुनीतिमुरीतिभिर्वशयितुं विमतीनिह शक्नुय ॥३६॥

बदमाश लोग हरणकी गयी स्त्रियोंको इधर उधर छिपा सकते हैं ।  
परन्तु समझानेसे, मुनीतिसे, सुन्दर रीतिसे उन्हें वशमें किया जा  
सकता है ॥ ३६ ॥

अथ जवाहरलाल इयाय चेदधिविहारधरं त्वरयायुजत् ।  
स्ववलमत्र कथं न तथाकरोद्दिदमिहास्त्यनुयोज्यमनर्थकम् ॥३७॥

और यह पूछना अनर्थक है कि पण्डित जवाहरलालजीने बिहारमें जाकर  
शीम ही अपनी शक्ति का उपयोग किया तो वह यहाँ क्यों नहीं करते ? ॥३७॥

अधिविहारमसौ समुपागमत्रहि कदाप्यधिकारिवलं दधत् ।  
भवति भारतसप्रथसेवकस्तत उपेत्य यथामति तद्व्यधात् ॥३८॥

पण्डित जवाहरलालजी बिहारमें एक अधिकारीके नातेसे नहीं गये  
थे । वह तो भारतके प्रसिद्ध सेवक हैं अतः वहाँ जाकर जैसा उचित  
जन पदा, उन्होंने किया ॥ ३८ ॥

भवति यद्गंधरा न विदूषिता व्यञ्जनि यत्र रवीन्द्रमहाकविः ।  
अतत यद्धिमचन्द्र इनप्रभो निजयशोभिवितानमनुत्तमम् ॥३९॥

जिस बङ्गालमें महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर पैदा हुए और जहाँ  
सुसंमान भी बङ्गिमराथूने अपनी यश पताका फँसाई थी वह बङ्गाल  
गन्दा नहीं है ॥ ३९ ॥

निजगृहं निजधर्मगृहाणि या निरपि लहिन्दुजना विरह्यते ।  
परिपलाप्य गता इति नो कृतं भतिमतामनुमोदितपतेनम् ॥४०॥

गारे ही हिन्दू अपने घर और मन्दिरोंको छोड़कर भागकर चले गये,  
पर बुद्धिमानोंके योग्य व्यवहार उन्होंने नहीं किया है ॥ ४० ॥

सधृतिभिर्यदि तैर्निजसधनो न हि पलाप्य गतैरभियप्यत ।  
किमपि चाद्गुतमेव जनैरिह स्वजननीक्षितिगैरकल्पियत ॥४१॥

यदि धीरव रणकर हिन्दू लोग अपने अपने घरमें भागकर चले न  
गए होते तो वह अपनी धनभूमिमें रहकर अपने ही कुछ अद्भुत  
कार्य बिंदे होते ॥ ४१ ॥

यदि भवेयुरमी इह मेधिताः समितिरद्भुतबुद्धिभृता भृता ।  
विरचितामयदृश्य न सद्दियः कतिपयेः परमत्र विलोकिताः ॥४२॥

यदि वह सभी दिन्दू यहाँ इकट्ठे होते तो अद्भुत बुद्धिमानोंसे मरी  
हुई एक सभा यहाँ बनायी गयी होती । उक्त सभामें केवल योहेसे ही  
विद्वान् न दीख पडते ॥ ४२ ॥

न समितेः समितिः कृतकृत्यतां नयति कंचन तेन शमान्विता ।  
भवति सात्र मयाश विधित्सिता परमहो न लभे कृतिकारिणः ॥४३॥

टसीलिये यहाँ शान्ति समिति किसीको समितिकी कृतकार्यता नहीं  
प्राप्त करा रही है । मुझे वैसी समिति बनाना यहाँ इष्ट तो है परन्तु  
कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं ॥ ४३ ॥

शमकृते निस्त्रिभैः प्रयतेत तद्भवतु मानभृतः शम एषकः ।  
भवतु नो पुनत्र जनासुभिः प्रहसनं रमणं हृदयच्छिदी ॥४४॥

शान्तिके लिये सब मिलकर यदि प्रयत्न करें तो मानपूर्ण यह शान्ति  
हो सकती है । और फिर यहाँ मनुष्योंके प्राणोंके साथ हृदयविदारक हँसी  
और खेल न हो सके ॥ ४४ ॥

न हि भवेन्नरकण्ठप्रकृतं न हि भवेद्धनहानिस्पात्रिता ।  
भवतु काप्यबला न विदूषिता शम इहास्तु तदा फलवानिति ॥४५॥

यहाँ फिर मनुष्योंके गले न काटे जायें, लोगोंके धनको हानि न  
की जाय और कोई भी स्त्री अनमानित न हो सके तब यह शान्ति सफल  
मानी जाय ॥ ४५ ॥

गृधरोपयनादि विमुञ्च्य ये परिगतास्तत्र एव तदागमः ।  
क्षिप्रमिहाजनचिप्यति चान्वया विफल एव भविष्यति स श्रमः ॥४६॥

घर, बर्मान, बाग आदि छोड़कर जो यहाँ चले गये हैं यहाँसे  
यदि तबरा यहाँ आगमन हो तो ही सम्मान होगा; नहीं तो यह श्रम  
मर्थ होगा ॥ ४६ ॥

प्रतिपुरं यदि हिन्दुकुरानिनौ सुमिष्टितौ जनतां परिरक्षताम् ।  
 परमशक्तिसमन्वित ईश्वरे जनतया निजधीः प्रणिधीयताम् ॥४७॥  
 स्वमिह यो विपदोद्य रिरश्रिपेत्प्रतिविधास्यति तस्य सहायताम् ।  
 जगदधीश उदारमुहूर्द्धवन्भवति नान्य उपाय उपस्कृतः ॥४८॥

प्रत्येक गाँवमें हिन्दू और मुसलमान् दोनों ही मिलकर यदि जनताकी रक्षा करें, तथा जनता परम शक्तिमान् ईश्वरको अपनी बुद्धि सौंप दे तो आज विपत्तिसे जो अपनी रक्षा चाहते हैं, अवश्य ही वह जगदीश्वर उदार मित्र बनकर उनकी रक्षा करेगा। दूसरा अच्छा उपाय नहीं है ॥४७॥४८॥

भयभयङ्कररूपविकल्पनाभयविमोहितहिन्दुगणः सदा ।  
 स्वसदनं परिहृत्य यथातथा व्यधितहृत्कमलोद्य पलायते ॥४९॥

भयके भयंकर रूपकी कल्पनाके भयसे व्याकुल बने हुए हमेशा अपने घरको जैसे तैसे छोड़कर दुःखी हृदयवाले हिन्दू रोज भाग रहे हैं ॥ ४९ ॥

इदमनार्थनिपेवितवर्त्म तैर्यदि विहाय भयं विरहस्य च ।  
 अबिगणय्य कृतं च कुरानिभिः पुनरिद्देयत एव तदा शुभम् ॥५०॥

यदि हिन्दूलोग इस अनार्थ मार्गको छोड़कर भयको भी छोड़कर और मुसलमानोंने जो कुछ किया है उसका विचार किये बिना ही यहाँ फिर आ जायें तभी श्रेय होगा ॥ ५० ॥

अहमिहैषक एव समागतो भवति नो मम कोपि सहायकः ।  
 निवसतिर्गुप्तलिम्बवनेषु मे सुत्पमयी भविता सुखमेव तत् ॥५१॥

मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। कोई मेरा सहायक नहीं है। मुसलमानोंके घरमें ही मेरा सुखमय निवास है। अतः सुख ही होगा ॥ ५१ ॥  
 सफलसंगिजनेभ्य इदं स्थितो मुसलमानजनैः सह सस्थितिम् ।  
 रचयता प्रयतेन मया मनो मुसलमाननृणां परिभोत्स्यते ॥५२॥

मैं अपने सभी साथियोंसे बड़ा होकर यश रहा हूँ । मुसलमानोंके साथ निनास करता हुआ मैं इनके मनको समझूँगा ॥ ५२ ॥

मम मनस्यपि यत्किमपि स्थितं तदिह ते निखिलं प्रविदन्तु च ।  
इति परस्परसंगतिसाधनाद्वृद्ध्यभावविकस्वरता भवेत् ॥५३॥

मेरे मनमें भी जो कुछ है उसे यह लोग समझें । इस प्रकारसे परस्पर संग करनेसे हृदयका मार बिटेगा ॥ ५३ ॥

यद्गुणा ऋथिताभयतास्त्रिभ्रैरगुणमेव भयं निवरां मतम् ।  
तदिह भीतिमपास्य हि हिन्दुभिर्वृतिधराधरताद्य निपेक्ष्यताम् ॥५४॥

सब लोगोंने कहा है कि निर्भयतामें बहुत गुण हैं और भय निर्गुण वस्तु है । अतः भीतिको छोड़कर हिन्दू लोग धीरज रखें ॥ ५४ ॥

यदि भयाद्वरणीभवनादिकं निखिलवस्तुगणं परिमुच्य ते ।  
बहिरितः परियन्ति न कल्पये कमापि गण्यगुणादिगणं स्थिरम् ॥५५॥

यदि हिन्दूलोग भयमें भरनार आदि सब वस्तुओंको छोड़कर यहाँसे बाहर जाते हैं तो मैं कोई अच्छा स्थिर काम नहीं देखता हूँ ॥ ५५ ॥

प्यारेलालो मन्त्रिता मे गतोसौ लोकान्यातो भीतभीतान्पलाप्य ।  
मार्गे दृष्ट्वा तांश्च रूढ्वा व्यष्टत्प्रत्यागन्तुं स्वीयमेहं मुखेन ॥५६॥

श्रीप्यारेलालजी मेरे मन्त्री हैं । उन्होंने डरके मारे भागकर जाते हुए लोगोंको रास्तेमें देगकर, उनकी रोककर मुझसे उनके घर लौट जानेके लिये उनकी पूछा ॥ ५६ ॥

नासोत्तेषां पूर्वजोपाजितं स्वं प्राप्तं गेहं गन्तुनालोदितुं वा ।  
अद्धा धैर्यं माहसं यापि तेन नो पश्येयुः श्रेयतामाननं ते ॥५७॥

अपने पूर्वजोंके उपाजित गाँव, घरको बाननेके त्रि अथवा देगनेके लिये उनमें न अज्ञा था, न धैर्य था, और न साहस ही था । इससे वह लोग बलायका ठां मुझ भी नहीं देग सकते ॥ ५७ ॥



ते गन्धेदुर्घ्नं यत्रैव तत्र संप्राप्तः सुगुंस्त्वान्मं जनेके।  
 भौतान्दृष्टुं तेषां तान्मीपयेरंते गन्तारस्वर्दिं कुत्राचिदुक्ताः ॥१८॥  
 इति सर्ववपस्ववप्राप्तमहंसागतिविशेषकस्वामिभूमिद्वयवदुःखार्पणविशेषाद्यन्त्रे

पारिजातसौम्ये

पञ्चमः सर्गः

वह तो बर्दा-बर्दा बायेंगे, यहाँ ही अनेक कुतूहल किन्दि और  
 बनने इरे हुए देसकर वह भी टरायेंगे। तब वह लोग बर्दा बर्दा ॥१८॥

इति श्रीसमहंसागतिविशेषकस्वामिभूमिद्वयवदुःखार्पणविशेषाद्यन्त्रे

पारिजातसौम्ये स्वोत्तराष्ट्रभारतीयोक्त्यां

पञ्चमः सर्गः

## षष्ठः सर्गः

वद्गहिन्दुहृदयज्यां यतिभूयसीमनुमन्यथायतः ।  
शोकवेगान्दुलिताङ्गकोप्यसौ धैर्यपूर्वकमुवाच सद्ब्रह्म ॥ १ ॥

बङ्गालके हिन्दुओं की हार्दिक महती व्यापको टीक-टीक अनुभव करके शोकके वेगमे यके शरीरवाले थी महात्माजीने धैर्यपूर्वक वह शब्द कहे ॥ १ ॥

वन्द्यवो मम वचो हितप्रदं घर्मपूतमनघं निशम्यताम् ।  
मा त्रिभीत मनुजात्सशस्त्राङ्गीतिरंहस इहास्ति कारणम् ॥ २ ॥

बन्धुओ ! मैं हितकारक, निद्रोंपर और घर्ममे पवित्र वचन कहता हूँ, उमे आप मुनें । सशस्त्र आदमियोसे आप डरें नही । मय पापरा हेतु है ॥ २ ॥

केवल त्रिभित सर्वशक्तिमत्सर्वत्रनिपरमात्मदेवतः ।  
तद्गयाथ परिधूय सर्वतः पापकर्म परिकुस्यतानघम् ॥ ३ ॥

सर्वशक्तिमान् तथा सर्वदर्शी परमात्मदेवसे ही केवल डरना चाहिए । उसके भयसे पापकर्म को सब ओरसे नष्ट करके घर्मका आच्छिन्न करें ॥ ३ ॥

हन्ति चेत्कमपि हिन्दुबालकं बालिकामपि च हैन्दवीभिह ।  
नो विधत्त हृदयेरितां क्वचिच्छान्तिमाधयन शान्तवचतसः ॥ ४ ॥

यदि कोई किसी हिन्दू बालक या बालिका का वच करता है तो भी आप हृदय में उसके प्रति शत्रुता न रखें और शान्तचित्त होकर शान्ति का आश्रय लें ॥ ४ ॥

शान्तिरस्ति निरुपद्रुता स्वयं सा विधास्यति शनैः शनैरिह ।  
विष्टयाभिरतिमानसाश्रुतान्विष्टयक्वथितवान्तमानसान् ॥ ५ ॥

ते गच्छेयुर्यत्र यत्रैव तत्र सप्राप्ता स्युर्मुसलमाना अनेके ।  
भीतान्दृष्ट्वा तेषि तान्भीषयेरस्ते गन्तारस्तर्हि कुत्राविदग्धा ॥५८॥  
इति सवतस्रस्वतस्रपरमहसपरिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

पञ्चम सर्ग

वह तो जहाँ जहाँ जायेंगे, वहाँ ही अनेक मुसलमान् मिलेंगे और  
उनको डरे हुए देखकर वह भी डरावेंगे। तब वह लोग कहाँ जायेंगे? ॥५८॥

इति श्रीपरमहसपरिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपशगष्टभाषाटीकाया

पञ्चम सर्ग



## पष्ठः सर्गः

यद्गहिन्दुहृदयव्यथां यतिर्भूयसीमनुभवन्वयार्थतः ।  
शोकवैगल्यलिताङ्गफोष्यसौ धैर्यपूर्वकमुवाच सद्ब्रह्मः ॥ १ ॥

बङ्गालके हिन्दुओं की शार्दिक महती व्यथाकी टीक-टीक अनुभव करके शोकके वेगमे यके शरीरवाले श्री महात्माजीने धैर्यपूर्वक वह शब्द कहे ॥ १ ॥

वन्द्यवो मम वचो हितप्रदं धर्मपूतमनघं निशम्यताम् ।  
मा विभीत मनुजात्संशयक्राद्भीतिरंहस इहास्ति कारणम् ॥ २ ॥

बन्धुओ ! मैं हितकारक, निर्दोष और धर्ममे पवित्र वचन कहता हूँ, ठमे आप मुनें। सशस्त्र आक्रमियोसे आय डरें नही। भय पावका हेतु हे ॥ २ ॥

केवलं विभित सर्वशक्तिमत्सर्वदर्शिपरमात्मदेवतः ।  
तद्भयाद्य परिधूय सर्वतः पापकर्म परिकुस्यतानयम् ॥ ३ ॥

सर्वशक्तिमान् तथा सर्वदर्शी परमात्मदेवते ही केवल देवता चादिष्ट। उसके भयसे पापकर्म को सब ओरसे नष्ट करके धर्मका आश्रितन करें ॥ ३ ॥

इन्वि चेत्प्रमपि हिन्दुबालकं यालिनामपि च हिन्दुयोनिह ।  
नो विषत्त हृदयेरितां स्वचिच्छान्तिमाश्रयन् शान्तचेतसः ॥ ४ ॥

यदि कोई किसी हिन्दू बालक या बालिका का भय करता है तो भी आप हृदय में उसके प्रति श्रुता न रखें और शान्तचित्त होकर शान्ति का आश्रय लें ॥ ४ ॥

शान्तिरस्ति निश्चयद्रुता स्वयं सा विपात्यति शनैः शनैरिह ।  
विष्टराभिरतिमानमाश्रुतान्पिष्टयज्यपिठतान्तमानसान् ॥ ५ ॥

विद्वान् मुसलमानोके रवे हुए मैंने बहुतसे क्रय पदे हैं । परन्तु कहीं भी धर्मप्रदण करानेके लिये ऐसा आग्रह मैंने नहीं देखा है ॥ १० ॥

यो बलेन निशितास्त्रयन्त्रसंदर्शनैः यदि वा प्रसदंते ।

धर्ममारहयितुं च कंचन स्वस्य हानिनवदृश्विनोति सः ॥११॥

जो आदमी दृष्टने वा हथियार दिखाकर किसीसे धर्म छुड़ानेका यत्न करता है वह अपना ही हानि करता है ॥ ११ ॥

भीतितोत्र यदि कोपि संभजेदारहस्य निजधर्ममुञ्चरः ।

ईसलाममथ भीस्मानयैः सेवनीय इति स प्रसिद्धयति ॥ १२ ॥

जो कोई अपना धर्म छोड़कर डरसे इसलामको स्वीकार करे तो इसका अर्थ तो यहाँ है कि इसलाम डरपोकैना धर्म है ॥ १२ ॥

धर्मसौष्ठवमिदं न गण्यते प्रागभीतिरिति तत्र कारणम् ।

धर्मचारणमभीप्सितं भवेत्तद्भवेत् सद्यु धर्मसेपिनः ॥१३॥

बलात्कारसे प्रदण कराये हुए धर्मकी यह मुन्दरता नहीं गिनी जायगी । उस धर्म प्रदण करनेमें तो प्राणोंका भय भी कारण है । यदि धर्मप्रचार करना सड़ हो तो स्वयं धर्मपालन करने वाला बनो ॥ १३ ॥

ज्ञानपूर्वकमतो भतो भवेत्केनचिद्यादि परनिषेधितः ।

धर्म एष भविता श्रियं द्वयोर्प्राहयिष्यति च यो प्रहृष्यति ॥१४॥

दूसरेके धर्मको यदि कोई ज्ञानपूर्वक उसे समझकर मान लेता हो तब वह धर्म प्रदण करनेवाले और प्रदण करानेवाले दोनोंके लाभके लिये होता है ॥ १४ ॥

कोपि कंचन पतिव्रतां स्त्रियं धर्पयेद्यदि सिद्ध्यनुद्विष्टः ।

सापि भीनियश्या जिहासतु त्वं न धर्ममिति मे ध्रुग मतिः ॥१५॥

यदि कोई दुराचारी पारी किसी पतिव्रता स्त्रीका धर्म भ्रष्ट कर दे तो भी वह उसके धर्ममें आकर अपने धर्मको छानने की इच्छा न करे, वह मेरी सड़ समति है ॥ १५ ॥

नास्ति कोपि समयो विसंकटस्तस्य यो न विजिहिंसते परान् ।  
तेन शान्तमनसा तपस्विनी भामिनी भवतु कालवक्त्रगा ॥१६॥

जो आदमी दूसरोंकी हिंसा करनेकी इच्छा नहीं करता, उसके लिये कोई भी समय संकटमय है ही नहीं। अतः ऐसी स्त्रियोंको चाहिये कि वह शान्त मनसे मृत्युके आळिगनके लिये तैयार रहें ॥ १६ ॥

ते भवन्तु पुरुषा अथ स्त्रियो मार्गयन्तु भगवत्सहायताम् ।  
एक एव जगदीश्वरो महान्सर्वजीवसुहृदस्ति निर्मलः ॥१७॥

चाहे कोई सताये गये पुरुष हों अथवा सताई गई स्त्री हों, सबको भगवान्की सहायता हूँदनी चाहिये। एक भगवान् ही सर्व जीवोंका निर्मल और महान् मित्र है ॥ १७ ॥

यः प्रसन्नवदनो भुजान्तरे मृत्युमार्तचिरसंगिनं वहेत् ।  
सर्वदृशवपरमेश्वरोचशस्तं स्वकीयहृदये विलययेत् ॥१८॥

जो हँसते मुखसे पीडितोंके चिरसगी मृत्युका आळिगन करता है अवश्य ही उसे सर्वद्रष्टा भगवान् अपने हृदयमें लज्जित होकर विलीन करते हैं ॥ १८ ॥

एष एव परमो मतोस्ति मे धर्म इत्यभयचारुश्लक्ष्णः ।  
तं प्रचारयितुमागमं सुखं साहसेन सह वज्रमेदिनीम् ॥१९॥

अभय निर्भयता ही जिसका सुन्दर शस्त्र है वही मेरे मतमें परमधर्म है। इसीका प्रचार करनेके लिए मैं साहसके साथ इस वज्र भूमिमें आया हूँ ॥ १९ ॥

यश्च तत्त्वमखिलेभ्य उत्तमं निर्भयं समुपदिशयते मया ।  
तत्समाचरितुमत्र मेभयद्भाग्यतोद्य ललितः समागमः ॥२०॥

जिसने सर्वभेद तत्त्वका मैं सबको उपदेश करता हूँ उगीका आचरण करनेके लिये आज भाग्यतो मेरा यहाँ शुभागमन हुआ है ॥ २० ॥



जगदम्बा श्रीमती कस्तूरबा

नवजीवन कार्यालयक मौजग्यम

पृच्छते जनतया मुहुर्मुहुः शस्त्रधारणमवैधमस्ति किम् ।  
किञ्चिदोन्यमिह पृच्छकेषु मे भाति मानवमनोहरान्तरे ॥२१॥

लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या शस्त्रधारण करना अन्याय है? मुझे मालूम होता है कि पूछनेवालोंमें कुछ निर्दलता-कमी है ॥२१॥

अर्घ्यहिंसमधिराजते महान्मुप्रभाव इति मेस्ति निश्चयः ।  
तत्समो न हि परं प्रवर्तते रोपदोषशमनाय साधनम् ॥२२॥

अर्हिसामें बहुत बड़ा प्रभाव रहा हुआ है, यह मेरा निश्चय है ।  
क्रोधरूप दोषको शान्त करनेके लिये अर्हिसाके समान दूसरा साधन है ही नहीं ॥ २२ ॥

विद्यते न मनुजेषु साहसं हिंसनेतरजमद्य तेन ते ।  
आणवादिभयदास्त्रसंग्रहे सन्ति दत्तमनसो मनस्विनः ॥२३॥

आज मनुष्योंमें हिंसा करनेके सिवाय कोई अन्य साहस ही नहीं पैदा हुआ है इसलिए अणुबाँव जैसे भयङ्कर अस्त्रके संग्रहमें सब लोग व्याग्ये हैं ॥ २३ ॥

स्वीयशीलपरिहायसङ्कटापन्नकालमधिगत्य कञ्चन ।  
अभ्युपायमनर्तत्य सद्रता प्राणहानमभियुक्तु कापि हि ॥२४॥

जब अपने शीलधर्मके त्यागका संकटमय कोई समय आ जावे तो पतिव्रता स्त्रीको चाहिए कि यदि कोई दूसरा अच्छा उपाय धर्म बचानेके लिये नहीं है तो, प्राणत्याग कर दे ॥ २४ ॥

तां न लिम्पति पतिव्रतान्वितामात्मघातजनिताहसो लवः ।  
पापिपापकरसंगसंमुचं सेतुमेव बलहीनयोपिताम् ॥ २५ ॥

पतिव्रता स्त्रीको आत्मघातका तनिक भी पाप स्पर्श नहीं करता है ।  
क्योंकि वह स्त्री तो अन्य निर्दल स्त्रियोंके लिये पापियोंके पापी हाथके संगसे छुड़ानेके लिये पुल समान है ॥ २५ ॥



आत्मघातपरघातयोर्द्वयोरात्मघात इह संनिषेधितः ।  
वर्त्म केवलमपेक्ष्यते मया सर्वदोषपरिवर्जितं हितम् ॥ २६ ॥

आत्मघात करना और दूसरोंकी हिंसा करना इन दोनोंमें आत्म-  
घातका मार्ग ही यदि लिया गया हो तो वह हितकारक है और सर्वदोषोंसे  
रहित है ॥ २६ ॥

इष्यतेनुद्विषसं मया भवेच्छान्तिरत्र चिरवासिनी परम् ।  
नानुपश्यति मनोरथो ममाद्यापि किञ्चिदपि सत्फलं फलम् ॥ २७ ॥

मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ स्थायी शान्ति हो । परन्तु यह  
मेरा मनोरथ अभीतक कोई मनोहर सुफल नहीं देख रहा है ॥ २७ ॥

यावदत्र यवनाश्च हिन्दवः सोदरा इव वसन्ति नो सुखम् ।  
तावदत्र वसतिर्ध्रुवास्तु मे नो जिहासति मनो धरामिमाम् ॥ २८ ॥

जब तक हिन्दु और मुसलमान् यहाँ सगे भाईके समान सुखसे  
रहने न ल्यों तबतक मैं यहाँ ही रहूँगा । इस भूमिको छोड़नेको मन  
नहीं धरता है ॥ २८ ॥

सागसः स्वमपराधमञ्जसा ते नयन्तु विपुलं प्रकाशताम् ।  
न्यायमन्दिरगताश्च कामये तान्नाताननभिनन्द्यचन्दिताम् ॥ २९ ॥

जो अपराधी हों वह अपने बड़ेसे बड़े पापको प्रकाशित कर दें ।  
मैं यह नहीं चाहता हूँ कि वह कोर्ट में जायें और कैदी बनाये जायें ॥ २९ ॥

सर्ध एव महिताः कुरानिनस्तानुपेत्य मतिदानपूर्वकम् ।  
सञ्जनै मुपदिशीलिते पथि प्रेरयन्तु मम मुद्गैस्तदा ॥ ३० ॥

ब्रितनं प्रतिष्ठित मुसलमान् हैं वह सभी उन अपराधियोंके पास  
जाकर उन्हें समझाकर जिस मार्गमें सज्जन जाते हैं उसम जानेकी उन्हें  
प्रेरणा करें, तब मुझे प्रसन्नता होगी ॥ ३० ॥

अन्यथा व्यनिकरामगाभिना दुर्जनाप्र्यपदधीनिषेविणाम् ।  
राजशासनविधानदण्डनं रोचते च मनसे ममाधुना ॥ ३१ ॥

यदि ऐसा न हो तो हुल्लट करनेमें वो अगुवा ये और वो मारी  
अभराही है उन सबको कावदेने अनुसार दण्ड मिळे, यह मुझे अच्छा  
लगता है ॥ ३१ ॥

नो नियम्य यदि तान्मतां द्विप'शासनं मुजनवृत्तितान् नयेत् ।  
कोपि धर्मपथवर्तिमानयो न श्वमिष्यति मुग्य कचित्पुनः ॥ ३२ ॥

यदि सकार अच्छाको हैरान करनेवाटे उन दुष्टाको अच्छे मार्गमें  
न ले जाय तब तो कोई भी धर्मात्मा वहाँ फिर द्वास भी न ले  
सकेगा ॥ ३२ ॥

लुण्ठितानि निखिलानि ते धनान्यर्षवेयुरधिकारिषु स्वयम् ।  
ग्लानिमप्यनुभवन्तु कर्मणो ज्ञानहीनचरिताश्च सर्वथा ॥ ३३ ॥

उन अनराधियोंने जो धन लूट लिये हैं उन्हें अपने द्वार वाकर  
अधिकारियोंको श्राप दें । तया अज्ञानपूर्ण अपने किये कर्मकेलिये मनमें  
ग्लानिका भी अनुभव करे ॥ ३३ ॥

यन्निजार्थममिवाञ्छित मवेत्तत्परार्थमपि चेन्न काङ्क्षितम् ।  
येन शुद्धमनसा न स क्वचिन्मुसलमान इह गणयते सुरैः ॥ ३४ ॥

जो वस्तु अपने लिये इष्ट है वहाँ वस्तु दूसरोकेलिये जो नहीं चाहता  
उसे विद्वान् लोग मुसलमानों में नहीं गिनते ॥ ३४ ॥

यो निजार्थमपि कर्म नाचरेन्नो परार्थमपि तन्निषेयते ।  
नो भवेत्स इसलामसंमतो नैव तत्र भगवान्प्रसीदति ॥ ३५ ॥

जो अपनेलिये भी कर्म न करे और दूसरोकेलिये भी न करे वह  
सच्चा मुसलमान् ही नहीं है । उसपर खुदा खुश नहीं होता है ॥ ३५ ॥

यो वदत्यनुदिनं मृया वची यो न पालयति भाषितं निजम् ।  
यः प्रवारयति चात्मप्रत्ययं नास्ति मे स मम शत्रुरेव सः ॥ ३६ ॥

जो हमेशा झूठ बोळता है, जो अपने वचनका पालन नहीं करता

है और जो अपने ऊपर विश्वास करनेवालेको टगता है उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। यह मेरा शत्रु ही है ॥ ३६ ॥

यो निजे हितमनारतं जनैः प्रत्ययं च परिरक्षितुं रतः ।  
न प्रमाद्यति निजोक्तितोपि यो वस्तुतोस्ति स हि मुस्लमान्परम् ॥ ३७ ॥

लोग अपने ऊपर विश्वास रखें, उस विश्वासकी रक्षामें जो सावधान रहता है, अपने वचनसे जो प्रमाद नहीं करता, अर्थात् अपने वचनका पालन करता है, वस्तुतः वही मुसलमान् है ॥ ३७ ॥

ईश्वरेण रचिताञ्छरीरिणो योनुकम्पत इह प्रतिक्षणम् ।  
स प्रयाति नितरां जगत्पतेरीश्वरस्य परमानुकम्प्यताम् ॥ ३८ ॥

ईश्वरके बनाये हुए देहधारियोंपर जो सदा दया करता है उसपर जगन्नाथ ईश्वरकी भी दया होती है ॥ ३८ ॥

यः करेण रसनाविनर्तनैरप्युपास्त इह नापकारिताम् ।  
चेद्य एव परमोत्तमः सदा मुस्लमान इति कोपि नापरः ॥ ३९ ॥

जो हाथ से अथवा जीभसे भी किसीकी बुराई नहीं करता है वहां सर्वश्रेष्ठ मुसलमान् है, दूसरा नहीं ॥ ३९ ॥

यो जनः प्रकुस्ते कुलान्वितामङ्गनामिह कदापि मोहतः ।  
तं त्यजत्यहह पामरं परं धर्म एव मम निश्चयोव्ययः ॥ ४० ॥

जो आदमी कुलीन स्त्रीकी मर्यादाका मङ्ग कभी भी अज्ञानसे करता है, उस परम पामरको धर्म छोड़ देता है, यह मेरा निश्चय है ॥ ४० ॥

यः प्रधर्षति कदापि कामपि स्त्रीं समुद्धतमतिश्च कामतः ।  
यो विलुण्ठति परान्निपेवते भयमस्ति न हि भक्तिमानसौ ॥ ४१ ॥

जो उद्धत पुरुष कामवश किसी स्त्रीको छेड़ता है, दूसरोको लूटता है और मष्पान करता है वह भक्तिमान् ही नहीं है ॥ ४१ ॥

कोपि मुस्लिम उताप्यमुस्लिमः पीड्यते यदि कदा च केनचित् ।  
तस्य स्त्रीमिह संविधोयतां यापि कापि सकलैः सहायता ॥ ४२ ॥

किसी मुसलमान्को अथवा मुसलमान् नहीं है उसको भी कोई दुःखी करता हो तो सबको मिलकर शीघ्र ही जो बन सके उसकी सहायता करना चाहिये ॥ ४२ ॥

संततं हि निरिल्यक्षसंयमाद्वारणादनशनव्रतस्य च ।  
ब्रह्मचर्यमुपसेव्यतां जनैर्मुस्लिमैर्मदनुयायिभिर्मुदा ॥ ४३ ॥

हमेश्चा ही सर्व इन्द्रियोंपर सयम रखकर, उपवास आदि करके मेरे अनुयायी मुसलमानोंको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये ॥ ४३ ॥

सत्यवर्त्म परिगृह्य सर्वदा चावला परमपेक्षते न हि ।  
स्वामिसेवनविधावनन्यतां संदधाति जगतोस्ति सा घनम् ॥४४॥

जो स्त्री सत्य मार्गवा ग्रहण करके अन्य पुरुषको अपेक्षा नहीं रखती तथा स्वामिकी सेवा अनन्य भावसे करती है वह सारे जगत्का घन है ॥ ४४ ॥

एवमादि भगवान्मुहम्मदः संजगावखिल मुस्लिमान्प्रति ।  
मुस्लिमास्तु निरितिला मुहम्मदे विश्वसन्तु वचनेषु तस्य च ॥४५॥

इस प्रकारसे ( श्लो० ३४ से ४४ तक ) मुहम्मद साहेबने सब मुसलमानोंके लिये कहा है । मुसलमानोंको उनमें और उनके वचनमें विश्वास करना ही चाहिये ॥ ४५ ॥

पाटियालबसुधाजनिर्बुधाः मुस्लिमापि असतुत्सलामिति ।  
मुस्लमानजनताविशुद्धये सोपवासपटलं समातनोत् ॥४६॥

पाटियाला स्टेटमें जिनका जन्म हुआ है उन मुसलमान् बहिन श्री अमनुत्सलामने मुसलमानोंकी शुद्धिकेलिये कितने ही उपवास किये हैं ॥ ४६ ॥

मत्पुरः समयपत्रमेकमालेखितं मुविदितैश्च मुस्लिमैः ।  
स्वाक्षराणि निहितानि तत्र तैर्धर्मतत्त्वविबुधैर्निजैच्छया ॥४७॥

तत्र बालकगणाय शिक्षणं पोषणं च बहुधा कुटुम्बिनाम् ।  
 वैलभक्तसदनादिदानतो धर्म एष धनिनां महानिह ॥५३॥

उनके बालकोंको शिक्षण देना है, कुटुम्बियों को बरक, बरक, घर  
 आदि देकर सब प्रकारसे पोषण करना है। धनवानोंका यह महान्  
 धर्म है ॥ ५३ ॥

शासनेन करणीयमस्ति तत्सर्वमेव परमस्मदादिभिः ।  
 किञ्चनपि यदि फर्तुमिष्यते शोभते तदधिकं वशप्रदम् ॥५४॥

तर्कारको तो यह सब करना ही चाहिये परन्तु यदि हम लोग कुछ  
 भी करनेकी इच्छा करें तो यह अधिक शोभा देगा और वशोदायक  
 भी होगा ॥ ५४ ॥

आपदां क्यरधि घाम मुस्लिमैस्तेन तैरिह विचारपूर्वकम् ।  
 दुःखकर्कशकशान्तिवाडिताः सन्तु हिन्दव इमे भृता मृशम् ॥५५॥

मुसलमानोंने ही यह दुःख पैदा किया है अतः उन्हें ही विचार  
 पूर्वक इन दुःखी हिन्दुओं का भालन-रक्षण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

नो बलद्रवतु साधितं किमप्याप्रदादपि च नापि लज्जया ।

कुछ प्रख्यात धार्मिक मुसलमानोंने मेरे समक्ष एक प्रतिज्ञापत्र लिखकर उसपर स्वेच्छासे अपने हस्ताक्षर भी किये हैं ॥ ४७ ॥

सर्वे एव मिलिताः सुमुरिलमास्तत्समस्तसमयानुपालने ।  
उद्यताः प्रतिदिनं भवन्तु चेत्सुस्थमत्र निखिलं भविष्यति ॥४८॥

सभी मुसलमान् मिलकर यदि उन प्रतिज्ञाओंके पालनेमें सदा तैयार रहें तो यहाँ सब कुशल होगा—शान्ति हो जायगी ॥ ४८ ॥

हिन्दवश्च विबुधाः कुरानिनः सर्वे एव यदि शुद्धमानसाः ।  
भूतमात्रमभिभूय संगताः स्युस्तदास्तु मम सुस्थिरं मनः ॥४९॥

सभी हिन्दू और मुसलमान् यदि शुद्ध मनवाले होकर गत वस्तुको भुलाकर मिल जायें तो मेरा मन सुस्थिर हो जायगा ॥ ४९ ॥

ये वचः स्वविहितं स्वयं सदा पालयेयुरभितोत्र मुस्लिमाः ।  
ते प्रमाणपदवीमुपाश्रिताः शोधयेयुरपिलाननार्यताम् ॥५०॥

अपने आप ही की हुई प्रतिज्ञाको जो मुसलमान् स्वेच्छासे भले प्रकार पालेंगे वह प्रामाणिक बनकर सबके मुखपर लगे बलह्मको धो डालेंगे ॥ ५० ॥

लुण्ठितानि सकलानि यन्तृणां द्रव्ययासवसनादिकानि ह ।  
तान्कथं सुसुप्तितान्विदध्महे चिन्तयेति न शमं लभामहे ॥५१॥

जिन लोगोंके सब द्रव्य, धर, वस्त्र आदि लूट लिये गये हैं उनको किस रीतिसे मुखी बनाऊँ इसी चिन्तासे अशान्त बना हूँ ॥ ५१ ॥

वाटशान्यपि कुलानि यत्र हा घाविता धनसमर्जिपूरुषाः ।  
तत्र रक्षणमपेक्षितं परं किं च तत्र करणीयमतिहम् ॥५२॥

ऐसे भी परिवार हैं जिनके धन पैदा करनेवाले सब पुरुष मार डाले गये हैं । उनकी रक्षा तो करनी है परन्तु कैसे और क्या करना यह विचारणीय है ॥ ५२ ॥

तत्र बालकगणाय शिक्षणं पोषणं च बहुधा कुटुम्बिनाम् ।  
चैलभक्तसदनादिदानतो धर्म एष धनिनां महानिह ॥५३॥

उनके बालकोंको शिक्षण देना है, कुटुम्बियों को अन्न, वस्त्र, घर आदि देकर सब प्रकारसे पोषण करना है। धनवानोंका यह महान् धर्म है ॥ ५३ ॥

शासनेन करणीयमस्ति तत्सर्वमेव परमस्मदादिभिः ।  
किञ्चनापि यदि कर्तुमिष्यते शोभते तदधिकं यज्ञःप्रदम् ॥५४॥

सर्कारको तो यह सब करना ही चाहिये परन्तु यदि हम लोग कुछ भी करनेकी इच्छा करें तो यह अधिक शोभा देगा और यशोदायक भी होगा ॥ ५४ ॥

आपदां व्यरधि घाम मुस्लिमैस्तेन तैरिह विचारपूर्वकम् ।  
दुःखकर्कशाकशामिताहिताः सन्तु हिन्दव इमे भृता भृशम् ॥५५॥

मुसलमानोंने ही यह दुःख पैदा किया है अतः उन्हें ही विचार पूर्वक इन दुःखी हिन्दुओं का भालन-रक्षण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

नो बलाद्भवतु साधितं किमप्याप्रशादपि च नापि लज्जया ।  
धर्ममात्रमनुसृत्य सर्वथा दीयतां किमपि वा विधीयताम् ॥५६॥

अबर्दस्तीसे अथवा आग्रहसे अथवा लज्जासे कुछ नहीं करना है। धर्मका विचार करके ही कुछ दीजिये या कुछ कीजिये ॥ ५६ ॥

जाह्यतो भवति चेत्समागमः स्त्रीयश्नुषु विपत्त्योनिवेः ।  
रोधनीय इह सोऽपिलैजैरेष एव महता महान्गुणः ॥५७॥

यदि मूर्खतासे अपने भाइयोंपर विपत्तिका सागर उमड़ पड़े तो सबसे मित्रकर उठे रोकना चाहिये; यही महापुरुषों का महान् गुण है ॥ ५७ ॥

यच्च राज्यमुपलब्धजीवनं शस्त्रयोगव्रततो न तत्पुनः ।  
याचितं किमपि कतुमुत्सहेत्साश्रयोस्ति फलदायकस्ततः ॥५८॥

जो राज्य हथियारके बलसे जीवन प्राप्त कर रहा है वह मॉंगनेसे कुछ भी न कर सकेगा । अतः स्वाश्रय ही फलदायक है ॥ ५८ ॥

सेवयैव समगंसतात्र ये दुःखिनामथ न तैर्विचार्यताम् ।  
कार्यमेतदतिलघ्विदं महत्प्रेयमेतदिदमस्ति नो तथा ॥५९॥

जो लोग यहाँ दुःखियोंकी सेवाकेलिये इकट्ठे हुए हैं उन्हें यह न विचार करना चाहिये कि यह कार्य बहुत हलका है और यह बड़ा है, यह कार्य प्रिय है और यह अप्रिय है ॥ ५९ ॥

यो हि यत्र नियतोधिकारिभिस्तत्र सोस्तु सुरवञ्जलेपितः ।  
प्राणसंकट उपस्थितेषु तन्नो भवेत्परिजिहीर्षितं स्थलम् ॥६०॥

अधिकारियोने जिसे जहाँ नियत कर दिया हो उसे वहाँ इन्द्रके वज्रका लेप बन जाना चाहिये । प्राणसंकट उपस्थित हो तो भी उस स्थलको छोड़नेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ ६० ॥

कार्यमत्र यदतीतसंख्यका प्रारभन्त ऋततन्तुभिः सिता ।  
क्षुद्रमेव भवतीह तद्गुरु त्यागरागत उत व्यवस्थया ॥६१॥

जिस कार्यको यहाँ सत्यकी डोरीसे बँधकर बहुतसे लोग शुरू करते हैं वह क्षुद्र हो तो भी त्यागके प्रेमसे और व्यवस्थासे गुरु बन जाता है ॥६१॥

शिल्पिनोत्र विपदा प्रतारिता मा जिघृक्षिपुरुषेत्य गृध्नुताम् ।  
दीयमानमयम तथोत्तमं द्रव्यराशिमिति मे समीहितम् ॥६२॥

मेरी सलाह है कि जो कारीगर विपद्ग्रस्त बने हैं उन्हें थोड़ी रकम दी जाय या बटो, परन्तु लोभमें पड़कर उसे स्वीकार न करें ॥ ६२ ॥

दीयते किमपि यैश्च तत्र सत्प्रेम कापि करणापि कारणम् ।  
नो तथापि यदि तद्गमहीष्यते पारतन्त्र्यमपसारितं भवेत् ॥६३॥

जो कोई कुछ किसीको देता है उसमें शुद्ध प्रेम और अपूर्व दया कारण होती है । तथापि यदि वह न लिया जाय तो परतन्त्रतामेंसे बचाया जा सक्ता है ॥ ६३ ॥



यः प्रयस्य तनुतो घनादिकात्सत्यतोपि समुपार्जितात्स्वयम् ।  
निर्विशेदिह च यत्प्रमाणकं देयमेव समजाय तत्पुनः ॥६४॥

जो व्यादमी शरीरसे प्रयास करके सत्यमे स्वयं पैदा किये गये घनमेंसे  
जितनेका ठपमोग करता है उतना पुनः उसे समाज को देना ही चाहिये ॥६४॥

अप्रदाय समजाय वदन्नं स्त्रीपयुक्तमिह वदन्नार्जकः ।  
चौर्यमेव कुरुते न चौरतः साधयेत्कमपि भेदमात्मनः ॥६५॥

जितने घनका उसने स्वयं ठपमोग किया है उतने घनको उस  
घनका पैदा करनेवाला यदि समाजको नहीं देता है तो वह चोरी करता है  
और चोरमें तथा अपनेमें कोई भेद भिन्न नहीं कर सकता ॥ ६५ ॥

कारणानि रज्जु सन्त्यनेकशो द्वेषरागजनितानि मानये ।  
ईदृशस्तत उपस्थितो भवेन्नित्यमेव कलहो विपत्प्रदः ॥६६॥

गनुष्योमें राग-द्वेष आदिसे पैदा हुए अनेक कारण रहते ही हैं  
जिससे कि इस प्रकारका दुःखद कलह नित्य ही हो सकता है ॥ ६६ ॥

मुस्लिमा असमदेशमेत्य ते रिक्तभूमिमधिचक्रिरे स्वयम् ।  
नीतिरीतिरियमस्ति न क्वचित्कारणं कलह एतदप्यथ ॥६७॥

अनुक मुसलमान् आसाममें गये और वहाँ बाँ चर्नीन खाली पड़ी  
यी ठसपर अपना अधिकार बना दिया । यह कर्मी मी न्यायका मार्ग नहीं  
है । जगहमें यह मी एक कारण है ॥ ६७ ॥

यास्ति शासनमिमं प्रदेशकं किञ्चनापि सबलं च दुर्बलम् ।  
कञ्चनापि सबलो जनो ह्यनापृच्छथ तन्न वसु हर्तुमर्हति ॥६८॥

इस प्रदेशमें सत्कार चाहे सबल हो चाहेनिर्बल हो; परन्तु कोई घरवान्  
पृष्ठे बिना उसके घनको ले ले, यह उसकेलिये योग्य नहीं है ॥ ६८ ॥

नित्यमेव मुञ्चिचार्य चारु चेत्किञ्चिदाचरितमस्तु कैश्चन ।  
वैमनस्यमिह नोद्भवेत्कचित्स्यान्न कोपि कलहः समुत्थितः ॥६९॥

यदि अच्छी तरहसे विचार करके कोई कुछ अच्छा काम करे तो न तो कभी मनमुटाव हो सकता है और न झगडा ही खडा हो सकता है ॥ ६९ ॥

दालतापुरमुपेत्य मोहनः सर्वमोहनमुदाहरद्वयः ।  
भूमिरण्डमिद्रमामिलत्सभं स्वामिभिः स्वयमदीयताद्य मे ॥७०॥

दालतापुरमें पहुँचकर श्रीमहात्माजीने सबको मोहित करनेवाली बात यह कही कि जमीन जिसमें कि अभी सभा हो रही है, इसके स्वामियोने मुझे आज दे दी है ॥ ७० ॥

सर्ववर्णजनतोपभुक्तये भूरियं च भविता निरावृता ।  
या प्रवर्तत इहाद्य भावना सा सती भवतु दीर्घजीविनी ॥७१॥

यह जमीन सभी वर्णों और जातियोंके उपयोगकेलिये खुली रहेगी । जो पवित्र भावना आज यहाँ प्रवृत्त है, वह चिरजीविनी बने ॥ ७१ ॥

ब्राह्मणाश्च यण्डिजश्च मुस्लिमा अन्त्यजा अपि भुवोह सर्वदा ।  
सर्वमानवहितानुगामिनी कांचनापि सुकृतिं वितन्वताम् ॥७२॥

ब्राह्मण, बनिया, अन्त्यज, मुसलमान् सभी इस भूमिपर सबके चर्यागकेलिये कोई भी सत्कर्म कर सकते हैं ॥ ७२ ॥

नाहमस्मि मुरजो न याहुजो नोरजात इति नास्मि पादजः ।  
नैव हिन्दुरथ नैव मुस्लिमः सर्व एव मयि सर्वगोप्यहम् ॥७३॥

मैं स्वयं तो न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र; न हिन्दू और न मुसलमान् । सब मुझमें हैं और मैं सबमें हूँ ॥ ७३ ॥

तेन यस्तु मम कोपि पिश्रान नैकवर्णं ह्यभोक्तुमर्हति ।  
सर्वदिष्टजनता एतः सदा क्षमामिमां निजतयैव निविशेत् ॥७४॥

इसलिये मेरी किमी परतुको कोई एक ही वर्ण उपयोगमें नहीं ला सकता । सभी विष्ट जनता इस भूमिको अपना मानकर इसका उपयोग करे ॥ ७४ ॥

श्रीसुभाषवसुरत्र जन्मना सर्वमानवसमानदर्शकः ।  
बह्वर्षीयवसुधां कृतार्थयामास कोपि विशयो न कस्यचित् ॥५५॥

मनुष्यमानसो समानदृष्टिते देखनेवाले श्रीसुभाषचन्द्रबोसने इस बद्मालकी भूमिको कृतार्थ किया है, इसमें तो किसीको कुछ कहना ही नहीं है ॥ ७५ ॥

चित्तरञ्जनमहाशयैरसौ संगतो निखिलदेशसेवया ।  
बन्धिसद्म बहुशो गतो मुहुः कष्टमत्र बहुलं ह्यसोढ सः ॥५६॥

श्रीचित्तरञ्जनदासबाबूके साथ वह सम्पूर्ण देशकी सेनाके निमित्त शामिल हुए थे । बहुत बार जेल गये और यहाँ बहुतसे कष्ट सहन किये ॥ ७६ ॥

राष्ट्रसंसदधिकारिमुख्यतां द्विः प्रयात इह सुप्रभातकः ।  
राजपुरुषसुरक्षितोप्यसौ काबुलं स्वकल्याणमत्पुनः ॥५७॥

वह दो बार तो कांग्रेसके समापति बने हैं । सरकारी सिपाहियोंके पहरेमेंसे भी निकलकर अपने चातुर्यसे काबुल चले गये ॥ ७७ ॥

यूरुपेषु बहुलासु पूर्णं सम्प्रासरत्स च जपानमाप्तवान् ।  
संचिकाय परमाप्तसैनिकान्भारतोद्दरणदत्तचित्तकान् ॥५८॥

यूरोपके बहुतसे नगरोंमें घूम कर वह जापान गये । वहाँपर भारतके उदारमें दिनका चित्त या ऐसे सैनिकोंको इकट्ठा किया ॥ ७८ ॥

तेन चित्रकरमत्र यत्कृतं तत्तथैव विरलः करिष्यति ।  
यद्यशः सुगममाद्य तत्कृते प्राप्स्यतीतरनरोपि वा न वा ॥५९॥

उस सेनासे उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किया उसे तो विरला ही कोई करेगा । जो यश उनकेलिये सुगम था उसे दूसरा कोई पावेगा या नहीं भी पावेगा ॥ ७९ ॥

तस्य धीररत्नरूपधारिणो वन्दनीयवसुधेयमस्ति सा ।  
शोभते न मनुजेषु केनचित्कारणेन सुवरापि संभिदा ॥६०॥

वीररसकी साक्षात् मूर्तिके समान उन्हीं सुभाषणावृत्तों की यह वन्दनीय भूमि है। इसमें किसी भी कारणसे मनुष्योंमें अल्प भी भेद शोभा नहीं देता है ॥ ८० ॥

सर्वमनुष्यदुःखदुरिताद्यपनयनरत,  
आस्त यदस्य चेतसि भृतं तदस्त्रिलमिह सः । ।  
निर्भयतो दयाजलनिधिर्गतनिखिलभिदः—  
स्तत्र यतीश्वरोचकथतातिपरिमितगिरा ॥८१॥

श्रीमहात्माजीके मनमें जो कुछ मरा था, सबको सर्व मनुष्योंके दुःख और पापोंके दूर करनेमें लगे हुए उ होने सशित शब्दोंमें निर्भयताके साथ कह दिया ॥ ८१ ॥

विमलयचा यतीश्वर इहाधिविराट्सभं समागतान्,  
निजहितमीहमानमनुजानुषदिदय मुस्लिमान् ।  
सकलविधाहसां दलनशक्तिधरः परस्वार्तसेवको,  
निजमुटजं स जर्जरितगात्र उदारयशा ययौ निशि ॥८२॥

इति सर्वतल्लस्वतल्लरमहसपरिमाणकस्वामिधोमद्गवशाचायंपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे

पद्य संगे

गद्य बाधनेवाचे, सर्वपापोंको नष्ट कर सकनेवाले, दीनोंके सेवक, शिथिलशरीरवाले श्रीमहात्माजी यहाँ विराट सभामें अपना पदयाग चाहने वाले आये हुए मुसलमानोंका उपदेश देकर रात्रिमें अरनी शोपनीमें चले गये ॥ ८२ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिमाणकस्वामिधोमद्गवशाचायंपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे स्वोक्तशभास्वराष्ट्रभाषाटीकायां  
पद्य संगे

## सप्तमः सर्गः

श्रीमद्गांधर्वराजा कापि बाला तस्य श्रेयःसाधिपादेषु लीना ।  
मच्छिन्नद्विपूर्णाचित्ता मनुःसा नावास्तल्यां पादर्वभाक्त्यं गतासीन् ॥१॥

श्रीमहात्मागार्धीवीके वंशमें टासन्न हुइं एक अनूबं पालिका जो  
महामावीके ही करगोने लीन थीं, जो मच्छि और अद्राते पूर्ण थीं,  
त्रिषका नाम श्रीमनुबदिन गार्धी है, वह नोवास्तर्धमें महात्मावीके पासमें  
ही रही थीं ॥ १ ॥

सर्वेषां कारिचिन्तापरोसी गीतापाठे तां युयोजातिवाटाम् ।  
गीताचार्यः स्वानुभूतामूर्त्तस्तां वृत्तां कर्तुं प्रायमन्नित्यमेव ॥ २ ॥

सबके कार्यकी चिन्ता रखनेवाले महात्माजीने श्रीमनुबदिनको गीता  
पढनेमें लगा दिया । वह गीताचार्य अपने अनुभवमन्य अनूवते उनको  
कृत करनेके लिये नित्य ही प्रयास करते थे ॥ २ ॥

गीतापाठोप्यस्ति यतो महाव्यो यतोनात्मा शुष्यति श्रीमतां च ।  
शुद्धात्मा सन्नेति शुद्धात्मतत्त्वं लोकाद्दूरं मौक्तिकादुत्सृज्यान् ॥ ३ ॥

गीताहा अप्पन्न एक पदुन्त्य पद है । यहसे माय्यशक्तिपौरा मन  
पवित्र होता है । पवित्र मनवाला होकर मनुष्य दुःखपूर्ण मौक्तिक लोकमें  
पृथक् शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

अन्नं चौर्येणार्जितं भुञ्जते ये तेषां कुक्षौ पारदत्येव तत्तु ।  
न स्यात्पाको जाठरे तस्य न स्याच्छान्तिः काये मानसे वापि बुद्धौ ॥ ५ ॥

जो लोग चोरीसे पैदा किये हुए अन्नको खाते हैं वह अन्न उनके  
पेटमें पारा जैसा बन जाता है । उनके पेटमें वह पचता नहीं है । उनके  
शरीर, मन और बुद्धिमें शान्ति नहीं होती ॥ ५ ॥

चोरान स्यामेति सर्वैः प्रयोग्यो यागो नित्यं श्रेयसां साधनाय ।  
नेयः काञ्चो न क्षणो वा क्षणार्थं यज्ञानुष्ठानेन कैश्चिद्विनात्र ॥ ६ ॥

हम चोर न बनें, इसलिये सबको नित्य ही कल्याण सिद्धिके लिये  
याग करना चाहिये । यज्ञानुष्ठानके विना किसीको एक क्षण, आधा क्षण  
भी फाल व्यतीत नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥

नायं यज्ञः सर्वथापेक्षतेत्र स्वाहाशब्दं वेदमन्त्रादिकं वा ।  
आस्ते वित्तं यस्य नित्यं विशुद्धं तस्यायं स्यादेव सिद्धोप्रयासात् ॥ ७ ॥

इस यज्ञको न तो स्वाहा शब्दकी अपेक्षा है और न किसी वेद-  
मन्त्रादि की । जिसका चित्त नित्य पवित्र है उसको यह यज्ञ विना प्रयासके  
ही सिद्ध है ॥ ७ ॥

दीनैर्वा निर्धनैर्वापि साध्यो वित्तापेक्षस्तेन नायं विचिन्त्यः ।  
कामक्रोधौ रागमोहौ विहाय स्वल्पेनैवानेहसा साध्य एषः ॥ ८ ॥

सामान्य दीन हो, धनहीन हो वह भी यह यज्ञ कर सकते हैं । इस  
यज्ञको धनकी अपेक्षा नहीं है । काम-क्रोध, राग-मोह छोड़कर थोड़े ही  
दिनोंमें यह सिद्ध किया जा सकता है ॥ ८ ॥

नायं बुद्धिं नाप्यधीतिं न यणं नान्यां कांचिशोभयतां चाच्छतीह ।  
दान्तात्मा सन्सर्वलोकोपकारी शीघ्रं यज्ञं साधयेदेतद्गृहम् ॥ ९ ॥

यह यज्ञ बुद्धि, विद्या, यणं अथवा अन्य किसी शोभयताको नहीं  
प्राप्तता । दान्तात्मा तथा सबका उपकारक मनकर शीघ्र ही इस यज्ञको  
करना चाहिये ॥ ९ ॥

ये स्वं कालं जीवनं चापि नित्यं श्रेयो धातुं संनयन्ते परेषाम् ।  
नो ते चौरा नापि ते भुङ्क्षते वा चौर्येणाप्तं किञ्चिदन्नं कदापि ॥१०॥

दूखरोग का त्याग करनेकेलिये जो अपना समय और अपना जीवन  
भर्त्सित करते हैं वह न तो चोर हैं न चोरीका अन्न खाते हैं ॥१०॥

यश्चान्येषां नोपकारं तनोति व्यर्थं कालं भावभोगैर्नयेद्वा ।  
चौरश्चासौ पापबुद्धिर्निबोध्यः स्वार्थे लीनो बद्ध ईर्ष्यादिदाम्ना ॥११॥

और जो परोपकार तो करते नहीं किन्तु सासारिक भोगविलासमें  
ही अपना काल व्यर्थ बिताते हैं वह पाप बुद्धिवाले चोर ही हैं, ऐसा  
समझना चाहिये; क्योंकि वह केवल स्वार्थपरायण हैं तथा ईर्ष्या आदि  
पापोंसे बंधे हुए हैं ॥ ११ ॥

अल्पं योत्र श्रेयसि स्वे रतः सन्दीनानां वा रोगिणां संविधत्ते ।  
सेवां सोसावरूपमेवाद्घाति स्तेयं चेत्येतद्धि विज्ञेयमार्यम् ॥१२॥

जो अपने हितमें थोडासा लगे हुए हों और दीनों तथा रोगियोंकी  
सेवा भी करते हों वह थोड़ी ही चोरी करते हैं ऐसा तत्त्वार्थ समझना  
चाहिये ॥ १२ ॥

यावन्न स्यात्सर्वथा स्वार्थेहानिर्यावन्न म्यादाद्रता स्वीयचित्ते ।  
संत्रस्तानां दुःखदावं निरीक्ष्य ज्ञेया ताव ह्यपूर्तिर्न वत्से ॥१३॥

हे वत्से, जब तक सर्वोपार्थ स्वार्थ नहीं होती और जबतक  
पीड़ितोंके दुःखदावानलको देखकर हृदयमें दयामाव नहीं उत्पन्न होता  
तब तक यशकी पूर्ति नहीं समझना चाहिये ॥ १३ ॥

त्यागोहन्ताया ममत्वस्य चापि ज्ञेयो यज्ञो गीतया योषितोसी ।  
यावद्दूरं नैत्यहन्ता ममत्वं तावत्काशा यज्ञद्वयस्य पूर्वः ॥१४॥

अहंभाव और ममभावका त्याग ही तो गीताके मत से यज्ञ है ।  
जबतक अहन्ता और ममताका त्याग नहीं होता तबतक यज्ञदेयकी  
पूर्तिकी क्या आशा है ॥ १४ ॥

एषा माता विद्यते मेहमस्याः पुत्रोस्मीति ज्ञानमाद्योतते चेत् ।  
शुद्धेशुद्धे वापि चित्तेस्मदीये नैतद्यज्ञानुग्रहोस्मासु तिष्ठेत् ॥१५॥

भगवद्गीता मेरी मा है और मैं इसका पुत्र हूँ, इस प्रकारका जगतक ज्ञानोदय शुद्ध अथवा अशुद्ध चित्तमें नहीं होता तबतक हमपर गीताकी कृपा नहीं होगी ॥ १५ ॥

एषा चास्ते मे स्वसा मे च पुत्री द्वे चैते स्तो यस्य कस्यापरस्य ।  
यावत्तिष्ठेन्मानसे रोग एष कात्यामाशा यज्ञदेवोदयस्य ॥१६॥

यह मेरी बहिन वा पुत्री है और यह किसी अन्यकी है, जगतक यह मानसिक रोग विद्यमान है तबतक यज्ञदेवके प्रकट होनेकी कोई आशा नहीं है ॥ १६ ॥

यः स्वं सर्वव्यापके सर्वरूपे भावाधीशे भावनातो महेशे ।  
श्रद्धाप्रेमश्रीभरेणार्पयेत्स श्रेष्ठो जीवो यज्ञमेनं वितन्यात् ॥१७॥

जो सर्वव्यापक और सर्वरूप तथा प्रेमके स्वामी परमात्मामें अपनेको श्रद्धा और प्रेमसे अर्पण करता है वही श्रेष्ठजीव इस यज्ञको कर सकता है ॥ १७ ॥

यो मध्यस्थं श्रीपतिं संविधायाधत्ते यहाँ लोकसेवाख्यमिदम् ।  
तस्मिन्नीशः स्या कृपां संनिधत्ते शुभ्रं लोकं ज्ञानिगम्यं स एति ॥१८॥

जो श्रीरामको मध्यस्थ बनाकर लोकसेवारूप यज्ञ करता है उसपर ईश्वर अपनी कृपा फैलाते हैं और वह ज्ञानियोंके प्राप्य पवित्र लोकमें पहुँच जाता है ॥ १८ ॥

स स्यात्प्राप्तः शान्तिमात्यन्तिकी स प्राप्तः स्यान्नित्यमानन्दभूमिम् ।  
पश्यन्दुःखे वापि सौख्ये समत्वं सेवाभावाद्यज्ञमासेवते यः ॥१९॥

जो मुग्ध और दुःखमें समानभावसे रहकर सेवाशुद्धिसे इस लोककोप-कार रूप यज्ञको करता है वह आत्यन्तिक शान्ति पाता है और नित्य तथा आनन्दमय लोकमें प्राप्त करता है ॥ १९ ॥





पटना (बिहार) में श्री० महात्माजी प्रातः कालीन भ्रमण कर रहे हैं और  
कुमारी श्री० मनु गांधीसे गीताशा उपदेश द रहे हैं।

देहं मोहं वा मतिं मानसं वा यत्किञ्चिद्वा तस्य वर्तत भूमौ ।  
तत्सर्वं व्यापारयेल्लोकहेतोः सत्यं यद्दं सेवमानो मनुष्यः ॥२०॥

इस सत्यरूप यज्ञको जो सेवन करे उसे चाहिये कि अपना शरीर, घर, बुद्धि, मन अथवा जो कुछ उसके पास हो उस सबको लोकहितमें लगा दे ॥ २० ॥

न स्युः कर्तुं सर्वल्लोकाः समर्था यद्दं शुद्धं चेद्दृशं द्वेषशून्यम् ।  
भाग्येनैवावाप्य एतादृशः स स्वात्मारामेर्भूरिभाग्यैः कदाचित् ॥२१॥

जिसमें राग-द्वेषका नाम भी नहीं है ऐसे इस पवित्रयज्ञको सब लोग नहीं कर सकते । यह यज्ञ तो आत्माराम और भाग्यशाली लोगोंको भाग्यसे ही मिल सकता है ॥२१॥

किन्तु प्रास्यैवैषगाः सर्वदा ये सेवाभावात्तन्वते धीरचित्ताः ।  
सौत्रं यद्दं सूत्रचक्रेण नित्यं ते तं यद्दं पूर्णरूपेण यन्ति ॥२२॥

परन्तु जो लोग पुत्रैषगा, विसैषगा और लोकैषगाका त्याग करके पीरचित्त होकर सेवाभावसे बल्लेसे सूत कातकर सूत्रयज्ञ नित्य करते हैं वह पूर्णरूपसे यज्ञको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥

येषां दृष्टि स्मार्थ एवास्ति नित्यं ये पारार्थ्यं चापि कृत्यं विधातुम् ।  
ईहन्ते ते कृत्स्नशः सभजन्ते कार्तार्थ्यं तत्सूत्रसत्रेण सत्यम् ॥२३॥

जो स्वार्थमें दृष्टि रखनेके साथ-साथ परोपकार भी करना चाहते हैं वह सूत्रयज्ञसे वस्तुतः कृतार्थता प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥

यज्ञेनानेनात्र लोका असंख्याः क्षुत्क्षामाः संविभ्रते स्वंपिचण्डम ।  
नेत्रेर्दानीः कर्णहीनाश्च लोका एवं यद्दं देवमाहर्तुमीशाः ॥२४॥

इस सूत्र यज्ञसे असंख्य भूखपीडित लोग अपना पेट भर रहे हैं । अन्धे और बहिरि लोग भी यज्ञदेवका आवाहन कर सकते हैं ॥ २४ ॥

नायं यज्ञः केवलं लौकिकार्थं सूते सूते किंतु भव्यं परार्थम् ।  
सार्धं प्रत्येकं च सूत्रेण नाम श्रीरामस्य स्यात्समृतं चेत्यवित्रम् ॥२५॥

यह सूत्रयज्ञ केवल लौकिक ही नहीं पारलौकिक फल भी देता है यदि प्रत्येक सूत्रके साथ रामका पवित्र नाम स्मरण किया जाय ॥ २५ ॥

आचारः स्यात्सर्वथा चैत्पवित्रो न स्याद्यस्य स्वार्थसंश्लिष्टबुद्धिः ।  
तस्यैवायं सेवितो यज्ञदेवः सर्वान्कामानाशु सूते प्रसन्नः ॥२६॥

जिसका आचार अत्यन्त पवित्र हो और जिसकी बुद्धि स्वार्थमयी न हो उसीको यह देव प्रसन्न होकर सब पदार्थ देते हैं ॥ २६ ॥

यद्यत्तुर्वे प्रातरारभ्य सर्वं रात्र्यन्तं तद्रामपादाब्जयुग्मे ।  
श्रद्धापूर्वं चार्पयामीति बुद्ध्वा कृत्ये कृत्ये नास्ति दोषायकाशः ॥२७॥

“जो कुछ भी मैं प्रातःसे लेकर रात्रि तक करता हूँ, सब भगवान् रामके चरणकमलोंमें श्रद्धापूर्वक अर्पण करता हूँ या कहूँगा” इस बुद्धिसे कर्तव्य कर्म किया जाय तो कोई दोष हो ही नहीं सकता ॥ २७ ॥

यो नित्यं स्यादेवमोक्षप्रसक्त्यै रक्तो लोकश्रेयसां संविधाने ।  
हास्यं पानं क्रीडनं भक्षणं वा सर्वं कार्यं तस्य सेवाभृतं स्यात् ॥२८॥

इस प्रकारसे जो मनुष्य भगवत्प्रसङ्गताकेलिये लोककल्याण करनेमें लगा रहता है उसका खाना, पीना, हँसना, खेलना सर्व कार्य सेवासे भरा हुआ होता है ॥ २८ ॥

यद्यत्सेवाभावतस्तन्वते ते कार्यं सर्वं व्यापृतं स्यात्सदा तत् ।  
निर्दोषत्येनैव धत्ते महेशः साहाय्यं चापीह तस्याविकुण्ठम् ॥२९॥

ऐसे लोग सेवाभावसे जो जो कार्य करते हैं वह सब सदा निर्दोषतापूर्ण ही होते हैं । ईश्वर भी उसमें सम्पूर्ण सहायता करता है ॥ २९ ॥

ये ये भक्ताः प्रीतियुक्ता भजन्ते मां तान्नित्यं योजये बुद्धियोगे ।  
कृष्णः प्राहेत्यात्मर्गातासु नैतन्मिथ्येत्येवं त्वं प्रतीहि प्रयोधान् ॥३०॥

गीतामें भगवान् कृष्णने जो यह कहा है कि “जो जो भक्त प्रीतिगुक्त मेरी सेवा करते हैं मैं उन्हें बुद्धियोग—ज्ञानयोगमें जोड़ता हूँ” वह मिथ्या नहीं है, ऐसा तुमको विश्वास रखना चाहिये ॥ ३० ॥

गीताज्ञान सर्वपापानुत्स्य गद्गानीर विद्यते सर्वशक्ति ।  
ये तस्यत्तवा ज्ञानमन्यच्छ्रयन्ते नो ते सिद्धिं प्राप्नुवन्ति प्रकृत्याम् ॥३१॥

गाताना ज्ञान सबपापोंका नाश करनेकेलिये सबशक्तिमान् गद्गान्ठ समान है । ना इस ज्ञानका छोप्कर अन्य ज्ञानका आश्रय लते है वह उच्चम सिद्धिको नहीं पाते ॥ ३१ ॥

धी ए एमे इत्युपाधी गृहीत्वा देवे कर्मण्यत्र न त्व प्रमु स्या ।  
सर्वव्यापी नेश्वर सेरितत्रेदिक तेन स्वात्तर्हुपाधिर्हुपाधि ॥३२॥

वसे, व० ए०, एम० ए० इन उपाधियों को उकर तुम त्व एममे तो समय नहीं ही हो सकता । यदि सबव्यापी भगवानका सेवा न का तो उन उपाधियोंसे क्या लाभ ? तब वह उपाधि उपाधि ही बनेगी ॥३२॥

सर्वा बाला सधेनालाश्च वाच मन्येरन्मे शीत्रमेरात्तिशानि ।  
त्रिद्यागालात्यागपूर्वं सपद्यागच्छेयुस्ते शान्तिकर्मात्र कर्तुम् ॥३३॥

यदि समा बालिकाएँ और समा बालक नरी बात मानें तो मैं उनको बिना विचारे उपदेश दूँ कि वह सब स्कूल-कालेच छोप्कर एक दम नहीं शान्तिक फाममें आकर ला जावें ॥३३॥

लामस्तेपा चेदपाकर्तुमीपच्छस्य' स्याद्वा तत्परीत्या फलानाम् ।  
नेशोस्माक लाघवोपेत एव प्राप्य श्रीमद्गौरव पूजित स्यान् ॥३४॥

यदि परीक्षाक उन फलों ( वी० ए०, एम० ए० इत्यादि उपाधियों ) का लोभ उनका थोडा भी दूर हो सक तो यह हमारा देश जो गिया हुआ है, गौरवशाली होकर पूजित बन जाय ॥३४॥

चोतिक्रम्य स्वस्य शक्तिं विदध्यात्कार्यं स स्यात्क्षीणनेग क्षणेन ।  
नैतामुक्तिं छात्रसघासमदीयो ध्यायत्येतेनैर दृश्योत्पात ॥३५॥

जो अपनी शक्तिसे अधिक कार्य करता है वह थोडे समयमें ही हतोत्साह हो जाता है । हमारा विचारिधर्म इस वचनका ध्यान नहीं करता इसीलिये उसका पतन देखा जाता है ॥३५॥

स्वस्मिन्देसे पद्धतियोस्ति तस्यात्यागः कार्यः सर्वथा नैर कैश्चित् ।

श्वेताह्वानां रीतिमाश्रित्य सर्वत्रन्या लोका दुःखभाजो भवन्ति ॥३६॥

अपने देशकी जो पद्धति है उसका कभी किसीको त्याग नहीं करना चाहिये। अग्रेजोंकी रीतिका यहाँके लोग आश्रय लेकर दुःखी हो रहे हैं ॥३६॥

यद्यप्यत्रास्त्येव राशिर्वहूनां दूरुढीनां नात्र शङ्कावकाशः ।

किन्तु स्वस्याभ्यस्तमार्गेण गच्छन्देशोयं स्यादाशु सर्वैरपीड्यः ॥३७॥

यद्यपि यहाँ भी बहुत सी निकृष्ट रूढ़ियाँ वर्तमान हैं, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु यदि यह देश अपने अभ्यस्त मार्गसे चले तो शीघ्र ही सबका प्रशसापात्र बन जाय ॥ ३७ ॥

गीताज्ञानं सर्वपापापहारि श्रेयः प्राप्तुं चैकमात्रं सहायः ।

इत्येवं श्रीपूज्यपादाञ्जगाधे' सर्वागम्या शास्त्रगम्या मनीषा ॥३८॥

श्रीमद्भगवद्गीताका ज्ञान सर्व पापोंका हरण करनेवाला तथा मोक्षप्राप्तिका एक मात्र सहायक है; सबकी समझमें न आ सके परन्तु शास्त्रद्वारा समझा जा सके, ऐसा यह विचार श्रीमहात्मागाधीजीका है ॥३८॥

पीत्री मनुं प्रतिदिनं गुणवद्धरिष्ठां,

गीतार्थमेवमवबोधयति स्म देवः ।

साप्यार्यपादसरसीरुहमाश्रयन्ती,

दुर्वोधमर्थमधिगम्य कृताथिताभूत् ॥३९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

सप्तमः सर्गः

इस प्रकारसे महात्माजी अपनी पीत्री वि० मनुबहिन गाधीजी गीताके अर्थका उन्देश करते थे। वह भी महात्माजीके चरणकमलका आश्रय लेकर दुर्वोध अर्थको जानकर कृताथि होवायीं ॥३९॥

इति श्रीरामहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे श्वोपशुभारतराष्ट्रभाषाटीकायां

सप्तमः सर्गः

31048

## अष्टमः सर्गः

ऋज्यर्थरन्ध्रेऽमितैशवीयसंबत्सरस्य प्रथमे हि मासे ।  
शुभे तिथौ तर्कमिते यतीशः समागतान्सर्वजनानोचत् ॥१॥

ता० ६ जनवरी १९४७ ई० के दिन इच्छे हुए लोगोंको श्रीमहात्मा  
जीने कहा ॥१॥

यारम्भि यात्रात्र तिथौ द्वितीये महापवित्रे ऋतुसंमितार्याः ।  
स्यात्सत्फला सेति विनम्रभानैः संप्रार्थये राममनन्तशक्तिम् ॥२॥

सज्जनो ! कह रह महापवित्र बरके समान जिस यात्राका मैंने  
आरम्भ किया है वह सुफल देने ऐसी प्रार्थना रामसे करता हूँ ॥२॥

विज्ञानतीत्यापरिचिन्त्यरूपान्परस्सहस्रान्प्रतिवासरौत्थान् ।  
आप्नोमि सिद्धिं स्वमनीपितैर्यं यूयं प्रयच्छन्तु शुभाक्षिपो मे ॥३॥

प्रतिदिन आनेवाले बड़े-बड़े हजारों विज्ञानको पार करके मैं अपने  
कार्यमें सिद्धि प्राप्त करूँ, ऐसा आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें ॥३॥

हिन्दूमुसल्मानमनोविशुद्धिः प्रेम द्वयोः शाश्वतिकं च शुद्धम् ।  
परस्परप्रत्ययशालिनौ तौ भयं भवेतां परिहाय सम्यक् ॥४॥

जिस कार्यके लिये यह यात्रा है उसका वर्णन करते हैं । हिन्दू-  
मुसलमानोंके मन पवित्र हो । दोनोंमें नित्य शुद्ध प्रेम पैदा हो । भय  
छोड़कर दोनों ही परस्पर विश्वास करने लग जायें ॥४॥

एतत्समाराधयितुं मयेयं यात्रा समारम्भि फलं प्रकृष्टम् ।  
घाता विधाता फलितेच्छकं मां नैवात्र शङ्काप्रसरावकाशः ॥५॥

इसी उत्तम फलको प्राप्त करनेके लिये मैंने यह यात्रा शुरू की है ।  
भगवान् मेरी इच्छा पूर्ण करेगा, इसमें सन्देहकेलिये अवकाश ही  
नहीं है ॥ ५ ॥

31048

एतत्समीहापरिसाधनाय चात्रा न कंचिद्भ्रमतेयकाशम् ।  
संशेरते चेदिति वो मनासि तेषां समाधानमिदं प्रवित्त ॥६॥

यदि आपके मनमें यह शङ्का होती हो कि उपर्युक्त सिद्धिके लिये  
यात्रा करनेमें कोई कारण नहीं है तो इसका यह समाधान समझें ॥६॥

येषां तदन्तःकरणं पवित्रं त एव संशोधयितुं परेषाम् ।  
मनोतिसूक्ष्मं दुरघं क्षमन्ते नान्यः स्वयं सन्तमसावलीढः ॥७॥

जिनका अन्तःकरण पवित्र है वही दूसरोंके अतिसूक्ष्म पापी मनको शुद्ध  
कर सकते हैं। जो स्वयंअज्ञानी और अपवित्र है वह यह कार्य नहीं कर सकता ॥७॥

येषां मनो भीतिपराहतं स्यान्नो साहसं यत्र पद दधीत ।  
कथं हि ते साध्यसभारभाजां मनः सशक्तं तनितुं क्षमन्ताम् ॥८॥

जिनका मन डरा हुआ है, जिसमें साहसका नामभी नहीं है, वह  
लोग डरे हुएोंके मनको सशक्त कैसे बना सकते हैं ? ॥ ८ ॥

आतङ्कपङ्काभिकलङ्किता ये स्वरक्षणायपि विनास्त्रसंघेः ।  
उपायमन्यं न विदन्ति ते किं रक्षां विधास्यन्ति भयातुराणाम् ॥९॥

आतङ्कसे भरे हुए जो लोग हथियार विना अपना रक्षण करनेकेलिये  
कोई अन्य उपाय नहीं जानते हैं वह डरे हुएोंकी क्या रक्षा करेंगे ? ॥९॥

येषामर्हिसेव बलं विशुद्धा शस्त्रास्त्रसंघेस्ति च निर्दरत्वम् ।  
प्रेमामृतार्धेन भृतं मनः स्यात्ते साधयिष्यन्ति महद्वि साध्यम् ॥१०॥

विशुद्ध अहिंसा ही जिनका बल है, अस्त्र शस्त्रोंके बीचमें भी जिन्हें  
निर्भयता है, प्रेमरूप अमृतसे जिनका मन भरा हुआ है वह अवश्य ही  
बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करेंगे ॥ १० ॥

त एव लोकान्निद्रितानि शस्त्राण्यस्त्राणि चोत्सर्जयितुं समर्थाः ।  
प्रेमामृतं पाययितुं प्रकोपक्ष्वेदप्रसारव्यथिताश्च सर्वान् ॥११॥

यही लोग तीक्ष्ण अन्न चस्त्रोंको लोगोसे छुड़ा सकते हैं। वही लोग  
श्रोत्ररूप विषसे व्याकुल लोगोंको प्रेमरूप अमृत पिला सकते हैं ॥११॥

ग्रामादटन्ग्राममहं च सर्वांसद्रामवासानतिनिर्मलं मे ।

वन्द्युत्पभावाकलितं मनोह्रं प्रदर्शयिष्यामि मनः समुत्कः ॥१२॥

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें घूमता हुआ मैं ठन-ठन गाँवोंमें रहनेवालोंको  
मेरा आनन्दभावपूर्ण, अतिनिर्मल सुन्दर मन उत्साहसे दिखाऊँगा ॥ १२ ॥

ततश्च मां येद्य न विश्वसन्ति मत्तोपि ये विभ्यति मुस्त्रमानाः ।



मैं केवल ईश्वरमें विश्वास रखता हूँ । यहाँ पर उल्टीक माहुबल पर सुखसे सोता हूँ । ससारकी जलती आगसे तपे हुए मुझ दुर्बलको और कोई आशय नहीं है ॥ १७ ॥

युयं प्रतीताद्य चचो न वा मे न तत्र यत्तव्यमहं विजाने ।  
सर्वान्तरात्मा परमात्मदेव शक्नोति धोदु जनमानसानि ॥१८॥

आप आज मेरे बचनका विश्वास करें या न करें इस विषय में मैं नहीं समझता कि मुझे क्या कहना चाहिये । मनुष्योंके हृदयको तो केवल सर्वान्तरात्मा परमात्मा ही जान सकता है ॥ १८ ॥

कर्तव्यमास्ते जगदीशपादपरायणस्याखिलमानवस्य ।  
स आन्वरादेशमिहानुसृत्य क्रियापरः स्यात्स्वभिर्यं निरस्य ॥१९॥

ईश्वरभक्त सभी मनुष्योंका कर्तव्य है कि अन्दरकी आवाजके अनुसार अपने भयको छोड़कर क्रियापरायण बनें ॥ १९ ॥

मन्येहमात्मान्तरजातशब्दजाल विभाव्यैव समाचरामि ।  
न तत्र भीतिं परिबाधते मां न वा मनः संकुचतीति सत्यम् ॥२०॥

मैं मानता हूँ कि मैं अपने अन्तरात्माके शब्दोंको विचार करके ही आचरण करता हूँ । उस आचरणमें न तो मुझे भय लगता है और न मनमें संकोच ही होता है । यह सत्य वस्तु है ॥ २० ॥

सिक्खा अपि स्नेहवशादुपेता आदेशमागृह्य हि शासनस्य ।  
सार्धं मयास्मिन्कुपिते प्रदेशे बन्धुत्वमाप्येव सदा चरन्ति ॥२१॥

सिक्ख भाई भी प्रेमवश होकर ही यहाँ सर्कारकी आज्ञा लेकर आये हैं । इस प्रोधभरे प्रदेशमें भाईपनेको लेकर ही मेरे साथ चलते हैं ॥२१॥

न ते निरोध्या कथमप्यवद्याचारावतारप्रतिकूलभावा ।  
न चागता सन्ति नियोद्भुकामा वृषाणमात्मीयमपास्य धर्म्यमा ॥२२॥

हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि उनके हृदय में हिंसाके प्रतिकूल

भाव मरे हुए हैं। वह यहाँ लडनेकेलिये नहीं आये हैं। यह तो अपना धार्मिक कृपाग भी छोड़कर यहाँ आये हैं ॥ २२ ॥

सुभाषचन्द्रेण महोदयेन व्यरच्युदात्ता पृथना च तस्याः।  
प्रधानमुद्देश्यमिहाखिलेषु सान्यं स्वदेशोद्दरणादिकं च ॥२३॥

श्रीसुभाषदाबूने एक उदार सेना बनायी थी। उसका प्रधान उद्देश्य था—सब लोगोमें—हिन्दू-मुसलमान-पारसी-ईसाई आदि में समानता का व्यवहार और स्वदेशका उदार करना ॥ २३ ॥

गृहीतसाम्यप्रशमादिभावा भयप्रदाः सन्ति कदापि नैते।  
सुभाषसेनानुगता इहेवा हिन्दूमुसल्मानसपर्ययैव ॥२४॥

यह सबमें समान भाव रखते हैं। शान्तिके चाहनेवाले हैं। अतः इनसे कभी डरना नहीं चाहिये। हिन्दू-मुसलमानोंकी सेवा करनेकेलिये ही सुभाषदाबूके यह सैनिक यहाँ आये हैं ॥ २४ ॥

एतादृशाः स्युः कथमार्तसेवारक्षा विरक्ता कलहादिकृत्यात्।  
मथानुवाच्याः प्रतिघात यूयमस्मादिति स्वात्मनिभा इमेद्य ॥२५॥

जो दुःखियोंकी सेवामें लगे हुए हैं, झगड़ा लड़ाईसे जो अलग हैं, जो मेरे आत्माके ही समान हैं ऐसे इनको मैं कैसे कहूँ कि तुम लोग यहासे चले जाओ ? ॥ २५ ॥

इमे जगद्वञ्चयितुं प्रवृत्ता आलम्बराधाश्रयणेन नैव।  
सेवां पुरस्कृत्य महार्चनीयं साहाय्यमत्रादधते ममापि ॥२६॥

यह लोग कोई आलम्बर आदि करके जगतको टगनेकेलिए तो प्रवृत्त नहीं हुए हैं। सेवाको आगे रखकर मुझे भी अमूल्य सहायता देते हैं ॥ २६ ॥

सेवामनीषामिह चेत्त्यजामि लोकापवादोद्भवतोऽन्यतोऽपि।  
लघुत्वमात्मन्युररीकृतं स्वाङ्गीहर्मवेयं च जगत्समक्षम् ॥२७॥

यदि लोकापवादके कारण अथवा किसी अन्यमणसे मैं इनकी सेवा—

इनके द्वारा धी जानेवाली सेवाका त्याग करता हूँ तो मुझे भेरे मनमें लघुता मालूम होती है और बगलके आगे मुझे भीरु बनना पड़ता है ॥ २७ ॥

ततोर्थये धो गतशङ्कचित्ता यूयं समे विद्वसितेषु सम्यक् ।  
भवेत्क्षतिः कापि कथंचनापि नाद्या यचो मे हृदये कुरुष्वम् ॥२८॥

अतः मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप चित्तसे शङ्का दूर कर दें । इनमें सम्पूर्ण विश्वास रखें । कभी किसी प्रकारकी क्षति नहीं हो सकेगी । मेरी बातको अच्छी तरहसे हृदयमें स्थान दें ॥ २८ ॥

चित्तेन चैतान्मलिनेन सिक्खान्नाक्षामि चेतस्यान्मम नाश एव ।  
एते भवेयुर्यदि हन्त मिथ्याचारा व्रजेयुर्विबशा भुवोस्याः ॥२९॥

यदि मैं मलिनमनसे इन सिक्खभाइयोंको रक्षता होऊँ तो मेरा नाश ही होगा । यदि यह लोग मिथ्या आचारविचारवाले होंगे तो इस भूमिसे लाचार होकर चले जायेंगे ॥ २९ ॥

एवं समाश्रास्य महर्षिवर्यो नोवाखलीयान्यवनान्कथञ्चित् ।  
तेर्नाशितान्प्रज्वलितान्गृहादीन्स्थलात्स्थलं वीक्षितुमाट पद्मः ॥३०॥

महात्माजी इस प्रकारसे नोवाखलीके मुसलमानोंको किसी-किसी प्रकार समझाकर उन्होंने जिन घरोंको जलाया था और नष्ट किया था उन्हें देखनेके लिये पैदल ही एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमते थे ॥३०॥

श्रीरामपुरात्पथसं स चण्डीपुरं ततो मासिमपुरमापत् ।  
फतेहपुरादासपडां तनोगाज्जगत्पुरं लामचरं करप्पम् ॥३१॥

यात्राके क्रमका निर्देश किया जाता है । श्रीरामपुरसे चलकर, चण्डीपुर गये । वहाँसे मासिमपुर, वहाँसे फतेहपुर, वहाँसे दासपाडा, वहाँसे जगतपुर, वहाँसे लामचर और वहाँसे करपाडा ॥ ३१ ॥

शाहापुरं प्राप्य गतो भटीयात्पुरं च नारायणपुरमस्मात् ।  
असौ यतिर्दशरियां प्रपेदे तत्पारकोटं स इतास्त्रोराम् ॥३२॥

फिर शाहपुर, मटियालपुर, नारायणपुर, दशहरिया, पारकोट, होकर पश्चात् इतरखोरा गये ॥ ३२ ॥

शिरण्डिकेथूडिपनीयलानि गत्वा शनैर्दालतमाप तस्मात् ।  
मुरायिमं चैत्य ततः स हस्तावादं मुहम्मदपुरमीयवान्सः ॥३३॥

वहाँसे शिरण्डो, वहाँसे क्यूडी, वहाँसे पनियाला जाकर ढाल्टा गये ।  
वहाँसे मुराइम बाहर हसनाबाद और पश्चात् मुहम्मदपुर गये ॥ ३३ ॥  
पाल्लां ततो वादलकोटचाटाखिले भयोरं गतवान्महर्षिः ।  
ततो जयागं ह्यमकी नचोरीमेधं क्रमात्प्रामचयान्दृश ॥३४॥

वहाँसे पाल्ला, तत्र फिर वादलकोट, चाटारिल, भजोर, इसके बाद ब्याग, अमकी, चोरिन इत्यादि ग्रामोंको महात्माजीने क्रमसे देखा ॥ ३४ ॥  
प्रामेषु वा ग्रामटिन्नासु बह्विस्त्रातानि घामानि शतानि देव ।  
दृशं तस्माच्चिसिदै परं स देवप्रकोप यत्रनेपु मेने ॥३५॥

छोटे बड़े गावोंमें श्रीमहात्माजीने सैकड़ों बले हुए घरोंको देखा ।  
इससे बड़े बहुत खिन्न हुए । तथा यह मान लिया कि मुसलमानोंपर ईश्वरका कोप है । अन्यथा बड़े इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते ॥ ३५ ॥

वृन्दं शतानां निहताहतानां हिन्दूजनानां मुसलीमलोकैः ।  
गृधैः शृगालैश्च निरुन्यमानं क्षिप्तौ तनूनां स दृशं तत्र ॥३६॥

वहाँ सर्वत्र महात्माजीने देखा कि मुसलमानोंके द्वारा मारे और घायल किये सैकड़ों हिन्दुओंके शरीरोंके वृन्दको पृथिवीपर गिद्ध और सियार नोंच रहे हैं ॥ ३६ ॥

केचिच्च तत्राहतिभ्रमदोपस्त्रिभ्राड्त्रियुग्माश्च विभिन्नशीर्षाः ।  
केचिच्च विप्रा विगतैरुहस्ता गतैकपादा अपि केचिदासन् ॥३७॥

वहाँ किन्हींके दोनों हाथ फटे पड़े थे, किन्हींके पैर फट डाले गये थे, किन्हींके सिर फटे थे, किन्हींकी नाक फटी थी, किन्हींका एक हाथ फटा था और किन्हींका एक पैर फटा था ॥ ३७ ॥

स्रवच्छिरोभेदमहास्रधारा चञ्चल्याङ्गिणी षापि च निष्कृणन्तः ।

शवेभ्य आच्छिद्य च मांसखण्डान्नभ्रन्त आशासु च विष्किरौघाः ॥३८॥

कहीं तो देखा कि सिर फट जानेसे उसमेंसे रक्तकी धारा निकल रही है और पक्षी = कौए-गिद्ध आदि उसे चोंचसे नोच रहे थे, कहीं देखा कि शव = लाशमेंसे मांसको नोच नोचकर पक्षी चारों दिशाओंमें बैठकर खा रहे हैं ॥ ३८ ॥

क्वचिद्धताना च करा शिशूनामङ्गुल्य आसन्मुवि संनिरीक्ष्याः ।

क्वचिद्भ्रजौ षापि च पञ्चशास्त्रान्क्वचित्कफोर्णीश्च र्यातर्ददर्श ॥३९॥

कहीं मारे गये हुए छोटे छोटे बच्चोंके हाथ और कहीं कहीं अङ्गुलियों पृथिवीपर जहाँ तहाँ पड़ी हुई हैं । कहीं भुजा, कहीं हथेली और कहीं फेटुनी पड़ी हुई हैं । यह सब महात्मारज ने देखा ॥ ३९ ॥

हा हेति कृत्वा रुदतां तदोरताडं जनानां हतवान्धवानाम् ।

विलुण्ठितागारधनप्रजानां ददर्श वृन्दानि स तत्र तत्र ॥४०॥

उन्होंने देखाकि जिनके सगा-सम्बन्धी मारे गये हैं, जिनके घर, धन, प्रजा सब कुछ लूट लिये गये हैं उनका समूह वा समूह जहाँ तहाँ छाती बूट बूटकर रो रहा है ॥ ४० ॥

माता हता मे हत एव तातोपिला हता मे वत बन्धवोद्य ।

गच्छामि कं कुत्र दशा च का मे स्याद्वन्व दैवेन कृतं किमद्य ॥४१॥

मेरी माँ मारी गयी, पिता भी मारे गये, सब भाई मार डाले गये । मैं कहाँ किसके पास जाऊँ ? मेरी क्या दशा होगी ? हा दैवने आज क्या किया ? ॥ ४१ ॥

हा नाथ हा प्राणपते विहाय मामद्य यातोसि कथं च कुत्र ।

तत्प्रेम नैसगिक्मेव तत्ते सौहार्दमयैकपदे क यातम् ॥४२॥

हे नाथ, हे प्राणनाथ, आज मुझे छोड़कर आप क्यों और कहाँ चले

गये ! आपका वह स्वाभाविक प्रेम और वीहार्द धनभरमें ही कहीं चला गया ! ॥ ४२ ॥

हे पुत्र कुत्रासि गतस्त्वमद्य मामक्षिहीनां जरठां विपन्नाम् ।  
विहाय मां त्वज्जनकेन साथं गच्छन्कथं मामनयो न साकम् ॥४३॥

हे पुत्र ! तू कहीं है ? आज मुझ अंधी, बुढ़ी और दुखियारीको छोड़कर तू कहीं चला गया ! अपने बापके साथ जाता हुआ तू मुझे भी साथ क्यों न ले गया ! ॥ ४३ ॥

अन्धौ कथं त्वं पितरौ विहाय प्राया अपृष्टैव सुत क वस्मात् ।  
हा वत्स कोय प्रभृति त्वया नौ हीनौ जलं जीवित पाययेत् ॥४४॥

हे पुत्र ! तू अपने मातापिताको छोड़कर, पूछे बिना ही कहीं और क्यों चला गया ? हे वत्स, हे मेरे प्राण ! तेरे बिना आज हमलोगोंको जल कीन पिलविगा ! ॥ ४४ ॥

एतत्त्वदर्थं सुत मत्स्यखण्डान्नवीदनं क्षुद्रश्चथितातिशीघ्रम् ।  
आसं प्रयासाननु पाचयन्ती क्षुत्तामकण्ठोसि गतः क तात ॥४५॥

हे भूलसे पीड़ित पुत्र ! तेरे लिये ही तो यह मछलियों और मात में पकवा रही थी; तू भूखा ही कहीं चला गया ! ॥ ४५ ॥

एवं बहूनां प्रवयःपितृणां गताक्षिकाणां च सचक्षुषां च ।  
हा हा तदोर प्रतिपेपमारोदतां स शुश्राव वचोतिदीनम् ॥४६॥

इस प्रकारसे बूढ़े, अंधे अथवा ओंखवाले छाती कूटकर रोनेवाले मातापिताके अति दीनवचन उन्होंने सुने ॥ ४६ ॥

तत्रस्ति पात्रं लवणस्य तत्र स्थितं मदीयं च तमास्तुपात्रम् ।  
तत्रास्ति मृत्पात्रमिदं च भिक्षापात्रं समाकर्षय शीघ्रमेव ॥४७॥

वह नमक रखनेका पात्र है, यह मेरा तमास्तुका खम्बा है, वहाँ मिट्टीका बर्तन है और यह भिक्षा मागनेका पात्र है । शीघ्र ही सबको बाहर करावो ॥ ४७ ॥

तत्रास्ति धौतं वसनं च तत्र शाटी च तत्रास्ति षट्त्रय कन्था ।  
एतांश्च शब्दान्वहु दुर्विधानां दहद्गृहेषु श्रुतवान्महात्मा ॥४८॥

वहाँ धोती है, वहाँ साड़ी है, वहाँ चटाई है और वहाँ गूदड़ी है,  
इन शब्दोंको बहुतसे गरीबोंके जलते हुए घरोंमें उन्होंने सुना ॥ ४८ ॥

भृत्या इमाः सन्ति च रत्नपेटा इमाश्च यत्नैर्विविधैर्भृतास्ताः ।  
इमा अलङ्कारभृताश्च मञ्जूपास्ताः सपद्येव वहिर्नयध्वम् ॥४९॥

नौकरो, यह रत्नकी पेटी है, यह तरह-तरहके कपड़ोंकी पेटी है, इनमें  
गइने हैं, सबको जर्दा बाहर निकालो ॥ ४९ ॥

इमे च वेदाः स्मृतयश्च शिष्या एताः पुराणानि कियन्ति तावत् ।  
शास्त्रार्थपत्राणि गुरोः श्रुतानि सर्वाणि शीघ्रं वहिरानयेत् ॥५०॥

यह वेद हैं, यह शास्त्र हैं, यह नितने श्रीगुरुजीके पाससे सीखे और  
लिखे हुए पुराने शास्त्रार्थोंदिके खरें हैं, सबको हे शिष्यो ! शीघ्र बाहर ले  
आवो ॥ ५० ॥

इमानि भस्मानि महाघ्न्याकाणि तथौषधानां निचयं महाघ्न्यम् ।  
एतं च तं सुश्रुतमाधवीयग्र-थादि शिष्या वहिरानयध्वम् ॥५१॥

यह बहुमूल्य भस्म है, यह बहुमूल्य औषधियाँ हैं, इनको, उनको  
और सुश्रुत, माधवनिदान आदि ग्रन्थोंमें हे शिष्यो बाहर निकालो ॥५१॥

धग्द्वगत्प्रज्वलितेषु गेहेष्वेयं निशम्यैव वचःप्रवाहम् ।  
उत्तिष्ठमानस्य महात्मनोस्य हिताय सर्वस्य मनो दुदाव ॥५२॥

धक् धक् जलते हुए घरोंमें ऊपर कहे गये शब्दोंको सुनकर सबके  
कल्याणके लिये प्रयत्न करनेवाले महात्माजीका मन दुःखी हो गया ॥५२॥

गेहे गेहे सर्वदेहीव विष्टः श्रावं श्रावं सर्वलोकव्यथास्ताः ।  
पातं पातं चक्षुषोर्वात्पिाराः स्मारं स्मारं रामदेवं स तस्मै ॥५३॥

घर-घरमें आत्माफे समान जा जाकर, सबकी उन इयाओंकी मुन

मुनस्त्र, ओंलोसे अश्रुधारा गिरा गिरास्त्र, रामका स्मरण कर कर महात्माजी  
यहाँ टहरे ॥ ५३ ॥

शैलात्कम्पः सर्वदेहेषु साधोः पादातेः सद्धर्मनिष्ठस्य तस्य ।  
पादस्कोटो नम्रपादस्य जातो नो वा जातु क्वापि कम्पाय भार्गात् ॥५४॥

इति सर्वतल्लस्यतत्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

अष्टमः सर्गः

महात्माजीके शरीरमें जाड़ेके कारण कम्प हो रहा था, धर्मनिष्ठ वह  
पैदल और बिना चप्पल या जूतेके चल रहे थे अतः पैर फट गये थे,  
परन्तु वह कम्प धीरे वह पैरकी बेवाई उन्हें कमी अपने मार्गसे चम्पित  
करनेमें सफल नहीं हो सकी ॥ ५४ ॥

इति परमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्योपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकयाग्नौ

अष्टमः सर्गः





## नवमः सर्गः

उद्दिश्य कस्मिन्नपि शान्तिकाले मनुं कुमारीं निजगाद दिव्याम् ।  
 घाचं वसंस्तार्णकुटारकेसौ विचारचेता गतदेहबोधः ॥ १ ॥

किसी शान्तिके समयमें विचारपरायण और विदेह बने हुए महात्माजी  
 श्रीकुमारी मनुगावीको उद्देश्य बनाकर यह दिव्य वचन कहने लगे ॥ १ ॥  
 स्याच्चेत्स्थिरत्वं मम योग्यरीत्या भवेयुरेवात्र मयोपयोज्याः ।  
 अन्ये युवानोपि पवित्रयज्ञे ह्यस्मिन्धरादूपणसंलब्धिने ॥ २ ॥

यदि मेरी स्थिति यहाँ योग्यरीतिसे हो तो पृथ्वीके दोषोंको दूर करने-  
 वाले इस पवित्र यज्ञमें दूसरे नवयुवक भी मेरे उपयोगमें आ सकते हैं ॥ २ ॥  
 क्रूरापराधिद्विह संचरत्सु मुक्तेषु नो निर्भयतावकाशः ।  
 परन्तु निर्भाकतयात्र शिक्ष्यं स्थातुं भयाक्रान्तदिनेषु सर्वैः ॥ ३ ॥

यदि यहाँ क्रूर और अपराधी मुखरूपसे फिरते हों तो निर्भयताकेलिये  
 कोई अवकाश ही नहीं है । परन्तु भयके दिनोंमें सबको निर्भाक होकर  
 रहना सीखना चाहिये ॥ ३ ॥

यावत्सुशिक्षेयमुदारभावैर्न स्याद्गृहीताचरिता च तावत् ।  
 पङ्क्त्यमस्मान्न कदापि जह्यात्परावलम्बित्वमुपासितं स्यात् ॥ ४ ॥

जबतक इस सुन्दर शिक्षाका उदारभावसे न ग्रहण किया जाय और  
 न आचरण किया जाय तबतक हम सदा पङ्क्त ही बने रहेंगे । परायणी  
 सहायता लेनी ही पड़ेगी ॥ ४ ॥

ये विश्वसन्ति प्रतिहिंस्रवृत्तौ शिक्ष्या च तैर्वीरजनोपभोग्या ।  
 हिंसा न बालेष्वथलेषु वृद्धेष्वथालास्यप्युपशोभते नो ॥ ५ ॥

जो लोग प्रतिहिंसामें विश्वास रखते हैं उन्हें वीरजनोचित शिक्षा  
 सीखनी चाहिए । बाल, वृद्ध, निर्बल और अशक्तों पर हिंसा शोभा  
 नहीं देती है ॥ ५ ॥

येयामर्हिसात्रमेव धर्मः प्रमाय एतादृश एव काले ।  
तस्यास्तु विज्ञेय उदात्तचित्तैस्ते धर्मशोभापहृतान्तराक्षैः ॥ ६ ॥

जिनका अर्हिसाका मत ही धर्म है उन उदार चित्तवालों और धर्मकी शोभासे मोहित मनवालोंको उस धर्मका प्रभाव ऐसे ही विपन्न कालमें जानना चाहिए ॥ ६ ॥

भवेदर्हिसा न बलं कदाचिन्नैर्वैद्यमाजां च भयान्वितानाम् ।  
वीरैकभोग्या नितरां यथा सा स्यात्तद्विधानीयमिहापिलेन ॥७॥

निरालों और दरमोकोंका बल अर्हिसा कमी नहीं है। वह तो केवल जिस प्रकारसे वीरभोग्य बने वैसे सबको करना चाहिये ॥ ७ ॥

लोकानर्हिसा विमलाब्जपादसंसेवनासक्तिभुजोपि भीतान् ।  
वीक्ष्याद्य भीतोस्मि भवेन्न भग्न्यप्यावल्यशोभेव विराजमाना ॥८॥

जो लोग अर्हिसाके ही पुजारी हैं उन्हें भी भयभीत देखकर मुझे भय लगता है कि वहाँ मुझमें अर्हिसा कमजोरोकी ही न हो ॥ ८ ॥

यथायथं सास्त्रि मया गृहीता न वेति दातुं हि परीक्षणं मे ।  
कर्तुं निरीक्षामपि मामरुस्य चित्तस्य दाह्यस्य समागतोत्र ॥९॥

मैंने उस अर्हिसाका उचित रीतिसे ग्रहण किया है या नहीं, इस परीक्षाको देनेकेलिये तथा अपने चित्तकी दृढताका निरोक्षण करनेकेलिये यहाँ आया हूँ ॥ ९ ॥

सन्तीह मद्रक्षणकार्ययुक्ताः सशस्त्रराजन्यजना अनेके ।  
आयुश्च सिन्धुः अपि पशुरामः श्रीनिर्मलः श्रीमनुरेपिवापि ॥१०॥

मेरी रक्षा करनेकेलिये यहाँ सशस्त्र अनेक पुलिस मौजूद है। श्रीपरशुराम, श्रीनिर्मलबाबू और वह मद्रुगाधी भी हैं ही। सिन्धु भी आ गये हैं ॥ १० ॥

पते समस्तिः परिवारितोहं स्यां निर्भयत्वेन ततस्ततो वा ।  
गच्छन्निति स्वात्मपरीक्षयैव स्थितिर्मदीयेह विभावनीया ॥११॥

इन सब लोगोंसे घिरा हुआ मैं इधर-उधर निर्भयरूपसे जाता हूँ। आत्मपरीक्षाकेलिये ही मेरी यहाँ स्थिति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ११ ॥

उपद्रुतोद्यास्ति विहारदेशो दाहो गृहाणां धनधान्यलुण्ठः।  
बालाबलानामपहार एष क्रयः सदा वर्तत एष देशे ॥१२॥

विहारमें आज उपद्रव है। घर बलाये जाते हैं। धन-धान्य लूटे जाते हैं। बालकों और स्त्रियोंका अपहरण हो रहा है। देशमें रोज यही क्रम चल रहा है ॥ १२ ॥

होरेस् एलेग्जेन्डर आगतस्तत्प्रोवाच तं योगिशिरोमणीन्द्रः।  
अध्यात्मविद्यामधिकृत्य वाचा मृद्वन्वा सदाचारमहागुरुः सः ॥१३॥

श्री० होरेस् एलेग्जेन्डर वहाँ आये। उनको योगिशिरोमणि श्रीमहा-  
त्माजी अध्यात्मविद्याके सम्बन्धमें मधुरवाणी से बले ॥ १३ ॥

जानामि दोषान्प्रसूताङ्गनेषु परं न तान्प्रेक्षितुमस्ति कामः।  
गुणानवालम्बत एव चेतो नित्यं मदीयं स्वहिताभिलापि ॥१४॥

लोगोंमें दोष आ गये हैं, इसे मैं जानता हूँ। परन्तु दोष देखनेकी मेरी इच्छा नहीं है। मेरा चित्त स्वहितकी भी तो इच्छा रखता है। परदोष देखने और विचारनेसे अपना मन भी मलिन होता है। उसके मलिन होने से अपना अहित होता है। अतः मेरा चित्त नित्य गुणोंका ही अवलम्बन करता है ॥ १४ ॥

दोषान्दोषाङ्गदीश्वरोस्ति द्रष्टुं जनानां परमः समर्थः।  
त्रिपालवस्तुप्रविद्ः पदं नो स्पृशामि तत्तत्र न मेधिकारः ॥१५॥

मनुष्योंके दोष और गुणको जाननेमें तो भगवान् ही परम समर्थ है क्योंकि वह त्रिपालदर्शी है। त्रिपालदर्शीके पदपर मैं नहीं पहुँचा हूँ अतः उस निरीक्षणमें मेरा अधिकार नहीं है ॥ १५ ॥

अयं परीक्षानिकयोस्ति काल उपस्थितोद्धा तव भाग्यवान्तेः।  
यदूनि पत्नूनि च शिक्षितुं चेदीदा तव स्यात्कुशुलं तव स्यात् ॥१६॥

तुम्हारे मान्यके प्रतारनी परीक्षाकेलिये वह समय क्रमोद्यो समान है । यदि तुम्हारे हृदयमें बहुत बलुओंको जाननेकी इच्छा हो तो तुम्हारा मद्य ही होगा ॥ १६ ॥

शिक्षां प्रहीष्यत्यथ चेदमुष्मात्कालात्सदा स्यात्सह्यायिनी ते ।  
महाविपद्वारिधरो विक्रीणो भवेदिति स्युर्वहुलाशिषो न ॥१७॥

यदि इस कालसे तुम उपवेशग्रहण करोगी तो वह सदा तुम्हारा साथी रहेगा । उससे महाविपदिरूप बादल बिखर जायेंगे, यह मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है ॥ १७ ॥

अयं महायज्ञ उपस्थितोद्यानुष्ठानमस्यानुदिनं मनो त्वाम् ।  
चक्षुर्यदयं पदवीं नयेत् न निष्कलं तद्भविता कदाचित् ॥१८॥

आज यह महायज्ञ उपस्थित है । इसका अनुष्ठान, हे मनु, तुमको अवश्य ही ऊँचे पदपर ले जायगा । यह कर्मा निष्कल नहीं होगा ॥१८॥

प्राप्यः परेशः सततं त्वयेदं यच्छेन्मनःशुद्धिमनुग्रहेण ।  
सत्ये मनोवृत्तिरथामयत्वं दास्यत्यवश्यं सद्यः सदा ते ॥१९॥

मगवान्से तुम्हें सदैव प्रार्थना करना चाहिये कि कृपा करके मानसिक शुद्धि—प्रदान करे, एवं सत्यमें ही मनोवृत्ति और निर्मयता अर्पण करे । वह बहुत दयालु है अतएव ही इष्टवस्तु देगा ॥ १९ ॥

उपस्थिताश्चेत्सकलाः सहाया देवादितः क्वपि गता भवेयुः ।  
अस्मिन्महासंकटकण्टकाद्ये तदा त्वयाहं ससुखो ब्रजामि ॥२०॥

इस समय बितने सहायक उपस्थित हैं, देवब्रह्म यदि वह सब चले जायें तो इस संकटरूप कण्टकोसे मरे हुए समयमें हम दोनों सुखसे चल सकेंगे ॥ २० ॥

यदा समस्तै रहितौ भवेव मित्त्रैः सहायैः परिचारकैश्च ।  
तदा मनो नत्स्यति भामकीर्णं परं परेशानुसहायमत्र ॥२१॥

जब सारे मित्र, सहायक और सेवा-रक्षा आदि करनेवालोंसे हम

दोनो छूट जायेंगे तब केवल ईश्वरकी सहायता प्राप्त करनेवाला मेरा मन नाच उठेगा ॥ २१ ॥

नैराश्यमेत्याखिलसंगिनश्चेदावां परित्यज्य प्रतिव्रजेयुः ।  
तदा समग्रं जगदत्र किञ्चिन्नवं नवं हन्त निदर्शयामि ॥२२॥

जब मेरे सभी साथी निराश होकर हम दोनोंको छोड़कर चले जायेंगे तब मैं समस्त जगत्को कुछ नहीं नहीं बसु दिखाऊँगा ॥ २२ ॥

त्वत्प्रार्थनादीनरवं महेशः श्रुत्वा प्रसद्यापि च सर्वलोकान् ।  
हिन्दूमुसलमानजनान्मुमत्या संभूपयेत्सर्वजगत्पितासौ ॥२३॥

तुम्हारी प्रार्थनाके दीन शब्दको सुनकर और प्रसन्न होकर भगवान् हिन्दु और मुसलमान् सब लोगोंको सुमति प्रदान करेगा; क्योंकि वह सारे जगत्का पिता है ॥ २३ ॥

निरन्तरं चैत्तवपादकञ्जसेवापदे मां नियुनक्षि देव ।  
त्यक्ष्यामि यावत्तनु नान्तिकं ते मनुर्मुदा वाचमुदाजहार ॥२४॥

श्रीमनुगाधी प्रसन्न होकर बोलीं कि यदि आप मुझे सदा अपने चरण-कमलकी सेवामें रखेंगे तो मैं जबतक शरीर रहेगा आपका सानिध्य नहीं छोड़ूँगी ॥ २४ ॥

पदा व्रजब्धश्रीयतिराज एकं भ्रामं जगामामकिनामधेयम् ।  
सायं न तत्राप्तमजापयस्तत्तृणद्रुमक्षीरमपाययत्तम् ॥२५॥

महात्माजी पैदल ही चलते हुए एक आमकी-नामक गाँवमें पहुँचे । वहाँ सायंकाल बकरीका दूध नहीं मिला अतः श्रीमनुगाधीने उन्हें नारियल-का पानी पिलाया ॥ २५ ॥

नेद पयस्तज्जठरे गतं सज्जातं कदाचित्सुपचं ततस्तत् ।  
यभूय तत्रैचकमेय तेन घृद्धं शरीरं गतशक्ति जातम् ॥२६॥

यह नारियलका पानी उनके पेटमें जाकर पचा नहीं अत एव यह महात्माजीको रेचक हो गया । उससे उनका घृद्ध शरीर अशक्त बन गया ॥ २६ ॥

नैर्नल्पपीडाव्यधितो महात्मा मूर्छामवाप्येकरुदेपतत्तः ।

मूर्त्तौ ततो व्यप्रमनाः कुमारी मनुः सचिन्ता व्यधिता वभूव ॥२७॥

निर्लज्जताकी पीडासे पीडित होकर महात्माजी एक दम मूर्छित होकर भूमिपर गिर गये । तब व्याकुल मनवाली कुमारी मनुगार्धी चिन्तित और व्यथित हो गयी ॥ २७ ॥

श्रीनिर्मलं सा पुनराह्वयन्ती जाता मुशीलां मनसा क्षणेन ।

परं तदानी यतिराजमूर्छामङ्गोमवद्भ्रतरं ततोभूत् ॥२८॥

श्रीमनुगार्धी निर्मल वाक्को बारबार बुलाने लगी और टाकर श्रीमुशीलाका स्मरण करने लगी । परन्तु उसी समय महात्माजीकी मूर्छा गयी और कुशल हो गया ॥ २८ ॥

च्वाच सद्यः स मनुं कुमारीं किमर्थमाहूतवती त्वमन्यम् ।

कथं न रामस्मरणे त्वदीय लीनं मनो मां व्यधितं निरीक्ष्य ॥२९॥

उन्होंने तत्काल ही मनुकुमारीसे कहा कि तुमने मुझे पीडित देखकर अन्यको क्यों बुलाया ! तुम्हारा मन रामस्मरणमें क्यों नहीं लीन हुआ ! ॥ २९ ॥

श्रीरामनामास्ति मर्होपथं मे स आश्रय सर्वनिराश्रयाणाम् ।

याच्यं मुशीलां प्रति नैव झिञ्जिद्भवेन्न तस्या हृदये विपादः ॥३०॥

रामनाम ही मेरेलिये परम औपथ है । निराश्रितोंका वही एक आश्रय है । मुशीलानो भी कुछ नहीं कहना जिससे उनके मनमें विपाद न हो ॥ ३० ॥

स्यात्प्रत्ययो मे यदि रामनास्त्रि सत्यं भवेत्प्रेम परं च तस्मिन् ।

रुग्णो मरिष्यामि कदापि नैव पुत्रि प्रतीहीति वचो मदीयम् ॥३१॥

हे पुत्रि, तुम यह विद्वान् रखो कि यदि रामनाममें मेरा निदनाश होगा और पूर्ण प्रेम होगा तो मैं रोगी होकर कभी नहीं मरूँगा ॥३१॥

यः कोपि तन्नामनि संरतः स्यात्सोपि प्रपद्येत मृतिं तथैव ।  
तस्मिन्परस्मिन्नुरागभाजां स्यादात्मशुद्धिस्तत एव शान्तिः ॥३२॥

जो कोई भी रामनाममें तल्लीन रहेगा वह वैसा ही शान्त मृत्यु प्राप्त करेगा । परमेश्वरमें जिसका प्रेम होता है उसकी आत्मशुद्धि होती है और उसीसे शान्ति मिलती है ॥ ३२ ॥

केपि स्मरेयुर्यदि रामनाम श्रद्धा समप्रा न भवेच्च तत्र ।  
शुका इवाज्ञानहता भवेयुः फलं किमप्यत्र परत्र नो वा ॥३३॥

कोई रामनामका स्मरण तो करते हों परन्तु उसमें पूर्ण श्रद्धा न हो तो जैसे रामनाम बोलनेवाले मुग्धको कोई फल नहीं मिलता वैसे ही उन्हें भी न यहाँ और न परलोकमें कोई फल मिलता है ॥ ३३ ॥

यादृग्भवेद्युत्तिरिहान्तकाले तादृक् फलं प्रेत्य जना लभन्ते ।  
तस्मात्प्रयत्येत विलोकितुं तैः समैर्जगद्राममयं सदैव ॥३४॥

अन्तकालमें जैसी वृत्ति रहेगी, मरनेके पश्चात् वैसा ही फल मनुष्य प्राप्त करता है । अतः मनुष्योंको चाहिये कि सदा जगत्को राममय देखने का प्रयत्न करे ॥ ३४ ॥

रोगात्स्वनिन्दाश्रवणात्स्वकीयानिष्टश्रवाद्वापि मनोतिखिन्नम् ।  
श्रीरामनामाभिजपेन शान्तिं नयेत मन्त्रोयमनुत्तमोस्ति ॥३५॥

रोगसे, अपनी निन्दा सुननेसे और स्वजनोंके अनिष्ट श्रवणसे मन ध्वन्यन्त रिक्त हो जाता है । रामनामके जपसे उसे शान्त करना चाहिये । रामनाम सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है ॥ ३५ ॥

प्रत्येकसंयत्सरजान्युआरीमासस्य षड्विंशतिथौ चिरेण ।  
स्वतन्त्रताप्राप्तिकृते प्रतिशास्मृत्युत्सवः स्वीकृत एव देशे ॥३६॥

प्रतिवर्ष २६ वीं जनवरीको बहुत दिनोंसे स्वतन्त्रताप्राप्तिकेदिने प्रतिशास्मरणका उत्सव देखने स्वीकार कर लिया है ॥ ३६ ॥

तस्मिन्दिने केनचनापि पृष्टः प्रोवाच दुःखादितमानसः सः ।

हिन्दूमुसलमानसुहृत्स्यलाभाद्यज्ञोयमारब्ध इह प्रदेशे ॥३७॥

उस दिन किसीसे पूछनेपर दुःखित मनवाले यह कहने लगे कि इस बगाल प्रान्तमें हिन्दू-मुसलमानमें प्रेम प्राप्त हो इसके लिये मैंने यह यत्न शुरू किया है ॥ ३७ ॥

यतः प्रभृत्यत्र महासभाया जन्माभयद्भारतजन्म तच्च ।

नवं ततो ग्रामगणेषु नाम स्वतन्त्रताया. समवादानुतात्र ॥३८॥

जबसे महासभाका भारतमें जन्म हुआ है तभीसे भारतका भी नया जन्म हुआ है । तभीसे भिन्न भिन्न ग्रामसमूहोंमें स्वतन्त्रताका नाम फैल गया ॥ ३८ ॥

तस्मिन्पवित्रे समये न कोपि हिन्दूमुसलमानगतं विभेदम् ।

एकोप्यजानादिह मानयस्तद्वन्धुत्वदाम्ना निखिला. सितास्ते ॥३९॥

उस पवित्र समयमें कोई एक मनुष्य भी हिन्दू मुसलमानके भेदको जानता नहीं था और इसीलिये सभी वन्धुताकी डोरीसे बँधे हुए थे ॥३९॥

द्वेषानलोद्य प्रबल. प्रबुद्धो जनं जनं प्रत्युभयत्र तेन ।

नाह विरहा विवृतां पताकां शक्नोमि कर्तुं वरजर्जराद्ग. ॥४०॥

आज दोनों जातियोंमें मनुष्य मनुष्यके प्रति प्रबल द्वेषामि बल उठा है । अतः तापसे मेरा शरीर जर्जर हो गया है अत मैं तिरङ्गे झण्डेको नहीं उड़ाऊँगा ॥ ४० ॥

नकार एपोस्ति निजेच्छयैव बलान्न केनापि नियोजितोस्मि ।

उद्वाययेय प्रतिपेधितोपि सिताङ्गशिष्ट्या त्रिकलां पताकाम् ॥४१॥

झंडा चढानेकी मैं जो इन्कार कर रहा हूँ उसमें मेरी स्वेच्छा कारण है । ऐसा करनेको मुझे किसीने कहा नहीं है । यदि अंग्रेजी सरकार झंडा उढानेसे मुझे मना करे तो मैं उस तिरंगे झंडे को अवश्य उड़ाऊँ ॥४१॥



पूर्वं यदासीदुभयोरभेदो हिन्दुर्न कश्चिन्न मुहम्मदीयः ।  
सुदृत्त्वमासीदुभयोरतीव कालभोवत्स स्मरणीय एव ॥४२॥

पहिले जब दोनों जातियोंमें एकता थी तब न कोई हिन्दू था और न कोई मुसलमान । दोनोंमें अत्यन्त सौहार्द था । वह समय तो अब केवल याद करनेको रह गया है ॥ ४२ ॥

तदा पताकेयमुदमतेजा आसीत्समेपां परिरक्षणीया ।  
देहैरपि प्राणपणेन चापि धन्याः स्तुतास्ते दिवसा प्रयाताः ॥४३॥

उक्त समय इस शडेकी रक्षाका भार सबके ही ऊपर था । शरीर और प्राणसे भी यह रक्षणीय था । वह धन्य और प्रशंसनीय दिन चले गये ॥ ४३ ॥

परस्परस्मिन्नरितोद्गतास्ति खन्तामहन्तां परिपालयन्तः ।  
देशस्य दौर्भाग्यमुदीरयन्ती व्रजन्त्यमी अद्य विपत्तिवर्त्म ॥४४॥

परस्पर शत्रुता पैदा हो चुकी है । तू तू और मैं मैं करते हुए देशके दुर्भाग्यको बढाते हुए आज लोग विपत्तिके मार्गमें चले जा रहे हैं ॥४४॥

कस्मै कथंकारमहं मदीयां प्रदर्शयाम्यद्य मनोर्तिमालाम् ।  
कस्मै पुनस्तां कथयामि कुत्र व्रजान्यधन्यो ननुकान्दिशीकः ॥४५॥

आज मैं मेरे हृदयके दुःखोको किससे और कैसे दिखाऊँ ? उन दुःखोको किससे कहूँ ? कहाँ जाऊँ ? आज मुझ अभागके लिये कोई दिशा नहीं है ॥ ४५ ॥

देशे दशोयं यदि यत्ततेद्य सर्वत्र विदवासलयो विभाति ।  
महाप्रभाया भगवत्यनिन्द्या स्वतन्त्रता कं शरणं करोतु ॥४६॥

यदि देशमें आज यही दशा है, सर्वत्र विदवासलाय नाश हो चुका है तो महाप्रभाया भगवत्यनिन्द्या स्वतन्त्रता आज किसकी शरण दूँ ? ॥ ४६ ॥

सितत्यचामत्र न जातु भूयः स्थितिः कथंचिद्भुजगस्फटेय ।  
रश्यामरीकानसरं शुभयुं प्रतीक्षते हन्त ययं हताः समाः ॥४७॥

सितत्यचामत्र न जातु भूयः स्थितिः कथंचिद्भुजगस्फटेय ।  
रश्यामरीकानसरं शुभयुं प्रतीक्षते हन्त ययं हताः समाः ॥४७॥

जैसे सर्पका फग स्थिर नहीं रहता वैसे ही अब अंग्रेज यहाँ किसी तरह भी रह नहीं सकते। रशिया और अमेरिका एक अच्छे अवसरकी प्रतीक्षामें हैं। दुःख है कि हमारा सर्वनाश होगा ॥ ४७ ॥

भवेम चेन्नैव विधूतपापाः परस्परं विश्वसिमो न वापि ।  
संभूय कल्याणरता न वा तद्देशस्य नाशो नियतो विभाति ॥४८॥

यदि हम सब पापोंको खतरकर परस्पर विश्वास नहीं करते और मिलकर कल्याणमें नहीं लग जाते तो माझम होता है कि देशका नाश अवश्यभावी है ॥ ४८ ॥

अतः प्रभृत्येव वयं स्वदोषधीक्षाप्रवीणा नितरां भवेम ।  
अतः प्रभृत्येवमनर्थकारि कत्यादिकं स्यान्न मनःप्रसक्त्यै ॥४९॥

जमीसे हम अपने दोषोंकी देखने लग जायेंगे तभीसे यह अनर्थकारी शगडा बगैरहसे मन प्रसन्न नहीं होगा ॥ ४९ ॥

तदा कथं दीनजनस्य सेवा श्रेयश्च लोकस्य भवेद्वितीह ।  
विचारयिष्याम उदारमत्स्या न विन्मरिष्याम इदं गतं न ॥५०॥

तब तो उदार बुद्धिसे हम यही विचार करेंगे कि दोनोंकी सेवा और कल्याण हमसे कैसे हो। क्या उस समय इस भूतकालकी घटनाको हम भूल नहीं जायेंगे ? अवश्य भूलेंगे ॥ ५० ॥

अजायतेदं यदनिष्टमद्य जनिष्यते श्वोपि मनोव्ययाये ।  
न ज्ञानतस्तन्मनुजा अकुर्वन्नेसर्गिकं तन्नखिलं हि वेद्यम् ॥५१॥

आज जो अनिष्ट पैदा हुआ है और जो बलू पैदा होगा उसे मनुष्योंने ज्ञानपूर्वक पैदा नहीं किया है। वह तो स्वभाविक ही समझना चाहिए ॥ ५१ ॥

कृत्वैव पापं हृदये वितप्ता पश्चात्तपेच्छेज्जनता कथंचिन् ।  
मनुष्यता उर्हि विकासमार्गे प्रयास्यति क्रौर्यमपास्य दूरे ॥५२॥

जनता यदि आप पाप करके सतप्त होकर किसी प्रकार भी पश्चात्ताप करे तो मनुष्यता क्रूरताकी दृष्टाकर विकासमार्गमें प्रयाण करेगी ॥ ५२ ॥

मुहम्मदीया न तदा निह्न्युर्निरागसोत्पानबलांश्च हिन्दून् ।  
न हिन्दवो मोहमदीयलोकरक्तप्रवाहान्परिवाहयेयुः ॥५३॥

तब न तो मुसलमान अल्पसंख्यक, निर्बल और निरपराधी हिन्दुओं-  
को मारेंगे और न हिन्दू मुसलमानोंके खूनको बहावेंगे ॥ ५३ ॥

द्वेषो महादोष इति प्रसिद्धः शास्त्रेषु लोकेषु च सर्वदैव ।  
दोषान्निराकृत्य मनुष्यजातिर्देवत्वमायास्यति नान्यथेति ॥५४॥

शास्त्रों और लोकमें भी हमेशा यह कहा जाता है कि किसीसे द्वेष  
करना बहुत बड़ा दोष है । मनुष्यजाति दोषोंको दूर करके ही देवता बन  
सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ५४ ॥

इच्छन्ति यद्यपि जनाः सकलाः पृथिव्यां,  
शान्तिं सुखं निरवधि प्रलयं समन्तात् ।  
आधेरतथा व्यधितमानसवृत्तयस्ते,  
व्याधेरपि प्रतिदिनं न परं कृतार्थाः ॥५५॥

यद्यपि सभी लोग शान्ति और निरवधि सुखकी इच्छा करते हैं ।  
जब उनकी मनोवृत्तियाँ थक जाती हैं तब वह आधि और व्याधिके  
नाशकी भी इच्छा करते हैं परन्तु वह कृतार्थ नहीं है ॥ ५५ ॥

पार्तार्थ्यमाश्लेष्टुमपीह तेषामिच्छा भवेच्चेत्परिहाय सर्वान् ।  
कामादिदोषान् मनसः प्रसादे युक्ता भवेयुर्न परोस्ति पन्थाः ॥५६॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहत्परिमात्रकस्वामिधीमद्गणदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

अध्यायः सर्गः

यदि वह अपनी वृत्तायता चाहते हो तो उन्हें चाहिये कि कामादि  
दोषोंको छोड़कर मनकी निर्मलतामें रूग जायें । दूसरा मार्ग नहीं है ॥५६॥

इति धीरमहत्परिमात्रकस्वामिधीमद्गणदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे एषोपलभ्यतेभारतगणदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

अध्यायः सर्गः

## दशमः सर्गः

श्रुत्वा विहारघरणिप्रसरेतिभीमं,  
हिंसादुरन्ततटिनीजवसंप्रचारम् ।  
हिंसासुरीहृदयदारणदक्ष एष,  
श्रीमान्यतिर्गलदशेषसुखो बभूव ॥१॥

विहारकी भूमिपर अत्यन्त मयङ्कर हिंसारूप नदीके वेगवान् प्रवाहको सुनकर हिंसा-राक्षसीके हृदयको फाड़नेमें कुशल श्री महात्माजी अत्यन्त दुःखी हुए ॥ १ ॥

स्वस्य प्रियं प्रियतरं च विहारमेव,  
शान्तं विधातुमचिरं नवजालिदेशात् ।  
महमूदसैयदविदत्तसमस्तवार्त-  
स्तीव्रं बलन्स हृदये प्रययौ विहारम् ॥२॥

अपने प्रिय और प्रियतर विहारको शान्त करनेके लिये महात्माजी हृदयमें दुःखी होकर नोवाखालीसे निहार गये। ३१० महमूदसैयदने उन्हें सब वृत्तान्त भेज दिये थे ॥ २ ॥

उत्कम्पक शमयितुं स दधं दयालु-  
रुन्मत्तभूतमथ पाटलिपुत्रमीड्यम् ।  
सार्चस्य पञ्चमतिथौ हयवेदरन्ध्र-  
ब्रह्मेतिवत्सर श्याय महामनीषी ॥३॥

हृदयको कँपानेवाले उस दावानलको शान्त करनेके लिये महात्माजी ता० ५-३-१९४७ ई० को उन्मत्त बने हुए पटनामें गये ॥ ३ ॥

सायं स मोटररथेन वित्तप्रचित्तौ,  
लोकश्चितायनिमियाय महीमहेन्द्रः ।

गांधिर्जयत्वितिरवेण महादरेण,  
सच्चक्रिरे प्रमुदिताः समुपस्थितास्तम् ॥४॥

दुःखी मनवाले महात्माजी सायङ्काल मोटरसे वहाँ गये जहाँ सबलोग इकट्ठे हुए थे। “गाँधीजी का जय” इस महान् आदर पूर्ण आवाजसे उपस्थित लोगोंने उनका सत्कार किया ॥ ४ ॥

वक्तुं समारभत भारतपारिजातो,  
लोकानुतापशमनं वचनं शनैः सः ।  
लोकांश्च मौनमभजन्निजनेवृवर्य-  
घाणीमुधाधयनलोभपरीतचित्ताः ॥५॥

भारतपारिजात श्रीमहात्माजी लोगोंके दुःख अथवा क्रोधको शान्त करनेवाला वचन धीरे-धीरे बोलने लगे। लोग भी अपने महान् नेताके वचनमृतका पान करनेके लोभसे चुप हो गये ॥ ५ ॥

अन्ये मदीय इति यं हि विहारदेशं,  
दूरस्थितोपि यदि तं न वदं करोमि ।  
आगत्य तत्र सशरीर उदस्तद्वर्षो,  
लज्जे परं हि समजायत मानभङ्गः ॥६॥

जिस विहारकी मैं वस्तुतः अपना मानता हूँ उसे मैं दूर रहकर अपने दण्डमें नहीं कर सपता हूँ। मैं याशान् यहाँ आकर अत्यन्त लजित होता हूँ। मेरा हृदय चला गया। क्योंकि मेरा मानभङ्ग हो गया ॥६॥

प्रातं पुनः पुनरहं महमूदपत्रं,  
ध्यानेन पारिनयनः सकलं पठित्वा ।  
युष्माकमद्य पुरतः समुपस्थितोस्मि,  
विद्मिन्मनः क्षमयितुंमम योपि सभ्याः ॥७॥

सभामें उपस्थित जनों, डाक्टरमहमूदका पार पार मेरे पाठ पत्र आता था। ध्यानमें मैं उसे पढ़ता था और रोता था। आज मैं अपने

और आपके भी मनको कुछ शान्त करनेकेलिये आपके सामने उपस्थित हूँ ॥ ७ ॥

यूयं स्थ येन जनिताः परमात्मनैपां,  
 कूरानिनां जनयितापि स एव भव्यः ।  
 यूयं मुहम्मदपदानुगताश्च नूनं,  
 तस्मात्सपितृननुजाः सकला भवेत ॥८॥

जिस भव्य परमात्माने तुमको पैदा किया है, मुसलमानोंका भी पैदा करनेवाला वही है । अतः अवश्य ही तुम हिन्दू और मुसलमान एक ही सगे पिताके पुत्र होते हो ॥८॥

अत्रत्यहिन्दुजनता यदि नाकरिष्य-  
 त्कौर्यं कथंचिदुचितं न महावदायी ।  
 न क्षाप्यनार्यजनतासविधेसदीथं,  
 हन्ताभविष्यदधिकं प्रणतं शिरो नः ॥९॥

यदि यहाँकी हिन्दू जनताने किसी प्रकार भी उचित न मानी जा सके ऐसी पापप्रद क्रूरता न की होती तो कहीं भी अहिन्दूजनता के सामने हमारा सिर अधिक नीचा न होता ॥ ९ ॥

नोवाखलीयजनवासगृहेषु यादृक्,  
 संमर्द आदरि मुहम्मदधर्मजातेः ।  
 अत्यकमीत्तमतिदूरमनार्यजुष्टं,  
 युष्माभिरेव परितश्चरितं यदत्र ॥१०॥

मुसलमानोंने नोवाखलीके घरोंमें जिस प्रकारका अत्याचार किया है, आपरा यहाँ किया गया अत्याचार उससे बढ़ गया ॥ १० ॥

कृत्वातिपापमपि यः परमात्मभक्तः,  
 पश्चात्तपत्यनुदिनं स मद्गनुभावः ।  
 आशाभवन्मन विहारजहिन्दुवोपि,  
 पश्चात्तपेयुरलिला दुरितं विधाय ॥११॥

जो अतिपापकरके भी सदा पश्चात्ताप करता है वह महानुभाव ईश्वरका भक्त है। मुझे आशा थी कि बिहारके सब हिन्दू पाप करके पश्चात्ताप करेंगे ॥ ११ ॥

चिह्नं तु नैकमपि तस्य विलोक्यतेत्र,  
नो दृश्यते दुरितजन्यमनःखिदापि ।  
दत्तं न किञ्चिदभवत्क्षतिपूर्निरूपं,  
तेभ्यः क्षतिं कृतघती जनतात्र येपाम् ॥१२॥

यहाँ तो पश्चात्ताप का एक भी चिह्न दिखायी नहीं पड़ रहा है। पापसे पैदा हुआ मानसिक खेद नहीं दीख रहा है। यहाँकी जनताने जिनकी हानिकी है उन्हें उसके बदलेमें कुछ भी नहीं दिया है ॥१२॥

यैर्हिन्दुभिः कृतमिदं घचनोयपापं,  
दृग्ध्या गृहाणि वधमप्यथवा चरित्वा ।  
मोहम्मदीयतरुणीतरुणातिवृद्ध—

घालादिकस्य कथमथ न ते विनिन्द्याः ॥ १३ ॥

जिन हिन्दुओंने घरोषो जलाकर निन्दनीय पाप किया है, एवं जिनोंने मुसलमानोंके बालबच्चों और वृद्धोंका कत्ल किया है वह क्यों न निन्दाके पात्र माने जायें ! ॥ १३ ॥

पाच्यं न ते प्रथितदुष्टजना इहत्या,  
आसन्कृत्यकरणे निरता इतीद ।  
नो सन्ति दूषणमुज्जोत्तिराष्टसंस—  
त्सभ्याः कथंचिदपि तत्र न वेति पाच्यम् ॥ १४ ॥

आप यह नहीं कह सकते कि दुष्कर्मके करनेमें प्रख्यात यहाँके गुन्हे लगे हुए थे; तथा आप यह भी नहीं कह सकते कि यहाँके पापेसी लोग अपराधी नहीं हैं ॥ १४ ॥

गत्याहमप्रथमनाष्टगनास्तदानी,  
एन्दन्पुरी मिलितपगुंठगोष्ठिरायाम् ।

राष्ट्रस्य संसदियमस्ति समस्तदेश—  
स्त्रीपुंसवालतरणस्य निपालयित्री ॥ १५ ॥

मैं उस समय जब लन्दन गया था तब गोलमेजो कांग्रेसमें मैंने कहा था कि यह कांग्रेस समस्तभारतके स्त्री पुंस, बाल और बवानकी रक्षा करनेवाली है ॥ १५ ॥

स्यात्तत्स्थलं वरमपीह च पोर्तुगीजा—  
यत्तं भवेद्भरतभूमिजभूपभूस्थम् ।  
प्रेञ्चाधिकारगतमस्तु तथापि सर्वान्,  
सा राष्ट्रसंसदभिरक्षति भारतीयान् ॥ १६ ॥

मैंने वहाँ कहा था कि भारतमें चाहे कोई स्थल पोर्तुगीजके अधीन हो, चाहे फ्रेंच प्रजाके अधीन हो परन्तु कांग्रेस सब भारतीयनावकी रक्षा करती है ॥ १६ ॥

प्रीणाति नेयमभिसंसदमून्कदापि,  
विद्वेष्टि तानथ कदाचिदिमात्र चेति ।  
सर्वत्र सान्यमभिवर्षयतीयमास्ते,  
सर्वत्र सर्वजनतापरिपूजिताद्य ॥ १७ ॥

मैंने कहा था, कांग्रेस कभी उन लोगोंसे प्रेम नहीं करती है और इन लोगोंके साथ कभी द्वेष नहीं करती है । कांग्रेसकी दृष्टिमें पोर्तुगीज और फ्रेंच सत्त्वानमें जो रहते हैं, इस भारतीयराज्यके प्रदेशमें जो रहते हैं, अपने सगे सम्बन्धी जो हैं सब पर कांग्रेस समान दृष्टि रखती है और अतः वह सर्वत्र सर्वजनतासे पूजित है ॥ १७ ॥

नो कंचिदीक्षत इयं द्विपदित्यभीक्ष्णं,  
तादस्थ्यमप्यवहिता न दधात्यभद्रम् ।  
सुत्रापि कैश्चिदपि हेतुभिरत्र तस्मात्,  
सा राष्ट्रसंसदभितोस्ति समस्तमोग्या ॥ १८ ॥



मैंने कहा था; कांग्रेस किसीको शत्रु नहीं मानती और किसीको उदासीन दृष्टिसे भी नहीं देखती। वह किमी भी कारणसे ऐसा नहीं करती अत एव वह सबके कामकी चीज है ॥ १८ ॥

तस्मात्बलैः कृतमितीदमनुत्तरं स्या—  
 झारः सभानुगजनेपु वितिष्ठते हि ।  
 आत्मानमत्र न हि धारयितुं समर्था,  
 अस्मादनुष्ठितमहाकलुपात्तु केपि ॥ १९ ॥

अतः यह कार्य दुष्टोंने किया है, यह बचाव नहीं दिया जा सकता। महासभावादियोंपर भार तो है ही। इस किये गये महान् पापसे अपनेको बचानेमें कोई महासभावादी समर्थ नहीं है ॥ १९ ॥

यो जन्मनः प्रभृति संसद् आम्रहोस्ति,  
 त्याज्यो न सोद्य सदसोनुगमान्यलोकैः ।  
 विभ्रश्य गौरवपदादतिलाघवं स्या—  
 त्प्राप्तं सदैव सभया ननु वैपरीत्ये ॥ २० ॥

महासभाका अपने जन्मसे ही जो आग्रह रहा है उसका त्याग महासभाके अनुयायियोंको नहीं करना चाहिये। प्रतिष्ठित पदसे भ्रष्ट होकर अत्यन्त लघुतारो ममा प्राप्त होगी यदि सभाके मूलभूत आग्रहका त्याग हुआ तो ॥ २० ॥

स्यात्कोपि हिन्दुरथर्थापि मुहम्मदीयः,  
 स्यात्पारसीक इह कोप्यपरो विधर्मा ।  
 सर्वस्य लाभमभिलष्य भवेत्कृतार्था,  
 राष्ट्रस्य संसदिति वोस्तु महाप्रतीतिः ॥ २१ ॥

कोई हिन्दू हो अथवा मुसलमान हो अथवा पारसी हो अथवा कोई अन्य धर्मवाला हो, सबके लाभको चाहकर ही महासभा कृतार्थ हो सकती है इतना महाविश्वास आपको होना ही चाहिये ॥ २१ ॥

प्राणार्पणैर्विपदुपेतमुहम्मदीय-

लोकाभिरक्षणविधौ वहवोत्र वः स्युः ।

नैतत्परं भवति राष्ट्रसभानुगानां,

मानाभिरक्षणकृताबलमित्यद्देतुः ॥ २२ ॥

विपत्तिमें कैसे हुए मुसलमानोंको बचानेमें जिन्होंने अपना प्राण भी अर्पण कर दिया होगा, ऐसे आपमेंसे बहुतसे होंगे । परन्तु महासभा-वादियोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है । अतः इतना ही आपकी प्रतिष्ठा-रक्षामें हेतु भी नहीं है ॥ २२ ॥

अत्रत्यहिन्दुजनता कृतवत्यर्घं य-

त्तस्मात्परं परतरं ह्यपरेपि पूर्वम् ।

सम्पाद्य निन्दिततमा अभवन्परन्तु,

सिद्धं भवेत्किमपि तेन न किञ्चिदत्र ॥ २३ ॥

यहाँके हिन्दुओंने जो पाप किया है उससे बड़ेसे बड़ा पाप पहले दूसरोंने भी किया है और उसके कारण वह अत्यंत निन्दित भी हुए हैं । परन्तु इस कहने और विचारनेसे कुछ भी सिद्ध न होगा ॥ २३ ॥

न्यूनीस्मि नूनमहमत्र महाघभाजा,

तेनेति चिन्तयति यः स महत्पदं नो ।

आप्तुं कदापि भविता क्षम इत्यजस्रं,

त्याज्या सभेति मतिरार्यवरेण्यलोकैः ॥ २४ ॥

उसने थडा पाप किया है, उसको अपेक्षा मैंने बहुत थोडा पाप किया है, इस प्रकारसे जो विचार करता है वह कमी महत् पदको नहीं पाता । अतः आर्य लोगोंको यह विचार छोड देना चाहिये ॥ २४ ॥

यैर्मन्यते कृतमिदं महद्देव शौर्यं,

नोवात्सलीसलगणाहितकर्म रोदुम् ।

क्रोधादिदोषपरिपोषमहान्धकारै—

नूनं भवन्ति मनुजाः परिवञ्चित्तास्ते ॥ २५ ॥

जो यह मानते हैं कि नोवाखलीके गुण्डोंके गुण्डापनको रोकनेके-  
लिये यह बहुत श्रुता हुई है तो यह अवश्य ही क्रोधादि दोषरूप अन्धकार-  
से टगे गये हैं ॥ २५ ॥

मायानशादिति च येत्र विचारयन्ति,  
श्रेयो विहाय त इतोवर्गतिं प्रयान्ति ।  
सत्कार्यतः सकल एव जिगीषितव्यो,  
धर्मोस्त्ययं सकलधर्मधराधुरीणः ॥२६॥

अज्ञानवश होकर जो उपर्युक्त विचार करते हैं वह श्रेयको छोड़कर  
अधोगतिको प्राप्त करते हैं । सत्कर्मसे सबको जीतनेकी इच्छा करनी  
चाहिये, यह सर्वधर्मोसे श्रेष्ठ धर्म है ॥ २६ ॥

पूर्वं कृतानि सुकृतानि महान्ति यानि,  
तान्यप्यतीत्य गमनं परिकामयध्वम् ।  
इति तन्व्यधर्मपरिरक्षणमेतयैव,  
रीत्या भवेत्सकलपर्यजसंस्कृतेश्च ॥ २७ ॥

आपने पहले जो कुछ अच्छे कर्म किए हों उनसे भी आगे बढ़नेकी  
आपको इच्छा करनी चाहिये । इसी रीतिसे स्वतन्त्रतारूप धर्मका रक्षण  
होगा और पूर्वजोंकी संस्कृतिकी ( भी रक्षा होगी ) ॥ २७ ॥

नोवाखलीयजनता कृतवत्यनर्थं,  
यं हिन्दुषु प्रलयमेतु स्मृते. स घोष ।  
तद्वन्यपाशवृत्तीरनुकर्तुमत्र.  
श्रेयोमुजो न मनसापि विचारयेरन् ॥ २८ ॥

नोवाखलीके लोगोंने हिन्दुओंपर जो अत्याचार किया है यह आपके  
रमरामसे धात्र चला जाना चाहिए । उस जङ्गली और पशुधर्मका अनुसरण  
करनेकेलिये धर्मात्मा पुण्य कमी मनसे विचार भी नहीं कर सकता ॥२८॥

दिसास्ति पापमिति शास्त्रवृत्तो षडन्ते,  
पापानि सन्ति न मुसाधुफलाग्वितानि ।

तस्मात्ततो विरहमेत्य परेशपाद—

माश्रित्य धर्मचरणे मन आदधध्वम् ॥ २९ ॥

मासमान तेजस्वी शाल्वकार कहते हैं कि हिंसा पाप है और पाप कमी अच्छे फल नहीं देते। अतः पापसे अलग रहकर ईश्वरका आश्रय लेकर आपको धर्माचरणमें मन लगाना चाहिये ॥ २९ ॥

नो गौरवं चिरतरार्जितमेतु नारां,

न ख्यातकीर्तिकलिका मलिनास्तु सद्यः ।

देशस्य तद्धि सकलैः सुविचार्यं कार्यं,

पन्था अयं सुकृतिनां च यशोधनानाम् ॥ ३० ॥

चिरकालसे पैदा किया गया हुआ देशका गौरव और प्रख्यात यशकी कलियों नष्ट न हो जायें इसे अवश्य ही विचार कर सबसे कार्य करना चाहिये। सुकृतियों और यशस्वियोंका यह मार्ग है ॥ ३० ॥

हत्वा द्विपद्गामिहास्ति जिजीविषा चे—

च्छत्नोति जीवितुमपापमयं न कोपि ।

मृत्वा प्रसन्नमनसारिहितानुबन्धी,

लोकं समर्जयति पुण्यतमं नितान्तम् ॥ ३१ ॥

वदि शत्रुओंको मारकर ही यहाँ जीनेकी इच्छा हो तो कोई भी निर्दोष जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। जो प्रसन्न मनसे मरकर शत्रुओंके भी हितकी इच्छा रखता है वह महापुण्यलोकको प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥

द्वारं विधाय विमलं गवरोपशोपा—

न्युष्मानथो निसिलभारतभूमिधासान् ।

सन्देष्टुमेतद्मिलप्यति मानसं मे,

हिंसामुदस्य मनसो हि जिजीविषेत् ॥ ३२ ॥

आपको और समस्त भारतवासियोंको यह सन्देश देनेको मेरा मन चाहता है कि सब शोधको छोड़ दें। पवित्र साधन बनाकर, मनसे हिंसाका त्याग करके जीनेकी इच्छा रखें ॥ ३२ ॥

उज्जासनैव यदि सर्वगदारिहारि,  
 प्राप्तं महौषधमिति प्रियबन्धवो मे ।  
 संस्थापयन्ति हृदये नियतं विनष्टं,  
 स्वातन्त्र्यमत्र परिषिक्तं न संशयोत्र ॥ ३३ ॥

हिंसा ही सर्वरोगरूप शत्रुको नष्ट करनेकी महौषधि प्राप्त हुई है, ऐसा यदि हमारे भाई हृदयमें धारण करते हों तो अवश्य ही स्वतन्त्रता नष्ट हो चुकी है, ऐसा आप समझें । इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥

श्वो होलिकोत्सवशुभावसरोस्ति देशे,  
 हिन्दुप्रजाहृदयपङ्कजरञ्जनोयम् ।  
 गालिप्रदानमथ रङ्गजलप्रवाहो,  
 वन्यां दशमहह सूचयतीह नोद्य ॥ ३४ ॥

कहूँ देशमें होलीका पवित्र उत्सव है । हिन्दुप्रजाका हृदयकमल कलह सिलेगा । इस उत्सवमें गाली देना और रंग डालना यह बंगाली दशाका सूचक है ॥ ३४ ॥

प्रहादरक्षणकृते नरसिंहरूपः,  
 प्रादुर्धभूय भगवान्दिषसे च तस्मिन् ।  
 तस्माच्च तस्य भजनं स्मरणं विहाय,  
 किञ्चिद्विधातुमपि नार्हति कोपि हिन्दुः ॥ ३५ ॥

उग दिन प्रहादमच्छरी रक्षाकेलिये भगवान् नरसिंहरूपसे प्रकट हुए थे । अतः उनका भजन और स्मरण छोड़कर कुछ भी करनेकेलिये हिन्दुओं को योग्य नहीं है ॥ ३५ ॥

संघाघते भयमुपस्थितमेव सम्यह,  
 भोहृन्मदीयजनतामतिमाग्रभीताम् ।  
 श्यो होलिकामिपमुपेत्य कदापि मृत्यं,  
 वापां करिष्यथ निर्गलितां च तस्याः ॥ ३६ ॥

अत्यन्त मयभीत मुसलमान्दनताको उपस्थित यह मय बहुत हैरान कर रहा है कि कहूँ होलीका बहाना लेकर किसी समय भी आप उन्हें सुरी तरह हैरान करेंगे ॥ ३६ ॥

ज्ञात्वेति चेतसि ममोद्वतटुःखदाय—  
 ज्वालाखलीढविक्रले न हि शान्तिरस्ति ।  
 नोवाखलीयति ममापि विहार एव,  
 इत्येव तान्तहृदयं किल मां तनोति ॥ ३७ ॥

मेरा हृदय पहलेसे ही दुःखरूप अग्निसे व्याकुल है । यह मेरा विहार भी नोवाखाली बन आया, यह विचार मेरे हृदयको व्याकुल बना रहा है ॥ ३७ ॥

तत्रापि हिन्दुजनता समसौन्दर्यक—  
 भीत्यमेव गिरमाहरदावचेताः ।  
 अत्रापि सौन्दजनता मयविह्वलाङ्गा,  
 तामेव वाचमतिदीनमना वदन्ती ॥ ३८ ॥

नोवाखालीने भी सब मुसलमानोंके डरसे हिन्दू जनता वही शब्द अत्यन्त आतं होकर बोल रही थी । वहाँ मुसलमानदनता मयसे व्याकुल होकर उसी बार्गीको बोली हुई थीस रह रही है ॥ ३८ ॥

तत्राप्युपादिशमहं मम हिन्दुबन्धून्,  
 यत्तत्पुत्रानिजनतामपि बोधयामि ।  
 भोति जहीत मनुजस्य परेदवरोत्तिन्,  
 पूयं च विदयसित पूर्णतया सदेति ॥ ३९ ॥

मैंने नोवाखालीने मेरे हिन्दू भाइयोंको जो उपदेश दिया था वही मेरे मुसलमान् भाइयोंको भी कहता हूँ । मनुष्यके मयको आप छोड़ दें । और इस परमेस्वरमें सदा पूर्णतया विश्वास करें ॥ ३९ ॥

श्रुत्वापि भारतजयध्वनिमस्ति कम्पो,  
 यद्यद्य खौदजनताहृदयेष्वसह्यः ।  
 काष्ठा पराद्य पतनस्य समीपगास्ते,  
 जात्योर्द्वयोरिति विचार्य मनोममार्द्रम् ॥ ४० ॥

“भारतका जय हो” इस शब्दको भी सुनकर यदि मुसलमानोंके हृदयमें असह्य कम्प होता है तो आज दोनों जातियोंके पतनकी परा-  
 काष्ठा पासमे ही है, यह विचार कर मेरा मन दुःखी हो रहा है ॥ ४० ॥

पृच्छन्ति मुस्लिमलिगीयजना ह्येत्य,  
 अस्ता नितान्तमिह मां किमु हिन्दवो नः ।  
 वस्तुं विहारधरणीतल उत्तमाङ्गाः,  
 सोढार एव न बलोनहतानिहेति ॥ ४१ ॥

मुस्लिम लीगके लोग हमेशा आकर सुरुसे पूछते हैं कि क्या हिन्दू  
 लोग अल्पसंख्यक मुसलमानोंका विहारमें रहना नहीं सहन करेंगे ? ॥ ४१ ॥

ये सन्ति मुस्लिमजनाः किल राष्ट्रसं-  
 त्सभ्या भवन्ति विकलाः परिवीक्ष्य तेपि ।  
 एतादृशीमिह परिस्थितिमभ्यभिच्यां,  
 हा इन्त फीट्टा उपस्थित एष फालः ॥ ४२ ॥

जो मुसलमान् हैं वह ऐसी शत्रुताका बदला लेनेवाली परिस्थितिको  
 देखकर कांग्रेसके सम्म बन रहे हैं । दुःराकी बात है । यह कैसा  
 समय उपरिपत हुआ है ॥ ४२ ॥

धन्धुः स्वग्रन्धुमपि चेदिह भापयेत,  
 मोधान्मलीमसमनाः प्रणयैकपात्रम् ।  
 एन्माद उद्भाति तदा सदनुप्रणीत-  
 सीमानमित्यहह किं भगवान्विघाता ॥ ४३ ॥

क्रोपते मलिन मनवाला होकर एक भाई अपने दूसरे प्रेमपात्र

मादको ही यदि दसके, तब तो समाप्त मजनों द्वारा बनायी हुई साम्राज्य कर रहा है ! न जाने मगवान् क्या करेगा ! ॥ ४३ ॥

अथ प्रभृत्यभिमवो भयमारमाता-  
मत्सन्न सेत्यति कदाचिदिति प्रतिज्ञा ।  
निश्चित्य चेद्भवतु हिन्दुजनैर्गृहीता,  
योग्यं भवेत्सुयशसे महतेद्य तेषाम् ॥ ४४ ॥

जो दरे हुए हैं उनका हमसे कभी भी सम्मान नहीं होगा, ऐसी प्रतिज्ञा निश्चय करने यदि हिन्दू लोग ग्रहण करें तो वह उनके महान् और सुन्दर यशके अनुकूल होगा ॥ ४४ ॥

अप्रत्यहिन्दुल्लना यदि कामयेन्,  
हिंसामपात्य नितरामिह तामहिंसाम् ।  
संस्थान्य नैवदत्तं प्रतिद्वमूला,  
शक्यन्ति कर्तुमचिरेण शानत्यरूपा ॥ ४५ ॥

यहाँका यदि हिन्दू चाहें तो अपनी शक्तिसे हिंसाको दूर करके अहिंसानी स्थापना करके शीघ्र ही उसे बदलकर सभ्यी क्योंकि वह शान्तिस्वरूप है ॥ ४५ ॥

अहानुदेतिपतां परधर्मिणा चे-  
दाश्वासनं भवतु ततननस्तु पूर्णम् ।  
ते विदवसन्तु यदि हिन्दुजनेषु चाद्य,  
स्यादेष उत्सव इरन्मदशक्तियुक्त ॥ ४६ ॥

अल्ल, खुश करनेवाले परधर्मियों के दुःखी मनमें यदि पूर्ण आश्वासन प्राप्त हो और वह हिन्दुओंके विश्वास कर सकें तो वह एक उत्सव उत्सव होगा ॥ ४६ ॥

महाशम्भोरेवद्वृत्तलतो निस्तरदनी,  
वचपायूप तत्सदसि समवेवामनुमुता ।



मुहुः पायं पायं गलितगुरकोपाः समभवन्,  
प्रसन्नं सन्नं तन्मुसलिमकुलं सक्षणमभूत् ॥४७॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिधीमङ्गवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

दशमः सर्गः

परमकल्याणकारी महात्माजीके हृदयसे निकलते हुए इस वचना-  
मृतका, उस सभामें बैठे हुए सभी अनुष्योने पान कर करके अपने  
शोकको शान्त कर दिया । मुसलमान् भी जो पहले दुःखी और चिन्तित  
थे अब प्रसन्न और आनन्दयुक्त हो गये ॥ ४७ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिधीमङ्गवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकायां

दशमः सर्गः



## एकादशः सर्गः

भूयः स तस्मिन्नगरे महात्मा वारे द्वितीये समवेतलोकान् ।  
 प्रोवाच सायं हृदयेन हृद्यां वाचं गिरां नाथ इवाद्वितीयाम् ॥ १ ॥

उसी शहरमें-पटनेमें फिर दूसरे दिन इकट्ठे हुए लोगोंको महात्माजी  
 बृहस्पतिके समान अद्वितीय वचन बोले ॥ १ ॥

एको मुसल्मानिह मामुपेत्य साश्रुप्रपातो न्यगदद्यदद्य ।  
 तस्यालयात्कान्यपि भाण्डकानि नीत्वा गतः कुत्रचिदेव कोपि ॥ २ ॥

आज एक मुसलमान् मेरे पास रोता हुआ आया और कहने लगा  
 कि आज उसके घरमेंसे कुछ भासन = पात्र किसीने चुरा लिये हैं ॥ २ ॥

यावद्भवेदीदृशकृत्यजातं तावन्न शुद्धिर्मनसः फदाचित् ।  
 जायेत नस्मादखिला कलङ्कधायिप्रवृत्तिर्निखिलैः प्रहेया ॥ ३ ॥

जबतक ऐसे कार्य होते रहेंगे तबतक मानसिक पवित्रता कभी भी  
 नहीं आ सकती । अतः यह सब कलङ्क देनेवाली प्रवृत्ति छोड़ देनी  
 चाहिये ॥ ३ ॥

नानेन मार्गेण कदापि यौष्माकीणार्थतां व्यञ्जयितुं समर्थाः ।  
 यूयं भवेतेति विहाय शीघ्रं तं धर्ममार्गं मन आदधीध्वम् ॥ ४ ॥

इस मार्गसे चलकर आप अपने आर्यत्वको कभी भी व्यक्त करनेमें  
 समर्थ नहीं होंगे । अतः इसे छोड़कर धर्म मार्गमें मन लगावें ॥ ४ ॥

यावन्न पश्चात्तपतीह चेतो युष्माकमेतैरपकृत्यजालैः ।  
 तावत्प्रतिष्ठा विपमस्थितैवेत्येतद्विजानीत च हिन्दुजातेः ॥ ५ ॥

जबतक आपका चित्त पश्चात्ताप नहीं करता तबतक हिन्दु जातिकी  
 प्रतिष्ठा संकटमें है यह आपको समझ लेना चाहिये ॥ ५ ॥

अन्याय्यमायैर्न कदापि कर्तुं शक्यं विरोधेन हि पूर्वजानाम् ।  
स्वार्थस्य सिद्धी रघुनन्दनीयपादान्जयुग्मं सतत स्मरद्भिः ॥ ६ ॥

जो हिन्दू है और सतत भगवान्की मक्ति करते हैं उन्हें अपने पूर्वजोंके मार्गका विरोध करके न कभी अन्याय करना चाहिये और स्वार्थकी सिद्धि करनी चाहिये ॥ ६ ॥

आर्यत्वमेवेदमुदारभावैर्मित्रायितं चेद्द्विपता कुलेषु ।  
दुष्टेषु दुष्टत्वमुदाहरद्भिर्माहर्षमार्गादपहीयते हि ॥ ७ ॥

शत्रुओंके साथ भी मित्रताका व्यवहार करना, और उदारभाव रखना पही तो आर्यत्व है। दुष्टोंके साथ दुष्टता करनेवाला तो महर्षियोंके मार्गसे भ्रष्ट होता है ॥ ७ ॥

कस्यापि हिन्दोर्मम संनिधाने विद्युत्समाचार उपागतोद्य ।  
नो भर्त्सनीया न च निन्दनीया नेया उपालम्भपदं न केचित् ॥ ८ ॥

एक किसी हिन्दुभाईका आज मेरे पास तार आया है और उसमें लिखा है कि किसी भी हिन्दुकी न भर्त्सना करनी चाहिये, न निन्दा करनी चाहिये और न किसीको उल्लाहना देना चाहिये ॥ ८ ॥

मन्ये न मामेवमुपादिशद्य कस्यापि क्रिद्धित्स उपाकृताद्य ।  
नो हिन्दुधर्मस्य न भारतस्य नो हिन्दुजातेर्न च धा परेषाम् ॥ ९ ॥

मैं समझता हूँ कि जिसने मुझे यह उपदेश दिया है उसने न तो हिन्दुधर्मका, न हिन्दुजातिका, न भारतका और न किसी अन्यका भी कुछ उपकार किया है ॥ ९ ॥

अद्या मदीया मम हिन्दुधर्मे श्रद्धा च देशेष्विचलो मदीया ।  
तस्माद्भ्रवीन्धेतदुदारभायस्तेनापि शान्त्यैव विचारणीयम् ॥ १० ॥

हिन्दुधर्ममें और अपने देशमें मेरी बहुत बड़ी भविचल श्रद्धा है इसीलिये मैं उदाहर होकर यह कह रहा हूँ। उस भाईको भी शान्तिसे विचार करना चाहिये ॥ १० ॥

हिन्दुर्मन्मुत्तुरः परस्मै धर्माय नेप्यामि विदन्तमस्वम् ।  
 कोपापरोतोपि कदापि नासूयामीह शुद्धा निलिख हि धर्माः ॥११॥

मैं एक अच्छा हिन्दु हूँ, सब धर्मोंको जानता हूँ परन्तु किसी धर्मसे ईर्ष्या नहीं करता । कोपवश होकर भी कभी किसी धर्मको अच्छा नहीं करता । क्योंकि सभी धर्म पवित्र हैं ॥ ११ ॥

यद्विन्दुभिर्घोरतमं कुकर्म सन्पादितं तत्सुतरां विगोप्य ।  
 हिन्दुत्वतः प्रच्युतिरेव मे स्यादर्नच्युतः स्यां तव इत्यसह्यम् ॥१२॥

हिन्दुओंके जो महानान किया है यदि मैं ठने छिपाऊँ तो मैं हिन्दुत्वसे भ्रष्ट हो जाऊँ । ऐसा होनेसे मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊँगा । ऐसा होना मेरेलिये असह्य है ॥ १२ ॥

युष्मात्प्रमत्तम्यमहापरयान्विज्ञाप्य युष्मभ्यमहं तनोमि ।  
 सेवां परं वो महती महार्थामित्येव चित्ते मम संप्रतीतिः ॥१३॥

मेरे मनमें तो यह विद्वान् है कि मैं आपके अध्वन्य महान् धराराधोको आपको बताकर आपकी केवल एक बड़ी और उत्तम परिगामनाली सेवा करता हूँ ॥ १३ ॥

पञ्चापदेशे नयनाशयत्नं दृष्ट्वा न वस्तत्प्रतिकर्तुमद्य ।  
 रीत्या तवैवोपदिशामि तस्माद्दीचित्यलुद्धिग्निधियो मनीष ॥१४॥

पञ्चाशमें जो नीतिनाशका मार्ग ग्रहण किया गया है उसे देखकर मैं उसी रीतिसे उसका प्रतिनार करनेका उपदेश आपको नहीं देता हूँ । और वह मेरेलिये योग्य ही है ॥ १४ ॥

स्वातन्त्र्यभूमिं समवाप्य ये ये शस्ता गुणाः सन्ति जनिष्यमाणाः ।  
 युष्माभिरध्यञ्च उपासनीयास्ते मे मनीषेति ममास्ति हार्दम् ॥१५॥

स्वतन्त्रताको प्राप्त करके जो जो अच्छे गुण पैदा करने हैं उनकी आप अधिक उपासना करें यह मेरी इच्छा है । यही मेरे हृदयका तात्पर्य है ॥ १५ ॥

कर्तव्यमास्ते किमिहाद्य युष्मद्भयं किं मुस्लिमभूतये स्यात् ।  
वाच्यं मया तदप्रणिधानदानाच्छ्रव्यं भवद्भिः कृपयेति भिक्षे ॥१६॥

आपके लाभके लिए क्या करना है और मुसलमानोंके लाभके लिये क्या करना है, यह मुझे बताना है। आप कृपाकर ध्यान देकर सुनें, यही भिक्षा योग्यता है ॥ १६ ॥

ये ये विपन्ना विगृहार्थ जाता अस्मिन्कलौ तेभ्य उदात्तचित्तः ।  
साहाय्यमाघातुमवश्यमद्य किञ्चित्प्रदेयं करुणास्वतन्त्रैः ॥१७॥

इस झगडेमें जो लोग विपद्ग्रस्त बने हैं, जो लोग बिना घरके हो गये हैं उन सबको उदात्तचित्त वाले तथा करुणाके अधीन रहनेवाले आप लोगोंको कुछ अवश्य सहायता देनी ही चाहिए ॥ १७ ॥

शत्रुष्वपि प्राणपरायणेषु कार्या दयेत्येव मनुष्यधर्मः ।  
सर्वे हि तस्यैव महेश्वरस्य पुत्रास्ततः सन्ति न ते स्वभिन्नाः ॥१८॥

शत्रु भी कोई हो और वह अपना प्राण बचाना चाहे तो उसपर दया करना, यही मानवधर्म है। सभी तो उसी परमेश्वरके पुत्र हैं अतः सब ही स्व = अपनेसे भिन्न नहीं हैं। हम सब एक ही हैं ॥ १८ ॥

तेदुर्न यातन्मुस्लिमधनादद्या नोपाखलीस्था विपदन्वितेभ्यः ।  
हिन्दुभ्य इत्यस्तु विचारणा चेद्वर्माच्छ्रुताः स्याम सनातनाद्धि ॥१९॥

नोपाखलीमें विपद्ग्रस्त हिन्दुओंको वहाँके धनिक मुसलमानोंने सहायता की या नहीं, यदि हम यह विचार करेंगे तो सनातन धर्मसे हम प्युज हो पायेंगे ॥ १९ ॥

धर्माय धर्मोत्र निषेधणीयो नान्येन केनापि च कारणेन ।  
एषा प्रणाली धृतिशास्त्रसिद्धा महार्यपर्यैरूपसेयिता च ॥२०॥

धर्मके लिये ही धर्म करना चाहिए। बदला या ख्याति आदि अन्य कारणोंसे धर्म नहीं करना चाहिए। यही प्रणाली वेदो-शास्त्रोंमें बतायी गयी है और इसीही हमारे पुरखोंके लीजारे विषय है ॥ २० ॥

धर्मः पृथक्त्वं भजते न राजनीतिस्ततो भ्राम्यतु नैव कोपि ।

एष प्रचारो मम राजनीतिसंबद्ध इत्यस्तु न या विवेकः ॥२१॥

धर्म राजनीतिसे कमी अलग बस्तु नहीं है । मेरा यह प्रचार राजनीतिसे सम्बन्ध रखता है ऐसा किसीको न तो भ्रम होना चाहिये और न विचार ही होना चाहिये ॥ २१ ॥

एवं च नेयं व्यवहारनातिराव्यात्मिकाजीवनवर्त्मनो वः ।

दूरात्पृथक्तेन विवेकवन्तः सम्यग्विचारैव समाचरन्तु ॥२२॥

इस रीतिसे यह व्यवहारनाति आपके आप्यात्मिक जीवनसे बहुत पृथक् नहीं है । अतः विवेकिमोक्षो अच्छी तरहसे विचार करके साचरणा करना चाहिये ॥ २२ ॥

नो विद्यते किञ्चन भिन्नमत्र लोकश्च तस्याधिपतिश्च तन्त्रम् ।

एतन्नयं चापि न भिन्नभिन्नं बद्धं समस्तं हि परस्परेण ॥२३॥

इस जगत्में अलग अलग कोई वस्तु ही नहीं है । जगत्, जगत्का स्वामी और उसका तन्त्र यह तीनों ही भिन्न भिन्न नहीं हैं । सभी परस्पर बंधे हुए हैं ॥ २३ ॥

तस्मान्न वक्तव्यमहं स्वराजनीतिं विहारियजनेष्वपीह ।

संचारयामीति यतो न धर्मो नीतिं कदाचिद्विरणद्धि शुद्धः ॥२४॥

इसलिये आप यह न कहें कि मैं अपनी राजनीति यहाँ विहारी भाइयों और बहिनोमें फैला रहा हूँ । क्योंकि विशुद्ध धर्म राजनीतिसे कमी विरोध करता ही नहीं ॥ २४ ॥

दानं प्रदातव्यमिति श्रुतीनां श्रेयस्करं सत्यवचः प्रमाणम् ।

नो तेन दत्तं तत एव तस्मै देयं न हीत्येतदनोतिवर्त्म ॥२५॥

श्रुतियोनि कहा है कि श्रद्धासे भी दान करना चाहिये और अश्रद्धासे भी करना चाहिये । धर्मसे भी और मयसे भी दान करना चाहिये । तात्पर्य दान करने में है । श्रुतिका यह कल्याणकारी वचन प्रमाणभूत,

है। उसने नहीं दिया अतः मुझे भी नहीं देना चाहिये, ऐसा विचार करना अनीति है ॥ २५ ॥

कलिः कलिं वृद्धिपथं नयेत् स्तन्नोत्तमः क्वपि न चार्चनीयः ।  
गालिर्न गालिं शमयेत्सहस्रैः स्वीयैः सहायैः सहितापि तन्वी ॥२६॥

झगडा झगडाको बढ़ाता है। अतः वह न उत्तम है और न सत्कारार्ह है। अपने सहस्रो सायियो और सहायकोके साथ भी गाली गालीको शान्त नहीं कर सकती ॥ २६ ॥

नासावुपायः कलिरोधनाथं हिंसा कलेर्वृद्धिकरी मतास्ति ।  
दोषेण दोषो न भवेदुदस्यः पङ्केन पङ्कं व्यपनीयते नो ॥२७॥

झगडा रोक्नेकेलिये झगडा उपाय नहीं है। हिंसा झगडेको बढ़ाती है। बुराईसे बुराई हटायी नहीं जा सकती। फीचडसे फीचड नहीं माफ किया जाता है ॥ २७ ॥

स्यादेव सर्वत्र विचारभेदो दृष्टः स नो मानवतापहारी ।  
स्त्रीपुंसघालादिवधं विहाय शोष्यान्यपद्या मतभेदहान्यै ॥२८॥

विचारभेद तो सर्वत्र होता है परन्तु वह मानवताका नाश करनेवाला अन्यत्र नहीं देता गया है। अतः स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्धका वध छोड़कर मतभेद दूर करनेके लिये अन्य मार्ग ढूँढना चाहिये ॥ २८ ॥

हिंसा प्रतीकारविचारणया हानादर्हिंसाख्यमहाक्रतो वा ।  
नदयेन्न दृष्टोस्त्यपरोभ्युपायो नाशाय तस्या दुरिताश्रयायाः ॥२९॥

हिंसाके नाशके दो ही उपाय हैं। एक तो यह कि प्रतीकार करने-का विचार ही नहीं होना चाहिये और दूसरा अहिंसाकृत महान् भरत। उसके नाशकेलिये अन्य उपाय नहीं है ॥ २९ ॥

हिंसापतोमे नमनं विधाय न्यापीनतात्यागमपेक्षते नो ।  
परयाप्यर्हिमा परमस्त्यर्दिमो देहप्रणाशावधिकः स्वतन्त्रः ॥३०॥

हिंसकने सामने झुनकर स्वतन्त्रताका त्याग अहिंसामें नहीं है। अहिंसक तो जबतक उसका शरीर नष्ट न हो तब तक स्वतन्त्र ही रहता है ॥ ३० ॥

अन्याययुक्तेन पथा च कोपि हिंसाबलेनैव कमप्यहिंसम्।  
स्वाधीनमाघातुमपेक्षते चेत्तस्याभिलाषोत्पन्नं विवेचम् ॥३१॥

यदि कोई अन्याययुक्त मार्गसे हिंसा बलके द्वारा ही किसी अहिंसकको स्वाधीन बनाना चाहता हो तो उसकी इच्छाको रोदकर फेंक देना चाहिये। अर्थात् अन्यायी किसीपर कितना भी अन्याय स्वाधीन बनानेके लिये करे तो भी उसके अधीन नहीं बनना चाहिये ॥ ३१ ॥

आगत्य कश्चिद्यदि याचते मां संतर्ज्य वा शस्त्रबलं प्रदर्श्य।  
स्वीयाभिलाषोपनतं हि पाकिस्तानं न वा तं प्रति शस्त्रयोगः ॥३२॥

एक आदमी मेरे पास आकर हाटकर, धमकाकर, शस्त्रबल दिखाकर अपनी इच्छाके अनुसार पाकिस्तान मेरे पाससे मागे तो उसके प्रति शस्त्रप्रयोग नहीं होना चाहिये ॥ ३२ ॥

आकर्ष्य सर्वं गतरोपरेपो धैर्येण बुद्ध्या च विवेचयानि।  
युक्तं यदि स्यात्प्रतिदेयमेवायुक्तं यदि त्याज्यतरं मया स्यात् ॥३३॥

सब कुछ सुनकर रोपकी एक एक रेखा मिटाकर धैर्यसे बुद्धिद्वारा मुझे विचार करना चाहिये। यदि पाकिस्तान देना उचित होगा तो मैं दूंगा ही। और यदि अयुक्त होगा तो त्याग कर दूंगा ॥ ३३ ॥

तेनास्य चेतो यदि संजिहीषेन्मां तत्र दाह्येन मूर्तिं कुसित्वा।  
ज्ञानेन सत्याग्रहियोग्यरीत्या तस्याभिलाषं विफलं विद्ध्याम् ॥३४॥

इस कारणसे यदि उसका मन मुझे मार डालना चाहे तो उस समय दृढ़तापूर्वक मृत्युका आतिंगन करके ज्ञानद्वारा सत्याग्रहीकी योग्य रीतिसे उसकी इच्छाको निष्फल बना देना चाहिये ॥ ३४ ॥



संहर्तृलोके प्रतिसंप्रहारश्चिह्नं न शौर्यस्य न वा बलस्य ।  
 स्पृष्ट्वा न शस्त्रादि किमप्यकम्पस्तिष्ठेदशत्रुत्वमुपास्य चित्ते ॥३५॥

अपनेको कोई मार डालनेके लिये आवे तो उसपर प्रहार करना न तो शूरताका चिह्न है और न बलका ही । उस समय शस्त्रादि किसी वस्तुका स्पर्श किये बिना ही चित्तमेंसे शत्रुभावको निकालकर स्थिर रहना चाहिये ॥ ३५ ॥

शस्त्राद्युपघ्नत्वमुदस्य चित्ते संस्मृत्य रामं निजमानसः सन् ।  
 क्रोधादि वैषम्यमपास्य दूरे प्रेमायुधेनैव जयेदमित्रम् ॥३६॥

शस्त्रादिका आशय छोड़कर, क्रोधादिका त्याग करके, चित्तमें रामका स्मरण करके समान मनवाला बनकर प्रेमरूप हथियारसे शत्रुको जीतना चाहिये ॥ ३६ ॥

हिंसात्रलेनैव शमप्रवृत्तिर्वाञ्छया वितिष्ठेत न सा चिराय ।  
 कालेन हिंसा प्रकटीभवन्ती सर्वं जगन्नाशमुयं नयेत् ॥३७॥

यदि हिंसाके बलसे शान्ति इष्ट हो तो वह दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रह सकेगी । समय पर हिंसा प्रकट होकर सम्पूर्णजगत्को नाशकी ओर ले जायगी ॥ ३७ ॥

क्षान्तिर्विभूषा बलिनामपूर्वा नो निर्बलानां शरणं कदाचित् ।  
 क्षान्तिः सदैव द्रढयत्यर्हिंसा तस्मात्स्वयोरस्ति सहस्रजित्वम् ॥३८॥

क्षमा बलवानोंका अपूर्वशृङ्गार है । निर्बलोंका वह शरण नहीं है । क्षमा सदा अहिंसाको दृढ बनाती है । अतः क्षमा और अहिंसा साथ साथ चलनेवाली चीजें हैं ॥ ३८ ॥

राज्ञो विराटभ्य पुरे घसत्सु पाण्डोः सुतेष्वेकदिने कदाचित् ।  
 मूर्धन्यभूशीर्षतरं घ्नं तज्ज्येष्ठस्य सन्तापकमुद्रभूय ॥३९॥

जब पाँचो पाण्डव विराट राजाके नगरमें निवास कर रहे थे उसी

समय कमी एक दिन युधिष्ठिरके सिरमें एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया ।  
उससे सबको बहुत दुःख हुआ ॥ ३९ ॥

एकोपि विन्दुःक्षतजस्य भूमौ ज्येष्ठस्य शीर्ष्णःपतितो यदि स्यात् ।  
अस्माकमापातरि दुःखाशिर्नूनं पतेत्तच्च भवेदभद्रम् ॥४०॥

दुःखका कारण कहते हैं । यदि युधिष्ठिरके सिरसे एक भी रक्त-  
का विन्दु पृथिवीपर पड़ेगा तो हमारे रक्षक विराटपर अवश्य ही आपत्तिका  
पहाड़ टूट पड़ेगा, जो बहुत खराब होगा ॥ ४० ॥

तद्गोपनार्थं व्रणतः सरन्ति सौवर्णपात्रे रुधिराण्यचिन्वन् ।  
अस्मास्यपीत्यं सखलगोपनाय भावानतिः स्याद्वि परस्परस्य ॥४१॥

तब अन्य पाण्डवोंने उसे छिपानेकेलिये उस फोड़ेमेंसे बहते हुए  
रक्तका सोनाके पात्रमें संग्रह कर लिया । हम लोगीमें भी परस्पर अपराध  
छिपानेकेलिए ऐसा ही भाव होना चाहिये ॥ ४१ ॥

यद्यप्यर्हिंसा निखिलेषु धर्मेष्वापत्सर्द सार्वदिकं प्रशस्तम् ।  
मन्ये परं त्वाचरणाय शास्त्रं लेभे जनिं भारत एव भव्याम् ॥४२॥

यद्यपि अहिंसाको सभी धर्मोंमें सदाकेलिये उत्तम पद प्राप्त है  
तथापि मैं मानता हूँ कि उसके आचरणके शास्त्रने तो भारतमें ही  
भव्य जन्म धारण किया है ॥ ४२ ॥

ब्रह्मर्षयोनेकपुराणमान्याः संघा मुनीनामपि भारतेस्मिन् ।  
तप्त्वा तपांस्युप्रतराण्यर्हिंसां मूर्धाभिपिकां रचयाम्यभूवुः ॥४३॥

पुराणोंमें प्रसिद्ध अनेक ब्रह्मर्षियों और अनेक मुनियोंने भी इसी भारतमें  
अतिकठोर तपश्चर्या करके अहिंसाको सर्वश्रेष्ठ बनाया है ॥ ४३ ॥

अत्युत्तमं त्यागतपः प्रसूते ज्योतिष्मतीर्यं सुरजा अर्हिंसा ।  
अद्रीदधरः शुभ्रतमो विभाति त्यागेन दोषानखिलान्विधूय ॥४४॥

सुन्दर बलवाली और सुन्दर प्रकाशवाली यह अहिंसा सर्वोत्तम

त्यागरूप तपको जन्म देती है। हिमालय भी त्यागके द्वारा सब दोगोंको दूर करके निर्मल होकर शोभा देता है ॥ ४४ ॥

अद्यास्त्यर्हिसान्तरदोषगाढध्वान्ते विलीनेय चिरेण तेन ।  
दीनाननापेक्षत एव सद्यः सोद्धारकारिं जगतो हिताय ॥४५॥

आज वह अर्हिसा आन्तरिक दोषरूप गाढ अन्वकारमें बहुत कालसे छिप गयी है। वह दीनमुत्तसे जगत्के कल्याणकेलिये शीघ्र ही अपने उद्धारकी अपेक्षा रखती है ॥ ४५ ॥

श्चेत्ता यियासन्ति विहाय नैर्जी क्षिष्टिं समग्रामथ भारतोर्व्याः ।  
काले किमस्मिन्करणीयमाप्ते सर्वैस्तदेवाद्य विचारणीयम् ॥४६॥

अंग्रेज लोग अपना शासन छोड़कर अब भारतसे जानेवाले हैं। ऐसे समयमें हमारा क्या कर्तव्य है, इसीका सबको विचार करना चाहिये ॥४६॥

यस्यां धरायां कमनीयकीर्तिर्जज्ञे स बुद्धो भगवान्सुरार्च्यः ।  
तस्यामर्हिसा गतिमीदृशीं चेत्प्राप्ता भवेदद्भुतमेव तत्स्यात् ॥४७॥

जिस पृथ्वीपर प्रशस्तकीर्तिवाले, देवोंके भी पूज्य भगवान् बुद्ध उत्पन्न हुए उसमें अर्हिसाकी यदि ऐसी दशा हो तो आश्चर्य ही है ॥४७॥

फश्चिन्मयाराधितदेवमूर्तिं भङ्गुं प्रयस्येद्वलतो यदीह ।  
आलिङ्ग्य तां गाढतरं निपायां तस्मादसूनां व्ययतो ममैव ॥४८॥

मैं जिस देवकी मूर्तिकी पूजा करता हूँ उसे कोई बलसे यदि तोड़ना चाहे तो मैं उस मूर्तिको गाढ़ आलिङ्गन देकर, अपने प्राण गँवाकर भी उस आदर्मासे उस मूर्तिकी रक्षा करूँगा ॥ ४८ ॥

त्याज्या भवेत्सा न कदापि मूर्तिर्यावद्व्यसुः स्यां विवशोर्तियोगात् ।  
तस्याद्गतो नैकतमोपि विन्दुः श्रयोतेत तच्चापि मयेक्षणीयम् ॥४९॥

असतक मैं दुःख-पीड़ाके सम्बन्धसे विवश होकर मर न जाऊँ तबतक मैं उस मूर्तिको नहीं छोड़ूँ। मुझे यह भी देखना होगा कि उस घातकके शरीरसे एक भी रक्तका विन्दु न टपके ॥ ४९ ॥

आश्रित्य हिंसामपि शान्तिरत्र स्थाप्या भवेत्तत्र न संशयोस्ति ।

न स्यात्परं शान्तिरसौ विराय द्वेषानलः प्रब्वलयेन्मनोह्वत् ॥५०॥

इसमें सन्देह नहीं कि हिंसाना आश्रय लेकर भी शान्तिकी स्थापना हो सकती है । परन्तु वह शान्ति चिरकालतक नहीं रह सकती । द्वेषकी आग हृदय और मनको जलाती रहेगी ॥ ५० ॥

फालेन दावानलतानुपेत्य स ज्वालयेद्देव समस्तदेशम् ।

हा हा तदा स्त्रीशिशुवृद्धवालाः सर्वे व्रजेयुर्हि हक्विष्टुमारात् ॥५१॥

समय पाकर वह द्वेषानल दावानलका रूप धारण करके समस्त देशमें जला देगा । हाँ, उस समय स्त्री, छोटे-छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और वृद्ध सभी ही शीघ्र ही उस अग्निके हविष्= बलि बन जायेंगे ॥ ५१ ॥

श्रीविज्रभाष्ये मुनिभूतनागसर्वेश्वरे शास्त्रवलेनशान्तिः ।

संस्थापिताः श्वेतजनैः परं तु तन्मानसान्तर्ज्वलनः प्रदीप्तः ॥५२॥

विज्रमीय सवत् १८५७ में अंग्रेजोंने शस्त्रके बलसे शान्ति स्थापित तो की थी परन्तु उनके मनकी आग तो जल ही रही थी ॥ ५२ ॥

नेत्रैः समेषामपि बीक्षितैव सर्वत्र बाह्या प्रसृताति शान्तिः ।

राज्यं विदेशीयमसह्यमेव लोकेषु सर्वेषु तु सद्व्यदासीत् ॥५३॥

सबकी आँखोंने यह तो देखा ही कि बाहरकी शान्ति सर्वत्र फैली हुई थी । परन्तु लोगोंके मनमें विदेशीय राज्य सर्वदा असह्य ही बना रहा ॥ ५३ ॥

तस्यैव दुष्टं परिणाममद्य श्वेता वयं चाप्यतमिस्त्रनेत्रैः ।

ईक्षामहे दुर्गमपारमत्र वैवश्यमासाद्य शमापसादम् ॥५४॥

उसीका दुष्ट परिणाम आज हम भी और अंग्रेज भी खुली आँखोंसे देख रहे हैं । अन्धकार होकर शान्तिमद्ग भी देख रहे हैं ॥ ५४ ॥

ईस्ट् इण्डिया कम्पनितो विकृप्य राज्यस्य भारः सितशासनेन ।

आशायि बुद्ध्या दृढया प्रज्ञानां कर्तुं वशे प्रायति बुद्धियन्त्रम् ॥५५॥

अंग्रेजी राज्यने ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे राज्यका भार लीचकर ले लिया तथा दृढ बुद्धिसे प्रजाकी बुद्धिको—विचारको बशमे करनेका यत्न किया ॥५५॥

विद्यालयान् न्यायगृहाणि सम्यक् संस्कारसांकर्यमतिष्ठिपन्त ।  
श्रेताः परं नापमिति कदाचिद्धर्मस्मापुंरार्यावनिजा मनुष्याः ॥५६॥

अंग्रेजोंने यहाँ न्यायालयों और विद्यालयोंकी, संस्कारोंका मिश्रण करनेकी दृष्टिसे स्थापना तो की । परन्तु इस देशके लोग उस अपमानको कभी भूले नहीं ॥ ५६ ॥

एवं हि हिन्दूमुसलिमप्रजानां जातो विरोधो न शमं गतश्चेत् ।  
शस्त्रप्रयोगेण शमं गतोपि भस्मावृतो वह्निरिवाशु जीवेत् ॥५७॥

इसी प्रकारसे-प्रेम पूर्वक यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंका विरोध शान्त न होगा तो घातप्रयोगसे शान्त होकर भी जैसे रागसे ढँकी हुई आग फिर भी जाती है वैसा ही यह विरोध फिर भी उठेगा ॥५७॥

तस्मात्पुनर्हिन्दुमुहम्मदीयस्नेहानुवृद्धिं सुदृढां समीहे ।  
आसीद्यथा पूर्वमकम्पमैत्री जीवेत्तथैवाद्य मृतिं गतापि ॥५८॥

अतः हिन्दू-मुसलमानोंका प्रेम पुनः सुदृढ बने, ऐसी मैत्री इच्छा है ।  
जैसी पहले शिर और दृढ मैत्री थी वैसी ही फिर भी—मरी हुई है तो भी हो ॥ ५८ ॥

तत्रेम सौहार्दमपीह तत्तद्भावत्वमद्यापि यदीह जीवेत् ।  
निःश्रेयसं हिन्दुजनोपि मुस्लिम्लोकोपि सम्यङ् ननु निर्विशेताम् ॥५९॥

वही प्रेम, वही सौहार्द, वही भावभाव यदि आज भी छीकित बने तो हिन्दू और मुसलमान दोनों ही परम शान्तिका अनुभव करें ॥५९॥

मुन्येकरन्प्रैकमितेभ्दके यत्प्रान्तोयमालोकयदात्मशक्तिम् ।  
शायं नर्हिसाज्जनितं तदेव भाग्यात्पुनश्चाद्य नवीकरोमि ॥६०॥

१९१७ ई० में इस प्रान्तने अहिंसाजन्य जो शूरता दिखायी थी भाग्यसे मैं पुनः आज उसीको नया करता हूँ ॥ ६० ॥

नीलीप्रभुश्वेतजनेषु चम्पारण्ये विहारीयजनास्तदानीम् ।  
हिंसाप्रयोगं न समाचरन्सा हिंसेतरा शुद्धतराभवन्ते ॥६१॥

बिहारी बन्धुओंने उस समय चम्पारनमें नीलके स्वामी अग्नेजोपर हिंसाका प्रयोग नहीं किया था अहिंसाका पालन किया था, वह अहिंसा अतिशुद्ध नहीं थी ॥ ६१ ॥

नैवेत्यहेतोर्यदि हिंसनाढ्या वृत्तिः परास्या न समर्थिका सा ।  
कस्यापि कार्यस्य ततो बलिष्ठाहिंसैव सेन्या जगतः शिवाय ॥६२॥

निर्बलताके कारण त्याज्य हिंसावृत्ति यदि किसी कार्यकी समर्थिका-साधिका नहीं है तो उसे छोडकर सबसे अधिक बलवती अहिंसाकी ही सेवा जगत्के कल्याणके लिये की जानी चाहिये ॥ ६२ ॥

अत्रत्यहिन्दूजनता न हेयाद्धिंसां यदि स्वीयमतिप्रभावात् ।  
विस्पष्टमेतत्प्रतिबन्धुनर्हेन्नाहं तथा कापि हि बन्धनीयः ॥६३॥

यदि यहाँकी हिन्दूजनता अपने विचारके प्रभावसे हिंसाको नहीं छोड सकती तो उसे चाहिये कि वह स्पष्ट उत्तर मुझे मुना दे । मैं चाहता हूँ कि वह मेरी बन्धना न करे ॥ ६३ ॥

सत्येन न स्यान्मनसो व्यथा मे सत्यं व्यथायाः परमौषधं मे ।  
सत्येन संगत्य जिजीविषामि सत्येन हीनो मृतिमाश्रयामि ॥६४॥

सत्यसे मेरे हृदयको पीडा न होगी । सत्य मेरी पीडाकी परम औषधि है । सत्यके साथ मिलकर ही मैं जीना चाहता हूँ । सत्यसे अलग रहकर मैं मृत्युका आश्रय चाहता हूँ ॥ ६४ ॥

हिंसया भवेच्चेदिह हिंसयैवाहिंसा तदानीं मम जीवनेन ।  
लाभो न कश्चित्प्रतिभाति मेद्य भारो धराया इह केवलोस्मि ॥६५॥

यदि हिंसा अहिंसाकी चहाँ मार डालना चाहती हो तो मुझे मेरे

जीनेसे कोई लाम मालूम नहीं होता है । तब तो मैं केवल भूमिका  
भार ही हूँ ॥ ६५ ॥

यन्निश्चितं मे मनसा तपोभिः संशेरते धीप्रसरा न यत्र ।  
तद्रक्षणार्थं यदि देहपातः स्यान्मे मनो ग्लास्यति कर्हिचिन्नो ॥६६॥

जिसका निश्चय मैंने तपोके द्वारा मनसे कर लिया और जहाँ बुद्धिको  
संशय नहीं होता उसकी रक्षाकेलिये यदि मेरा देह खला जाय तो कभी  
मेरे मनको ग्लानि नहीं होगी ॥ ६६ ॥

अस्थीनि देहस्य ममेह युष्माद्भूमौ पतेयुर्यदि घान्यतोपि ।  
चिन्तां न मे चुम्बति चित्तवृत्तिः सर्वत्र मे भारतमृत्तिकैव ॥६७॥

मेरी यह हड्डियों चाहे आपके बिहार प्रान्तमें पड़ें अथवा कहीं  
अन्यत्र; इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है । सर्वत्र ही मेरे भारतकी  
ही मिट्टी है ॥ ६७ ॥

अमुलभपदपद्मकान्तश्रिया विविधवचनसंचयैर्हिन्दवः ।  
यतिकुलधरणीसुधासिन्धुना प्रशममुपनता रूपा दूषिताः ॥६८॥

इति सर्वतद्भस्वतद्भरमहंसपरिभाजकस्वामिधीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

एकादशः सर्गः

जिनके चरणकमलकी मनोहर थी सुलभ नहीं है उन यतियोंमें  
सुधासिन्धु समान महात्माजीने विविध वचनोंसे क्रोधसे दूषित हिन्दुओंको  
शान्त कर दिया ॥ ६८ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिभाजकस्वामिधीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्योपश्लभारतसप्तरभापाटीकायाम्

एकादशः सर्गः

## द्वादशः सर्गः

समीक्ष्य देशे निखिले महानलं प्रदीपितं मोहमयीयपादगैः ।  
मृशं तदाभूदतिदुःखविह्वलो जराकरापीडितपीडितो यतिः ॥ १ ॥

समस्त भारतमें मुसलमानोंका अनुकरण करनेवालोंने महानल सुलगा रखा था उसे देखकर महात्माजी वृद्धावस्थासे पीडित तो थे ही, इस दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥

महाप्रयासेन महातपस्थया कथंकथंचित्प्रशमय्य पावकम् ।  
नवापलीप्रान्तगतं द्योपमं विहारमाश्यासचितुं प्रयत्नवान् ॥ २ ॥

बड़े भारी प्रयास और बड़ी भारी तपस्यासे किसी प्रकार दानानलके समान नोखाखलीके अग्निको शान्त करके महात्माजी विहारमें शान्त करनेमें प्रयत्नशील बने ॥ २ ॥

पुनः पुनः पाटलिपुत्रके यतिर्महीमहीन्द्रोपम इंदवरोपमः ।  
सभासमेतान्निखिलाज्जनान्प्रमुर्गिरां समृद्ध्या कृपया ह्युपादिशत् ॥ ३ ॥

महान् पर्वतके समान धैर्यवाले और इंदरके समान सामर्थ्यवाले महात्माजीने पुनः पुनः पटनाकी सभामें इकट्ठे हुए लोगोंको समृद्ध वागीसे उपदेश दिया ॥ ३ ॥

अयं च हिन्दूप्रभृतो दयाकरः प्रतीतशौर्या विबुधोदयाकरः ।  
प्रदेश उत्कपञ्जुर्पा पुरस्सरः सदा प्रणम्यो विबुधैरनुद्वैतैः ॥ ४ ॥

यहसे उपदेशका आरम्भ होता है । हिन्दुओंसे भरा हुआ यह बहुत दयालु प्रदेश है । इसकी दूरता प्रत्यात है । यह विद्वानोंका आकर है । प्रगतिशील प्रान्तोंमें श्रेष्ठ है तथा शान्त निद्वान् इसके समक्ष सिर झुकाते हैं ॥ ४ ॥



इहैव बुद्ध समजायत क्षमामहीमहीपालशिरोमणि पुरा ।  
तथा महावीर इह स्वजन्मनामृतार्थयत्सर्वानुष्मतो महान् ॥ ५ ॥

यहाँ ही महती धमावाले बुद्ध भगवान् पहले प्रकट हुए । यहाँ ही  
महावीरस्वामीने भी अपन जन्मसे सब जीवोंको कृतार्थ किया ॥ ५ ॥

अय प्रदेसो जनकैश्च शिक्षित पुरा परब्रह्मादिदा प्रपूजितै ।  
इहैव सीता जगदेकपावनी मृदोर्भुव प्राप तनु मनोहराम् ॥ ६ ॥

इस प्रदेशको जनकविदेहने शिक्षित बनाया है जिसे बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी  
भी पूजते थे । इसी प्रदेशमें कोमल माटीमेंसे जगत्की पवित्र करनेवाला  
मनोहर शरीर श्री साताको मिला या ॥ ६ ॥

तस समस्तैर्भुवि राजितैर्नै सरस्वतीपादकृपाकटाक्षितै ।  
महोन्नतैरिन्द्रियशोभिलापुकै सदा प्रणम्या इह जन्मिनो जना ॥ ७ ॥

सीता यहाँ उत्पन्न हुई थी इसीलिये पृथिवीपर रहनेवाले समस्त  
विद्वान्, महान् तथा यशस्वी पुरुष भी, यहाँ पैर टुट लगे लोगोंके सामने  
गिर झुकते हैं ॥ ७ ॥

मयापि युष्मान्सतत ममादरान्निरोक्षमाणेन नवेन बोधत ।  
प्रणामपूर्वं विरलान्तरात्मना प्रयच्छुयामेन समागमीह भो ॥ ८ ॥

म भी आपको सदा आदरकी दृष्टिसे दरता हूँ । आपक सामने नत  
हानर प्रणाम करके व्याकुलमनसे कुछ कहनेकेलिये मैं यहाँ आया हूँ ॥ ८ ॥

विहाय नोवाचलिसंस्मरन्महाशृषीटयोर्नि च शृषीटशोषणम् ।  
त्प्रागम व्यसमना मद्देशपरप्रजोदित विशिदुपान्तितु मद्द ॥ ९ ॥

नावाच गौमें जो आग सुल्ला रही है यह अरा कारणता भी = जितमेंसे  
यह पैर टुट है उस भा बलावाली है । उस छाड़कर मैं दु ली हा कर  
इतर व अणस यहाँ कुछ मददरु प्राप्त कराके लिय आया हूँ ॥ ९ ॥

पिलोक्यते भारतभूतले ज्यलम्माहायल सर्पगिग विभापसु ।  
ममासु दिश्यत्यनितापतापितो विहासगाा शरणाय दु खित ॥ १० ॥



जहानाबाद (बिहार) सीम्यभासे गाल विनोद ।

बापा राड्ग]

[फाग्यत्रापर ध्र जग्न वा मर

भारतमें चारों दिशाओं में सबको निगल जानेवाली मयङ्कर आग  
दिशाथी पट रही है । अतः अतितापसे तपाया गया हुआ मैं शरणकेलिये  
बिहारमें आया हूँ ॥ १० ॥

बिहारदेशे पठिता निरक्षरा स्तनन्धया वा शिशवो धयोतिगाः ।  
उपासकाः सन्ति कृपामहोदधे रघूत्तमस्यावनिजाप्रियस्य च ॥११॥

बिहारमें पढ़े हुए और अनपढ़, धूम्रमुँहें बालक, कुठ बड़े बालक और  
बूढ़ भी सभी, जानकी नाम, कृपासागर श्री रामके उपासक हैं ॥ ११ ॥

न रामभक्तः क्वचिदप्यनीतिमान्भवेन्न रागादिकदोषसंगतः ।  
भवस्य सर्वान्परमात्मरूपिणो नयन्सदेक्षेत जगद्य कृत्स्नशः ॥१२॥

श्रीरामभक्त कभी अनैतिवाला नहीं हो सकता । उसमें राग द्वेष  
आदि दोष भी नहीं रह सकते । वह संसारके सभी मनुष्यों और समस्त  
जगत्को परमात्माका ही रूप मानता है ॥ १२ ॥

अमङ्गलानामसतां च हृदयते क्वचित्क्वचिद्राज्यमितस्ततः परम् ।  
अमङ्गलं किन्तु न रोचतेप्यसत्कदापि कस्मा अपि सर्वदाशिवम् ॥१३॥

इधर-उधर आज असत्य और अमङ्गलका राज्य दीप्त पड़ रहा है ।  
परन्तु असत्-अमङ्गल सर्वदा अशिवरूप दुःखरूप होनेसे कभी किसीको  
रुचता नहीं है ॥ १३ ॥

भवे भवेदेकजनोपि सत्यभाग्भवेद्भवे तावदजस्ररक्षणम् ।  
बिहार एष प्रतिपाल्य सद्गुरुं निजस्य देहास्य च शं करिष्यति ॥१४॥

जगत्में यदि एक मनुष्य भी सत्यवादी रहे तो जगत्में नित्यरक्षणकी  
सर्व्ण सभामना हो सकती है । यह बिहार सत्यरूप बलका पालन करके  
अपनी और समस्त देशकी रक्षा कर सकता है ॥ १४ ॥

इहाप्रिला यूयमपास्य मत्सरं विधाय चित्ते परमेदवरस्मृतिम् ।

भवेत चेच्छान्ततमा नयात्सलीजना भजेरज्ञियतं मनुष्यताम् ॥१५॥

यदि यहाँ पर तुम सब लोग मत्सरको छोड़कर हृदयमें ईश्वरका स्मरण करके शान्त रहोगे तो नोवाखलीके लोग मनुष्य बन जायेंगे ॥१५॥

समस्तदेशेषु निर्हिसनं नृणां संमर्दनं सब्यथनं निवर्हणम् ।  
प्रचारमापन्नपया ततो वयं नृशंसतानिन्दनतत्परायणाः ॥१६॥

सारे देशमें मनुष्योंका वध पीड़ा, मारना, काटना प्रचरित हो गया है । इससे मैं लज्जावश इस घातुकनाका निन्दन कर रहा हूँ ॥ १६ ॥

निकार एषोस्ति हि भारतक्षितेर्निपिञ्जनं कस्यचनापि देहिनः ।  
समानदेशस्थितिशालिनस्तु तन्न शोभते क्वपि जनस्य बन्धवः ॥१७॥

किसी भी प्राणिका वध यह तो भारतका अपमान है । और भाइयो ! अपने ही देशके मनुष्यका वध तो मनुष्यको कभी शोभा नहीं देता है ॥१७॥

भयन्तु ते हिन्दुजना भयन्तु वा कुरानिनो नात्र भवेद्विचारणा ।  
न कोपि केनापि भवेद्विर्हिसितः क्वचित्कदाचिद्रिपुताप्रदप्रदान् ॥१८॥

चाहे कोई हिन्दू हो अथवा मुसलमान् हो, इसका तो विचार ही कैसे हो सकता है ! शत्रुताके कारण कभी किसीको मार डालना नहीं चाहिये ॥ १८ ॥

कलङ्कितः स्याद्यदि देश आत्मनः कयापि कृत्या जगताभिवन्दितः ।  
कलङ्क एवास्ति स नो नियासिनामिहेति नित्यं मनसा प्रतीयताम् ॥१९॥

जगत्प्रसंगे वन्दित यह देश यदि हमारे किसी कर्मसे कलङ्कित होगा तो यह यहाँके रहनेवाले हम लोगोंका ही कलङ्क माना जायगा, इसे आप मनसे निश्चय कर लें ॥ १९ ॥

न राजफोयान्स्वमनोपितान्क्वचिद्विधाय लक्ष्यं निजबन्धुजासनम्  
भजेत केनापि पथा तर्दाचितीमिति स्वकीये हृदयेषधार्पणाम् ॥२०॥

किसी राजनीतिक इष्ट फलको लक्ष्य बनाकर अपने भाइयोंका वध करना तो किसी प्रकारमें भी उचित नहीं कहा जा सकता, इसे धार हृदयमें निश्चय कर लें ॥ २० ॥

न कोपि शत्रुः सुहृदस्ति कोपि नो स्वभावतः यस्य च नापनीतले ।  
स्वदोषतो वा गुणतो निजस्य वा समर्जितौ द्वौ भवतो जनैरिह ॥२१॥

इस संसारमें स्वभावसे न कोई मिठीका शत्रु है और न कोई किसीका मित्र है । अपने दोष वा अपने गुणसे यह दोनों शत्रु और मित्र बनाये जाते हैं ॥ २१ ॥

अयं च धर्मो गुरुतां गतः परामयं च धत्ते लघुतां निरन्तरम् ।  
अयं विवेको न विवेकिनां क्वचिद्विशोभते तेन निकार्य एषकः ॥२२॥

यह धर्म श्रेष्ठ है और यह धर्म ( मज्जह ) निकृष्ट है, इस प्रकार-  
का विचार विवेकी पुण्यको कर्मी भी शोभा नहीं देता । अतः इस  
विचारका सर्वदा तिरस्कार ही करना चाहिये ॥ २२ ॥

विहाय रागादिकमीक्ष्यते यदि प्रमातृदृष्ट्या च तटस्थया दृशा  
अवश्यमेवैतदुपाश्रितं भवेत्समत्यमास्ते निखिलेषु तेष्विति ॥२३॥

राम द्वेषको छोड़कर प्रमाताकी दृष्टिसे और तटस्थ बुद्धिसे जब आप  
विचार करेंगे तो अवश्य इसे मान लेंगे कि सब धर्मोंमें समानता  
ही है ॥२३॥

न वेत्ति वेदान्त स ईश्वरः परं कुरानभाषागतो न तस्य न ।  
स वेत्ति ज्ञानं च ज्वूरमप्यलं स बुद्धिमान् वाडयिलं च धोयनि ॥२४॥

वह ईश्वर वेद नहीं जानता है, वह बात नहीं है । वह कुरान नहीं  
समझता है, वह बात भी नहीं है । वह ज्वूर वेद भी जानता है, कुरान,  
बन्दावस्ता, ज्वूर और वाडयिलों भी जानता ही है ॥ २४ ॥

न तस्य दृष्टौ मलिनाः श्रुतिप्रभाः कुरानवाचोपि तथा न सन्ति वा ॥  
किमर्थमस्माभिरनर्थशालिनी पिथीयन्ते तर्हि सुप्रिय कल्पना ॥२५॥

ईश्वरकी दृष्टिमें न तो वेद सन्त हैं और न कुरानकी वाणी सन्त हैं ।  
तब आप लोग व्यर्थमें अनर्थ पैदा करने शर्या कल्पना क्यों करते हैं ।

विहारपुर्यां वसतां कुरानिनां तथा मुंगेरं परितः स्थितिश्रिताम् ।  
मनो न हिन्दूभयतोस्ति वर्जितं ततो न ते यान्ति निजं निजं गृहम् ॥२६॥

विहार नगरमें और मुंगेरके आस पास रहनेवाले मुसलमानोंके मनमेंसे हिन्दुओंका भय गया नहीं है अतः वह अपने अपने घर नहीं जाते हैं ॥ २६ ॥

न चेदुदेत्यात्मकृतेषु हृदयथा मनो न वा चेत्रपतेत्रपं तदा ।  
क हिन्दुता स्थास्यति भव्यकीर्तिसत्प्रभाप्रभाता निहृतेव साधुना ॥२७॥

यदि अपने कियेपर हृदयमें दुःख न होता हो और निर्लज्ज मन लज्जित न होता हो तो भव्य कीर्तिवाली हिन्दुता कहाँ रहेगी ! वह तो तब नष्ट ही हो चुकी है ॥ २७ ॥

भवन्तु केप्येव न शस्त्रपाणयः स्पृशन्तु केप्येव न शश्रुभावनाम् ।  
समं स्थिते सर्वजनेषु सर्वदा महेश्वरे विश्वसनं विधीयताम् ॥२८॥

न तो कोई किसीके साथ शत्रुता रखे और न कोई इशियार धारण करे । भगवान् सबमें समानरूपसे स्थित है, उसमें विश्वास करे ॥ २८ ॥

उपद्रुता ये ययनाः पलायिता गृहं परित्यज्य निजं परं प्रियम् ।  
उपेत्य तान् हिन्दुजनाः शुभेच्छया नयन्तु तेषां भवनं पुनः स्वयम् ॥२९॥

जो मुसलमान् घबडाकर अपने परम प्रिय घरको छोडकर भाग गये हैं आप उनके पास जायें और शुभेच्छासे उन्हें उनके घर आप स्वयं ले आवें ॥ २९ ॥

शृतापराधान्स्थजनानपीतरान्गृहाद्दक्षिष्कृत्य च शासनापितान् ।  
कुम्भमेतेन भयेन्न शासनं घृथाश्रमं स्यान्न च संघदण्डनम् ॥३०॥

जो अपराधी हों यह चाहे आपके सम्बन्धी हों चाहे अन्य कोई भी हों, उन्हें घाटे बाहर निकालकर सर्कारपो साँव दें । इससे न तो सर्कारका भ्रम धर्यं जायगा और न सामुदायिक दण्ड ही होगा ॥ ३० ॥

व्यथितहृदयतत्त्वो हिन्दुलोकापराधै-  
 र्यतिवर इति नैजीः संप्रयुज्यैव वाचः ।  
 सदसि समुपयातान्क्रोधबोधानलाह्व्या-  
 न्कथमपि सहसा तावद्यान्तचित्तांश्चकार ॥ ३१ ॥

इति सरंतघ्नस्वतघ्नपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
 पारिजातसौरभे  
 द्वादशः सर्गः

हिन्दुओंके अपराधते दुःखितमनवाले महात्माजीने इस प्रहारसे  
 अपनी वागीका प्रयोगकरके समामें उपस्थित कुद्बर्नोको किस तरहसे  
 भङ्गमात् शान्तचित्त बना दिया ॥ ३१ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकरवामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
 पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभास्वराष्ट्रभापाटीकायां  
 द्वादशः सर्गः



## त्रयोदशः सर्गः

यत्रातपद्मोरतमः प्रतापः पाण्डोस्तनूजस्य युधिष्ठिरस्य ।  
सत्याभिसन्धस्य जगत्प्रसिद्धा दिष्टीति पूः पूर्ववदेव सास्ति ॥१॥

जहाँ पाण्डुपुत्र सत्यवादी महाराज युधिष्ठिरका भयङ्कर प्रताप चर्तमान  
था वह जगत्प्रसिद्ध दिल्ली आज भी वैसी ही है ॥ १ ॥

तत्राश्ववेदप्रहदेहिसंख्ये यीश्वब्दके शुभ्रतिथौ चतुर्थ्याम् ।  
अप्ये हि मासे मिलितैशियीया सैका सभा सर्वहितानुबद्धा ॥२॥

उस दिल्लीमें १९४७ ई० सन्के जनवरी मासकी चौथी तारीखको  
वह प्रसिद्ध एशियावासियोंकी एक सभा सबके हितकेलिये हुई थी ॥ २ ॥

एजरबिजन् देशत आगतः श्रीयूसोटफासीत्प्रमुखः सभायाः ।  
विद्वद्वरिष्ठं भवमोहनं तं श्रीमोहनं कश्चिदपृच्छदेवम् ॥३॥

एजरबिजन् देशसे आये हुए श्री० यूसोटफ् उस सभाके प्रमुख थे ।  
वहाँ किसीने जगतको छुमानेवाले श्रीमोहनको—श्रीमहात्माजीको किसीने  
पूछा ॥ ३ ॥

एतत्समस्तं जगदापदायै प्रवर्ततेद्यापि पृथक्त्वमत्र ।  
भेदं विभिद्यैकमिदं भवेच्चेत्सर्वार्थसिद्धिर्भविता न वेति ॥४॥

कि, यहाँ = जगत्में आज भी अलगपना चल रहा है। वह तो विपत्तिका  
ही कारण है। यदि सारा ससार भेदभावको छोड़कर एक हो जाय तो  
सब इष्ट सिद्धि हो सकेगी या नहीं ? ॥ ४ ॥

सद्योवदच्छ्रीयतिराज एतदेतज्जगच्चेन्न भवेदभिन्नम् ।  
नो जीवितुं स्यान्मम कामनात्र दुःखानुविद्धे विभिदे भवेन्न ॥५॥

श्रीयतिराज महात्माजीने तुरन्त ही यह उत्तर दिया कि यदि यह जगत्



अभिन्न = एक न हो सके तो इस दुःखपूर्ण अनेक मेदवाले जगत्में मेरी जीनेकी इच्छा ही न हो ॥ ५ ॥

पप्रच्छ चान्यो भवता मतं चेदेक्यं समस्तस्य भवस्य कामम् ।  
वत्साधनानामुपदेशमद्य श्रोतुं समाकाङ्क्षति सर्वचेतः ॥ ६ ॥

एक दूसरे भाईने पूछा : यदि आप जगत्की एकता चाहते हैं तो हम सब लोग उसके साधनोंका उपदेश सुनना चाहते हैं ॥ ६ ॥

यदि प्रयत्नः क्रियतां दृढेन चित्तेन निःशङ्कमियं सदिच्छा ।  
पूर्तिं समेष्यत्यधिरेण लोकमेकीभवन्तं वयमीक्ष्महेद्य ॥ ७ ॥

यदि दृढ चित्तसे प्रयत्न किया जाय तो निःसन्देह यह इच्छा पूरी होगी और जगत्को एक बनते हुए हम देखेंगे ॥ ७ ॥

सर्वैशियामानसतन्तुयोक्त्री संस्था भवेत्काचिदिदं मतं नः ।  
श्रोतुं समुक्त्वा वयमत्र श्रीमत्स्पष्टं मतं कोप्यपरो ह्यपृच्छत् ॥ ८ ॥

सम्पूर्ण एशियाको एक करनेवाली कोई एक संस्था होना चाहिये यह हम लोगों का विचार है । इस विषयमें आपका क्या स्पष्ट मत है, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं ॥ ८ ॥

स प्रत्युधाचार्यमवदयमस्ति प्रश्नः समीचीन सदूढसत्त्वः ।  
जाने परं स्पष्टतरं न किञ्चित्संस्थास्थितं वस्तुसमीपगोहम् ॥ ९ ॥

महात्माजीने कहा कि अवश्य ही यह प्रश्न उत्तम भी है और दृढ़ भी है । परन्तु मैं अभी तो दूर या अतः इस संस्थाके सम्बन्धमें कुछ जानता नहीं हूँ ॥ ९ ॥

अस्याः सभायाः समयं विधातुं पंथित्स्विरं श्रीलज्जवाहरेण ।  
मामत्र योग्ये समये प्रयासादुपस्थितिं साधयितुं च पृष्टम् ॥ १० ॥

इस सभाका कोई समय स्थिर करनेकेलिए तथा यहाँ मुझे योग्य समय पर अवश्य आनेकेलिये पण्डित ज्वाहरलालने पूछा था ॥ १० ॥

प्रादां तदाहं धिवशो मदीयमेतत्प्रियायापि जवाहराय ।  
प्रत्युत्तरं रूक्षतरं न शक्यमस्त्यत्र तातागमनं ममेति ॥११॥

मैंने लाचार होकर पण्डित जवाहिरलाल मेरे प्रिय हैं तो भी मैंने सूखा  
सा जवाब दिया कि तात, मेरा यहाँ समामे आना शक्य नहीं है ॥ ११ ॥

आसीन्ममेदं हृदयेतिदुःखं संमेलनेस्मिन्न भविष्यतो हि ।  
माउन्ट वेटन्परभाह्वयन्मामामन्त्रणेनात्र नवागतोसौ ॥१२॥

इस समेलनमें सम्मिलित न होनेका मुझे भी दुःख था । परन्तु  
लार्ड माउन्ट वेटन जो अभी नये ( वाइसराय ) आये हैं उन्होंने मुझे  
आमन्त्रण देकर बुलाया है ॥ १२ ॥

यद्यप्यहं कार्यनिमग्न आसं नासीत्क्षणायाप्यवकाशकालः ।  
स्वीयस्वभावाद्बहेलनाय तस्याग्रहस्याचकमन्न चेतः ॥१३॥

यद्यपि मैं कार्यमें फँसा हुआ था । क्षण भरकेलिए भी अवकाश नहीं  
था । परन्तु अपने स्वभावके कारण चित्तने मुझे उनके आग्रहकी अव-  
हेलना करनेकी इच्छा नहीं करने दी ॥ १३ ॥

अत्रागतं मां प्रहसन्नवादीन्माउन्टवेटन्नधिगोष्ठ्यहं चेत् ।  
स्थातुं समीहे मनसश्च तस्य नूनं भवेत्कोपि परः प्रसादः ॥१४॥

जब मैं यहाँ आया तो लार्ड माउन्टवेटनने हँसते हुए कहा कि यदि  
मैं इस समामे रहनेकी इच्छा करूँ तो उनके मनमें कोई अपूर्व आनन्द  
होगा ॥ १४ ॥

तस्यापि चास्यापि जवाहरस्य यन्दित्यमापद्य सदा स्थितोहम् ।  
एतस्य हेतोरहमद्य शक्तो भूतोस्मि संसद्युपवेत्तुमत्र ॥१५॥

मैं तो वाइसरायका और भीजवाहरका भी कैदी हूँ । इसीलिए इस  
समामे बैठनेके लिए मैं समर्थ हो सका हूँ ॥१५॥

जानामि देशान्निगिलान्कथंचित्पत्रादिभिः किन्तु न संस्तुतोस्मि ।  
माश्राद्भवद्भिर्पिपान्ययैस्तच्चेतश्चिरं चुम्बति विह्वलतपम् ॥१६॥

मैं पत्रादि द्वारा किसी प्रकार सब देशोंको जानता तो हूँ परन्तु आप लोगोंसे मेरा साक्षात् परिचय नहीं है। अतः चिन्त विह्वल रहता है ॥१६॥

एतत्सभाया जनये चदस्ति प्रस्तावपत्रे लिखितं वदूर्ध्वम् ।  
शक्तीधिकं वक्तुमहं न तस्मात्कालत्रययो नो करणीय इष्टः ॥१७॥

इस सभाकी उत्पत्तिके लिए जो कुछ प्रस्तावपत्रमें लिखा गया है उसके आगे अधिक कहनेके लिये मैं समय नहीं हूँ। अतः समय बिताना मैं नहीं चाहता ॥१७॥

एतादृशी संसद्भूतपूर्वा श्रीभारतस्याद्य वसुन्धरायाम् ।  
संगत्य सर्वाङ्गनवं चिरयाचिनोति सैतिह्यमुदारमूर्ति ॥१८॥

अभूतपूर्व—कभी भी नहीं हुई थी ऐसी यह समा भारतकी भूमि-पर होकर चिरकालके लिये सर्वांग नवीन एक उदार इतिहास लिख रही है ॥ १८ ॥

यूयं परं पश्यथ भारतीयानस्त्रैश्च शस्त्रैश्च नियुध्यमानान् ।  
निस्संशयं वो हृदये च तेन दुःखाकरिष्यत्यखिलं चरित्रम् ॥१९॥

परन्तु आपने देखा कि यहाँ भारतवासी अस्त्र शस्त्र लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। यह चरित्र आपको अवश्य लिख बनावेगा ॥ १९ ॥

जानीमहे नो प्रियवन्धुताया निर्वाहरीति हृदि संनतायाः ।  
तेनैव शान्तिं विरहय्य शत्रुत्वायैव सज्जा नितरां वयं स्मः ॥२०॥

हृदयमें रही हुई जो वन्धुता है उसके निमानेकी रीति हम नहीं जानते; इसीलिये शान्तिका त्याग करके शत्रुता करनेके लिये ही हम तैयार हैं ॥२०॥

किंचित्पुरः प्रार्थय ध्यायिदूना युष्माकमेतद्दृश्ये फुठ्प्रम् ।  
एतत्कृत्यं मम देशवन्धुलोकानुविद्धं किल विस्मरेत् ॥२१॥

आपके समक्ष मैं कुछ प्रार्थना दुःखित हृदयसे करता हूँ उसे आप मनमें रखें। वह प्रार्थना यह है कि मेरे देशवन्धुओंके इस लड़ाई-रक्तारूप वृकृत्यको आप भूल जायेंगे ॥ २१ ॥

वाच्या न दोषा भम युष्मदीये देशे हि युष्मानहमद्य भिक्षे ।  
अत्रैव विस्मृत्य ममापराधान्गन्तव्यदेशान्प्रतियात शान्ताः ॥२२॥

मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन दोषोंको आप अपने देशमें जाकर न कहें । मेरे अपराधोंसे यहाँ ही गुलाकर आप अपने देशमें जायेंगे ॥ २२ ॥

स्वातन्त्र्यसीमानमयं मदीयो देशोधुनैवोद्यतते प्रवेष्टुम् ।  
अस्यां धरायामधिपत्वमाराद्यस्यापि कस्यापि न सङ्गमास्ते ॥२३॥

यह मेरा देश आज स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये उद्यत है । इस पृथिवीपर किसीका स्वामित्व सहन करने योग्य नहीं है ॥२३॥

सा कामना नः परिवर्तनस्य राज्यस्य राज्ञोपि च भारतेस्मिन् ।  
वस्तव्यमस्माभिरधीश्वरत्वभावेन भूमाविद् सर्वथा नो ॥२४॥

इस भारतमें राज्य और राजाके परिवर्तनकी हमारी वह इच्छा है ।  
हमारे साथ इस भूमिपर राजा बनकर किसीको रहना नहीं चाहिये ॥२४॥

किं स्यात्फलं तस्य तदप्यलं नो ध्यानाद्बहिर्नास्ति मनागपीह ।  
भीतिर्न काचित्परिबाधते नः स्फीतिः सदा चेतसि चेतनायाः ॥२५॥

इस परिवर्तनका क्या परिणाम होगा वह भी हमारे ध्यानसे जरा भी बाहर नहीं है । हमें कोई भय नहीं लगता है । चित्तमें उत्साह बढ़ता ही रहता है ॥ २५ ॥

कर्तव्यमित्येव मनुष्यधर्मो लाभोप्यलाभोपि न नोधिकारे ।  
ईष्टे सदैवेद्वर एव तत्र सर्वान्तरप्राणमयोस्त्यसौ हि ॥२६॥

कर्तव्य करना यह मनुष्यका धर्म है । हानि अथवा लाभ यह हमारे अधिकारकी बात नहीं है । उसपर तो ईश्वरका ही स्वामित्व है । क्योंकि वही सबका अन्तरप्राण है ॥ २६ ॥

नैजं स्वयं भाषिनमर्थमप्रोत्पाद्येत मानुष्यक इत्यसत्यम् ।  
ईशेन संप्रेरितमेव वस्तु लभ्येत कालेन जनोष्युपायात् ॥२७॥

मनुष्य अपने मावी पदार्थको स्वयं उत्पन्न करता है, यह कहना असत्य है। वस्तु सब ईश्वरप्रेरित ही होती है परन्तु मनुष्य उत्तम उपायके द्वारा समय पर उसे प्राप्त करता है ॥ २७ ॥

एतादृशी शक्तिरसौ न चाल्ला नायं मद्देशो न परोपि कश्चित् ।  
सत्ये हि सर्वानतिचिन्तनीया शक्तिर्निगूढास्ति ततोस्ति सत्यम् ॥२८॥

ऊपर कही हुई ऐसी शक्ति न तो अल्ला है, न ईश्वर है और न अन्य कुछ। सत्यमें ही अचिन्त्य शक्ति छिपी हुई है। अतः वह शक्ति सत्य ही है—अन्य नहीं है ॥ २८ ॥

सत्यं परात्मेति मतं मदीयं कर्तव्यवस्तुष्वभिविद्य तच्च ।  
विष्टरसदा प्रेरयति प्रकामं कर्तुं मनुष्यानिह कर्मजातम् ॥२९॥

मेरे मतमें सत्य ही परमात्मा है। वह सभी कर्तव्यवस्तुमें प्रवेश करके रहा हुआ है। वही मनुष्योंको कर्म करनेकेलिये सदा प्रेरणा करता है ॥ २९ ॥

वाल्यात्प्रभृत्येव मुशिक्षितोस्मि प्राप्यं न कात्स्न्येन कथंचिदेतत् ।  
तस्माददृश्यं तदनाप्यमेव गम्यं न कस्यापि परेशसत्यम् ॥३०॥

वाल्यावस्थासे ही मुझे सिखाया गया है कि वह सत्यरूप परमात्मा किर्सासे सर्वोशमें प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अदृश्य है। अप्राप्य है और अगम्य है ॥ ३० ॥

यस्यास्ति यावद्बलमत्र लब्धुं तावत्स तत्पश्यति नान्यथेति ।  
यावत्प्रयत्नं तदुपास्यमाप्यं सर्वैरनन्तं निखिलप्रविष्टम् ॥३१॥

जिसको बितनी शक्ति मिली है वह उतना ही उसे देखता है। वह सबमें प्रविष्ट है और प्रयत्नके अनुसार ही वह प्राप्य और व्यवहार्य है ॥३१॥

अत्र स्य यूयं मिलिताः क्रमेण विभिन्नभागेभ्य इहेशियायाः ।  
द्वैतीयकेन्द्रेप्रतिकूलदेशे तार्तीयके वापि मिलेत चेत्यम् ॥३२॥

आप लोग एशियाके विभिन्नदेशोंमेंसे यहाँ आकर मिले हैं। इसी प्रकार प्रत्येक द्वितीयवर्ष अथवा तृतीयवर्ष किसी अनुकूल देशमें मिलते रहें ॥ ३२ ॥

एतादृशां यूयमुपासितानामास्थानपुष्पाश्चित्वाटिकानाम् ।  
सौगन्ध्यमीड्यं प्रतिदेशमात्मशक्त्या प्रवाता इव हार्यध्वम् ॥३३॥

अपने इस प्रकारकी समारूप पुष्पवाटिकाओंके सुगन्धको अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्येक देशमें फैलावें—ले जावें ॥ ३३ ॥

शून्यं समस्ताः समवेत्य शान्ता यूरोपदेशं ह्यथवात्रिकां वा ।  
अन्याः प्रजा यापि विजेतुकामा न स्येति सत्यं परमित्यत्रैमि ॥३४॥

आप सब लोग इकट्ठे होकर यूरोपको अथवा अमेरिकाको अथवा किसी अन्यप्रजाको जीतनेकी इच्छा नहीं रखते हैं, इस परम सत्यको मैं जानता हूँ ॥ ३४ ॥

नो भारतं यापि विदेशिदेशं जेतुं कदापीच्छति चेतसापि ।  
एवं करिष्यत्तदतीव नूनं चेतो द्विष्यत्यधिकं समैव ॥३५॥

भारत भी किसी विदेशी देशको मनसे भी जीतनेकी इच्छा नहीं करता है। यदि वह ऐसा करेगा तो अवश्य ही मेरे ही हृदयको अधिक दुःख देगा ॥ ३५ ॥

निस्संशयं योरुपदेशजानं संगत्य भिन्नासु किल प्रजासु ।  
एश्येतिस्वण्डश्य निजप्रभुत्वं संस्थाप्य संस्थाप्य विलुण्ठति स्म ॥३६॥

इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपवाले एशियाके भिन्न-भिन्न प्रजाओंमें जाकर अपना स्वामित्व स्थापन कर करके उसको लूटते थे ॥ ३६ ॥

पाश्चात्यदेशीयजना इवैव स्वातन्त्र्यपूर्णं निजजीवनं चेत् ।  
निर्मातुमग्रानवधार्य यूयं यायात तद्गुह्यस्वदमेव भूयः ॥३७॥

जिस प्रकारसे पाश्चात्य लोग स्वतन्त्रतापूर्ण अपना जीवन बनाते हैं वैसा ही बनानेके लिये निश्चय क्रिमे विना ही यदि आप लोग बले धायेंगे, तो यह दुःखकी ही बात होगी ॥३७॥

वाच्यं भयैतादृश एव देशो योग्यः सभाया उचितं स्थलं त्वात् ।  
अत्रास्त्यर्हिंसा सुदृढा सुगम्या सत्यं परं राजत एव चात्र ॥३८॥

मुझे यह कहना चाहिये कि ऐसी समाकेलिये यह देश योग्य है और यह स्थल उचित है । यहाँ अहिंसा अत्यन्त दृढ और सुगम भी है । एव यहाँ सत्य भी अधिक मात्रामें है ॥३८॥

नो भारतं तत्प्रतिवीक्षित यद्युष्माभिरद्यात्र महायशोभिः ।  
तद्दर्शनाय प्रतिगच्छतार्या ग्रामेषु लक्ष्येषु च सप्तकेषु ॥३९॥

ऊपर कहा है कि यहाँ अहिंसा अधिक दृढ है, यह तो असत्य है, क्योंकि दिल्ली में तो हिंसा उस समय भी हो रही थी । नोआखलीमें हिंसा चल ही रही थी । बिहार की भी यहाँ दशा थी । तब यह कहना कि भारतमें अहिंसा दृढ है, यह सत्य नहीं है । इसका उत्तर देते हैं । आपने जिसे देखा है वस्तुतः वह भारत ही नहीं है । यदि सच्चे भारत को देखना है तो आपको सात लाख गाँवों में जाना चाहिये ॥३९॥

तेष्वेव पिध्वस्तमनुष्यतेषु ग्रामेषु तद्भारतमस्ति दृश्यम् ।  
श्रव्यद्य तत्रोदजयासिबक्त्वाज्ञानस्य सारो ननु योषुनापि ॥४०॥

जहाँ मनुष्यता नष्ट हो चुकी है उन्हीं गाँवोंमें ही भारतका आर्य दर्शन कर सकते हैं । यहाँ ही आप आज भी श्लोपट्टीमें रहनेवालोंके मुलसे ज्ञानका सार सुन सकते हैं ॥४०॥

पर्णोदनेष्वेव निवासशीलं शीलान्वितं भारतमीक्ष्यतेषु ।  
प्रासादहीनेष्वपि हर्म्यहीनेष्वेव लीनं ननु भारतं नः ॥४१॥

पासके श्लोपट्टीमें ही आज सर्वशीलसम्पन्न भारत देखा जा रहा है । जहाँ महल नहीं हैं, हरेलियाँ नहीं हैं उन्हीं गाँवोंमें भारत—रमाय भारत छिप गया है ॥४१॥

दिल्ली च मद्रासपुरं च काशीकाता च मुम्यापुरमेव दृष्टम् ।  
श्रीमद्भिरेतानि न भारतं स्यात्पाश्चात्यसंस्कारविभूषितानि ॥४२॥

आप लोगोंने दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई आदि शहर ही देखे हैं । परन्तु यह भारत नहीं हैं । वह तो पश्चिमीय सभ्यताके रंगसे रंगे हुए हैं ॥४२॥

आसं यदाहं किल दक्षिणात्याम्नीकाप्रदेशेषु कुलीवकील ।  
फ्रांसो जनः कोपि विचारशीलो मां तत्र सख्येन हसन्नवापत् ॥४३॥

जब मैं दक्षिण अफ्रिकामें था और अंग्रेज लोग मुझे कुलियोंका बकील कहा करते थे उस समय एक विचारवान् फ्रांस-वासी भाई मित्रता करनेकी दृष्टिसे प्रसन्नतासे मेरे पास आये ॥४३॥

फ्रांसोद्भवा तज्जननी सुशीला श्वेताङ्गजस्तज्जनकः सुशीलः ।  
तस्माच्च तद्देहजनाडिकासु फ्रासाङ्ग्लदेशस्तजप्रवाहः ॥४४॥

उनकी माता तो फ्रेंच थी और उनके पिता अंग्रेज थे । अतः उनके शरीरमें फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देशोंका खून उनकी नस-नाडियोंमें बह रहा था ॥४४॥

अशिश्रवन्मां स कथां तदैकां फ्रान्सीयभाषात् उदारचेताः ।  
स्वेच्छात् एवातिनिगूढतत्त्वां तां श्रावयामीह धुधप्रकाण्डान् ॥४५॥

उस समय उन्होंने उदार मनसे, स्वेच्छासे ही फ्रेंच भाषासे उद्धृत करके एक वार्ता मुझे सुनायी थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ ॥४५॥

सत्यं विजिज्ञासितुमाकुलाङ्गास्तत्त्वप्रियास्तत्त्वविदस्त्रयो हि ।  
फ्रान्साद्विनिर्जग्मुरनुस्मरन्तः सर्वाभिसेव्यं परमाद्यदेवम् ॥४६॥

सत्य क्या पदार्थ है उसे जाननेकेलिये जिनका अङ्ग अङ्ग व्याकुल था ऐसे तीन आदमी भगवान्का स्मरण करते हुए फ्रांससे निकले ॥४६॥

भ्रान्ताश्च देशास्त्रिभिरेशियाया लब्धं न सत्यं सुगुहाप्रविष्टम् ।  
एषो गतस्तेषु च भारतीर्वी चध्राम मुख्यासु पुरीषु तापत् ॥४७॥



वह तीनों ही एशियाके सब देशोंमें फिरे परन्तु गुहाप्रविष्ट सत्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ । तब उन तीनोंमेंसे एक भारतमें गये और मुख्य मुख्य नगरोंमें पहिले घूमे ॥४७॥

प्रासादपुञ्जेषु कृत्वाधिवासान्प्राप्तः स्त्रियो वा पुरुषाननेकान् ।  
जिज्ञासमानः स हि सत्यदेवं नैरादयमेवान्यभवत्तदानीम् ॥४८॥

महलोंमें रहनेवाले बहुतसे पुरुषोंको और बहुत सी स्त्रियोंको वह सत्यकी शोधकेलिये मिले । परन्तु उस समय वह निराश ही हुए ॥४८॥

गतस्तदा ग्रामटिकासु सद्यः पस्त्येषु दारिद्र्यनिपीडितानाम् ।  
निष्प्रयोजे तत्र गतः स विद्वान्वभूव लब्धस्वमनीपितार्थः ॥४९॥

तब वह गाँवोंमें दरिद्रतासे पीडित लोगोंके घरोंमें गये । वहाँ वह एक हरिजन—अन्त्यक्षके झोपड़ेमें गये और वहाँ उन्हें सत्यदेवका साक्षात्कार हुआ ॥ ४९ ॥

तस्माद् भुये गच्छत योक्षितुं चेद्ग्रामेषु यूयं निपुणं तदानीम् ।  
किं भारतं तद्भवितातिशीघ्रं ज्ञानं व्यतीतावययं पुनर्वः ॥५०॥

इसीलिये मैं कहता हूँ कि यदि आप गाँवोंमें सावधानतापूर्वक भारतको देखनेकेलिये जायें तो यहाँ भारत क्या है ? यह ज्ञान आपको अवश्य होगा ॥ ५० ॥

प्राच्याः प्रतीची प्रथमं हि लेभे ज्ञानप्रभापुञ्जपरावतारम् ।  
जर्धुष्टयुद्धौ प्रवभूवतुस्तावष्येशियाभूमि स यीशुरासीत् ॥५१॥

यह तो निश्चय है कि पश्चिमने पूर्वसे ही ज्ञानको प्राप्त किया है । एशियाकी भूमिमें ही जर्धुष्ट हुए, युद्ध हुए और यीशु हुए ॥ ५१ ॥

यीशोश्च पूर्वं परिलब्धजन्मा मूसापि संजज्ञ इजिप्तदेशे ।  
प्राच्यां विजातः स मुहम्मदोपि प्राची ततोस्त्येव गुरुः प्रतीच्याः ॥५२॥

यीशुसे पूर्व मूसा भी इजिप्तमें पैदा हुए थे । मुहम्मद भी पूर्वमें ही पैदा हुए थे । अनः पूर्वदेश पश्चिमदेशोंके गुरु हैं ॥ ५२ ॥

रामस्य कृष्णस्य पवित्रनाम्नी नाजीगणं लेन न वेदितव्यम् ।  
महात्म्यनूनं हि तयो. परन्तु ज्ञातौ न तौ पुस्तकयत्सुधीभिः ॥५३॥

मैंने राम और कृष्णके पवित्र नामोंकी गणना नहीं की है । इससे यह नहीं मानना चाहिये कि उनका महात्म्य कम है । नाम न लेनेका कारण यह है, कि पुस्तकोंको पढ़कर ज्ञान प्राप्त करनेवाले विद्वानोंको इतिहासके पुस्तकमें यह नाम नहीं मिलेंगे ॥५३॥

यद्यत्समादिश्वदुदारचेता जगत्समग्रं कृपयैशियासौ ।  
तत्तद्भवेत्सर्वमदभ्ररूपैर्याप्माकचित्ते प्रथितं सदेति ॥५४॥

उदार मनवाले एशियाने कृपा करके सारे जगत्को जो जो उपदेश किये हैं वह सब आपके मनमें निश्चित रूपसे स्थिर रहें ॥ ५४ ॥

सन्देष्टुमिच्छा यदि जागृत्याद्विश्चित्ते प्रतीचीं प्रति तर्हि सत्यम् ।  
प्रेमात्यर्हिंसा निखिलेषु देशेष्वारात्समान्संदिग्घताय सम्यक् ॥५५॥

यदि आपके हृदयमें पश्चिमको कोई सदेश देनेकी इच्छा हो तो सत्य, प्रेम और अहिंसाको सब देशोंमें सबको सदेश दें ॥ ५५ ॥

यौष्माक्युद्धेर्न हि केवलायाः सम्यक्परीवर्त इहास्त्यभीष्टः ।  
बुद्ध्या मनो यो हृदय च गाढं सद्योधिकर्तुं मम चेतसीच्छा ॥५६॥

केवल आपकी बुद्धिमें परिवर्तन करना इतना ही मुझे इष्ट नहीं है । बुद्धिके साथ-साथ आपके मन और हृदयपर पूरा अधिकार करनेकी भी मेरे मनमें इच्छा है ॥ ५६ ॥

उपगत इह फालो लोकशिष्टेः समन्तात्,  
पददलितजनोंघो जागृति सेवतेद्य ।  
अयसर इति शुभ्रः प्रेमसत्यादिकाना,  
त्परयत गतमोहाः संप्रचाराय लोके ॥५७॥

एकशासनका यह समय उपरिगत है । चारों ओर पददलित समाज

आज बग गया है। इसलिये यह बहुत सुन्दर समय है। प्रेम, सत्य, अहिंसाका प्रचार लोकमें करनेके लिये सावधान होकरशीघ्रता करें ॥५७॥

गतदयहृदयेयं स्वार्थपूर्णा प्रतीची,  
विधिघरचितजालैः सर्वथा वः क्षितीनाम् ।  
सकलरसमचूपत्तत्समं विस्मरन्तो,  
लुलितहृदयवृत्तिं शिक्षयध्वं हि तत्त्वम् ॥५८॥

पश्चिम निर्दय और स्वार्थपूर्ण देश है। अनेक प्रकारके रचे हुए जालोंसे आपकी पृथिवीका रस उठने चूस लिया है। इन सब बातोंको भूलकर उस चपल वृत्तिवाले पश्चिम देशको तत्त्वकी शिक्षा आप-लोग दें ॥ ५८ ॥

अतिविपदि निमग्ना संततं संविषण्णा,  
रचयदणुकबॉम्बा साप्तनैराश्यविन्वा ।  
मुदुपनतिसयन्ना भ्रान्तिपादाभिलम्बा,  
श्वसनविरहस्त्रिन्ना वः प्रतीक्षां करोति ॥५९॥

अत्यन्त विपत्तिमें पड़ी हुई, उदास, अणुबॉम्ब बनाती हुई, निराशाका दर्शन करती हुई, प्रसन्नता प्राप्त करनेके यत्नमें लगी हुई, थकी हुई, अब जिसके श्वास भी अन्तिम दशामें पहुँच गये हैं वह पश्चिम दिशा आप लोगोंकी प्रतीक्षा कर रही है ॥ ५९ ॥

निखिलजगदिदानीं दुःखदायानलेस्मि-  
न्निपतितमिति हाहाकारमारोति नित्यम् ।  
समय इह विपत्तो वः कृपावारिधारा,  
शमयतु नयन्नास्तां तां प्रतीचीमुदापन् ॥६०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिध्याजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचस्पतिविरचितराजप्रगीते  
पारिजातसौरभे  
त्रयोदशः सर्गः

आज सारा ही जगत् दुःखदावानलमें पडा है अतः नित्य हाहाकार कर रहा है । आज समय पक गया है अतः आपकी कृपारूप जलधारा प्रसन्नतासे शीघ्र ही रोती हुई पश्चिम दिशाको शांति प्रदान करे ॥६०॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकायां

- त्रयोदशः सर्गः ।



## चतुर्दशः सर्गः

भारतक्ष्मा यथा हिन्दूस्वयं च कुरानिनः ।

सूते प्राप्त सततं सर्वभेददहिष्कृता ॥ १ ॥

भारतभूमि देने हिन्दुओंको वैसे ही मुसलमानोंको भी पैदा करती है और भूतकालमें कर चुकी है । उसकी दृष्टिमें कोई भेद नहीं है ॥ १ ॥

भारतीयमुसल्माना वह्यो म्लेच्छमानसाः ।

हिन्दून्हन्तुं निरचिन्वन्नुस्लिम्लीगप्रतारिताः ॥ २ ॥

भारतीय दुष्ट मुसलमानोंने मुन्दिनलीगने वहकानेसे हिन्दुओंको मार डालनेका निश्चय किया ॥ २ ॥

पाकिस्तानं मुसल्मानराज्यं स्थापयितुं समे ।

कुरानिनोत्र हिन्दूनां हनने कृतनिश्चयाः ॥ ३ ॥

पाकिस्ताननामक मुसल्मानी राज्य स्थापन करनेके लिये सब मुसलमानोंने निश्चय किया कि हिन्दुओंको मार डालो ॥ ३ ॥

जिन्ना जीनोप्यसत्त्वं हिन्दून्वा हिंसितुं तथा ।

भारतीयमुसल्मानाग्नोदसाहयतास्त्रिजान् ॥ ४ ॥

मिस्टर जिन्ना बूढ़े हो गये थे तो भी उन्होंने हिन्दुओंका विरम्वार और दफ्तर डालनेके लिये सभी भारतीय मुसलमानोंको उमंगया—उत्तेजित किया ॥ ४ ॥

अधिनोधारयति ध्यापत्रप्रथमं हिन्दुहिंसनम् ।

हननं छेदनं लुण्ठा धर्मात्प्रच्यारनं तथा ॥ ५ ॥

नोवासली ( बंगाल ) में सबसे पहले हिन्दुओंका काटा जाता शुरू हुआ । मारना, काटना, खरना और धर्मघट करना, यह चारों ओर पाएँ पैदा गये ॥ ५ ॥

निखिलेषु ततः पश्चाद्देशेष्वारुत सर्वथा ।

हिंसा प्रवृत्तिरेतेषां मुहम्मदमतश्रिताम् ॥ ६ ॥

उसके पश्चात् सारे देशमें इन मुसल्मानोंकी हिंसाप्रवृत्ति फैल गयी ॥ ६ ॥

हाहाकारेण निखिलं भारतं व्याप्तवत्तदा ।

सिताङ्गसहकारेण सर्वमेतदभूदिह ॥ ७ ॥

सम्पूर्ण भारत हाहाकारसे भर गया । अग्रेजोंकी सहायतासे ही यह सब हुआ था ॥ ७ ॥

जहीति हिन्धि हिन्धीति दह कृन्त निमज्जय ।

भिन्धि च्छिन्धीति संरावैर्हिन्दवो व्याकुलीकृताः ॥ ८ ॥

मारो, मारो, जलाओ, काटो, डुबाओ, फोड़ो, तोड़ो इत्यादि शब्दोंसे हिन्दु व्याकुल बना दिये गये ॥ ८ ॥

गेहेभ्यो दह्यमानेभ्यो मुसल्मानजनैः खलैः ।

राय्योत्थायमधावन्त हिन्दवो नत्तमातुराः ॥ ९ ॥

दुष्ट मुसल्मानोंने घर जला दिये । रात्रिमें हिन्दू लाचार होकर पयारीमेंसे उठकर भागे ॥ ९ ॥

पेशावराज्य पञ्जागत्सिन्धुदेशाच्च हिन्दवः ।

पलाय्य देहलीमायन्मुसल्मानभयातुराः ॥ १० ॥

पेशावर, पंजाब और सिन्धसे हिन्दू लोग मुसल्मानोंके भयसे पवड़ा-कर भागकर दिल्ली आ गये ॥ १० ॥

क्षेषु केषामपि भ्राता केषामपि पितामहः ।

केषामपि च पितरायजनाश्च यिनाशिताः ॥ ११ ॥

उनमेंसे किसीके भाई, किसीके दादा, किसीके माता पिता बफरेके समान काट डाले गए थे ॥ ११ ॥

कासांचिन पतिभ्राता स्वसा माता पितुष्वसा ।  
मातुष्वसा च कासांचित्केयग्राहं निपातिताः ॥१२॥

किन्हीं किवोंके पति, भाई, बहिन, मा, पूया, मासी, बाल पकड़-  
पकड़ कर मार डाले गए थे ॥ १२ ॥

तस्मात्क्रोधानलज्वालालीढप्रत्यङ्गहिन्दवः ।  
वैरशुद्धिमकाहुंस्ते द्वेषशत्रुपराहताः ॥१३॥

इससे हिन्दुओंमें भी क्रोधकी आग मड़क उठी । द्वेष भर गया ।  
बदला लेनेकी इच्छा उनमें बाग उठी ॥ १३ ॥

हायं हायं गृहान्स्वीयान्देहलीतः कुरानिनः ।  
त्वरापूर्वं पलायन्त हिन्दुक्रोधाग्निमर्जिताः ॥१४॥

हिन्दुओंकी क्रोधज्वालासे बले हुए दुसलमान अपने-अपने घर  
छोड़कर श्ट दिल्लीसे भाग गए ॥ १४ ॥

रुग्णाः प्रह्ला महादुरताः प्रचयसः कुरानिनः ।  
महात्मपादपायोजयुगलं शरणं ययुः ॥१५॥

कितने ही रोगी, दुःखी, बूढ़े तथा बुद्धिमान् दुसलमान महात्मा  
श्री गार्धाजीके चरणोंकी चरणमें गये ॥१५॥

तेषां विपत्क्याः श्रुत्वाश्लिष्य दुःखं निजे हृदि ।  
लोककल्याणकामोसां चिन्तामापन्महागुनिः ॥१६॥

उनकी दुःखक्या सुनकर, मनमें दुःखी होकर, सबका कल्याण  
चाहनेवाले महात्माजी चिन्तित हो गए ॥ १६ ॥

प्रणयगादीद्यतिश्रेष्ठः , सर्वांहिन्दून्समन्वितान् ।  
भवतां शोभते नैतदुपाकंसव कर्म यन् ॥१७॥

इकट्ठे हुए सब हिन्दुओंको श्रीयतिरावने कहा कि आपने दित  
कार्यका आरम्भ किया है वह आपको शोभा नहीं देता है ॥१७॥

लज्जते घोच कार्येण महत्यार्यपरम्परा ।  
संस्कृतिर्नेयमार्याणां हिंसया वैरशोधनम् ॥१८॥

आपके कार्यसे आज आर्योंकी एक लम्बी परम्परा लज्जित हो रही है ।  
हिंसासे बदला लेना आर्योंकी संस्कृति नहीं है ॥ १८ ॥

यद्यप्यनारत्त हिंसा पाकिस्ताने प्रयत्नते ।  
तिरस्त्रियन्ते हन्यन्ते निर्घृण तत्र हिन्दवः ॥१९॥

बद्वपि पाकिस्तानमें हिंसा रातदिन हो रहीं है । हिन्दू निर्दयताके  
साथ अपमानित किये जाते हैं और मार डाले जाते हैं ॥ १९ ॥

शठाचारं निरीक्ष्यैवं शठाचारप्रवर्तनम् ।  
आर्यानुमोदितो नायं धर्मो भवति कर्हिचित् ॥ २० ॥

इस प्रकारके दुराचारको देखकर दुराचार बढ़ाना यह आर्योंका धर्म  
भी संमत धर्म नहीं है ॥ २० ॥

उपद्रुतैर्निरुपध्नैर्निर्गच्छत्प्राणवृत्तिभिः ।  
आर्यैस्तदेव फर्तव्यं यशो न मल्लिनीभवेत् ॥ २१ ॥

उपद्रवसे हैरान किये गये हों, निराश्रय घने हों और मृत्युके किनारे  
खड़े हों तो भी हिन्दुओंको बर्हा करना चाहिये जिससे कि कीर्ति मलिन  
न हो ॥ २१ ॥

पाकिस्तानात्पलायन्ते निस्सार्यन्ते च हिन्दवः ।  
न तथा वर्तुमश्रापि युष्माकं फीर्तये भवेत् ॥ २२ ॥

पाकिस्तानमेंसे हिन्दू भाग रहे हैं, निशाले जा रहे हैं; पैसा ही  
बर्हा भी करनेसे आर्योंकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी ॥ २२ ॥

अप्रचेतित्प्रधर्माणो दुर्धर्माणो न या पयम् ।  
गुमेधसः कथंवारं दाषा दा दुर्जनायितुम् ॥ २३ ॥

हमको पनांवा भात नही है, देखे हम नहीं है । हमारा धर्म भी



दुष्ट धर्म नहीं है । हम बुद्धिमान् और समझदार हैं तब दुराचार हम कैसे कर सकते हैं ॥ २३ ॥

मुसल्मानान्कथं यूयं वक्तुं शक्नुय निस्त्रपाः ।

पाकिस्तानं प्रयातेति दारुणं दारुणं वचः ॥ २४ ॥

आप निर्लज्ज होकर मुसलमानोंको कठोर और फाड़नेवाला यह वचन कैसे कह सकते हैं कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ ? ॥ २४ ॥

न मया शक्यते वक्तुमीदृगार्यधिगर्हितम् ।

अवाच्यं वचनं कापि भारतक्षमात्रपावहम् ॥ २५ ॥

आपोंसे निन्दित, और भारतको लज्जित करनेवाला ऐसा अवाच्य वचन मैं तो नहीं कर सकता हूँ ॥ २५ ॥

निष्काशनेन सर्वेषां भारततः कुरानिनाम् ।

न शौर्यं नैव मनुष्यं प्रख्यातं स्यात्कुतोपि वः ॥ २६ ॥

भारतसे मुसलमानोंको निकाल देनेसे न तो आपकी शूरताकी और न मनुष्यताकी ही प्रसिद्धि होगी ॥ २६ ॥

अनुक्तुं महावीरः शक्नुवन्ति न पामरैः ।

सत्समाचरितं किञ्चिद्यद्वा तद्वाविचारितम् ॥ २७ ॥

नाच लोग कुछ बोलें, या बिना विचारे कुछ करें उसका अनुकरण वीर लोग नहीं कर सकते ॥ २७ ॥

बहावलपुरान्मीरपुरादपि समागमन् ।

बह्वो हिन्दुबोकथ्यरुथा विगलदश्रवः ॥ २८ ॥

बहावलपुरसे और मीरपुरसे भी बहुतसे हिन्दू आये हैं । उनकी दशा कहने योग्य नहीं है । उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे हैं ॥ २८ ॥

श्रीजवाहरलालोपि सपातिष्ठत तत्क्षणम् ।

अशृणोदेकचित्तेन धामिकस्तद्व्यथाकथाः ॥ २९ ॥

धार्मिक श्रीजवाहिरलालजी भी उस समय यहाँ उपस्थित थे और एकचिन्तसे उनकी दुःखकी कहानी सुनते रहे ॥ २९ ॥

हिन्दूनां रक्षणायार्सौ यावच्छक्यं प्रवर्तते ।  
रक्षिताः सर्वे एव स्युर्नाशा ह्योपास्ति कल्पिता ॥ ३० ॥

हिन्दुओंकी रक्षाकेलिये शक्तिके अनुसार वह प्रवृत्त है । परन्तु यह आशा नहीं रखी गयी है कि सब हिन्दू बचा लिये जायेंगे ॥ ३० ॥

धूमयानानि तावन्ति नास्माकं सविधेधुना ।  
अपेक्षितानि यावन्ति तानानेतुमिहाखिलान् ॥ ३१ ॥

उन सभी हिन्दुओंको यहाँ लानेकेलिये जितनी रेलगाड़ियाँ चाहिये उतनी हमारे पास इस समय नहीं हैं ॥ ३१ ॥

न काश्मीरपथं चास्ति पर्योषं निरुपद्रवम् ।  
लक्षकक्षामातक्रान्तांल्लोकान्सोढुं न तत्क्षमम् ॥ ३२ ॥

काश्मीरका मार्ग भी सर्वथा सुरक्षित नहीं है । लाखों आदमियोंको यह नहीं सह सकेगा ॥ ३२ ॥

शक्याः सर्वे उपायास्ते गृहीताः सन्ति सत्वरम् ।  
पाकिस्तानस्य हिन्दूनां प्राणघ्राणशृत्ते ननु ॥ ३३ ॥

जितने उपाय बन सकते हैं वह सभी चीज ही पाकिस्तानके हिन्दुओंकी धान बचानेकेलिये भिये गये हैं ॥ ३३ ॥

धनुषार्यां हि सर्वेषां सद्रुणाः सन्मनीषिभिः ।  
दोषाः सर्वे परित्याग्या मनोमालिन्यहेतवः ॥३४॥

दुष्टिमानोंको चाहिये कि सबके अच्छे गुणोंका ही अनुकरण करें । दोषोंका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि उससे मनका दोष बढ़ता है ॥३४॥

विभक्तं भारतं चाद्य प्रयत्नं च शासने ।  
गमनं तत्र निर्वापं नास्ति दुस्समयो ह्ययम् ॥३५॥

आव भारत दो मागोंमें विभक्त है । अलग अलग दो सदांरें हैं ।  
वहाँ जाना बहुत कठिन है । वस्तुतः अब उत्तर समय आया है ॥३५॥

गजश्रुतिप्रह्वन्नहामिते यैशवत्सरे ।  
सितन्वरस्य नवमे दिवसेहमिहागमम् ॥३६॥

वा० ९ सितम्बर १९४८ ई० को मैं यहाँ आया ॥ ३६ ॥

कलिकातात आपत्य तदानीं गन्तुमुत्सुकः ।  
पश्चिमीयं च पञ्चायं परमिच्छास्ति विचिन्ता ॥३७॥

कलकत्तासे आकर उहाँ समय में पश्चिमीय पन्नाव जाना चाहता था ।  
परन्तु विघ्न उपस्थित हुआ ॥ ३७ ॥

भञ्ज्याभाभात्पुरा दिल्ली या सा तस्मिन्दिने मया ।  
हताभा च हतप्रागा सब्यर्थं वीक्षिता क्षिता ॥३८॥

दिस दिल्लीकी मध्य शोमा र्था, दो दिल्ली प्रकाशमान थी उसदिन  
मैंने देखा कि उसकी शोमा चली गयी है, प्राग भी चले गये हैं और वह  
नष्ट हो चुकी है ॥ ३८ ॥

सौवागतिकलोकानां सर्वेषां निष्पन्नं मुत्तम् ।  
न्यवेदयन्मनोदुःखं सर्वान्नपरितापनम् ॥३९॥

मेरे स्वागतके लिये जो लोग आये थे सबका मुँस बँटा रहा था कि  
उनके मनमें दुःख और परितान है ॥ ३९ ॥

बल्लभोपि परित्यज्य जन्मजातां प्रसन्नताम् ।  
प्राचकाशत सन्नात्मा मनस्यां कामपि व्ययाम् ॥४०॥

श्री सर्दारवल्लभभाई भी अपनी स्वामादिक प्रसन्नताको छोड़कर  
मानसिक व्यथाको प्रकट कर रहे थे ॥ ४० ॥

राजधानीस्थलोकेषु कलहानल उत्थितः ।  
नयागताय मे तर्हि तेनैवात्र निवेदितम् ॥४१॥

अब मैं यहाँ नया नया आया तब उन्होंने ही मुझे कहा था कि इस राजधानीमें झगडा हो गया है । ४१ ॥

चमूचरदारप्रासादथवा नगररक्षकात् ।  
वस्तुतो नास्ति सा शान्तिर्या सर्वैखलोक्यते ॥४२॥

सैनिकोंके बागों और सिपाहियोंके कारण यह शान्ति नहीं है, जिसे सब लोग देख रहे हैं ॥ ४२ ॥

मृत्युमित्रमुपश्लिष्य प्रवृत्तां क्षोभवर्द्धिनीम् ।  
अशान्तिमपनेप्यामि प्रतिज्ञां पालयामि च ॥४३॥

क्षोभ बढ़ानेवाली इस अशान्तिको मैं मृत्युका आलिङ्गन करके भी दूर करूँगा और मेरी प्रतिज्ञा पालन करूँगा ॥ ४३ ॥

गतेषु दिवसेष्वासीद्या मैत्री यच्च सौहृदम् ।  
स्पृहयामि सदा तस्यै तस्मै चाप्युन्मनीभवन् ॥४४॥

मृतकालमें जो यहाँ मित्रता और सौहार्द था उसके लिये आज भी मैं शपथता हूँ ॥ ४४ ॥

ये मां द्रष्टुं समायान्ति मुसल्माना विचेतसः ।  
प्रतव्यं किं हि तैरक्षेत्येवं पृच्छन्त्यनारतम् ॥४५॥

घमटाए हुए जो भी मुसलमान् मुझे मिलनेकेलिये यहाँ आते हैं, सभी पूछते हैं कि: आज उन्हें क्या करना चाहिये ॥ ४५ ॥

तेषां सयुक्तिकः प्रश्नः सर्वथास्ति निरुत्तरः ।  
तेन मे व्यथते वित्तं धैवरथं च विभाति मे ॥४६॥

उनके इस सचिपक प्रश्नका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है । अतः

मेरे अन्तर से शब्द निकलता था कि मैं उपवास करूँ। परन्तु अपनी निर्बलता का सन्देह करके मैं सदा उदासीन रहता आया हूँ ॥४७॥

उपवासमवालम्ब्य प्रभानां दुःखजन्मनाम् ।

सर्वेषामेव लभ्येत योग्यमेव सदुत्तरम् ॥ ४८ ॥

उपवासका सहारा लेकर दुःखसे पैदा हुए सभी प्रश्नोंका योग्य उत्तर मिल सकता है ॥ ४८ ॥

रोचते मे न वैवश्यं सर्वस्मिन्विषयेन्बहम् ।

उपवासमहौषध्या स रोगः स्यात्तिरस्कृतः ॥ ४९ ॥

मुझे हमेशा हर एक विषयमें पराधीनता अच्छी नहीं लगती। उपवास रूप महीषधिसे वह रोग दूर किया जा सकता है ॥ ४९ ॥

उपवासो महाशस्त्रममोघमसिसंनिभम् ।

चरमं परमं दिव्यं ग्राह्यं तच्च भयाधुना ॥ ५० ॥

उपवास बड़ा भारी शस्त्र है। तलवारके समान अमोघ शस्त्र है। मेरा वह बड़ा परन्तु अन्तिम अस्त्र होनेसे मैं उसका ग्रहण करूँगा ॥ ५० ॥

निरणैषमहं सर्वं परिणामनवेक्ष्य च ।

प्रायोपासनमेवाद्य सर्वव्याधिहरं परम् ॥ ५१ ॥

सब परिणामोंका विचार करके सर्वव्याधिका नाशकरनेवाले उपवास ग्रहणना मैंने निर्णय किया है ॥ ५१ ॥

आधिव्याधिव्यथाहारि सर्वेषामुपकारि च ।

नास्ति ह्येतादृशं किञ्चिन्महौषधमनुत्तमम् ॥ ५२ ॥

मानसिक रोग और शारीरिक रोगकी पीडाको हरनेवाले तथा सबका उपकार करनेवाले उपवासके समान कोई उत्तम महीषधि नहीं है ॥ ५२ ॥

एशियाहृदयादय तद्वारा सर्वभूतलात् ।

रामराज्यस्य माहात्म्यं तिरोधत्ते क्रमादय ॥ ५३ ॥

एशियाके हृदयसे ओर उसके द्वारा सर्व पृथिवीपरसे रामराज्यका माहात्म्य धीमे धीमे अस्त होता जा रहा है ॥ ५३ ॥

विश्वसिम्यहमद्यात्मा भारतस्य यदि क्वचित् ।  
निलीयेत तदा भव्यं भवाशाक्षि गतांशुकम् ॥ ५४ ॥

मुझे विश्वास है कि यदि कहीं भारतका आत्मा छिप गया तो सत्सारी आशाकी ओरें मकाशरहित हो जायेंगी ॥ ५४ ॥

अस्मिन्पवित्रकार्ये नो ग्रहीतव्यान्यसमतिः ।  
ईश्वरः केषलं मेस्ति सम्मतेः सन्मतेः प्रदः ॥ ५५ ॥

इस पवित्र कार्यमें किसी अन्यकी समति नहीं लेनी है । केवल ईश्वर ही मुझे सम्मति और सन्मति देनेवाला है ॥ ५५ ॥

मया भ्रान्तिवशादेतत्कर्मानुष्ठीयते यदि ।  
शीघ्रं समापयिष्यामि भ्रान्तिस्वीकारपूर्वकम् ॥ ५६ ॥

यदि मैं भ्रमवशात् यह कार्य कर रहा हूँ तो भ्रान्तिस्वीकार करके इसे समाप्त कर दूँगा ॥ ५६ ॥

इदानीं तु मया स्पष्टं श्रूयते स्वान्तरात्मनः ।  
आदेशस्तद्भवेन्नैप कदाचिदवहेलितः ॥ ५७ ॥

इस समय तो मैं स्पष्ट ही अपने अन्तरात्माका आदेश सुन रहा हूँ । उसका अपहेलना कभी नहीं हो सकती ॥ ५७ ॥

प्रार्थये निखिलान्वन्धून्विरन्तुं तर्कसंग्रहात् ।  
साहाय्य क्रियतामत्रापरिहार्ये च कर्मणि ॥ ५८ ॥

उपमाहोति मैं प्रार्थना करता हूँ कि "उपवास न्यो" इत्यादि तर्कसे यह अलग रहें । और इस अनिवार्य कार्यमें मेरी सहायता करे ॥ ५८ ॥

उपयासो विशुद्धश्चेद्धर्मपालनमेव सः ।  
रयमेव फलं यस्य कालेनोपनतं भवेत् ॥ ५९ ॥

विशुद्ध उपवास धर्मपालन करनेके उमान ही है । उसका फल समयपर अपने आप ही प्राप्त होगा ॥ ५९ ॥

कर्तव्यमिति बुद्ध्वैव कुर्धं प्रायोपवेशनम् ।

अस्मात्परिणतिः कापि वाञ्छिता न भया भवेत् ॥ ६० ॥

“यह कर्तव्य है” ऐसा समझकर ही मैं उपवास कर रहा हूँ । इससे एक मी परिणामकी मैं इच्छा नहीं रखता ॥ ६० ॥

एतेनैव निमित्तेन यदि मे निश्चिता मृतिः ।

आलिङ्गितुं न तां कोपि प्रतिवन्नातु मामिह ॥ ६१ ॥

यदि इसी निमित्तसे मेरा मृत्यु निश्चित हो तो उसे मँटनेमें मुझे कोई विघ्न न करें ॥ ६१ ॥

भारतस्येसलामस्य हिन्दूधर्मस्य वा पुनः ।

सिक्खधर्मस्य नाशेक्षापेक्षया मृत्युरिष्टदः ॥६२॥

भारत, इसलाम, हिन्दूधर्म और सिक्खधर्मका नाश मैं देखूँ उसकी अपेक्षा मृत्यु अधिक इष्ट है ॥ ६२ ॥

पाकिस्ताने न चेत्सर्वे धर्माः संप्राप्त्युः स्वयम् ।

समाधिकारितां नैतद्रनुकुर्यात्तु भारतम् ॥६३॥

पाकिस्तानमें सर्वधर्मोंको समानाधिकार प्राप्त नहीं है अतः भारत मी वैसा ही करे, यह तो उचित नहीं है ॥ ६३ ॥

निदचमचं कृते चैवं द्वे राज्ये एव नहृक्ष्यतः ।

तन्नाशप्रेक्षणायाहं नास्मि सज्जः कथंचन ॥६४॥

यदि ऐसा किया गया तो निश्चय ही दोनों राज्य नष्ट हो जायेंगे । उनके नाशको देखनेकेलिये मेरी तैयारी नहीं है ॥ ६४ ॥

प्रतिभूलविचारस्या विनिन्दिष्यन्ति चेदृढम् ।

एतस्कार्यं भवेत्तेषां गौरवं मे दृढं हृदि ॥६५॥

मुझसे प्रतिकूल विचार रखनेवाले लोग यदि मेरे इस कार्यका घोर विरोध करेंगे तो उनके प्रति मेरे हृदयमें गौरव दृढ होगा ॥६५॥

आत्मजागृतये ह्येषा समेषां विद्विषामपि ।

प्रायोपवेशिका तेन सिद्धः स्यान्मे मनोरथः ॥६६॥

सब लोगोंके और शत्रुओंके भी आत्माकी जागृतिकेलिये ही तो यह उपवास मैं करने जा रहा हूँ । इससे तो मेरा मनोरथ ही सिद्ध होगा ॥ ६६ ॥

प्रेष्टे च भारते मेघ मालिन्यं समवर्धत ।

अपनोदाय तस्यैष शुद्धो यत्नो विधीयते ॥६७॥

मेरे परमप्रिय भारतमें आज मलिनता बढ़ गयी है । उसे ही दूर करनेकेलिये मैं यह पवित्र उपाय कर रहा हूँ ॥ ६७ ॥

प्रसादावसरो ह्येष सर्वेषां भवतां बुधाम् ।

भारतस्य सुतः कोपि विधत्ते यत्नमीदृशम् ॥६८॥

आप सब बुद्धिमानोंकेलिये तो यह आनन्दका अवसर है कि भारतका ही एक पुत्र मलिनता दूर करनेका ऐसा यत्न कर रहा है ॥ ६८ ॥

यदि तस्मिन्न सा शक्तिर्नास्ति वापि विशुद्धता ।

भारतीयधराभारं वर्धयिष्यति केवलम् ॥६९॥

यदि उस भारतपुत्रमें शक्ति और पवित्रता नहीं है तो वह भारतीय वसुधाका केवल भार ही बढ़ावेगा ॥ ६९ ॥

तरमादेतद्धराधाम परित्यज्य गतासुकः ।

सपद्येय भवेत्तेन हितं सर्वस्य सेत्स्यति ॥७०॥

अतः यदि यह इस पृथिवीको छोड़कर शीघ्र ही मर जाये तो सबका हस्याग ही जायगा ॥ ७० ॥

दृषयासकयामेता कर्णाकर्णि निशम्य तु ।

मामनागत्य स्वे केन्द्रे नैर्मत्स्यं संनिधीयताम् ॥७१॥



मेरे इस उपवासकी बात कर्णपरम्परासे सुनकर मेरे पास कोई न आवें और अपने केन्द्रमें निर्मलता पविनताका प्रचार करें ॥ ७१ ॥

कस्यापराधमाराध्य विपमं विदधाम्यहम् ।  
नात्स्य प्रश्रस्य वीक्षेद्दुपयोगमनागपि ॥७२॥

किसकी भूलके कारण मैं यह कठिन कार्य कर रहा हूँ, इस प्रश्नकी मैं जरा भी आवश्यकता नहीं देखता हूँ ॥ ७२ ॥

अपराधोस्ति चेत्कोपि सर्वेषामेव नः स च ।  
न प्रातिस्त्रिकरूपेण कश्चिदत्रापराध्यति ॥७३॥

यदि कोई अपराध है तो यह हम सबका ही है । व्यक्तिगत किसीका अपराध नहीं है ॥ ७३ ॥

इवेतराज्ये गते मुस्लिम्लीगे चापि गते समाः ।  
मुसल्मानप्रजा अत्र गता एवासहायताम् ॥७४॥

अप्रेनी राज्य गया, मुस्लिमलीग गयी । आज यहाँ मुसलमान् प्रजा असहाय बन गयी है ॥ ७४ ॥

मुस्लिम्लीगप्रयासेन विभक्ता भारतक्षितिः ।  
तथापि मुस्लिमा अत्र निवसन्ति निजेच्छया ॥७५॥

मुसलिमलीगके प्रयासे ही भारतके दो टुकड़े हुए हैं । तो भी मुसलमान् यहाँ स्वेच्छासे रह रहे हैं ॥ ७५ ॥

निस्सहायस्य हीनस्य कैरप्यद्याश्रयैर्वत ।  
साहाय्यकरणं धर्मं परो मेभिमतः सदा ॥ ७६ ॥

जो निस्सहाय हो, जिसे कोई भी आश्रय न हो उसकी सहायता करना यह मुझे सदा ही परमधर्म प्रतीत होता है ॥ ७६ ॥

उपवासेन सर्वेषां शुद्धिरेतेन चेत्सिता  
हिन्दवापि मुसल्माना अपि वैशुद्धयमाप्नुयुः ॥ ७७ ॥

इस उपवाससे, सबकी शुद्धि इष्ट है। हिन्दु भी और मुसलमान भी पवित्रता प्राप्त करें ॥ ७७ ॥

प्रसादयितुमत्रत्यमुसल्मानान्कदापि नो ।

अहं ब्रवीमि यत्किञ्चिज्जिजात्मानं सुखायितुम् ॥ ७८ ॥

यहाँके मुसलमानोंको खुश करनेके लिये मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो कुछ बोलता हूँ वह मेरे आत्माको प्रसन्न करनेकेलिये ॥ ७८ ॥

सिक्खाश्च हिन्दवश्चापि मुस्लिमलीगमन्वगुः ।

द्विधाभवत्ततः पूर्वं हृदयं भारतं ततः ॥ ७९ ॥

सिक्ख और हिन्दू (हिन्दूमहासभा) मुसलीमलीगके अनुयायी बने थे। उससे पूर्व ही भारतका हृदय दो टुकड़े हो चुका था ॥ ७९ ॥

मुसल्माना अपीहासन्नपराधक्षितिस्थिताः ।

एवं त्रयोपि संहत्य तैपराध्यन्ननेकशः ॥ ८० ॥

मुसलमान् भी अपराधकी ही मर्यादामें स्थित थे। इस प्रकार इन तीनोंने ही अनेकबार भूल की है ॥ ८० ॥

अद्येष्टं सौहृदं किन्तु त्रयाणामपराधिनाम् ।

ज्ञातुयन्त्येतदाधातुमीशमाराध्य केवलम् ॥ ८१ ॥

आज इन तीनों अपराधियोंको मित्रता इष्ट है। यह लोग इस कार्यको भगवान्की उद्देश्यतासे ही कर सकते हैं ॥ ८१ ॥

सन्त्यनेके मुसल्माना बहवः सन्ति हिन्दवः ।

परमेष्ठां परित्यज्य ज्ञेयन्ते दानर्यं हि ये ॥ ८२ ॥

बहुतसे हिन्दू और बहुतसे मुसलमान् ऐसे हैं जो ईश्वरको छोड़कर शैतानकी सेवा करते हैं ॥ ८२ ॥

विहाय नानकं सिक्खास्त्यक्त्वा चान्यान्गुरुनपि ।

अधिपारेण यन्तंते श्वेच्छापत्तिया पुनः ॥ ८३ ॥

सिक्ख लोग श्रीगुरुनानक तथा अय गुरुओंको भी छोड़कर बिना विचारे स्वेच्छानुसार बर्ताव कर रहे हैं ॥ ८३ ॥

हित्वा वास्तविक धर्मं धर्माभ्यपरिच्छदा ।

यदि भूय स्वरूपे ते तिष्ठेयु शमवाप्तुयु ॥ ८४ ॥

सच्चे धर्मको छोड़कर धर्मकी पिछड़ी ओढ़नेवाले यदि फिरसे स्वरूपमें आकर स्थित हो जायें तो उन्हें कल्याण प्राप्त हो ॥ ८४ ॥

मुसलमानशुभायासावुपवास. प्रवर्तित ।

तत सर्वाधिको भारस्तेषु सम्पतितोधुना ॥ ८५ ॥

मुसलमानोंके हितकलिये इस उपवासको मैंने शुरू किया है । अत सबसे अधिक भार अभी उन्हीं पर है ॥ ८५ ॥

बोद्धव्य ते स्वय स्वीय विधेयं प्राप्तकालिकम् ।

चन्द्रध्वजवर्तितव्य तेभारतीयैरिवाखिलै ॥ ८६ ॥

उनको स्वय यह ज्ञान लेना चाहिए कि इस समय उन्हें क्या करना है । उन्हें सभी भारतीयोंके साथ माई-समान ही बर्ताव करना चाहिए ॥ ८६ ॥

भारत प्रति कार्त्तव्य दर्शनीय मनस्तलान् ।

वाचाचारेण तत्सर्वं वेदनीय भविष्यति ॥ ८७ ॥

उन्हें अन्त करणसे भारतके प्रति अहसानमन्द गद्दा चाहिए । यह ऐसे हैं या नहीं इतका पता तो उनके बचन और आचरणसे लगेगा ॥ ८७ ॥

वह अनुचित कहते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। किस बड़े अपराधके कारण उन्हें मन्त्रिमण्डलसे अलग किया जाय ? ॥ ८९ ॥

शासने केवलो नास्ति बल्लभो न जवाहरः ।

संभूय बहुभिः सुष्ठु शासनं परिचाल्यते ॥ ९० ॥

सर्कारमें तो न केवल बल्लभभाई हैं और न केवल जवाहिरलाल हैं। बहुत से लोग मिलकर अच्छी तरहसे हुकूमत चला रहे हैं ॥ ९० ॥

अपनेतुं महाप्रज्ञं बल्लभ सर्वबल्लभम् ।

जवाहरोद्य शक्नोति न परं स करोति तत् ॥ ९१ ॥

श्रीजवाहिरलालजी श्रीबल्लभभाईको निकाल तो सकते हैं परन्तु वह नहीं निकाल रहे हैं ॥ ९१ ॥

दोषं दोषी च दोषांश्च कोनवेक्ष्य विदां मतः ।

उत्सहेत निराकर्तुं कंचनापि पदे स्थितम् ॥ ९२ ॥

दो-प्यारकी बात तो अलग रही एक दोष भी अगर न देखा जाय तो किसीको किसी पदसे कौन बुद्धिमान् हटा सकता है ? ॥ ९२ ॥

मुसल्माना भवन्त्यद्य शूराः प्रामाणिकास्तथा ।

स्यदेशो भारतमिति मत्त्या याञ्छन्तु सच्छिवम् ॥ ९३ ॥

मुसलमान् आज बहादुर और ईमानदार बन जायें। भारत अपना देश है ऐसा मानकर उषधी मलाई प्याहने लगे ॥ ९३ ॥

मुस्लिम्लोगो न नो गाधिर्जवाहरो न नो सभा ।

पश्चित्सहायको योद्य परमेदयरमृतेऽमृतम् ॥ ९४ ॥

मुस्लिम्लोग, लीजी, जवाहिरलाल कोई भी तुम्हारा सहायक नहीं है। बेचल आश्रय परमाना ही सहायक है ॥ ९४ ॥

छायामाश्रित्य निक्षिप्य जगदीशस्य बेयलम् ।

एतन्निग्भारणे देशे यूयमद्य स्थ सतिता ॥ ९५ ॥

केवल परमात्माजी छायाके भरोसे आप सब मुसलमान् आज इस भारतमें टिके हुए हैं ॥ ९५ ॥

इति मत्वा भय छिन्ना बन्धुतामित हिन्दुभिः ।

नानक्रस्यातुर्गे पारसीकै स्तिस्तानुयायिभिः ॥ ९६ ॥

ऐसा समझकर हिन्दू, सिक्ख, पारसी, इसाई सबके साथ बन्धुता प्राप्त कर । भय छोड़ दें ॥ ९६ ॥

परमस्मि परं मित्र युष्माकं सर्वतं प्रियम् ।

प्राण्या प्राणत्सु युष्मानु त्रियेयापगतासुषु ॥ ९७ ॥

परन्तु मैं आप लोगों का सदा परम प्रिय मित्र हूँ । आपके जीनेसे जीऊँगा और मरनेसे मरूँगा ॥ ९७ ॥

न चेद्वासयितुं शक्तो मुसल्मानानिहारतौ ।

तदावश्यमिह ज्ञेय जीवित मे निरर्थकम् ॥ ९८ ॥

यदि मैं भारतमें मुसल्मानोंको नहीं रख सकता तो अवश्य ही जान लेना चाहिये कि मेरा जावन व्यर्थ है ॥ ९८ ॥

स्पष्टमेव सदा वक्ति सत्यप्रेमसुधाभृतः ।

बद्धनाचर्चनाचुञ्चुर्नास्ति सर्दारबह्म ॥ ९९ ॥

सर्दार बह्ममाई सदा स्पष्ट बोलते हैं । और प्रेमरूप अमृतसे भरे हुए हैं । बद्धना करना वह नहीं जानते हैं ॥ ९९ ॥

सर्दारबह्ममते मुस्लिम्लीगानुयायिनः ।

विश्वासपात्रतां नैते यान्ति केनापि हेतुना ॥ १०० ॥

सर्दार बह्ममाईके मतमें मुसलिमलीगके अनुयायी मुसलमान् किसी प्रकार भी विश्वासपात्र नहीं हैं ॥ १०० ॥

मध्वरात्रानधि त्रुरा घातुका ये भवन्कथम् ।

समभूवन् क्षणेनैव सभ्यसज्जनसाधवः ॥ १०१ ॥

वह कहते हैं कि आधीरात तक जो क्रूर और घातक ये वह दश-  
भरमें ही समय, सजन और साधु कैसे बन गये ? ॥ १०१ ॥

इत्येवं तस्य हृदय युष्मान्संवेदिषि संततम् ।

नायुक्तं क्रियते तेन न चाकारणकक्रियाम् ॥ १०२ ॥

इस प्रकारसे उनके हृदयमें तुम्हारे प्रति सदा सदेह बना रहता है ।  
वह अयुक्त कुछ भी नहीं करते । कारण बिना कोई भी काम नहीं  
करते ॥ १०२ ॥

भारतीयमुसल्मानाः स्वीयैराचरणैः प्रियैः ।

तत्सन्देहमपाकर्तुं प्रयतन्तामहर्निशम् ॥ १०३ ॥

भारतके मुसलमानोंकी चाहिये कि अपने प्रिय आचरण द्वारा उनके  
सदेहको दूर करनेका सदा प्रयत्न करें ॥ १०३ ॥

हिन्दून्सिक्खानपि त्रौप्यं त्यक्तुमभ्यर्थये भृशम् ।

पतदेव महाशौर्यं महत्पेपा यदान्यता ॥ १०४ ॥

हिन्दुओं और सिक्खोंसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह क्रूरता  
छोड़ दें । यही यही बहादुरी है और यही बहुत बड़ी उदारता है ॥ १०४ ॥

पाकिस्ताने भवेद्धिन्दुरेकोपि न हि जीवितः ।

सिक्खरा अपि यमद्वार प्रापिताः स्युः पुरानिभिः ॥ १०५ ॥

पाकिस्तानमें एक भी हिन्दू जीता न रहे और मुसलमान् सिक्खोंको  
भी मार डालें — ॥ १०५ ॥

भारतीया न हि पापि यत्तुमहेन्ति तादृशम् ।

भारतं स्थाद्भारद्वितं शृते यर्मणि तादृशि ॥ १०६ ॥

यन्तु भारतके लोग ऐसा नहीं कर सकते । ऐसा धर्म करनेपर  
भारत भा=शोभा रहित हो जायगा ॥ १०६ ॥

यगतामत्र हिन्दूनां सिक्खानां च विरिक्तिनाम् ।

पारसीकमुसल्मानद्येषानां न दृषथा भवेत् ॥ १०७ ॥

यहाँ रहनेवाले हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, पारसी, मुसलमान् किसीको भी पीड़ा न हो—॥ १०७ ॥

एतादृग्भारतं नूनं लोकरुक्ल्याणकारकम् ।

इष्टं मम समेषां च नातोन्न्यत्समुपास्महे ॥ १०८ ॥

ऐसा कल्याणकारी भारत मुझे और सबको दृष्ट है । इससे अतिरिक्त हम नहीं चाहते ॥ १०८ ॥

बहूनि तारपत्राणि पत्राणि विविधानि च ।

मत्सविधे समायान्ति मम व्रतसमाप्तये ॥ १०९ ॥

मेरे पास बहुतसे तार और बहुतसे पत्र इस व्रतको—उपवासको छोड़ देनेके लिये आ रहे हैं ॥ १०९ ॥

उपवासः पवित्रोयं घबिन्नः सर्वपापिनाम् ।

लबिन्नः सर्वपापानामन्तं न सहसा व्रजेत् ॥ ११० ॥

यह उपवास तो पवित्र है । सर्व पापियोंको शुद्ध करनेवाला है । सब पापोंका नाश करनेवाला है । यह सहसा बन्द नहीं हो सकता ॥ ११० ॥

ईश्वरप्रेरणातोयं संप्रवृत्तो महार्थकः ।

समाप्तिरीश्वरायत्ता शक्तिरन्या विकुण्ठिता ॥ १११ ॥

यह उपवास ईश्वरकी प्रेरणासे प्रवृत्त हुआ है । इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है । इसकी समाप्ति भी ईश्वरार्थीन ही है । अन्य शक्ति इसको बन्द करानेमें कुण्ठित है ॥ १११ ॥

अग्न्यालालस्य तनुजा मृदुला मृदुमानसा ।

निराकारिष्णुर्दीनानां दुःखान्यप्रतराण्यपि ॥ ११२ ॥

अग्न्यालाल गारामर्दिनी पुत्री श्रीमृदुला दीनोंके मारी दुःखको दूर करनेमें लगी हुई है ॥ ११२ ॥

सहिष्णुः पावकज्वालामालामप्यविपादतः ।

किन्तु सोढुं समर्था नो मद्विपत्तिं मनागपि ॥ ११३ ॥

वह अग्निकी ज्वालामें बिना दुःखके सह सकती है परन्तु मेरे बरा<sup>१</sup>  
भी दुःखको सहन करनेमें असमर्थ है ॥ ११३ ॥

वात्ये सत्क्रोड आसीना रममाणाभवत्परम् ।

अधुनापि न मच्छायां सा चिरं विजिहासति ॥११४॥

बात्यावस्थामें वह मेरी गोदीमें बैठती थी, खेलती थी । अब भी  
वह मेरी छाया छोड़ना नहीं चाहती ॥ ११४ ॥

उपवाससमाचारं श्रुत्वा वैयग्न्यमाप्य च ।

लवपुरे वसन्ती सा पत्रं प्राजीहयन्मयि ॥११५॥

वह लाहोरमें रही हुई है । मेरे उपवासका समाचार सुनकर व्याकुल  
होकर मेरे पास उन्होंने पत्र लिखा है ॥११५॥

अप्या व्यग्रा मुसल्माना अनुयुञ्जन्ति मामिह ।

अनश्नते कृतेस्माकं कुर्मः किं गांधये वयम् ॥११६॥

वह लिखती है कि—लाहोरके प्रतिष्ठित मुसलमान् उनसे पूछ रहे हैं  
कि गांधीने हमारे लिये उपवास<sup>१</sup> किया है तो हमलोग उनके लिये  
क्या करें ? ॥ ११६ ॥

आच्छिद्याद्येश्वरस्थानं राजानति महासुरः ।

तं पुनस्तस्य संस्थाने स्थापयन्त्वचिरेण ते ॥११७॥

इत्युत्तरं मया दत्तं प्रेम स्वीकुर्यता मया ।

अस्मिन् यज्ञे समारब्धे सर्व एवोपजुह्वतु ॥११८॥

मैंने उनके प्रेमको स्वीकार करके उत्तर दिया है कि ईश्वरका स्थान  
छीनकर शैतान आज राजा बना हुआ है । वहाँके मुसलमान् ईश्वरकी  
गार्दीपर ईश्वरको शोभ बैठा दें । इस शुरु किये गये यज्ञमें सबको  
आहुति देनी है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

न ययात्र तिलान्नात्र पयो न मधुसर्पिणी ।

आत्मशुद्धिं मुहुर्यं यज्ञोयमभिक्षाद्भति ॥११९॥



इस यज्ञमें न यवकी, न निलकी, न दूधकी, न मधुकी, न घीकी, आवश्यकता है। यहाँ केवल आत्मशुद्धि और पवित्र मैत्री अपेक्षित है ॥ ११९ ॥

हिन्दूसिक्खमुसल्माना जहितेति परस्परम् ।

विप्रवदन्त एते चेद्विसिस्वामि न क्रतुम् ॥१२०॥

हिन्दु, सिक्ख, मुसलमान् यदि परस्पर मारो मारो, यही लडाई-झगडा करते रहेंगे तो मैं इस यज्ञको विसर्जन करना नहीं चाहता हूँ ॥१२०॥

संघट्टाः सन्तु चेत्सर्वे सर्वधर्मानुयायिनः ।

दिव्येन प्रेमसूत्रेण सर्वत्र प्रसरेच्छिवम् ॥१२१॥

यदि सर्व धर्मोंके सभी अनुयायी दिव्य प्रेम सूत्रसे बँध जायँ तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द फैल जाय ॥ १२१ ॥

नेक्षिष्येहं तदा धापि सुरापाइच सुरालयम् ।

आहिफेनं दुराचारमसत्यं बन्धुहिंसनम् ॥१२२॥

तब मैं न तो कहीं शराबी देखूँगा ना मैराना देखूँगा। अफीम, दुराचार, असत्य और भाईकी ही हिंसा भी नहीं देखूँगा ॥ १२२ ॥

सदाचाराः छियः सर्वा पुमासोपि तथाविधाः ।

तदानीं संभविष्यन्ति समस्ते पूतभारते ॥१२३॥

तब समस्त भारतमें समस्त छियों और सब पुरुष सदाचारसम्पन्न होंगे ॥ १२३ ॥

पाकिस्तानमुसल्माना नाचरन्त्यायसंगतम् ।

हिन्दुत्विति पर तध्यमगोपिपमहं न हि ॥१२४॥

पाकिस्तानके मुसलमानोंने हिन्दुओंके साथ न्यायमगत धावाएँ की हैं किया है इस परम सत्यको मैंने छिपाया नहीं है ॥ १२४ ॥

इदानीमेव काराच्यां निर्दोषाः सिक्खतन्धयः ।

निहता निर्दयत्वेन लुण्ठिता सम्पदः सभाः ॥१२५॥

अभी ही तो कराचीमें निर्दोष सिक्कों को निर्दयताके साथ मार डाला गया है और उनकी सब सम्पत्ति लूट ली गयी है ॥ १२५ ॥

गुजरातेपि सम्पन्नं तथैवेति श्रुतं मया ।

बन्नूतो दुःखिता भीता आयान्तो हिन्दवो हताः ॥१२६॥

मैंने सुना है कि डरके मारे जब हिन्दू बन्नूसे यहाँ आ रहे थे तो मार्गमें गुजरात शहर ( पञ्जाब ) में भी हिन्दू मारे और लूटे गए हैं ॥ १२६ ॥

मुसल्मानान्त्रवीन्येतद्यदि वः स्यादिय कृतिः ।

वर्तमानैव हिन्दूनामविपह्या भविष्यति ॥१२७॥

मैं मुसलमानोंसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारा यही काम चलता रहा तो हिन्दुओंको यह असह्य हो जायगा ॥ १२७ ॥

पाकिस्तानं भवेन्छुद्धं यदि बाह्यान्तरं तदा ।

ततोप्यधिकसंशुद्धिं भारतं शीघ्रमेप्यति ॥१२८॥

यदि पाकिस्तान अन्दरसे और बाहरसे शुद्ध हो गया तो भारत तो उससे भी अधिक शुद्ध शीघ्र ही हो जायगा ॥ १२८ ॥

पाकिस्तानं पवित्रं चेत्प्रेम सन्दर्शयिष्यति ।

अत्र प्रेमप्रवाहस्तु नावरुद्धो भविष्यति ॥१२९॥

यदि पाकिस्तान पवित्र प्रेम दिखावेगा तो यहाँ प्रेमप्रवाह बन्द ही नहीं होगा ॥ १२९ ॥

हृदयानि विशोष्यातो व्यपाकृत्य च राक्षसम् ।

आसीनमीश्वरं तेषु पाकिस्तानं विलोकताम् ॥१३०॥

पाकिस्तानको चाहिए कि हृदयको पवित्र करके, शैतानको दूर करके उस हृदयमें बैठे हुए खुदाको देखें ॥ १३० ॥

प्रतिमस्त्रिदमग्रापि प्रतिमन्दिरमप्यथ ।

तिरोहित इयात्मासौ प्रतिदेहमुदेप्यति ॥१३१॥

यहाँ भी प्रत्येक मस्जिदमें और प्रत्येक मन्दिरमें वही परमात्मा छिप  
गया जैसा है । वह प्रत्येक देहमें प्रकट होगा ॥ १३१ ॥

भारतं चेद्द्विधा भूतं किमेतेन मनांसि चेत् ।

शुद्धानि स्नेहपूर्णानि तत्त्वदर्शीनि योपि नः ॥१३२॥

यदि मुसलमानों और हिंदुओंका मन स्नेहपूर्ण और सात्त्विक विचार  
वाला हो तो भारतके दो डुकडे हो गए, इससे कोई क्षति नहीं है ॥१३२॥

पृथिव्यांसन्ति बहवो राजानोपि पृथक् पृथक् ।

साम्राज्यान्वपि नैकानि किञ्चिन्न च्छिद्यते ततः ॥१३३॥

पृथिवीपर बहुतसे राजा अलग अलग ही तो हैं, साम्राज्य भी  
तो अनेक हैं परन्तु इससे कुछ बिगड़ता नहीं है ॥ १३३ ॥

वाल्यादेव दिवास्वप्नं बालान्तःकरणानुगम् ।

सर्वधर्मैकतारूपमपुं बालचेष्टया ॥१३४॥

वाल्यावस्थासे ही मैं अपने अन्तःकरणमें सर्वधर्मोंकी एकताका  
दिवास्वप्न देखता रहा हूँ । मेरी बालचेष्टा भी ऐसी ही रही है ॥१३४॥

लोका हि मां जहं मत्तं विक्षिप्तं बुद्धिदूरगम् ।

मन्यन्ते स्वल्पसिद्धयर्थं त्यक्तुं बहु समुद्यतम् ॥१३५॥

लोक मुझे जड़, उन्मत्त, पागल और बेबकूफ समझते हैं । यह सब  
समझते हैं कि मैं बहुत थोड़ेकेलिये बहुत अधिकका त्याग कर  
रहा हूँ ॥ १३५ ॥

कामो मे फलितश्चेत्स्यादेतथैव तपस्यया ।

उन्मत्त इव नत्स्यामि प्रहमस्त इवापि वा ॥१३६॥

यदि इसी तपस्यासे मेरी इच्छा पूर्ण हो गयी तब तो मैं पागलके समान  
अथवा मग़ोसे पकड़े गये हुएके समान नाचूँगा ॥ १३६ ॥

लोलकलोलविभ्रुब्धमृत्युसिन्धुतटे स्थितः ।

अर्थितं फलितं वीक्ष्य न स्यात्काष्ठा मुदो मम ॥१३७॥

अब तो चंचल, लहरें मारता, खलबल करता मृत्यु मेरे सामने  
उपस्थित है। ऐसी दशामें यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो मेरे आनन्दकी  
सीमा न रहेगी ॥ १३७ ॥

सुबुद्धयः सन्मनसः स्वधर्मे चेत्स्थिता वयम् ।

पारस्परिकसम्बन्धक्षेमक्षोदो न संभवेत् ॥१३८॥

यदि हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहे और मन भी पवित्र बना रहे तथा  
यदि हम धर्ममें स्थित रहें तो हमारा आपसी सम्बन्ध कभी नष्ट नहीं  
होगा ॥ १३८ ॥

सत्प्रेममदिरोन्मत्ता वयं यूयं तथापरे ।

सर्व्यभीतिविरहिता नतिष्यामो मुदा सदा ॥१३९॥

शुद्धप्रेमरूप मदिरासे उन्मत्त होकर आप, हम और दूसरे सर्व प्रकार  
के भयसे छूट कर आनन्दसे नाचेंगे ॥ १३९ ॥

योपि कोपि समाजोस्ति व्यक्तीनां स समुच्चयः ।

व्यक्तिशुद्धौ समाजस्य शुद्धिरस्ति विनिश्चिता ॥१४०॥

कोई भी समाज व्यक्तियोंसे ही बनता है। यदि व्यक्ति शुद्ध हो तो  
समाजकी शुद्धिमें कोई सन्देह ही नहीं है ॥ १४० ॥

एकमेवात्र नैकत्वं जनयद्दृश्यतेनिशम् ।

न चैकं चेदनेकानि न श्युस्तेन च शून्यता ॥१४१॥

हम रोज देखते हैं कि एक ही अनेकको पैदा करता है। यदि एक  
न हो तो अनेक भी नहीं होंगे। परिणाम शून्यतामें आवेगा ॥ १४१ ॥

अन्ये किमत्र कुर्वन्ति यूयं तन्नैव पश्यत ।

आत्मानमेव योक्ष्ण्वं श्रेयस्तेनाधिगच्छत ॥१४२॥

दूसरे क्या कर रहे हैं, इसे आप न देखें। केवल आत्मनिरीक्षण आप  
करें। उसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ १४२ ॥

चिन्तां जहित देहस्य मम क्षीणबलस्य च ।

मृत्युमेव विजानीत शरीरस्यान्तिमां दशाम् ॥१४३॥

मेरे इस निर्बल शरीरकी चिन्ता आप लोग छोड़ दें । शरीरकी अन्तिम दशा तो मृत्यु है ही ॥ १४३ ॥

सर्व एव गमिष्यन्ति मृत्युद्वारमपावृतम् ।

यथा सनातनेनैव कर्मणा च सदासदा ॥१४४॥

मृत्युका द्वार खुल्य हुआ है । सत्कर्म और असत्कर्मके द्वारा सभी मृत्युद्वारमें प्रवेश करेंगे ॥ १४४ ॥

देवो वा दानवो वापि नरोपि च नरेश्वरः ।

हिंसकोहिंसको वापि सर्वेषां शरणं मृतिः ॥१४५॥

देवता हो, दानव हो, नर हो, नरेन्द्र हो, हिंसक हो, अथवा अहिंसक हो, सबको शरण देनेवाला तो मृत्यु ही है ॥ १४५ ॥

जायमानो नरः पूर्वं मृत्युना समवैक्षितः ।

अद्वितश्चापि वर्षाद्धैर्दिनाद्धैर्वा विधानतः ॥१४६॥

जब मनुष्य पैदा होता है तब सबसे पहिले मृत्यु ही उसे देखता है । मृत्यु ही सावधान बनकर उसपर छाप लगाता है कि वह इतने वर्ष और इतने दिन जीवेगा ॥ १४६ ॥

निश्चिते दिवसे पुण्ये निश्चितेपि च वत्सरे ।

श्रुतां विनिश्चिते चापि निश्चितो मरणागमः ॥१४७॥

निश्चित वर्षमें, निश्चित श्रुतमें, निश्चित पवित्र दिनमें निश्चित ही मृत्युका आगमन होता है ॥ १४७ ॥

कालादिकं विनिश्चित्य पूर्वस्मादागमिष्यतः ।

मृत्योर्हस्तात्र कस्यापि संभवेद्वि विमोक्षणम् ॥१४८॥

पहलेसे ही समय निश्चित करके जानेवाले मृत्युके हाथसे किसीका छुटकारा संभव नहीं है ॥ १४८ ॥

मृत्युरेवान्तिमं मित्रं मृत्युदुःखविनाशकः ।  
सत्कार्यश्च ततो मृत्युर्व्यर्थमेव ततो भयम् ॥१४९॥

मृत्यु ही अन्तिम मित्र है । वही दुःखका नाश करनेवाला है ।  
अतः उसका सदा सत्कार करना चाहिये । उससे डरना व्यर्थ है ॥१४९॥

तिस्यक्ष्यन्ति यदा सर्वे बान्धवा अन्तिमे क्षणे ।  
सर्वदुःखविमोकाय मृत्युरेव सहायकः ॥१५०॥

अन्तिम क्षणमें जब सभी कुटुम्बी जन छोड़ देनेकी इच्छा करते हैं,  
उस समय सर्वदुःखोमेंसे छुड़ानेकेलिये मृत्यु ही तो सहायक है ॥ १५० ॥

आह्वातुं मृत्युमेवायं नोपवासो निपेवितः ।  
आह्वानमन्तरेणैव स आगच्छति देहिनः ॥१५१॥

मृत्युको बुलानेकेलिये ही यह उपवास नहीं है । वह तो बिना  
बुलाये ही देहधारी के पास आता है ॥ १५१ ॥

ततः सर्वैः स्वकर्तव्यं ध्यायं ध्यायं पुनः पुनः ।  
उपास्यं श्रद्धया नित्यं परया धर्मबन्धुभिः ॥१५२॥

अतः धर्मके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभीको चाहिये कि वह अपने  
अपने कर्तव्यका फिर-फिर, विचार-विचार करके महती श्रद्धाके साथ,  
पालन करें ॥ १५२ ॥

ममोपवासश्रवणमाग्नेगैवाधिलम्बकम् ।  
भारतीयेन हि सता शासनेन कृतं बहु ॥१५३॥

मेरे उपवासकी बात सुनकर ही उत्तम भारतसर्वकारने बहुत कुछ  
किया ॥ १५३ ॥

कोटयः पञ्चपञ्चाशद्रूप्यकाणां च धर्मतः ।  
प्रदेया भारतेनासन्पाकिस्तानाय धर्मिणा ॥१५४॥  
पचावन फरोड़ रुपये भारतको पाकिस्तानके देने थे ॥ १५४ ॥

काश्मीरस्य विवादोसौ न प्रयात्यन्तिमां गतिम् ।

यावत्तारुण ता देयाः पाकावेति विनिश्चितः ॥१५५॥

सर्कारने यह निश्चय किया था कि जबतक कश्मीरका झगडा खतम नहीं होता तबतक वह रुपये पाकिस्तानको न दिये जायें ॥ १५५ ॥

तथापि निर्णयं स्वीयं शासनं पर्यवर्तयत् ।

देयं तस्मा अदात्तेन गौरवं प्रापयन्निलम् ॥१५६॥

तो भी सर्कारने अपना निर्णय बदल दिया । पाकिस्तानको जो देना था भारतसर्कारने दे दिया । उसकी प्रतिष्ठा बढ गयी है ॥ १५६ ॥

साधारणी कृतिर्नेयं मन्तव्या धर्मवेदिभिः ।

भारतादितरैः कैश्चित्स्यात्कृता स्यान्नवापि सा ॥१५७॥

इस कार्यको साधारण कार्य नहीं मानना चाहिए । भारतसे अतिरिक्त किसीने यह काम शायद नहीं ही किया हो ॥ १५७ ॥

एवं सर्वैर्मुसल्मानैर्हिन्दुभिर्नानैरपि ।

इति कर्तव्यतावोधे सावधानैर्हि भूयताम् ॥१५८॥

जिस प्रकार भारतसर्कारने अपना कर्तव्य पालन किया है वैसे ही अपना कर्तव्य समझनेमें हिन्दु, मुसलमान्, सिक्ख सबको सावधान बनना चाहिए ॥ १५८ ॥

आ काश्मीरादा च कन्याकुमार्या आ कराचितः ।

आ च द्विभ्रूगढात्सर्वैः प्रशस्यं हिन्दुशासनम् ॥१५९॥

काश्मीरसे लेकर, कन्याकुमारीसे लेकर, कराचीसे लेकर थीर शिष्ट गढ़से लेकर सर्वत्र सबकी प्रशंसा का पात्र भारतसर्कार वर्ना है ॥ १५९ ॥

मुस्लमानप्रतोपाय भवति स्म न साधितम् ।

अद्वितीयमिदं कर्म शासनेनात्र नः श्लाघ्यं ॥१६०॥

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि यह अद्वितीय कार्य हमारी सर्कारने मुसलमानोंको खुश करनेकेलिए नहीं ही किया है ॥ १६० ॥

शासनं प्रतिनिधत्ते महतीं जनतां च यत् ।

केवलं स्वप्रतोपाय कार्यमुद्धमिदं मतम् ॥१६१॥

जो सरकार एक बड़ी भारी जनताका प्रतिनिधित्व करती है उसने केवल अपने सन्तोषकेलिये यह प्रदास्त कार्य किया है ॥ १६१ ॥

उपमा का भवेल्लोकेनुपमस्यास्य कर्मणः ।

भारतं भारतमिव नातिशेते किमप्यदः ॥१६२॥

इस अनुपम कार्यकी जगत्में कोई उपमा नहीं है । भारत तो भारत ही है । इसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता ॥ १६२ ॥

वाचं भर्माविधं क्रूरां प्रभ्रुवाणमहर्दिवम् ।

विराध्यत्सततं पाकं कः क्षान्द्येद्भारतं विना ॥१६३॥

रातदिन मर्मभेद करनेवाले, क्रूर वचन बोलनेवाले और सदा विरोध करनेवाले पाकिस्तानको भारतके विना दूसरा कौन सह सकता है ? ॥ १६३ ॥

न न्यद्भ्रं शासनमहो किञ्चिदन्यद्भजेदिदम् ।

धन्य भारत धन्यं त्वं धन्य शासन शासन ॥१६४॥

कोई छोटी-मोटी सरकार यह कार्य नहीं कर सकती । भारत तू धन्य है ! भारतसरकार तू धन्य है ॥ १६४ ॥

तद्यद्यन्यसुसूर्पिष्यद्विधानानि निजानि ह ।

नापारयिष्यत्तत्कतुं यद्व्यधित्सत शासनम् ॥ १६५ ॥

सरकार यदि अपने विधानोंका अनुसरण करना चाहती तो वह कार्य न कर सकती सो करना चाहती थी ॥ १६५ ॥

अतिशेते विधानानि न्यायः सर्वोत्तमः सदा ।

धर्मतत्त्वयिदः सर्वे जनाः संविद्वते त्विदम् ॥ १६६ ॥

सर्वोत्तम न्याय हमेशा विधानसे बढ़ जाता है इस वस्तुको सभी धर्मतत्त्वपेक्षा जानते हैं ॥ १६६ ॥



मेकडानल्ड इत्याख्यः श्वेताङ्गोपीथमाचरत् ।

मत्कृतेनोपवासेन यरोडावन्दिसद्गति ॥ १६७ ॥

जब मैंने यरोडाजेलमें उपवास किया था उस समय श्रीमेकडानल्डने भी न्यायको ही मुख्य पद दिया था ॥ १६७ ॥

लोकोत्तरेण कार्येण शासनेन कृतेन तु ।

उपवासः परित्यज्य इत्यपरे षदन्ति माम् ॥ १६८ ॥

दूरे लोग कहते हैं कि सरकारने यह लोकोत्तर कार्य किया है इसकेलिये भी तो मुझे उपवास छोड़ देना चाहिये ॥ १६८ ॥

श्रूयते न मया किन्तु तादृशी ध्वनिरान्तरः ।

सुहृदां सम्प्रसादाय न जागर्ति ततः स्पृहा ॥ १६९ ॥

परन्तु चूँकि मेरे अन्तरसे ऐसा कीड़े शब्द नहीं सुनायी पड़ रहा है अतः मेरे मित्रोंको प्रसन्न करनेकी इच्छा नहीं हो रही है ॥ १६९ ॥

उपवासो भवेस्याज्यो भवेयुः सर्व एव चेत् ।

शूरा निशङ्कमनसो मुसलमानाश्च हिन्दवः ॥ १७० ॥

यह उपवास छूट सकता है यदि सब मुसलमान और हिन्दू बहादुर बनें और मनमेंसे परस्परकी शङ्का छोड़ दें ॥ १७० ॥

आशङ्कन्ते न विक्रान्ताः शङ्कनीयानरीनपि ।

मन्यन्ते ते ह्यविश्वासं स्वमर्यादाविघातकम् ॥ १७१ ॥

बहादुर लोग, जिसकी शङ्का करनी चाहिये उन शत्रुओंसे भी शङ्का नहीं करते । वह अविश्वासको अपनी मर्यादाका विघातक मानते हैं ॥ १७१ ॥

अस्माकं शासनेनाद्य महोदारेण धीमता ।

न्याय्यस्याचरितस्यास्य पाकोत्तरमपेक्ष्यते ॥ १७२ ॥

हमारी बुद्धिमान् और उदार सरकारने जो यह न्याय्य आचरण किया है, पाकिस्तानसे उसके उत्तरकी अपेक्षा है ॥ १७२ ॥

यदीच्छा धर्मदेवस्य सेवनायोदिता भवेत् ।

पन्थानः सन्ति बहवः पाकिस्तानगतेः कृते ॥ १७३ ॥

यदि धर्मपालन करनेकी इच्छा पैदा हो तो पाकिस्तानकी गति करनेकेलिये बहुत मार्ग हैं ॥ १७३ ॥

आध्यात्मिक उपवास आशास्ते शुद्धतां हृदः ।

निवृत्ते कारणे तस्या नैव सापि निवर्तते ॥ १७४ ॥

आध्यात्मिक उपवास हृदयकी शुद्धिकी आशा रखता है । यदि शुद्धि हो जाय तो उपवासरूप कारणके निवृत्त होनेपर भी वह शुद्धि बनी रहेगी ॥ १७४ ॥

सुधया लेपिते गेह अतिथावागमिष्यति ।

आगत्य च गते तस्मिन्सुधा सा न निवर्तते ॥ १७५ ॥

अतिथि आनेवाला होता है तब घरको चूनेसे घोते हैं । अतिथि आकर चला गया हो तो भी वह चूना तो ज्योंका त्यों ही रहता है ॥ १७५ ॥

पाकिस्तानप्रजाः सर्वाः पाकिस्तानाधिनायकाः ।

अस्वीकृत्यापराधान्नो तं देशं रक्षितुं श्रमाः ॥ १७६ ॥

पाकिस्तानकी सारी प्रजा और उसके बड़े नेता अपराधोंको स्वीकार किये बिना उस देशको बचा नहीं सकते ॥ १७६ ॥

मृत्युशय्यां स्पृशन्नाहं किञ्चित्कोपेन विब्रुवे ।

सत्यं व्यवदिपि प्रेष्टं मह्यं कोपि न कुप्यतु ॥ १७७ ॥

मैं तो मरणशय्यामें पड़ा हूँ । श्रोतसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ । अपने परमप्रिय सत्यका ही मैंने उच्चारण किया है । मुझपर कोई क्रोध न करे ॥ १७७ ॥

नैर्बल्याद्वा भयाद्वापि परस्मादपि कारणात् ।

विपृणुया मनोभावं नो तदासत्ययागहम् ॥ १७८ ॥

निर्वल्लासे अथवा भयसे अथवा दूसरे कारणसे यदि मैं अपने मनके भावको प्रकट न करूँ तो मैं असत्यवादी बूँगा ॥ १७८ ॥

राधितैष्वपराधेषु पाकिस्तानेन सर्वथा ।

विदुषां धार्मिणाम्नां च वैमत्यं नास्ति किञ्चन ॥ १७९ ॥

पाकिस्तानने जो अपराध किये हैं उनके विषयमें धार्मिकों और विद्वानोंके दो मत हैं ही नहीं ॥ १७९ ॥

यदि स्यादत्र मे भ्रान्तिर्वोधिता प्रतिपक्षिभिः ।

मृदुच्छास्त्रेष्वचनं प्रत्याख्यातं मया भवेत् ॥ १८० ॥

यदि मेरे विपक्षी मेरी भूल इस विषयमें बतावेंगे तो मैं अपने इस आक्षेप वचनका खण्डन कर दूँगा ॥ १८० ॥

खिन्नया मनसो वृत्त्या सनुस्तस्य महात्मनः ।

पत्रद्वारेण चित्तस्यमाशयं व्यानगीदृशम् ॥१८१॥

महात्मानोंके ही पुत्र श्री० देवदास गार्गीने खिन्न मनोवृत्तिसे पत्र द्वारा अपने हृदयके भावको इस प्रकार व्यक्त किया ॥१८१॥

योग्योयमथवायोग्य उपवासो भवेदिति ।

वक्तव्यमत्र ब्रह्मास्तीन्ममैतमपिजानतः ॥१८२॥

मुझे तो इस उपवासका ज्ञान ही नहीं था । यह उपासक योग्य है अथवा अयोग्य, इस विषयमें मुझे बहुत कुछ कहना था ॥१८२॥

मन्ये तत्र भवन्तं हि समाजाम्यदधीरता ।

एत एवाधिलम्बेन निरणायि प्रतं सहत् ॥१८३॥

मैं समझता हूँ कि आप अधीर हो गये थे, इसी लिये श्रीम ह्रीं इतने बड़े उपवासका निर्णय कर लिया ॥१८३॥

न शक्नोति भवाब्हातुं दिस्त्यां देवेण धीमता ।

किं किं साधितमत्रत्यलोकानां संहितं हितम् ॥१८४॥

आप नहीं जान सकते कि आपने धैर्यसे ही दिल्लीवालोंका क्या क्या हित सिद्ध किया है ? ॥१८४॥

भवच्छ्रमेण बहवो बन्धवो जीविताः स्थिताः ।

बहवश्च गतप्राणा इवासञ्जीविता अपि ॥१८५॥

आपके ही परिश्रमसे बहुतसे माईं जीते रह गये । बहुत तो ऐसे थे कि जीते हुए भी मरेके समान थे ॥१८५॥

ततो जीवनभवानत्र कर्तुं शक्नोति यन्न तत् ।

प्राणानामाहुतिं दत्तैतस्मिन्कलहपावके ॥१८६॥

अतः आप जीकर जो कुछ यहाँ कर सकते हैं, इस कलहाग्निमें अपने प्राणोंको होमकर उसे नहीं कर सकते ॥१८६॥

एतेनैव विचारेण दृढेन कृपयाशु च ।

प्रायोपवेशनस्यान्तं स भवान्कर्तुमर्हति ॥१८७॥

इसी दृढ विचारके साथ आप कृपाकर इस उपवासको समाप्त कर सकते हैं ॥ १८७ ॥

यतिराजः क्षमाशीलो दत्तवानिदमुत्तरम् ।

न मया व्ययितं धैर्यं नापि शैथ्यं समाचरम् ॥१८८॥

क्षमावान् महात्माबीने यह उत्तर दिया, न तो मैंने धैर्य छोड़ा है और न शीघ्रता की है ॥ १८८ ॥

यावद्दिनानि चत्वारि ज्ञान्तेन मनसा मया ।

उपवासं पुरस्कृत्य बहुधैर्यं विचारितम् ॥१८९॥

चार दिनों तक मैंने शान्तमनसे उपवासके विषयमें बहुत प्रकारसे विचार किया है ॥ १८९ ॥

पुत्रोसि तात योग्योसि हितोसि च सुधोसि च ।

चिन्ता स्याभायिकी तस्मादाप्राप्त्यदूधृदयं तव ॥१९०॥

माई, तू पुन है, योग्य है, हितैषी भी है, समझदार भी है । अतः तेरे हृदयमें चिन्ताका होना स्वाभाविक है ॥ १९० ॥

परां काष्ठां गते धैर्यं मम जातमुपोषणम् ।  
हृत्पुद्गेदयं न तद्धैर्यं मूर्खता सा विगण्यते ॥१९१॥

मेरा धैर्य पराकाशको जब पहुँचा तब वह उपवासके रूपमें आ गया । जो धैर्य उद्देश्यको ही नष्ट करे वह धैर्य नहीं, मूर्खता है ॥ १९१ ॥

दिल्लियां मम निवासस्य परिणामोभवद्यदि ।  
शुभस्तत्र महत्त्वं मे नास्ति श्रीशस्य तद्यशः ॥१९२॥

दिल्लीमें मेरे रहनेसे यदि शुभ परिणाम हुआ है तो उसमें मेरा महत्त्व नहीं है । वह यश तो भगवान्‌को ही है ॥ १९२ ॥

मम श्रमेण बहयो रक्षिता मानसा यदि ।  
तन्मूल्येधिकृतस्तस्य परमात्मा न लौकिकाः ॥१९३॥

यदि मेरे श्रमसे मनुष्योंकी प्राणरक्षा हुई है तो उसका मूल्य तो परमात्मा ही कर सकता है, लोग नहीं ॥ १९३ ॥

सेप्टेम्बरात्समारभ्य येनाद्यावधि रक्षितम् ।  
धैर्यं तस्य च तद्दानि जाड्यमेव विवृण्वतः ॥१९४॥

जिसने सितम्बर माससे धाजतक धीरज रखा उसके धीरजका नाश करना केवल जाडता है ॥ १९४ ॥

व्यावहारिकपद्धत्या पुरुषार्था हस्तो मम ।  
तदा श्रोत्रे परेशस्य शिरः संस्थापितं मया ॥१९५॥

व्यावहारिक रीतिसे जब मेरा पुरुषार्थ नष्ट हो गया तब मैंने परमात्मा-की गोदमें अपना शिर रखा है ॥ १९५ ॥

जन्मनो मरणाच्चापि यावज्जन्तुर्न मुच्यते ।  
जीवन्निव मृतोपि स्यात्कार्यसिद्ध्या असंशयम् ॥१९६॥

जब जीव जन्म और मरणसे छूट नहीं सकता है तो वह जैसे बीता हुआ कार्य सिद्ध करता है वैसे ही मरकर भी फर सकता है। इसमें सन्देह नहीं ॥ १९६ ॥

उपवासस्य तात्पर्यं रामस्य शरणागतिः ।

गतस्य शरणे तस्य का च भीर्वेदनापि का ॥१९७॥

भगवान्की शरणागतिका स्वीकार करना ही उपवासका तात्पर्य है। रामकी शरणमें गये हुएको भय क्या ! और वेदना क्या ! ॥ १९७ ॥

यदि तस्य भवेदिच्छा वर्जयिष्यति मां व्रतात् ।

जीवयेदथवा हन्याच्छ्रेय एव भविष्यति ॥१९८॥

यदि उसकी इच्छा होगी तो मेरा उपवास छोडावेगा। वह बिलबे अथवा मार डाले दोनों दशाओंमें कल्याण ही होगा ॥ १९८ ॥

श्रीराम प्रार्थये तस्माद्भूतं निश्चलतां व्रजेत् ।

जिजीविषोपवासं मे वर्जयेन्न च वर्जयेत् ॥१९९॥

मैं रामसे प्रार्थना करता हूँ कि यह व्रत निश्चल रहे। जोनेकी इच्छा मेरे उपवासको न बन्द कर सके न विमगुत्त कर सके ॥ १९९ ॥

सर्वसङ्कटनिवारणक्षमेपूपयासदहनेषु स क्रमान् ।

पादचारभूतनोद्गयातिगो निश्चाल न च चाल निश्चयात् ॥२००॥

सर्वसङ्कटोंको दूर करनेवाले उपवासरूप अग्निमें भीमहात्माजीने अपना चरमार्पण कर दिया। वह भयक पार जा चुके थे। वह निश्चल थे अतः अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए ॥ २०० ॥

यागामृतेन परिशोष्य यतिश्रमाभूत् ।

सर्वानुपस्थितजनान्विधिवत्सदन्तम् ।

श्रायोपवेदान्मुसितुमाशु तस्मा-

स्थानाज्जगाम निजवासभुयं महात्मा ॥ २०१ ॥

इति सर्वतत्रस्वतत्रपरमहंसपरिमाजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
 पारिजातसौरभे  
 चतुर्दशः सर्गः

श्रीयतिराज महात्माजी अपने वचनानुत्तसे सभी उपस्थित लोगोंको  
 सन्तुष्ट करके उपवासकेलिये उस स्थानसे अपने निवासस्थानपर चले  
 गये ॥ २०१ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिमाजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
 पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतगप्पूभाषाटीकायां  
 चतुर्दशः सर्गः ।



## पञ्चदशः सर्गः

प्रतिवर्त्मं गृहीतवेणवः प्रतिरथ्यं छुरिकासिसञ्जिताः ।  
यवनासुनिपूदनैपा यतिराजं तुतुदुश्च हिन्दवः ॥१॥

प्रत्येक रास्ते पर लाठी लिए हुए, प्रत्येक गलीमें दूरी और तलवारसे सज्ज, मुसलमानोंको मारने की इच्छावाले हिन्दुओंने महात्माजीको दु खित कर दिया ! ॥ १ ॥

क्षणमाकुलमानसो भवन्नभिसंचिन्त्य च हस्तिनापुरे ।  
प्रलयं निखिलार्प्यसन्मतेरघदद्योगिवरस्तदेति सः ॥२॥

क्षणभर व्याकुल होकर, और दिल्लीमें हिन्दुओंकी सुबुद्धिका प्रलय विचारकर योगिराज श्री महात्माजी बोले— ॥ २ ॥

यदि भारतमात्मनो यशो घवलं दिक्षु ततं सनातनम् ।  
न हि रक्षितुमस्ति शक्तिमत्पतनं तस्य निर्गलं भवेत् ॥३॥

यदि भारत सारी दिशाओंमें फैले हुए अपने निर्भल सनातन यशको नहीं बचा सकता है तो इसका पतन अनिवार्य है ॥ ३ ॥

धलयत्कृपयानुसंहितं गतर्हिसाम्बिकं हि भारतम् ।  
सकलस्य तदेशियाधराशकलस्यापि च नेतृता वहेत् ॥४॥

कृपायुक्त और हिंसामेंसे रुचि इटाकर बलवान् भारत ही सम्पूर्ण एशिया सभ्यता नेता बन सकता है ॥ ४ ॥

यदि भूरियमव्यवस्थिता विवशान्वेति च पश्चिमप्रजाः ।  
न सहेत तदीयविभ्रमं कथमप्युज्झितसत्पथप्रसा ॥५॥

यदि यह देश अव्यवस्थित बने और लाचार होकर पश्चिमकी प्रजाओंका अनुगमन करे तो सत्यपे मार्गसे विचलित होकर पश्चिमके आप्रमणको नहीं सह सकेगा ॥ ५ ॥



अपगच्छति देहली शनैरपकर्मव्यसनेन वाधिता ।  
भगवत्प्रतिकूलतावशाद्दशतोस्माकमिति प्रतीयते ॥६॥

कुर्मसे पीड़ित होकर दिल्ली अब धीरे धीरे, ईश्वर हमारे प्रतिकूल है इसलिये, हमारे हाथमेंसे निकलती जा रही है, ऐसा मालूम होता है ॥ ६ ॥

यदि भारतमेतु दुर्दशां सकलाशा मम नाशमृच्छतु ।  
क इहास्ति ममाद्य जीवितुं यद् हेतुः सबलोप्यवाधितः ॥७॥

यदि भारतकी दुर्दशा हो और मेरी आशा नष्ट हो जावे तो, कहो, यहाँ मेरे जीनेके लिये कौन सा अवाधित और सबल कारण है ॥७॥

स्वपथाच्छ्युतिमाप्नुवत्यलं निजदेशेय कथं निपेव्यताम् ।  
जगतः शमसत्कथाप्रयावलिताशा विबुधैः परैरपि ॥८॥

अपने दृष्ट देशके पथभ्रष्ट होनेपर जगत् में शान्तिकी कथाके प्रचारकी कौनसी बलवती आशा, मुझे तो नहीं, परन्तु आप विद्वानोंको भी कैसे हो सकती है ! ॥ ८ ॥

यदि नैव शहीदजाकिरी भ्रमितुं स्वेच्छमिहाद्य शक्नुतः ।  
अधिरभ्यमपास्तसाध्वसायधिका कालभविष्यतित्रया ॥९॥

यहाँ पर यदि आज गलियोंमें डाक्टर जाकिर हुसेन तथा शहीद सुदरावदी स्वेच्छासे निर्भयताके साथ नहीं घूम सकते हैं तो इससे अधिक रुखा और क्या हो सकती है ! ॥ ९ ॥

स उपेक्ष्य वितकंमूमिकां हृदयापिपत्तजपापतापितः ।  
सहसा समकल्पत प्रमुर्धतिभूर्धन्य उपोपणव्रतम् ॥१०॥

तर्क-वितर्कीकी उपेक्षा करके हृदयकी आगके तापसे तपाये गये हुए श्रीमहात्माजीने तपरास व्रतका संकल्प कर लिया ॥ १० ॥

गजवेदनवेकवत्सरे जनवर्याश्च दिने त्रयोदशे ।  
स उपाक्रमतोपवासकं यत्तिवर्यो जनताहितेच्छया ॥११॥

श्रीमहात्माजीने ता० १३-१-१९४८ को जनताके हितकी इच्छासे  
उपवासका आरम्भ किया ॥ ११ ॥

उपवासकथा गृहे गृहे नगरे वापि समस्तभूतले ।  
सपदि प्रतप्ता विवेकिनां हृदये दुःखनिधिस्तरङ्गितः ॥१२॥

दिल्ली शहरमें घर घर और सारी दुनियाँमें भी उपवासकी बात झट  
फैल गयी । विवेकियोंके हृदयमें दुःखसागर उमड़ पड़ा ॥ १२ ॥

नयनाश्रुजलेन संगता हृदयावेदकतारपत्रिकाः ।  
चतसृभ्य उपागता यतेः मविधे दिग्भ्य उदारचेतसः ॥१३॥

आँसुओंके जलसे भरे हुए, हृदयके भावको बतानेवाले अनेक तार  
घारों धोरसे श्रीमहात्माजीके पास आने लगे । यद्यपि तारमें आँसु नहीं  
थे परन्तु उस स्थितिकी सूचना उन तारोंसे मिलती थी ॥ १३ ॥

समदिक्षदयं महामुनिः परमेशाङ्घ्रिरजोनुकम्पितः ।  
प्रतमेतदुपासितुं क्षमः कृपया श्रीजगदीशपादयोः ॥१४॥

श्रीमहात्माजीने संदेश दिया कि, परमेश्वरके चरणकमलोंकी कृपासे  
इस प्रतको—उपवासको करनेमें मैं समर्थ हूँ ॥१४॥

मरणं न ममास्ति दुःखदं शरणं तत्परमं विवेकिनाम् ।  
मम जीवितहेतये मनागपि चिन्ता न निषेव्यता बुधैः ॥१५॥

मुझे मरण दुःखद प्रतीत नहीं होता । वह तो विवेकियोंके लिये  
सर्वोत्तम शरण है । बुद्धिमानोंको मेरे जीवनकी थोड़ी भी चिन्ता नहीं  
करनी चाहिये ॥ १५ ॥

मुझे आपकी दया अपेक्षित नहीं है। परमात्मा ही मेरा सहायक है।  
बच सब मित्र निर्बल बन जाते हैं तब केवल बही रक्षक होता है ॥२१॥

भवतां हृदि जाग्रतीह चेन्मृदुलावृत्तिपरम्परास्तदा ।

परमेश्वरसाक्षिकं दृढं हृदये तिष्ठतु वोच बन्धुता ॥२२॥

यदि आपके हृदयमें कोमल वृत्तियाँ जाग उठी हों तो परमेश्वरकी  
साक्षी बनाकर आप सबे माई माई बन जायें ॥२२॥

सुहृदो मम सन्ति तादृशा घह्वो वीक्ष्य सुदारुणं घ्रतम् ।

हृदये परिपीडिता भृश विकलाः सन्ति निराशतां गताः ॥२३॥

मेरे बहुतसे ऐसे मित्र हैं कि जो भयङ्कर व्रतको देखकर हृदयमें  
अत्यन्त व्याकुल है और निराशा बन चुके हैं ॥२३॥

बहुभिश्च यमुन्धराधिपैर्व्रहुभिर्वा करुणान्वितैः परैः ।

अथ पाकभुवि स्थितैरपि प्रहिताः पत्रपरम्पराः पराः ॥२४॥

बहुतसे राजाओंने और बहुतसे दयालु पाकिस्तानी भाइयोंने मेरे  
पाठ बहुतसे पत्र भेजे हैं ॥२४॥

घ्रतमेतदयामयन्त ते सफलं त्याज्यमिहाविलम्बितम् ।

हृदये बहु धारयाम्यहं सफलेभ्यः सुजनेभ्य आदरात् ॥२५॥

उन लोगोंने मेरे इस उपवासको सफलतापूर्वक छोड़ देनेकी इच्छा  
प्रकट की है। मैं बहुत आदरके साथ उन सभी राजनोंका आभार  
मानता हूँ ॥२५॥

भगवन्त्वमहं समाधितो घ्रतमेतत्परिगृह्य दुस्त्यजम् ।

मरणान्तिकमेत्य शान्तिदं गतवांस्तरस्य महाभुजाश्रयम् ॥२६॥

इस न छोड़ने योग्य व्रतका गीवार करके मैं भगवद्गुणी शरणमें  
पदा हूँ। शांति देनेवाले मृत्युके पाग पट्टेपर मैं भगवद्गुणके महाभुजाके  
आश्रयमें आ पहुँचा हूँ ॥२६॥

न कदापि जनेन केनचिद्रिपुता कैश्चन सेव्यतामिह ।

न कदाचन मुस्लिमैः सह प्रयसद्भिर्जगतीवले समम् ॥२७॥

कोई आदमी किसी से शत्रुता न करे । इस पृथिवीपर आपके समानही प्रवास करते हुए मुस्लिमोंके साथ भी कोई शत्रुता न करे ॥२७॥

गृह्युताद्य वचो मनेरित्तं सन्तुर्मुस्लिमवन्द्युभिः सह ।

यदि नास्ति जगत्तले स्तृतैः प्रियता यो भयकारणं सदा ॥२८॥

आज आप मेरी बात सुनें । पृथिवीमें पैले हुए मुसलमानोंके साथ यदि आपका प्रेमसम्बन्ध नहीं रहेगा तो आपकेलिये सदा भयका कारण बना रहेगा ॥२८॥

यदि तैर्न भयोदरे स्थितैः सुहृदाचारतयात्र हिन्दवः ।

मनसा विमलेन संगता भवितारः पुनरेव वन्दिनः ॥२९॥

असामने चारोओर रहे हुए मुसलमानोंके साथ यदि हिन्दू मित्राचार-पूर्वक गुद्द मनसे एक न होंगे तो फिर बन्दी ही रहना पड़ेगा ॥२९॥

महता हि परिश्रमेण या परिलब्धेह जने स्वतन्त्रता ।

विपशासु गता भवेदसौ कलहः स्याद्युवयोर्द्वयोर्पदि ॥३०॥

महापरिश्रमसे जो स्वतन्त्रता यहाँ प्राप्त हुई है वह शीघ्र ही चर्छा पायगी । यदि तुम दोनोंमें झगडा होगा ॥३०॥

द्विपसा व्रतिनो ममोद्गता युवयोर्ध्यायत एव पञ्च दाम् ।

कृतिनः परमानुष्मपया जगदीशस्य च पठ एपकः ॥३१॥

अपवाद करते हुए और आप दोनों-हिन्दु-मुसलमानोंके कल्याणकी चिन्ता करते हुए मुझ कृतीके पाँच दिन तो ईश्वरकृपासे समाप्त हो गये । यह उर्ध्व दिवस है ॥३१॥

भविताद्य समापितो विधिर्भवतामप्यनुष्मपयानया ।

मुस्लिमैर भया समन्वितः परितोपेण भम प्रवस्य तु ॥३२॥

आप छोमोंकी कृपासे भी मेरे उपवासवा सन्तोषयुक्त विधि आज मैं समाप्त करूँगा ॥३२॥

सिखमुसलिमहिन्दुबन्धवो विबुधाः पावकदेवपूजकाः ।

अथ थीशुपदानुयायिनो हृदयैक्येन सिता स्थिता इह ॥३३॥

सिख, मुसलमान्, हिन्दु, पारसी, ईसाई सभी हृदयकी एकतासे बंधे हुए यहाँ स्थित हैं ॥३३॥

निखिलाः प्रयदन्ति सोत्सवा वयमद्य प्रभृति श्रियै हि नः ।

कलहं विनिपात्य सोदरा इव कामं प्रतिवर्तितास्महे ॥३४॥

उत्साहके साथ सभी कह रहे हैं कि हम आजसे लेकर अपने कल्याणकेलिये ही झगडेको छोडकर सगे भाईके समान यहाँ रहेंगे ॥३४॥

अथ पाकगताः कुतोपि वा स्थितिमन्तो भरतक्षमातले ।

सकला मुसलीमबन्धवः प्रतिवत्स्यन्ति सुखेन निर्भयाः ॥३५॥

जो पाकिस्तान गये थे और किसी कारणसे भारतमें ही रह रहे हैं वह सब मुसलमान् यहाँ निर्भय होकर सुखसे रहेंगे ॥३५॥

इति मे प्रतिभाति साम्प्रतं प्रतिधाचो भवता मुखस्पृशः ।

सकलेषु विनम्रतेक्षिणो मृदु तात्पर्यमिदं मनस्विनाम् ॥३६॥

मनस्विना भवता मुखस्पृशः प्रतिवाचः इति इदं मृदु तात्पर्यम् सकलेषु साम्प्रतं विनम्रतेक्षिणो मे प्रतिभाति = आपलोग मनस्वी हैं । आप सबमें मैं इस समय नम्रता देख रहा हूँ । आपके मुखसे निकले हुए उत्तरका ऊपर जो कह चुका हूँ, वही मृदु तात्पर्य मुझे प्रतीत हो रहा है ॥३६॥

यदि चेदमवो भवेदयं नितरां शुद्धसदर्थं ऊहितः ।

प्रतमस्ति निरर्थकं हृतं मम युष्माभिरनुमदेरितैः ॥३७॥

मैंने जो शुद्ध और उच्च अर्थकी कल्पनाकी है यदि वह आपको स्वीकृत नहीं है तो आपने कष्टनावश ध्यर्थ ही मेरे मतको तोडयाया है ॥३७॥

न मनागपि घीक्ष्यते भयं भयहेतुर्न कुतोपि दृश्यते ।

अथ दर्शितमेव वर्त्म मे प्रतिपन्नस्य च भारतस्य वः ॥३८॥

मैंने जो मार्ग बताया है उसपर चलनेवाले भारतकेलिये और आपके लिये भी बुरा भी कोई भय या किसी ओर से भयका कारण नहीं दीख पड़ता है ॥३८॥

बलतोपहृता मनुष्यतापरिहारे कुशलेन रक्षसा ।

अधुना भगवत्पदानुगाः सुस्मिन्ः स्याम शतायुषो वयम् ॥३९॥

कुशल शैतान, मनुष्यताका त्याग करनेकेलिये ब्रह्मदंस्तीसे हमें खींचले गया था । भगवान्की कृपासे अब हम सौ वर्ष तक सुखी रहकर जीवेंगे ॥३९॥

गुणवद्भृदृये गुणाः पदं निदधीरन्नितरां न किञ्चन ।

इह चित्रमिति प्रतन्वतां गुणसंप्राहकतां हि बन्धवः ॥४०॥

जित हृदयमें गुणोंका निवास है उसमें अधिक गुण आवें इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । अतः मेरे माहियों, गुणोंके समूह करनेकी ही वृत्ति आप धारण करें ॥४०॥

यदि भारतपाकयोर्द्वयोः प्रियबन्धुत्वमुदेप्यति स्थिरम् ।

निखिलश्रितिमण्डलं तदा सुभगं संवृणुते यशस्तयोः ॥४१॥

यदि भारत और पाकिस्तानमें स्थिर प्रियबन्धुता पैदा हो गयी तो सम्पूर्ण पृथिवी उन दोनोंका सुन्दर यश प्रकट करेगी ॥४१॥

यदि नैतद्भीक्षितं भवेत्प्रजयोर्हिन्दुकुरानिनोर्द्वयोः ।

मम जीवितहेतुमत्र नो परिपश्यामि कमप्यनिन्दितम् ॥४२॥

यदि यह बात भारत और पाकिस्तानकी प्रजाको इष्ट नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीनेके लिये कोई उत्तम कारण नहीं है ॥४२॥

परिवर्धयितुं मनुष्यतां सकलो जीवतु जीवसंचये ।

परिलम्भयितुं महत्पदं जनतां धन्यतमस्य जीवनम् ॥४३॥

मनुष्यताकी वृद्धि करनेके लिये और जनताको महत् पद प्राप्त करानेके लिये तो इस संसारमें, भाग्यशाली पुरुष जैसा जीता है वैसे ही जीवनके साथ सभी जीवें ॥ ४३ ॥

सदकालखुदामद्देश्वरा निविलाः सन्ति च वर्णसंचया ।

कमपि प्रभुतापरं प्रभुं ननु सम्बोधयितुं समर्थकाः ॥४४॥

सत्, अकाल, खुदा, ईश्वर यह सभी शब्द किसी परम प्रभुके सम्बोधन करनेके लिये पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं ॥ ४४ ॥

सकल मनुजा अधीयता गुरुवाणी च कुरानमप्यथ ।

अथवा स्मृतिमिखिल्लादिकं न हि संबर्तत इष्टदा भिदा ॥४५॥

सभी आदमी गुरुग्रन्थसाहेबकी पढ़ें, कुरानकी पढ़ें, गीता पढ़ें, इस्लाम पढ़ें। भेद रखनेसे कोई लाभ नहीं है ॥ ४५ ॥

अहमस्ति न पूजकः शिलाशकलस्यापि च हिन्दुतां भजन् ।

परमस्ति भजंश्च कोपि तन्न कदापिह तिरस्करोमि तम् ॥४६॥

मैं हिन्दू होता हुआ भी मूर्तिपूजक तो नहीं हूँ। परन्तु यदि कोई मूर्तिपूजा करता हो तो मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूँ ॥ ४६ ॥

स्थित एव महेश्वरः शिलाशकलेष्वप्यनवद्यसद्यशाः ।

न हि तत्र शिला स ईक्षते भजते श्रीशमुपासकस्तदा ॥४७॥

निर्दोष और पवित्र कीर्तिवाला भगवान् ही पत्थरकी मूर्तिमें भी है ही। भगवान्का उपासक मूर्तिपूजाकालमें मूर्तिमें पत्थर नहीं देखता, भगवान्को ही देखता है ॥ ४७ ॥

यदि नास्ति शिलास्य ईश्वरो न कुरानोपि भजेत्पवित्रताम् ।

स हि सर्वमयाप्य संस्थितस्तत एवास्ति पवित्रितं जगत् ॥४८॥

यदि पत्थरमें ईश्वर नहीं है तो कुरान भी पवित्र नहीं माना जा सकता। यह भगवान् सबसे व्यापक होकर बैठा हुआ है इसीलिये जगत् पवित्र है। तात्पर्य यह है कि जैसे कुरानमें भी ईश्वर व्यापक है

अत एव वह पवित्र है एवम् मूर्तिमें भी ईश्वर व्यापक है और वह पवित्र है अत एव पूज्य है ॥ ४८ ॥

यदि हिन्दुरिहासि कोपि वा प्रतिमापूजक इद्वमानसः ।

अथ सिक्का एतापि मुस्लिमो न हि वर्धेत न चापि हीयते ॥४९॥

चाहे कोई मूर्तिपूजक हिन्दू हो, अथवा सिक्का हो, अथवा मुसलमान हो, यदि सक्का मन पवित्र है तो न कोई उत्तम है और न कोई अधम है ॥ ४९ ॥

भम नास्ति मतो महेश्वरः परसत्यादपरः प्रभावितः ।

स्मरणेन मयास्य साधितं ब्रतमेतत्परिणामसत्कलम् ॥५०॥

मेरे मतमें शुद्ध सत्यसे मिला कोई प्रभावशाली ईश्वर नहीं है। इसी सत्यरूप ईश्वरके स्मरणसे मैंने उत्तम परिणामवाले इस व्रतकी पूर्ण किया है ॥ ५० ॥

परमेश्वरभीदृशं त्यजन्निरिलानेहसि सस्तहायकम् ।

अपरं परिशोधयन्तरः परवान्पापशतानि सेवते ॥५१॥

सदा सब दिन सहायता करनेवाले ऐसे परमेश्वरकी छोड़कर जब मनुष्य अन्य ईश्वरको ढूँढता है तो लाचार होकर सैकड़ों पाप करता है ॥५१॥

निहता बहवो निरागसो निरिन्द्रै श्रीजगदीशनामतः ।

शिशवः शिशुतामतीत्य वा रमभाणाञ्च नवे वयस्यपि ॥५२॥

ईश्वरके ही नामपर बहुतमे निरपराध दुधभुँदे बच्चे और उससे ऊपरकी उम्रमें खेलनेवाले बच्चे मार डाले गये ॥ ५२ ॥

निहताः प्रहृता हृताश्च ता अबला निर्दयिभिः सहस्रशः ।

अगृहीतकराश्च कन्यका अपि तैरामुरिभिर्विपातिता ॥५३॥

निर्दयी लोगोंने हजारों स्त्रियोंको मार डाला, उनपर प्रहार किया और उनका हरण किया। राजसोंने अविवाहित कन्याओंको भी पतित बना दिया ॥ ५३ ॥



बलतो निजधर्ममार्गतो वहवो हिन्दुजनाः पृथक्कृताः ।  
ननु केयमुदारता च का विकसन्ती च मनुष्यतापि वा ॥५४॥

जब दर्दस्तीसे बहुतेरे हिन्दुओंको अपने धर्मसे अलग किया गया । मैं पूछता हूँ कि यह कौनसी उदारता है ? और कौन-सी विकास पाती हुई मनुष्यता है ? ॥ ५४ ॥

निखिलं निखिलैरकारि तन्ननु नाम्ना परमेशितात्मनः ।  
मनुजैः पशुवृत्तिभिः परं न हि सत्येशमपेक्ष्य तत्कृतम् ॥५५॥

सबोंने यह सब जो किमा वस्तुतः वह परमेश्वरके नामसे ही किया । पशुवृत्तिवाले उन मनुष्योंने सत्यरूप परमात्माका विचार करके यह नहीं किया है ॥ ५५ ॥

राष्ट्रस्य नाथो यतिराजसंनिधौ,  
राजेन्द्र आयादतिविह्वलान्तरः ।  
आदाय हिन्दूश्च मुहम्मदीयान्,  
सिक्ख्याश्च संघस्थजनान्प्रतिष्ठितान् ॥ ५६ ॥

राष्ट्रपति बाबू श्री राजेन्द्रप्रसादजी व्याकुल होकर प्रतिष्ठित हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों और राष्ट्रसेवासंघके लोगोंको लेकर श्री महात्माजीके पास गये ॥ ५६ ॥

जाहिद हुसेनोपि महाधिकारी पाकीय आसीत्तदुपस्थितेषु ।  
मुभापसंस्थापितसैन्यसेनापतिश्च वा शाहनवाजकोपि ॥५७॥

पाकिस्तानके एक बड़े अधिकारी जाहिद हुसेन भी उनमेंसे थे । तथा श्री मुभापबाबू द्वारा स्थापित सेनाके सेनापति श्रीशाहनवाज भी थे ॥ ५७ ॥

धीनेहूर्मुर्विरिवास्त मौनमादाय योगेदपरपादर्घ एव ।  
अयुल्ह्लामोपि सदैव तेन सन्माननो मौनमवारिधितासौ ॥५८॥

पण्डित श्री जवाहिरलालजी नेहरू और उनके साथ ही मौलाना भी

अबुल कलाम आवाद जुनचाप उदासमुखसे महात्माबीके पासमें ही बैठे थे ॥ ५८ ॥

शान्तिप्रतिष्ठां लिखितां तदैकां संश्राययामास स राष्ट्रनाथः ।  
हस्ताश्रयैः सर्वमहाजनानां समद्वितां तत्र यतिप्रकाण्डम् ॥५९॥

राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रबाबूने उस समय एक लिखित प्रतिज्ञापत्र बिसमें सभी बड़े बड़े लोगोके हस्ताक्षर थे, महात्माबीको मुनाया ॥ ५९ ॥

सर्वे वयं मुस्लिमहिन्दुसिक्खा अन्येपि सर्वे स्वमतस्वतन्त्राः ।  
इच्छाम आघाय सहोदरत्वं दिल्लीनिवासं मुखशान्तिपूर्वम् ॥६०॥

यह प्रतिज्ञापत्र यह है । हम सब हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे भी धर्मावलम्बी सगे भाईकी भावना रखकर शुभ-शान्तिसे दिल्लीमें रहना चाहते हैं ॥ ६० ॥

दिल्लीमुसल्मानजन-स्व-धर्मरक्षां करिष्याम उदारभावेः ।  
अभूद्यथा पूर्वमितः परं नो भविष्यतीति प्रतिगृण्म एतत् ॥६१॥

हम सब दिल्लीके मुसलमानोंके और अपने भी धर्मकी रक्षा उदार चित्तसे करेंगे । पहले जैसा हो गया है अबसे वैसा नहीं होगा, यह हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ६१ ॥

गांधिं महात्मानमिहाद्य सर्वे विद्वासयामो वयमाद्रंभावेः ।  
स्वाजाकुतुप्सुद्दिन उर्स मेला सदा भवेदेष रथैव पूर्वम् ॥६२॥

हम सब बहुत नम्र होकर महात्मा श्री गांधीजीको विद्वास दियाते हैं कि कुतुबुद्दीनका उर्सका मेला जैसे पहले होगा या, उदा होगा ॥६२॥

करौलयाग्रे च पहाड़गञ्जे रथैव सर्वत्र च सञ्जिमण्ड्याम् ।  
गमागमौ कर्तुमवश्यमेते शक्ता भवेयुर्मुसलीमलोकाः ॥६३॥

करौलबाग, पहाड़गंज, सबनीमंडीमें और सर्वत्र यह मुसलमान् गमनागमन अवश्य कर सकते हैं ॥ ६३ ॥

त्यक्तानि मुस्लीमजनैर्गतैस्तैस्तन्मस्जिदानीह च हिन्दुसिक्त्तैः ।  
नीतानि सर्वाणि निजाधिकारं प्रदापयिष्याम इति प्रतिज्ञा ॥६४॥

वह मुसलमान् लोग जिन मस्जिदोंको छोड़कर चले गये थे और जिन्हें हिन्दुओं और सिक्खोंने अपने कब्जेमें कर लिया है हम उनको दिला देंगे, यह प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ६४ ॥

यानि स्थलानीह भवन्ति मुस्लिमूलोकाधिवासाय न तानि केचित् ।  
यशीकरिष्यन्ति बलाद्धठाद्वा सर्वे धयं कुर्म इति प्रतिज्ञाम् ॥६५॥

मुसलमानोंके रहनेके लिये जो स्थान हैं उन्हें कोई बलसे या हठसे अपने अधिकारमें नहीं लेंगे, यह हम सब प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ६५ ॥

यहिरगता मुस्लिमवन्धवो ये दिल्लीं विहाय स्वमनोरथेन ।  
दिल्ल्यां पुनर्वस्तुमथास्तु तेषामीहा तदागन्तुमिहावकाशः ॥६६॥

स्वेच्छासे जो मुसलमान् दिल्ली छोड़कर बाहर चले गये हैं, वह यदि यहाँ पुनः रहना चाहें तो उन्हें आनेके लिये अवकाश है ॥ ६६ ॥

व्यापारमेतेपि ययेच्छमेव कर्तुं भविष्यन्ति सदा क्षमास्ते ।  
विधातुमेतत्सकलं यतिष्यामहे धयं नात्र च कापि शङ्का ॥६७॥

मुसलमान् भी यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार व्यापार कर सकेंगे । यह सब करनेके लिये हम यत्न करेंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७ ॥

सेनासकलं शास्त्रसकलं नया स्यादपेक्षणीयं न कदापि कैश्चित् ।  
एतत्प्रतिष्ठापरिपालनाय स्ययं विधास्याम इदं धयं हि ॥६८॥

इस प्रतिष्ठा पालन करनेके लिये सेना या सर्कारकी कमी अपेक्षा हम नहीं करेंगे । यह सब हम स्वयं ही करेंगे ॥ ६८ ॥

विनम्रभावेन निवेद्यामो महात्मपादेषु धयं सद्गुःखाः ।  
विधास्यमेतद्धचनं सदैव कदापि मिष्या न भविष्यतीदम् ॥६९॥

हम नम्रताके साथ भीमहात्माजीके चरणोंमें दुःखके साथ प्रार्थना

करते हैं कि इस बचनपर आप विश्वास रखें। यह कमी मिथ्या नहीं होगा ॥ ६९ ॥

कृपां विधायैव महादयालो व्रतं विसृज्याद्य कुरुष्व लोकान् ।  
हिन्दून्सिरान्मुस्लिमपारसीकान्प्रितानपि स्वस्थतमान्तनाथान् ॥७०॥

हे परमदयालु महात्माजी, आप कृपा करके व्रतको छोड़कर हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान्, पारसी, ईसाई सबको स्वस्थ और सनाथ बनाइये ॥ ७० ॥

महाप्रभो त्वं परमः समर्थो निराश्रितानां परिरक्षणाय ।  
वयं तवाज्ञापरिपालनाय स्थास्याम ऊर्जा निखिलेन नित्यम् ॥७१॥

हे महाप्रभो, निराश्रितोंकी रक्षामें आप परम समर्थ हैं। आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये हम सब शक्तिसे सदा खड़े रहेंगे ॥७१॥

यथा भवान्नः परिपालनाय जागर्ति नित्यं कृपया प्रशान्तः ।  
तथैव चाद्यापि वयं निरीक्ष्याः पित्रैव पाल्याश्च सुता वयं स्मः ॥७२॥

जिस प्रकारसे आप हमारा पालन करनेके लिये दयासे सदा जागरूक रहते हैं वैसे ही आज भी हमारा निरीक्षण करेंगे। पिता जैसे अपने पुत्रोंका पालन करता है वैसे ही हमारा पालन करेंगे। हम सब आपके पुत्र हैं ॥ ७२ ॥

एतन्निश्चयं निखिलं यमिनां महेंद्रो,  
विश्वम्भरो व्रतमपास्य दिने च पट्टे ।  
स्वस्थो धभूय परितुष्य महाश्रमेण,  
वृत्त्येन सद्भिस्सुपादितकेन तेन ॥ ७३ ॥

इति सर्वतत्त्वस्वतन्त्रपरमहंसपरिमाजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते  
पारिजातसौरभे  
पञ्चदशः सर्गः

यम पालन करनेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीमहात्माजी यह सब सुनकर और सत्पुरुषों द्वारा महाश्रमसे किये गये इस कार्यसे प्रसन्न होकर छठे दिन उपवासका त्यागकर स्वस्थ हुए ॥ ७३ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितरजिभगीते  
पारिजातसौरभे स्वोपश्रभारतराष्ट्रभाषाटीकायां  
पञ्चदशः सर्गः

## षोडशः सर्गः

वन्नूप्रदेशाद्बहवः समाययुः श्रुतिप्रथाः केचन मूर्ध्नि ताडिताः ।  
संचिच्छन्नवाहकुलयश्च केचन स्रवत्क्षतोत्पन्नसरित्प्रवाहकाः ॥१॥

बहुतसे श्रुतिप्रथ=हिन्दू वन्नू प्रदेशसे महात्माजीके पास आये ।  
उनमेंसे किसीके चिरने मार पड़ी थी, किसीका हाथ कटा था, किसीकी  
अङ्गुलियाँ कटी थी और उन सभीके घावमेंसे रक्तकी धारा बह  
रही थी ॥ १ ॥

आगत्य योगीन्द्रपदारविन्दयोः प्रणम्य साष्टाङ्गमनद्भुता जनाः ।  
आत्मीयदुःखोपकथानकेन ते यतीश्वरं साश्रुमुखं प्रचक्रिरे ॥२॥

आकर श्रीमहात्माजीके चरणदण्डोंमें साष्टांग प्रणाम करके उन  
साधारण लोगोंने अपने दुःखकी कथासे उन्हें रला दिया ॥ २ ॥

ऊचे विपद्ग्राहृद्दीतमानसः प्रकोपितः कञ्चन दैवनिर्दयैः ।  
माहात्म्यतः सर्वमहात्मनां गणानघोनयन्तं यतिभूमिकापतिम् ॥३॥

उनमेंसे निर्दय दैवसे कोपित और दुःखी मनसे एकने सर्व महात्माओं-  
में श्रेष्ठ श्री यतिराजको कहा—॥ ३ ॥

विनाशितं सर्वमिह त्वयैव नो न चावशिष्टं किमपि क्षयोन्मुखम् ।  
कर्तुं न किञ्चित्क्षमसे यतीश्वर प्रयाहि तस्माद्गिरिराजकन्दरम् ॥४॥

कि, आपने ही हमारा सर्वनाश कराया है । नष्ट होनेकेलिये अब  
कुछ बाकी नहीं है । आप तो कुछ कर नहीं सकते अतः हिमालयकी  
गुफामें आप चले जायें ॥ ४ ॥

पूज्यः सतां स प्रतिवाचमादरान्निशम्य तद्वाचमुवाच सद्यतिः ।  
तच्छान्तितात क शृणोमि कस्य वा वचांसि चित्राणि विवृण्वतः पुरः

महात्माजीने आदरसे उसकी बातको सुनकर उत्तर दिया कि, माई मैं कहाँ जाऊँ ! और किसकी बात मुझे ! समी तो मेरे पास आकर विचित्र बातें कर जाते हैं ॥ ५ ॥

कश्चित्प्रतिष्ठातुमिहैव सर्वदोषदेशदक्षो वदति प्रयत्नतः ।  
त्वाह्क् च मां गन्तुमितः सपद्यथो वदत्यजस्रं वद किं करोम्यहम् ॥६॥

कोई तो प्रयत्नपूर्वक मुझे उपदेश देता है कि मैं यहाँ ही रहूँ । तुम्हारे जैसे लोग मुझे यहाँसे जानेकेलिये कहते हैं ! कहो कि मैं क्या करूँ ! ॥६॥

कश्चित्प्रशंसत्यथ कोपि पीडितो निर्भर्त्सयत्येव मुहुर्मुहुर्वत ।  
मां तर्हि संवेदय मार्गमीदृशं गतेन यं शान्तिमयत्नतो लभे ॥७॥

कोई पीड़ित आदमी मेरी निन्दा करता है और कोई प्रशंसा करता है । तुम मुझे कहो कि मैं कौन-सा मार्ग लूँ जिससे बिना श्रमके शान्ति प्राप्त करूँ ॥ ७ ॥

संभर्त्सयेत्कोपि च कोपि गालिकासहस्रपाठं विदधातु तेन किम् ।  
यत्कर्तुमीशः प्रतिबोधयिष्यति तदेव कालेषु मया विधास्यते ॥८॥

चाहे कोई मुझे धमकावे चाहे हजारों गालियों दे, उससे मुझे क्या सम्बन्ध ! भगवान् मुझसे जो करावेगा वही समयपर मैं करूँगा ॥ ८ ॥

त्यं चेन्न कंचिज्जगदीश्वरं परं जगत्प्रणम्यं मनुपे दयानिधिम् ।  
ममान्तरात्मध्यनिमाकलय्य मां विधातुमार्यामवरुन्त्स्य मा कृतिम् ॥९॥

तुम अगर कोई दयालु जगदीश्वरको न मानते हो तो न मानो । परन्तु मुझे मेरे अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार यत्कर्म करनेसे मत रोको ॥९॥

प्रत्येकनारी दुहिता मम प्रिया स्वसापि वेत्येव भयाभिमन्यते ।  
तस्माद्विपत्तामु समागता भवेद्विपन्मयीति प्रथितं मया भवेत् ॥१०॥

प्रत्येक स्त्री मेरी प्रियकन्या है और मेरी प्रिय बहिन है ऐसा ही मैं मानता हूँ । अतः यदि उनपर कोई विपत्ति आवे तो उसे मैं मेरी ही विपत्ति समझता हूँ ॥ १० ॥

नाहं सुहृद्विन्दुसिखादिसद्वियामिति प्रतीतिर्हृदये कुतस्तव ।  
नित्यं मुसल्मानगणस्य मानसं धिनोम्यहं ते तदपि भ्रमो महान् ॥११॥

मैं हिन्दुओं और सिक्खोंका मित्र नहीं हूँ, तुम यह कैसे जानते हो ?  
मैं सदा मुसलमानोंके मनको ही प्रसन्न करता हूँ, यह भी तुम्हारा  
बड़ा भारी भ्रम है ॥ ११ ॥

केनापि नो अस्मि नियोजितः क्वचिन्नोपकाराचरणे नरेण वा ।  
नो वारितः कैरपि लोकसेवनाद्भवाम्पकस्माद्विरतः कदाचन ॥१२॥

किसीके कहनेसे मैं जनताके उपकारमें नहीं लगा हूँ । तथा किसीके  
रोकनेसे मैं लोकसेवासे अकस्मात् कभी भी विरत नहीं बनूँगा ॥ १२ ॥

ईद्रेच्छयैवाहमिमां कृतिं शुभां समाचरामीति निवृत्तिरप्यथ ।  
सम्पत्स्यते श्रीभगवत्सदिच्छया परं न हेतुः प्रभवेदिहापरः ॥१३॥

भगवान्की ही इच्छासे मैं यह सेवारूप शुभ कर्म करता हूँ । इससे  
निवृत्ति भी भगवान्की ही इच्छासे होगी । परन्तु दूसरा कोई कारण  
मुझे रोकनेमें समर्थ न होगा ॥ १३ ॥

यद्यत्समिच्छेत्स हिताय मे प्रभुः करिष्यते तत्र न चिन्तितोत्स्यहम् ।  
इन्ता स चेन्मामिह संजिघांसति जिजीवयिष्येद्यदि जीययिष्यति ॥१४॥

वह मेरे हितकेलिये जो इच्छा करेगा, उसे वह करेगा, इस विषयमें  
मैं कभी चिन्ता नहीं करता हूँ । यदि वह मुझे मार डालना चाहेगा तो  
मार डालेगा । यदि वह बिलाना चाहेगा तो बिलावेगा ॥ १४ ॥

मन्येहमीदास्य वदोस्मि सर्वथा सदा च तत्प्रेरित एव कर्मसु ।  
इष्टेष्वनिष्टेष्वपि संभजे रतिं कदापि कर्तास्वत एव नास्म्यहम् ॥१५॥

मैं मानता हूँ कि सब प्रकारसे भगवान्के ही वशमें हूँ । उसकी  
प्रेरणासे ही मैं इष्ट अथवा अनिष्ट कर्ममें लगता हूँ । मैं स्वतः तो कभी भी  
कर्ता नहीं हूँ ॥ १५ ॥



विंशे तिथौ नाशयितुं तनूमिमां जरातिजीर्णां मम बन्धुरेव सः ।  
चिक्षेप मध्ये सदसः पविं हरेरुपासनायाः समये सविभ्रमः ॥१६॥

बीसवीं तारीखको मेरे इस जराजीर्ण शरीरको नष्ट करनेकेलिये मेरे ही एक पागल भाईने ईश्वरोपासनाके समय समामें बज्र—बॉम्ब फेंका था ॥ १६ ॥

भीरुर्न चाहं न विवाधते भयं मृतेश्च मामल्पमपीह निर्भयम् ।  
रीत्यानया कोपि मनोरथं निजं भवेन्न संपूरयितुं क्षमः क्वचित् ॥१७॥

मैं डरपोक नहीं हूँ । मृत्युका जरा भी भय मुझ निर्भयको नहीं होता है । इस रीतिसे कोई अपने मनोरथको पूर्ण नहीं कर सकता ॥ १७ ॥

फट्टालमात्रां तनुषीतिकां हि मे बलेन हीनां जरयावशीकृताम् ।  
हन्तुं प्रयत्नः क इहास्त्वसौ महान्स शोभते नाहित ईर्मविक्रये ॥१८॥

यह शरीर तो हड्डीमात्र ही है, बल है नहीं, वृद्धावस्थासे पराधीन है उसे मारनेके लिये यह क्या महान् प्रयत्न किया गया है ? फोड़ा-कुन्सीसे विकृत शरीरमें किया गया वह प्रयत्न शोभा नहीं देता है ॥ १८ ॥

युष्माभिरन्यैरपि मूढबुद्धिकैः कदापि नेयः कुपितावन्ति न सः ।  
अज्ञानदण्डप्रहतः स्वभावतो हतः स्वकृत्या कृतया कथञ्चन ॥१९॥

आप लोग तथा अन्य विचारहीन लोग उसपर क्रोध न करें । वह तो स्वयम् अज्ञानदण्डसे दण्डित होकर अपने कर्मसे ही मारा जा चुका है ॥१९॥

हिन्दुः सिरसो यास्तु स मेस्तु तेन किं भवेन्मुसल्मांश्च ततोपि किं मम ।  
स्यात्कोप्यसौ नो व्यधित प्रतिष्ठिता क्रियां ततो दुष्यति देशमात्मनः ॥

जम फेकनेवाला हिन्दु हो, या सिल हो, या मुसलमान् हो, उससे मुझे क्या ? वह कोई भी हो परन्तु उसने अच्छा काम नहीं किया है । उससे अपना देश कलंकित होता है ॥ २० ॥

तरमा अधोशः प्रददातु सन्मतिं भवे भवे पुण्यतमेपु कर्मसु ।  
भक्तिर्भवेत्तद्भृदये सदातनं विरक्तिमाप्नोतु सदा सदुष्यतात् ॥२१॥

मगवान् उसे मुमति दें । प्रत्येक जन्ममें पुण्य कार्योंमें उसकी मक्ति हो । उसके हृदयमें सदा ही दुष्कर्मसे विरक्ति हो ॥ २१ ॥

उक्तं मया पोलिसकर्मचारिणां मुरं न तं पीडयितुं कथंचन ।  
देवेन यः पूर्वतरं निपातितो निहत्य तं किं यशसे भवेत्तव ॥२२॥

मैंने पुलिसके कर्मचारियोंमें मुरय कर्मचारी-पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टको कहा है कि उम ब्रम फेरनेवालेको हिरान न करें । जो देवना पहिलेसे ही मारा हुआ है उसको मारनेसे आपको क्या यश मिलेगा ? ॥ २२ ॥

शक्तोमि वक्तुं न कृतापराधनं जहीति तं चेति परन्तु तन्मनः ।  
जेतुं प्रयत्नो निखिलो निपेव्यतां कदापि तस्मै न हि कुप्यतामिति ॥२३॥

मैंने उन्हें यह भी कहा है कि—मैं यह तो कह ही नहीं सकता कि अपराधीको वह छोड़ दें । परन्तु उसके मनको जीतनेके लिये सब प्रयत्न करें । उसपर क्रोध न करें ॥ २३ ॥

सर्वे वयं चेद्धतकोपवृत्तिका भवेम तत्तस्य मनोविशोधनम् ।  
स्यादेव निश्चप्रचमित्यलं जनैः शमान्वितै रोपरयो निरोध्यताम् ॥२४॥

यदि हम सभी क्रोधकी वृत्ति छोड़ दें तो उसका मन अवश्य ही शुद्ध हो सके । अतः सबको शान्त होकर क्रोधका वेग रोकना चाहिये ॥२४॥

पापं कदाचिन्न धितिप्लुते स्वयं भवन्निराधारमिति श्रुतिश्रुतम् ।  
तस्मादधिष्ठानविनाशहेतवे विधीयतां यन्नगणोल्लैः सदा ॥२५॥

शास्त्रोंमें कहा गया है कि पाप स्वतः कभी निराधार नहीं रह सकता है । अतः उसके अधिष्ठान ( मन ) के नाशकेलिये सबको सदा यत्न करना चाहिये ॥ २५ ॥

पापस्य निःशङ्कतया मनः स्मृतं दुर्धैरधिष्ठानमिति प्रणाशिते ।  
तस्मिन् प्रणद्धयन्ति जघन्यवृत्तयः स्वयं तत स्युर्निरिल्ल अकोपनाः ॥२६॥

निस्सन्देह पापना अधिष्ठान मन है । उसके नाश करनेपर नीच वृत्तियों स्वयं नष्ट हो जायँगीं और उससे सब क्रोधरहित बन जायँगे ॥२६॥

स्थातुं समर्थो भगवान्स केवलः सदा निराधारतया समन्ततः ।  
तद्भक्तलोका अपि नावलम्बनं प्रकामयन्ते कचनाथ किञ्चन ॥२७॥

केवल भगवान् ही सदा ओर सर्वत्र निराधार रह सकता है । उसके भक्त भी कभी कोई ( अन्य ) अवलम्ब नहीं चाहते हैं ॥ २७ ॥

आक्रमको मां समुपेत्य निर्भय क्रियां स्वकीयां कुरुतां यथेच्छया ।  
नान्यः सहायोस्तु च रामनाम मे परं सहायोस्तु तदैव धन्यता ॥२८॥

आक्रमण करनेवाला निर्भय होकर मेरे पास आ सकता है और इच्छानुसार अपना काम कर सकता है । मेरा तो कोई सहायक नहीं है । रामनाम ही मेरा सहायक रहे तो मैं अपने को धन्य मानूँ ॥ २८ ॥

धृष्णोतु मा कश्चिदुपेत्य कोपनो न कोपि युष्मासु भवेत्प्रकोपितः ।  
सर्वं जपन्तो हृदि रामनामस्थितास्तदा धन्यतया वयं सलु ॥२९॥

कोई क्रोधी पुरुष मेरे पास आकर गुहापर हमला करे और आप लोगोंमेंसे किसीको क्रोध न हो और सभी रामनामका जप हृदयमें करते रहें तभी हम सब धन्य हो सकते हैं ॥ २९ ॥

ह्यः कापि कारुण्यधरा मनस्विनी निधाय सा चेतसि साहसं महत् ।  
तं प्राहयित्वा व्यदधात्सती स्त्रियां प्रकोपमूढं तदरोचतैव मे ॥३०॥

कल किसी दयालु, मनस्विनी बहिनने मनमें बड़ा भारी साहस रखकर उस क्रोधोन्मत्त पुरुषको पकड़वाकर अच्छा काम किया । यह मुझे पसन्द आया ॥ ३० ॥

एपाथयैपोस्तु निरक्षरा यदि महत्त्वमस्या न भवेदुत क्वचित् ।  
अस्याथयस्या मन एति शुद्धता यदि प्रवृद्धिं गमयेत्स्वकान्गुणान् ॥३१॥

काई स्त्री हो या पुरुष हो, वह यदि निरक्षर हो तो भी उसका महत्त्व कहीं जाता नहीं, यदि वह अपने मनको पवित्र करे और अपने गुणोंको बढ़ानेका प्रयत्न करे ॥ ३१ ॥

तस्मात्परेहन्यवनीप्रपूजितः सभामुवं सायमुपैतुमागतः ।  
स प्रार्थनायाः समये यथाक्रमं जयेतिनादेन समर्चितोभवत् ॥३२॥

उससे पीछेके दिनमें जगत्पूज्य महात्माजी क्रमके अनुसार प्रार्थना-  
समयमें सायंकाल सभामें आये और ब्यस्रारसे लोगोंने स्वागत किया ॥३२॥

दूरेभवद्वयासपदं ततः स्थलाद्विलोकितस्तैः प्रथमं सभाजनैः ।  
यत्रागतस्तत्र नराधमाधमो यतीन्द्रपादेषु ननाम कदचन ॥३३॥

महात्माजीका लोगोंको बहोसे प्रथमदर्शन हुआ वहाँसे व्यासगादी दूर  
थी । उसी जगह ( वहाँ प्रथम उनका दर्शन हुआ था ) कोई एक मशानीच  
पुष्प आया और उसने महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ३३ ॥

आदाय चहुथस्त्रमसौ स्वहस्तयोर्महाप्रभोर्धत्तसि चोदरे क्रमात् ।  
चिक्षेप तिस्रो गुलिकाः प्रकाशिनीरूपोपणायत्यभुजो जगद्भृदः ॥३४॥

पश्चात् उसने हाथोंमें रिकाल्वर लेकर, उपवाससे निर्वल बने हुए,  
और सम्पूर्णजगत्के हृदय समान श्रीमहात्माजीकी छातीमें और पेटमें  
ध्रमसे तीन गोळियाँ मारीं ॥ ३४ ॥

काले च तस्मिन्मनुगांधिराक्षया यतेस्तथाभापि कनोः सघर्मिणी ।  
आस्तां स्थिते तस्य च पार्श्वयोर्द्वयोर्महागुरो राष्ट्रपितुः सतांसतः ॥३५॥

उस समय महात्माजीकी आज्ञासे श्री० मनुगांधी और श्री० कृत्तुगांधीकी  
पत्नी श्री० आमागांधी उनके दोनों तरफ खड़ी थीं ॥ ३५ ॥

यस्वर्धरन्त्रैकमितस्य योगिराट् सदाशिवो यैशचवत्सरस्य च ।  
मासे च जान्यूअरिमासमुख्यगे तथा नवत्रिंशदिने महेश्वरः ॥३६॥  
लीलागृहीतां स्वतनुं त्यजन्नसौ महायतीशः कृतकृत्यतां गतः ।  
स्वरूपमाप्तरसा हि देवता स्मरन्स रामं हृदये पुनः पुनः ॥३७॥

ता० २९-१-१९४८ ई० के दिन श्रीमहात्माजी लीलादेहको  
त्यागकरके हृदयमें बार-बार रामनाम स्मरण करते हुए स्वरूपमें लीन  
हो गये ॥ ३६-३७ ॥

महाविद्वेषाग्नौ सकलजनतास्तप्तवनयो,

मिथोशत्रूयन्त प्रतिदिनमभूद्वद्वन्द्वकलहः ।

महाक्रोधावेशास्मृतनिजमहापूर्वजगणाः,

सदा हिन्दूलोका मुसलिमवधायोद्यततमाः ॥३८॥

महाविद्वेषरूप आगमें सबका शरीर तप रहा था, परस्पर सब शत्रु हो रहे थे, प्रतिदिन परस्पर लडाइयाँ होती थीं, हिन्दूलोग क्रोधके आवेशमें आकर अपने पूर्वजोंके गुणोंको भूल गये थे, सदा मुसलमानोंको मार डालनेकेलिये तैयार थे ॥ ३८ ॥

अयं श्रीमानीशो निहतयवनान्वीक्ष्य करुणा-

स्रवत्स्रोतोमग्नः परिचरितपञ्चानशानकः ।

व्यधत्ताराच्छान्ति कलिकलकलप्रोज्झितमतिः,

स नाथू हा नाथं जगदकृत सद्यः शवमयम् ॥३९॥

श्रीमान् महात्माजी मरे हुए यवनोंको देखकर करुणानदीमें डूबकर, पाँच उपवास करके, किसी तरह शान्तिकी थी। कलिके प्रतापसे जिसकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी उस नाथूरामगोडसेने जगत्को अनाथ और मुर्दा बना दिया ॥३९॥

स्वातन्त्र्यं भरतक्षितेः स रचयन्सत्यं भुवि स्थापय-

न्नस्पृश्येतिफदक्षरं परिभवन्नार्तार्तिमानाशयन् ।

लीला लोकहिताय तेन विहितास्ताः स्थापयित्वा शिवा,

हा रामेतिवदन्दयाजलनिधिः ज्ञान्तस्वरूपोभवत् ॥४०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिवाजकस्वामिधीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

षोडशः सर्गः

भारतदेशको स्वतन्त्र बनाकर, अस्पृश्यताको मिटाकर, दुःखी जनोंकी पीडासा नाशकर लोहकहस्यामकेलिये की हुई पवित्रलीलाका स्थापन करके हे राम कहते हुए दयासागर श्रीमहात्माजी शा-तस्वरूप हो गये ॥ ४० ॥

इति श्रीपरमहंसपरिवाजकस्वामिधीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्योपशुभारतराष्ट्रभाषाटीकायां

षोडशः सर्गः

## सप्तदशः सर्गः

घरणी नववेदनां गता रहिता गांधिमहात्मना सता ।

अथ सत्यमितो गतं जहत्सशरीरं जगदेतदर्दितम् ॥ १ ॥

महात्मा गांधीके विना पृथिवीने एक नयी वेदनाका अनुभव किया और शरीरधारी सत्य इस दुःखित बगत्की छोड़कर चला गया ॥ १ ॥

नयनानि नृणामनारतं जलजातानि नृणां तनूरिमाः ।

अवदूषितदुस्स्पृशा जलैरघहीनाः सकला वितन्वते ॥ २ ॥

लोगोंके नेत्र जो जलमे पैदा हुए हैं, मनुष्योंके पापसे दूषित होनेके कारण स्पर्श करनेके अयोग्य शरीरोंको जलसे पावर्हीन बना रहे हैं ॥ २ ॥

अथ केन निशम्य मूर्च्छिता यद्यवातां यत मोहनस्य ताम् ।

अथ के न गता निराशतां जननी भूमिमवेक्ष्य दुर्गताम् ॥ ३ ॥

श्री महात्माजीके मारे जाने की बात सुनकर कौन मूर्छित नहीं हुआ ? माता भूमिकी दुर्दशा देखकर कौन निराश नहीं हुआ ? ॥ ३ ॥

न कदापि विलोकिता मही भवनाथेन दुरन्तकेटशी ।

न कदापि विलापवर्णकैर्विलपन्तीयमुपश्रुता क्वचित् ॥ ४ ॥

मग्नान्ने कभी देखा नहीं था कि पृथिवीकी ऐसी दुर्दशा होती है । पृथिवी विलाप करती हुई भी कभी सुनी नहीं गयी ॥ ४ ॥

गत एव मनोविशामको गत एवास्ति मनोरथाश्रयः ।

गत एव मनः शमोय मे गत एवारिलसम्पदां निधिः ॥ ५ ॥

मनके दुःखोंको शान्त करनेवाला चला गया ! मनोरथोंका एकमात्र आश्रय भी चला गया ! मनकी शान्ति भी आज चली गयी ! सर्वसम्पत्तियोंका निधि आज चला गया ॥ ५ ॥

गत एव जगत्सदाश्रयो गत एव प्रतिभापराश्रयः ।

इति दूनमना नभोमणिस्तमसाच्छन्न इहाभवत्क्षणात् ॥ ६ ॥

जगत्का श्रेष्ठ आश्रय चला गया । प्रतिभाका अद्भुत आश्रमी चला ही गया ! इस प्रकारसे दुःखितमनवाले भगवान् सूर्य भी क्षण भरमें ही अंधकारसे ढँक गये ॥ ६ ॥

जगदन्धतमिस्रलेपितं सहसा जातमनातपं तदा ।

हृदये समुदीतवेदनां पुरतः कस्य विकाशयेददः ॥ ७ ॥

जगत् घोर अन्धकारसे लिप गया । संसार सहसा प्रकाशहीन हो गया । अब वह अपने हृदयकी वेदनाको किसके आगे प्रकाशित करेगा ? ॥ ७ ॥

जनतातिविपादविह्वला विरता सर्वकृतेस्तदारता ।

पक्षुपक्षिगणा अपि प्रभारहिता रावहितास्तदाभवन् ॥ ८ ॥

मानवसमूह उस समय विपादसे ब्याकुल हो गया । सब कामोंसे उस समय जनता भरता = प्रेमशून्य हो गयी । पशु-पक्षियोंका समुदाय भी प्रभारहित और राव-हित = शब्दहीन हो गया ॥ ८ ॥

मम राष्ट्रपिता पिता गतो जननी प्वाद्य दिवं गता मम ।

द्युतिरेव ममाद्य पक्षुपोर्व्यतियाता परमार्थदर्शिनी ॥ ९ ॥

मेरे राष्ट्रपिता चले गये । पिता और माता आज स्वर्गवासी हुए । परमार्थ दर्शन करनेवाली मेरी आँसुकी ज्योति चली गयी ॥ ९ ॥

हृदयं मम निर्गतं तनुं विरहय्याद्य निरर्थिकमिष ।

क्वचिदेव गतं मनोपि मे चिरसंगित्वमपालयत्तथा ॥१०॥

इस निरर्थक जैसे शरीरको छोड़कर मेरा हृदय चला गया ! चिर-कालके सम्बन्धको न पालन करता हुआ मेरा मन भी कहीं चला गया ॥१०॥

पतितो यदि संफटेधुना सविधे कस्य नु यानि चिन्तितः ।

इहास्ति हरेन्मम व्यथा मधुरेणैव यच्चक्षयेन यः ॥११॥

आज मैं संकटमें पड गया हूँ । अब मैं चिन्ताग्रन्त होकर किसके पास जाऊँगा ? अब यहाँ कौन है जो मीठे शब्दों से मेरी व्यथाको दूर करेगा ? ॥ ११ ॥

इति हन्त जषाहरः परं व्यल्पद्राष्ट्रपितुः कृते मुहुः ।

सततं हि महात्मनात्मना पयसा प्रेममयेन पालितः ॥१२॥

सदा ही महात्माजीने स्वयं जिन्हें प्रेममय दूधसे पाला था वह पण्डित जवाहरलालनेहरू राष्ट्रपिताकेअधिये इस प्रकार विलाप करते थे ॥१२॥

न हि रोचिरदः प्रकाशते परितोत्मानिह साम्प्रतं ज्वलत् ।

पयमद्य समाधृताः परं तमसामेव चयेन भारते ॥१३॥

अब हमारे चारों ओर जलती हुई ज्योति प्रकाशित नहीं है । आज हम भारतमें अन्धकारसे घिर गये ॥१३॥

न हि राष्ट्रपिताद्य वर्तते गुरुदेवो गत एव मां त्यजन ।

परमः सुहृदस्तमन्वगादधुना को हि निषेव्यतां मया ॥१४॥

आज मुझे छोड़कर राष्ट्रपिता चले गये, गुरुदेव चले गये, परम सुहृद् चले गये । अब मैं किसकी सेवा करूँगा ? किसका आश्रय लूँगा ? ॥ १४ ॥

रुचिरः प्रखरप्रकाशकृन्नहि देहोस्ति ततो न वा क्षतिः ।

सकलं स परीत्य संस्थितः प्रतिभासाय भवत्यलं सदा ॥१५॥

आज वह प्रखर प्रकाशवाला-तेजस्वी सुन्दर देह नहीं है, तो कोई क्षति नहीं । वह तो सर्वत्र व्यापक होकर सदा प्रकाश देनेकेलिये समर्थ है ॥ १५ ॥

निखिलोद्य भवस्तमोनिर्धौ परिमग्नः खलु माययावशः ।

परिहर्तुमनेन दीपितं विजरज्योतिरिदं ज्वलेत्सदा ॥१६॥

अज्ञानसे लालाचर होकर आज सम्पूर्ण जगत् अन्धकार महासागरमें भवश्य ही डूबा हुआ था । उस अन्धकारको दूर करनेकेलिये महात्माजी ने यह अमर ज्योति मुलगायी है ॥ १६ ॥



यदुपादिशदेप नो गुरर्निखिलागम्यसदागमक्षमः ।

नियतं हि तदस्ति शाश्वतं परमं सत्यमनञ्जनं शिवम् ॥१७॥

जो उस सत् शास्त्रमें समर्थ थे जिसे सब नहीं जान सकते थे उन हमारे गुरुदेवने हमको जो उपदेश दिया है वह अवश्य ही नित्य है, परमसत्य है और निरञ्जन है ॥ १७ ॥

स गतः परिहाय नस्तदा तदपेक्षा नियताभवद्यदा ।

नियतां विधिना विलेखितं निपुणोपि प्रतिवर्तयेत् कः ॥१८॥

वह हमें तब छोड़कर चले गये जब हमें उनकी अधिक आवश्यकता थी । ब्रह्माने माग्यमें जो कुछ लिखा हो उसे कौन मिटा सकता है ? ॥१८॥

न वयं समचिन्तयाम यत्तदपेक्षा न कदापि विद्यते ।

विधुरिच्छति कर्हि चिन्न हि द्युमणे. कापि वियोगसन्ततिम् ॥१९॥

हमने कभी सोचाही नहीं कि उनकी अपेक्षा नहीं है । चन्द्र कभी भी सदाकेलिये सूर्यका वियोग नहीं ही चाहता है ॥ १९ ॥

पतिता वयमद्य दुर्दिने विपदम्भोनिधिवीचिताडिताः ।

अथ नः परिहाय तद्रतिर्न विपद्या कथमप्यरिष्टदा ॥२०॥

आज हम दुर्दिनमें पड़े हैं । विपत्तियोंका सागर अपने तरङ्गोंसे हमें ताडन कर रहा है ऐसे समयमें हमको छोड़कर उसका चले जाना किसी प्रकार भी सदा नहीं है और दुःख देनेवाला है ॥२०॥

बहुभिर्दिनमासवृन्दकैर्नहुर्भिवर्पणैरपीह वा ।

विपमुत्तमान्द्रमत्र यत्फलितं नो विपमाय तत्पल्लु ॥२१॥

बहुत दिनों और महीनोंमें, बहुत वर्षोंसे भी यहाँ जो अनवरत विप बोधा गया है वह आज हमारे फटकेलिये फला है ॥ २१ ॥

विपमस्थितिशालिभिस्त्विय तरणायैव विपत्सरिद्धयेत् ।

गुरुशिक्षितवर्त्मनैव तत्पदगामित्वभरेण संभृते. ॥२२॥

हम आज विपम स्थितिमें हैं । गुरुके पताये मार्गसे उनकी

अनुगामिताके मारसे भरे हुए हमें विपत्ति-नदी पार करनी ही है ॥ २२ ॥

न हि येत्र भवन्ति विह्वलाः परिवीक्ष्यैव भयात्सदागमम् ।

त इवेह वयं विपन्निधिं निखिलं धर्षितुमुत्सहामहे ॥२३॥

जो लोग भयस्थानको देखकर ही व्याकुल नहीं हो जाते उन्हींके समान हम इस समस्त विपत्सागरको पार करनेका उत्साह रखें ॥ २३ ॥

गुरुदशितपरमना ब्रजत्र तदन्तर्व्यधयान्यहं क्वचित् ।

अवलोक्य बहुत्पथायनं हृदयं तस्य सहिष्यते व्यथाम् ॥२४॥

हम अपने गुरुके ही दिखाये मार्गसे चलते हुए उनके हृदयको कभी व्यथित नहीं करेंगे । हमारे उत्पथगमनको देखकर उनके हृदयको पीडा होगी ॥ २४ ॥

वयमेक्यमुपास्य सर्वथा जनिभूमेर्विपदां निषेधिनीम् ।

तनवाम सर्तां क्रियां सदा परिवर्ज्यैव विपन्निधायिनीम् ॥२५॥

हम सब एक होकर जन्मभूमिके दुःखको दूर करनेवाले अच्छे काम करें और दुःखदेनेवाले कामको छोड़ दें ॥ २५ ॥

अधिनेतृपदं गता जना बहवो ध्वंसकरां क्रियां प्रति ।

रतिमादधते निरन्तरं प्रकृतेरस्ति हि दुर्निवार्यता ॥२६॥

बहुतसे नेतामी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे नाश ही पैदा होता है । जिसका जेता स्वभाव है वह मिटाया नहीं जा सकता ॥ २६ ॥

मतिमद्भिरुपासितः स नो गुरुरासीद्विरलो महाजन ।

रचनात्मककर्मकर्तृता नितरां संपरिषेवते स्म तम् ॥२७॥

सर्वा विद्वान् दिनकी उपासना करते थे वह हमारे गुरु बिरल महापुरुष थे । रचनात्मक कर्म करना उन्हें प्रिय था ॥ २७ ॥

स हि राष्ट्रपिता महागुरुर्निरिच्छस्यैव मनुष्यताभृतः ।

असता दुरितेन नित्यशो बलतो निर्भयतोप्ययुध्यत ॥२८॥

वह हमारे राष्ट्रपिता सभी मनुष्योंके महागुरु थे। उन्होंने सदा ही असत्यरूप पापके साथ बलसे और निर्भयतासे युद्ध किया है ॥२८॥

द्विपतां न विनाश ईहितो गुरुणा नः कथयाम्यधिक्रमम् ।

परिवर्त्य च शत्रुमानसं स्ववशीकर्तुमपैक्षतानिशम् ॥२९॥

हमारे गुरुने कभी भी पृथिवीपर शत्रुके नाशकी इच्छा नहीं की। वह तो शत्रुओंके मनको केवल बदलकर सदा उनको अपने वशमें लाना चाहते थे ॥ २९ ॥

समभाव उदेतु नः पुरो विपयत्वं प्रतियातु सर्वथा ।

इति तस्य सुपूजनं भवेत्स्मृतिरप्यस्तु च तस्य तादृशी ॥३०॥

हमारे सामने समभावका उदय हो और विपमता सदा दूर जाय। ऐसा करना ही उनकी सर्वश्रेष्ठपूजा होगी तथा उनकी वैसी ही स्मृति बनी रहेगी ॥ ३० ॥

अथ भारतमस्ति भाग्यभुग् जगदैतिह्यनरोत्तमोत्तमः ।

समयातरदस्य मृत्तिकानिचये चारुविचारसंनिधिः ॥३१॥

भारतवर्ष भाग्यशाली है कि, इसकी माटीमें, ससारके इतिहासमें सर्वश्रेष्ठ महापुरुष—जो सुन्दर विचारोंका महान् कोष था, अपनेको प्रकट किया ॥ ३१ ॥

अथ तस्य महत्त्वमुत्तमं निखिलालोकितलोकसत्तमम् ।

निजदेशविदेशभूमिषु प्रभुता तस्य पदाङ्कमार्पयत् ॥३२॥

जगतमें सबसे जो देखा होगा उससे भी उत्तम उनके महत्त्वने और उनकी प्रभुताने स्वदेश और विदेशकी भूमिमें अपना पैर जमा दिया है ॥ ३२ ॥

स हि सत्त्वयिदा महागुरुः प्रतिभाशालिबुद्धाकुलः सदा ।

अपराजितशक्तिः सत्यतिर्यंत आध्यात्मिकवर्त्मसद्गुरुः ॥३३॥

वह तत्त्ववेत्ताओंके महागुरु थे । प्रतिभाशाली लोगोंकी उनके पास सदा मीढ़ रहती थी । वह ऐसी शक्तिके उत्पत्ति थे जो कभी पगजित नहीं हुई, क्योंकि वह आध्यात्मिक मार्गके सद्गुरु थे ॥ ३३ ॥

दश पञ्च दिनानि मानसे तपतां नो गतवन्ति कुत्रचित् ।  
अपि धारिभिरेभिस्त्वैतैर्नयनानां हृदि शुद्धता भवेत् ॥३४॥

हृदयमें सताप करते हमारे पन्द्रह दिन वही चले गये । यदि आँखोंसे निकले हुए इस जलसे हमारे हृदयकी शुद्धता हो जाती तो कैसा अच्छा होता ॥ ३४ ॥

नयनाश्रुजलेन पात्रितं हृदयं स्याद्यदि हन्त नस्तदा ।  
वयमाहितयोगसाधना निकटे तस्य भवेम संमताः ॥३५॥

यदि इन आँसुओंसे हमारा हृदय पवित्र हो जाता तो हम योगसाधन करके उनके निकट पहुँच जाते ॥ ३५ ॥

जगतः प्रतिकोणमाततप्रकृतीनामथ भूमुजामपि ।  
बहुमान्यपदाधिकारिणामुपयातानि दलान्यनेकशः ॥३६॥

जगत्के कोने-कोनेसे समस्त प्रजा और राजाओंके तथा बड़े बड़े पदाधिकारियोंके अनेक पद आये हैं ॥ ३६ ॥

निरिच्छा अपि मानयाः परा सममन्यन्त महानराकृतिम् ।  
प्रियमित्त्रमिति प्रमापको मम पक्षस्य सदेत्यसौ मतः ॥३७॥

सभी मनुष्य उस महापुरुषकी श्रेष्ठ आह्वितिका धादर करते थे । तथा उन्हें अपना मित्र मानते हैं और सभी यह मानते थे कि वह हमारे पक्षके समर्थक हैं ॥ ३७ ॥

अधुना न हि कोपि जीवितुं क्षमते सत्यमिदं न पूर्वयत् ।  
असुपु प्रतिगोर्दमत्र नः मततं विष्टति सद्गुरुर्यतः ॥३८॥

वह सद्गुरु हमारे प्राणोंमें और हमारे मस्तिष्कके प्रत्येक गूदेमें

सतत निवास कर रहे हैं अतः यह सत्य है कि हममेंसे कोई भी पहलेके समान तो नहीं ही जो सकता ॥ ३८ ॥

न च कांस्यमयी न काञ्चनी प्रतिमा तस्य कदाप्यपेक्ष्यते ।  
उपदेशवचो महायतेरनुसर्तव्यमिति प्रपूजनम् ॥३९॥

उनकी कांसिकी अथवा सोनेकी मूर्तिकी कभी आवश्यकता नहीं है । उस महायति के उपदेशोंका अनुसरण करना यही उनकी बड़ी पूजा है ॥३९॥

मृतये फलिजीवनाय वा निरमायां स महोत्तमां सृतिम् ।  
अवलम्ब्य च तां प्रयास्यतामभिधर्मो भविता महानिति ॥४०॥

मरनेके लिये अथवा सफल जीवनके लिये उन्होंने जो सर्वोत्तम मार्ग बनाया है उसका अवलम्बन करके जो चलेंगे उनकी महान् धर्म होगा ॥ ४० ॥

स भवन्निह हिन्दुसन्मणिर्निखिलानामपि मूर्धसन्मणिः ।  
अभवन्ब्रह्मोत्र हिन्दवः समतां तस्य न केपि तन्वते ॥४१॥

यह एक अच्छे हिन्दू होते हुए भी हिन्दू और अहिन्दू सबके शिरोमणि थे । यहाँ बहुतसे हिन्दू हुए हैं परन्तु कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥

असमैव च भारतीयता ऋचिरा तस्य मनो जनुष्मताम् ।  
नियतं नितरां हरिष्यते निजदेशप्रियताभृतां सताम् ॥४२॥

उनकी भारतीयता भी अपूर्व थी—अनुपम थी । उत्तम देशमत्तोंके मनको अवश्य ही वह सदा अपनी ओर लींचिगी ॥ ४२ ॥

न च सन्नपि हिन्दुस्तमो निसिलेष्वेव जनेष्वभिन्नताम् ।  
समपश्यद्दुदारधीः सदा श्रुतिसिद्धान्तविदा न भिन्नता ॥४३॥

उन्होंने एक उत्तम हिन्दू होकर भी गव मनुष्योंमें सदा अभेद (समानता) ही देता है । वैदिक सिद्धान्तोंको जाननेवालोंमें भेदबुद्धि होती ही नहीं ॥ ४३ ॥

निधिलानि मतानि तन्मते पृथिवीगर्भसूतानि वस्तुतः ।  
सर्वतं दधते समानतां नतमीन्नत्यमदत्र नो मतम् ॥४४॥

उनके मतसे पृथिवीपर जितने भी धर्म फैले हुए हैं वह वस्तुतः परस्पर समानता ही धारण करते हैं । उनमें कोई नीचा और कोई ऊँचा नहीं है ॥ ४४ ॥

स विमृश्य महत्प्रयोजनं सकलेष्वेव मतेषु जातिषु ।  
नितरां समयैक्षतेकतामिति सर्वागममत्यश्चेत सः ॥४५॥

वह किसी महान् प्रयोजनका विचार करके सब मतोंमें और सब जातियोंमें एकराका दर्शन करते थे । अतः वह सभी आगमोंसे आगे बढ़े हुए थे ॥ ४५ ॥

मनुजस्य भवेदपेक्षितं किमिति श्रेष्ठ्य सुरोपमः सदा ।  
परिपूर्तय एव तस्य स श्रयते स्मात्र निरन्तरं श्रमम् ॥४६॥

मनुष्यको जिस वस्तुकी अपेक्षा है उसे विचार कर वह देवता समान बापूजी उसीकी पूर्तिकेलिये निरन्तर श्रम करते थे ॥ ४६ ॥

परिधीक्ष्य दृष्टिद्रवामुजां महतीमापदमाशु चिन्तया ।  
अभवद्भवनिद्रजीवना करणामूर्तिरसौ महीयसी ॥४७॥

गरीबोंकी आपत्तियों देखकर चिन्तासे उन दयालुकी नींद उड़ जाती थी ॥ ४७ ॥

स समर्प्य निजं स्वभावतः परपीडाशितकण्टकस्पृशाम् ।  
अधिसेवमनन्यभक्तितोभवदानन्त्यधराधुरातिगः ॥४८॥

दूसरोंके द्वारा खीं गयी हुई पीडारूप तीक्ष्णकाँटा जिन्हें लगा हो उनकी सेवामें स्वभावसे ही अतन्यभक्तिसे अपनेको अर्पण करके अनन्तता युक्त पृथिवीकी कक्षासे बाहर निकल गये—लोकोत्तर बन गये ॥ ४८ ॥

स विहृत्य जनिवमोरसि प्रहृतासारगतद्विपद्वले ।  
गतवानवसन्नमोहजव्यथ एवाक्षुणभङ्गुरां गतिम् ॥४९॥

स विहृत्य जनिवमोरसि प्रहृतासारगतद्विपद्वले ।  
गतवानवसन्नमोहजव्यथ एवाक्षुणभङ्गुरां गतिम् ॥४९॥

जन्मभूमि की जिस छातीपरसे अपार विपत्तिके बलको नष्ट कर दिया या उसीपर विहार करके अज्ञानकी, कोई भी व्यथा बिनमें नहीं थी वह राष्ट्रपिता स्थायी गति-मोक्षधामको प्राप्त हो गये ॥ ४९ ॥

निखिलं जगदद्य रोदिति प्रतियाते स्वरितो जगद्गुरौ ।

न कदापि भवोनुभूतवान्विरलामीदृशमेकर्ता नृणाम् ॥५०॥

उनके यहाँसे परधाम चले जानेपर सम्पूर्ण जगत् रो रहा है । ससारने मनुष्योंकी ऐसी एकता कभी देखी नहीं थी ॥ ५० ॥

अथ पाकनिवासिनामपि श्रयते दुःखशिखां भृशं मनः ।

विनिपात्य कटुत्वमुद्रतं बहूना मासगणेन दुःखदम् ॥५१॥

कितने ही महीनोसे जो दुःखप्रद कटुता पैदा हुई थी उसे दूरकरके पाकिस्तानके लोग भी आज दुःख अनुभव कर रहे हैं ॥ ५१ ॥

अविभक्तमिदं यदाभवद्गुरु राष्ट्रं हृदयैकता तदा ।

अभवत्परिधीक्षिताद्य सा निखिलैरेव जगन्निवासिभिः ॥५२॥

जब यह महान् राष्ट्र विभक्त नहीं हुआ था उस उमय लोगोंने जो एकता यहाँ देखी थी उसी एकताको सम्पूर्ण जगत्की प्रजाने आज देखा है ॥ ५२ ॥

अभिवाञ्छितमत्र तेन यद्दृदयैक्यं ननु हिन्दपाकयोः ।

मरणेन तदाहितं क्षणान्महता मृत्युरपीह सक्रियः ॥५३॥

गर्भपिता यहाँपर भारत और पाकिस्तानके हृदयकी एकता चाहते थे । वह एकता उनके मरणसे क्षणभरमें सिद्ध हो गयी । सत्य है, महापुरुषोंका मृत्यु भी उत्तम कार्य करता है ॥ ५३ ॥

न वयं बहुमूल्यतां च तां प्रतियातस्य गुरोर्विचिन्महे ।

यत एव स आत्मरूपतां प्रतिपन्नः क्लिष्ट मादृशैः सह ॥५४॥

हमारे गुरुदेव चले गये इसका हम बहुत मूल्य नहीं करते हैं । क्योंकि वह तो हम लोगोंके साथ यहाँ ही आत्मरूप बन गये हैं ॥ ५४ ॥

अतिवैगपरायणाः प्रजा अनुयास्यन्त्य इहोत्सुका यतिम् ।

अचिरेण चिरेण वापि ताः परिव्रक्ष्यन्ति तदर्घमातुराः ॥५५॥

भारतीय प्रजा बहुत वैगके साथ राष्ट्रीयवादा अनुगमन करेगी ।  
और वही देरसे या बर्दासे उनका मूल्य करेगी ॥ ५५ ॥

मुफ़्लं दुरितेन नाप्यते यदि वाप्येत न तद्वि सत्कलम् ।

समजूघूपमेतदन्वहं प्रतिपन्नः शुचि सत्यवर्त्म सः ॥५६॥

उन्होंने पवित्र सत्यमार्गपर आरूढ रहकर सदा ही वह घोपगाफी  
है कि दुष्ट कर्मसे कमी भी सत्कल नहीं मिलता है । यदि सत्कल  
ऐसा मादम हो तो भी वह सत्कल नहीं ही है ॥ ५६ ॥

अथ सत्यपरायणेन चेषुटिरल्पाप्यवलोकितात्मनि ।

घुपिता नचिरेण तेन सा शिखराणि प्रतिपद्य भूमृतः ॥५७॥

सत्यपरायण राष्ट्रपिताने यदि अपनेमें बरा भी चुट्टि देखी हो तो,  
शाम ही पर्वतके शिखरोंपर चढ़ चढ़कर उसकी घोपगा कर दी है ॥५७॥

अथ दोषमसत्यमर्दितुं नितरां प्रैरयदात्मसंस्थितः ।

यतिराजममुं महाप्रभः सततं सत्यमहेद्वरः परः ॥५८॥

अन्तरात्मानें सदा स्थित महती प्रमावाला सत्यरूप परमात्मा,  
असत्यरूप दोषको नष्ट करनेकेलिये उन्हें सदा प्रेरणा करता रहता  
था ॥ ५८ ॥

परिणामपरीक्षणोद्भवाद्बहेलामकरोन्न तस्य सः ।

अनलं विनिपत्य दुःखिनां परिरक्षानियतोभवन्वृणाम् ॥५९॥

परिणामकी परीक्षाके मयसे—क्या परिणाम आयेगा इस मयसे उन्होंने  
सत्यकी कमी अवहेलना नहीं की । आगमें पड़कर भी दुःखियोंकी रक्षामें  
वह लय गये थे—लग जाते थे ॥ ५९ ॥

अपमानमुवं प्रसारिता निरिल्ला अन्त्यसमुद्भवाः प्रजाः ।

अनुसृत्य हि सत्यमर्तिहं गुरुणा तेन सताधिरक्षिताः ॥६०॥



सभी अन्त्यज—हरिजन अपमानित कर दिये गये थे। दुःखनाश करनेवाले सत्यका अनुसरण करके ही सद्गुरुने उनकी रक्षा की ॥ ६० ॥

अथ सत्यसमर्चनादसौ समभून्मानवतासुरक्षकः ।

अथ सत्यसमादरादसावभवत्सर्वजनैः समाहृतः ॥६१॥

सत्यकी पूजा करनेसे ही वह मानवताके रक्षक बने थे। और सत्यके आदरसे ही वह सबके आदरके पान थे ॥ ६१ ॥

स हि यत्र धरातले स्थितस्तद्भून्मन्दिरमुज्ज्वलं सताम् ।

अदधात्पदकञ्जमात्मनः पृथिवी तीर्थमभून्मनोहरम् ॥६२॥

उन्होंने जहाँ निवास किया वह स्थल ही सज्जनोंकेलिये सुन्दर<sup>1</sup> मन्दिर बन गया। और उन्होंने जहाँ अपना चरणकमल रखा वही पवित्र तीर्थ बन गया ॥ ६२ ॥

न शरीरमवाप्स्यतेधुना यतिराजस्य महाप्रयत्नतः ।

अजरस्य यतो विनश्चरं न हि संतिष्ठत आशु नश्यति ॥६३॥

महान् प्रयत्नसे भी अजर यतिराजका शरीर अब नहीं मिल सकेगा। क्योंकि वह विनाशी था। विनाशी वस्तु स्थिर नहीं रहती, शीघ्र नाश पाती है ॥ ६३ ॥

न स चीक्षितुमत्र शक्यते कथमप्येव परिश्रमैरपि ।

न हि तस्य मुखध्वनिस्तथा भविता वा श्रुतिगोचरः पुनः ॥६४॥

परिश्रम करनेपर भी किसी प्रकारसे अब हम उन्हें देख नहीं सकते। और उनके मुखसे अब वह शब्द भी पुनः सुननेको नहीं मिलेगा ॥ ६४ ॥

सफलं हि शरीरगं गतं परमक्षय्यमनोहरा स्मृतिः ।

सततं हृदयेश्वरीय सा सशरीरा परिघत्स्यति ध्रुवम् ॥६५॥

शरीरके साथकी सभी ही चीजें उनकी चली गयीं। परन्तु उनकी वह मनोहर याद हृदयेश्वरीके समान सदा बढ़ती ही रहेगी ॥ ६५ ॥

गुरुणा परिशिक्षिता वयं निरता देशहितेषु संततम् ।

परितः समवेत्य निर्विपा विदधामात्र हितप्रदाः क्रियाः ॥६६॥

गुरुदेवने हमें सिखाया है अतः हम देशहितमें लग गये हैं ।

हमको चाहिये कि सब ओरसे निर्विप होकर—बहर त्याग करके हितकारक काम करें ॥ ६६ ॥

सततं हितमेव बोधयन्गतरागादिदुरन्तदुर्गुणः ।

अधिराष्ट्रपिता ह्यशिक्षयत्कथमुत्थातुमिहाल्पकाद्य नः ॥६७॥

∴ सदा हितका उपदेश करनेवाले रागादि दोषोंसे रहित हमारे राष्ट्र-  
पिताने हमको सिखाया है कि नीचेसे ऊँचे कैसे आना चाहिये ॥ ६७ ॥

विधिना परिमृष्टवर्त्मना विरहृष्यात्मविचारगोनताम् ।

अमुनैव परेषु संस्थितान्सुगुणानाप्लुमधिक्षमामहे ॥६८॥

विधिपूर्वक साफ किये गये मार्गसे अपने विचारकी न्यूनताको दूर  
करके इसी मार्गसे अन्योमें रहे हुए सद्गुणको प्राप्त करनेमें समर्थ  
हो सकते हैं ॥ ६८ ॥

गुरवो यतिजीवनान्तिमा ननु भासास्तु क्रियन्त एव ते ।

ज्ञपयन्ति तदीयगौरवं महती तस्य हृदोप्युदारताम् ॥६९॥

राष्ट्रपिताके जीवनके अन्तिम महीने तो कितने भारी थे । वही  
उनके गौरव और उनके हृदयकी उदारताको कह रहे हैं ॥ ६९ ॥

विरलः प्रतिपद्यते मृत्तिं कृतकर्मा जगतीह तद्विधाम् ।

निखिलैर्न नरैरुपासितां विबुधैर्नापि सुरैर्न चापरैः ॥७०॥

त्रिस्र प्रवारका मृत्यु उन्होंने प्राप्त किया है उसको तो विरल ही प्राप्त  
करते हैं । किमी मनुष्यने, विद्वान्ने, देवताने, दानवने देखा मृत्यु  
नहीं प्राप्त किया है ॥ ७० ॥

परिमातुमदास्य एव तद्गुणराशिर्निखिलैर्नृण्यैः ।

न हि वर्गपरम्परास्ति नः शिरसि श्यापितुमेनमद्वयम् ॥७१॥

सारे ही मनुष्य उनके गुणोंको माप नहीं सकते । हमारे तिरमें तो इतनी वर्णमाला भी नहीं है कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें ॥ ७१ ॥

स भवे कृपया समागतश्चिरमत्रावसति समातनोत् ।

उददीधरदात्मजन्मभूभरमन्ते च गतः शिष्यं पदम् ॥७२॥

वह कृपा करके इस संसारमें आये और बहुत दिनों तक रहे । अपनी जन्मभूमि माताका मार इटाया और अन्तमें मोक्षधाम चले गये ॥ ७२ ॥

अलमस्तु च तत्प्रशंसया न हि तां स प्रतिपालयेदपि ।

गतयोस्तु महत्पदाब्जयोज्जगताप्यन्त हि शक्तिमालिकाः ॥७३॥

उनकी प्रशंसा हम क्या करें ? वह उसकी इच्छा भी तो नहीं रखते । जगत्ने तो मरनेपर ही महापुरुषोंके चरणोंमें प्रशक्तिमाला पहिनायी है ॥ ७३ ॥

नितरां घयमात्म बालका महत्तस्तस्य गुरोः प्रियोत्तमाः ।

स च योग्यतया पराहृतेः कथमस्तु स्तुत एव दुर्विधैः ॥७४॥

हम उस महान् गुरुके सर्वप्रिय बालक थे । हम योग्यताहीन हुए हैं, दुर्गत हैं, हमसे उनकी स्तुति कैसे की जा सकती है ? ॥ ७४ ॥

पृथगेय गतास्मदद्य सा प्रतिभाभा च चिराय यद्यपि ।

अनुज्ञासनमेव रूष्मद्दे यत तस्यैवमिति प्रचिन्तनैः ॥७५॥

वह प्रतिभा और वह आभा आज हमसे यद्यपि चिरकालके लिये अलग हो गयी है । तथापि उनकी आज्ञाका-शिक्षाका पालन करें । उसे पालन करनेका मार्ग इसी प्रकारसे उनका गुणचिन्तन ही है ॥ ७५ ॥

घयमद्य विनिर्मिताः सता गुरुणा तेन महामनस्विना ।

उचितेन पथैव माहृताः कथमर्हाम इदं प्रभापितुम् ॥७६॥

उस महान् गुरुने हमको उचित मार्गसे ही धनाया है, इसे हम कैसे कह सकते हैं ? ॥ ७६ ॥

वयमाप्य महानलद्रुहृब्बलतः शक्तिमृतः कणांस्ततः ।

अनुगन्तुमतः क्षमाः सदा प्रथितैतेव पथा च तेन हि ॥७३॥

इमनें उस महानलसे जलनी हुई शक्तिशाली ब्रह्मती चिनगारियो  
प्राप्त की है । अतः हम उनके बनाये मार्गसे जानेके लिये समर्थ है ॥७३॥

स समैहत ससृहं सदा श्रमकर्मात्मयमादिभावनाः ।

हृदये न सदेतुमर्यदा गुणगृह्या अभवाम नो वयम् ॥७८॥

उन्होंने सदा यह इच्छा की थी कि हमारे हृदयमें मेहनतके काम  
करनेकी भावना उत्पन्न हो, उससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी ।  
परन्तु हम गुणग्रहण करनेवाले न बनें ॥ ७८ ॥

विगतानु समासु विंशती दशसूत्रलभित्वापतः सता ।

निरमीयत देश एष तं विरलां लागमुयं ह्यनाययत् ॥७९॥

गत १० वर्षोंमें उन्होंने इस देशका, इसे उन्नत बनानेकी इच्छासे  
निर्माण किया है और हमको अद्वितीय त्यागभूमिमें पहुँचा दिया है ॥७९॥

अचदात्तयशा महागुरुः प्रबलं विग्रमवाप्य मार्गाम् ।

कुपितो न कदापि नो कटु स्मयमानो वचनं स उक्तवान् ॥८०॥

निर्मल यशवाले महागुरु गस्त्रमें प्रबल विघ्नकी देरकर न तो कमी  
हुए और न कमी कटुवचन बोले ॥ ८० ॥

हृदये स निपीडितः परं स्वयुगीयः सकलस्य सद्गुरुः ।

षलितान्नुपयो निरीक्ष्य को निजशिष्यान्न हि सिद्यते गुरुः ॥८१॥

विघ्न आनेसे वह हृदयमें दुःखित हो होते थे । वह सबके अपने  
समयके सद्गुरु थे । विघ्न आनेका अर्थ है उनके अनुयायियोंमें किसी  
दोषका आना । इसीलिये वह दुःखी होते थे । अपने शिष्योंको  
उन्नामसे षलित देरकर किस गुरुको खेद नहीं होता ॥ ८१ ॥

समयः स विभास्यति स्वयं विगतैष्यत्र समाशतेषु वा ।

अथ गाधिनुरागीषसिद्धिकाः उपचेतुं ह्यपचायितुं च वा ॥८२॥

सौ वर्ष बीत जानेके बाद गाधीयुगकी सिद्धियोंको बढ़ाने या घटानेका वह समय स्वयं आवेगा ॥ ८२ ॥

स भविष्यत् आत्मचिन्तकः समतीतस्य च भारतस्य वा ।  
महती प्रतिभाभवच्छिवा विरधय्यास्य च वर्तमानताम् ॥८३॥

वह भविष्यत् तथा अतीत दोनों ही भारतके आत्मचिन्तक थे । तथा इसके वर्तमानकालका निर्माण करके उनकी महती प्रतिभा कल्याणकारिणी सिद्ध हो गयी ॥ ८३ ॥

यज्ज्योतिः प्रकटयितुं महायतीन्द्रः,  
स्वात्मानं परमकृपानिधि व्यर्होपीत् ।  
अज्ञानान्धवृत्तमनोनिले यथेच्छं,  
तज्जीयात्सततमितीष नोस्ति कार्यम् ॥८४॥

जिस ज्योतिको प्रकटानेके लिये परमदयालु महायतिने अपनेको अज्ञानरूप अन्धकारसे घिरे हुए लोगोंके मनरूप अग्निमें स्वेच्छासे होमकर दिया वह ज्योति सदा विजयी रहे, यही हमें करना है ॥ ८४ ॥

सज्जन्मा निजबलबुद्धितः स्वतन्त्रां,  
जन्मक्षमामरचयदाशु दीर्घकालात् ।  
दुर्बद्धा बहुविधलोभरज्जुबद्धै—  
रद्यापीह विजयते स देवप्रभः ॥८५॥

पवित्रजन्मवाले महात्माजीने अपने बल और बुद्धिसे चिरकालके पश्चात् उस मातृभूमिको स्वतन्त्र बनाया जिसे अनेक प्रकारके लोभरूप डोरीते बंधे हुआोंने धुरी तरह बाँध रखा था । देवसमान कान्तिवाले वह आज भी विजय पा रहे हैं ॥ ८५ ॥

सत्यज्योतिरिह प्रकाश्य विमलं हिंसामुदस्यैव वा,  
धर्मोणां प्रशमय्य सर्वकलहं संस्थाप्य मैत्री मिथः ।  
सृष्टयासृष्ट्यगुधाविचारजतमोजन्यातिविद्वेषणं,  
सयं तत्परिहृत्य मुक्तिपदवीं प्राप्य स्थितो राजताम् ॥८६॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

सप्तदशः सर्गः

यहाँ निर्मल सत्यग्योतिको जलाकर, हिंसाको मिटाकर, धर्मोंके क्षण्डों-  
को शान्त करके, परस्पर मित्रता स्थापित करके, यह स्पृश्य और यह  
अस्पृश्य है इस प्रकारके मिथ्या विचारसे पैदा हुए अज्ञानसे उत्पन्न हुए  
द्वेषको दूर करके, मुक्तिपदको पाकर—ब्रह्मस्वरूप होकर महात्माजी शोभा  
दे रहे हैं ॥ ८६ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकायां

सप्तदशः सर्गः



## अष्टादशः सर्गः

जवाहर उवाचेदं पुनरुद्दिश्य तं यतिम् ।  
क्षणेनैव गतः क्वासावहो विधिविदम्बनम् ॥ १ ॥

पण्डित श्रीब्रवाहिरलालजी महात्माजीको उद्देश्य करके पुनः बोले, वह क्षणभरमें ही कहाँ चले गये ? अहो विधिकी लीला ! ॥ १ ॥

गतो बापू गतो नेता सर्वेषां स सखा गतः ।  
वञ्चिताः स्मो वयं चाद्य विधात्रा क्रूरकर्मणा ॥ २ ॥

सबके बापूजी गये, सबके नेता गये और सबके मित्र गये । क्रूर विधाताने हम सबको आज टग लिया ॥ २ ॥

सर्वे वयमनाथाः स्मः पित्रा तेन विना कृताः ।  
प्रयातोस्मान्विहायैव न निवर्तिष्यते पुनः ॥ ३ ॥

उस पिताके विना आज हम सब अनाथ हैं । हमको छोड़कर वह चले गये और फिर लौटेंगे नहीं ॥ ३ ॥

रोमनर्वक एतादृगितिहासो न विद्यते ।  
इतिहासविपत्कालो वर्तते क्वच्यते च हत् ॥ ४ ॥

रोमाञ्च करनेवाला ऐसा इतिहास है नहीं । यह इतिहासकी विपत्तिका काल है । हृदय ठकल रहा है ॥ ४ ॥

तेषाममोघनेष्ट्वं स्वशासनमदापयत् ।  
तेषां स्थितिर्भुवः पृष्ठे मानवान्तर्विशोधिका ॥ ५ ॥

उनके सफल नेतृत्वने हमको स्वराज्य दिलाया । पृथिवीपर उनका रहना मनुष्योंके हृदयको शुद्ध करनेवाला था ॥ ५ ॥

अहिंसायाः स आचार्योहिंसायाः स प्रचारकः ।  
नाशमोद्वीक्षितुं क्वापि स हिंसारत्नभारतम् ॥ ६ ॥

यह अहिंसाके आचार्य थे और उसीके प्रचारक थे । यह भारतको हिंसक कमी देख नहीं सकते थे ॥ ६ ॥

अस्मान्त नीतिविभ्रष्टान्वालोक्त सन्मतिः ।

पिता बालानिवैधास्माननैपोत्सत्यं यतिः ॥ ७ ॥

जैसे पिता बालकको सन्मार्गमें ले जाता है वैसे ही यह हम नीति-  
घ्रष्टोंको सन्मार्गमें ले गये ॥ ७ ॥

प्रेम्णामितेन राजर्षिब्रह्मर्षिर्वापि योगिराट् ।

कोपरूपमहारक्षोयाधिर्वासा तवान्सनः ॥ ८ ॥

उन राजर्षि अथवा ब्रह्मर्षि अथवा योगिराजने अपार प्रेमसे हमको  
कोपरूप रक्षासे पीड़ित होते हुए सदा बचाया ॥ ८ ॥

महाधिपत्तिकाले नः स एव दृढ आश्रयः ।

तस्मिन्नाते गतोस्माकं रक्षकः शान्तिदायकः ॥ ९ ॥

मारी विपत्तिके समय बड़ी हमारे दृढ़ आश्रय थे । उनके चले जानेपर  
हमारा रक्षक और हमें शान्ति देनेवाला चला गया ॥ ९ ॥

अभविष्यन्त चेत्सोद्य महाराजो महद्दृष्टाम् ।

हिसाराजकताद्वैपरनह्वथाभाव्यवस्थया ॥१०॥

यदि इस समय सभी महान् पुरयोंके हृदयके महाराज यह न होते  
तो हम हिंसा, अराबन्ता और द्वेषसे, अन्यवस्थाके कारण, नष्ट हो गये  
होते ॥ १० ॥

उन्नत्तेनैककोपेन जराजीर्णं फलेपरम् ।

अभिन्त तस्य देवस्य निर्जरस्यामरस्य च ॥११॥

उन्नत एक ही कोपने अर्थात् जोराने उन अन्न अमर देवके  
ब्रह्मवस्थासे बीर्ण शरीरको फाड़ दिया ॥ ११ ॥

गुणिनस्तस्य भाविन्यो गुणानां जगतः प्रजाः ।

स्मरिष्यन्ति फरिष्यन्ति पश्चात्तापमनीश्वराः ॥१२॥



जगत्की भावी प्रजा उन गुणी बापूके गुणोंका स्मरण करेगी और  
असमर्थ होकर पश्चात्ताप करेगी ॥ १२ ॥

सर्वशास्त्रविदां तत्त्वज्ञानिनां ब्रह्मवादिनाम् ।

आप्तवान् गतिमच्छेद्यामभेद्या मर्मवित्स हि ॥ १३ ॥

सर्व शास्त्रोंके जाननेवालों, तत्त्वज्ञानियों और ब्रह्मवादियोंको जो गति  
प्राप्त होती है उसी अच्छेद्य और अभेद्य गतिको वह प्राप्त हुए हैं ॥ १३ ॥

धारयामो धयं तस्मै धनु श्रीपरमात्मने ।

श्रेयोस्माकमुपाहर्तुमजिहिपीत्तनुं स्विकाम् ॥ १४ ॥

हम उन परम आत्माके बहुत ऋणी हैं । उन्होंने हमको कल्याण  
प्राप्त करानेके लिये अपना शरीर छोड़ दिया ॥ १४ ॥

कृतवन्तो धयं पापं महदेव गतत्रपाः ।

प्रत्येकं भारतक्ष्माजा भवेयुर्नतमस्तकाः ॥ १५ ॥

हम निर्लज्जोंने बहुत बड़ा पाप किया । प्रत्येक भारतवासीका मस्तक  
नत रहेगा ॥ १५ ॥

अस्मास्वेको हि पापात्मा प्रमत्तश्च दुरन्वयः ।

निर्दयो निस्त्रपश्चामुं श्रीमहानिधिमाहरत् ॥ १६ ॥

हमारेमेंसे ही एक अकुलीन, प्रमत्त, निर्दय, निर्लज्ज पापीने इस  
धीके महामण्डारको उठा लिया ॥ १६ ॥

क्षमतामीश्वरो मूढं दुरात्मानं च दुर्धिषम् ।

प्रयस्याम धयं चापि क्षन्तुमेवाधमाधमम् ॥ १७ ॥

उस दुरात्माको भगवान् क्षमा करें । हम भी उस महानीचफो क्षमा  
करनेका ही प्रयास करें ॥ १७ ॥

पिता राष्ट्रस्य जीवेच्छेद्यालुर्दीनयत्सलः ।

भवेद्देय दुरन्तेस्मिन्कृतान्तेन प्रवारिते ॥ १८ ॥

यदि राष्ट्रपिता बीते होते तो दुष्टके ऊपर दयालु ही होते ॥ १८ ॥

शोकानलपरीताः स्मः प्रलयानिलसंवृताः ।

निराशाकलितो देशः सकलेशः सर्वथाभवत् ॥ १९ ॥

हम सब निराशापूर्ण हो गये । प्रलयनालके वायुसे हम घिर गये ।

देश निराशापूर्ण और दुःखी हो गया ॥ १९ ॥

भगवानाशिषां राशिं वर्षत्वस्मासु सहयः ।

निराधारेष्वपारेत्र निमज्जत्सु तमोनिधौ ॥ २० ॥

इस अपार अन्धकार सागरमें हम डूब रहे हैं । दयालु भगवान् हमारे ऊपर आशीर्वादोंकी वर्षा करें ॥ २० ॥

भवेम शक्तिसम्पन्ना विपन्ना हि वयं पुनः ।

तन्निदर्शितमादर्शं प्राप्नुयाम प्रयत्नतः ॥ २१ ॥

हम दुःखी हैं । पुनः शक्तिसम्पन्न बनें । बापूजीके बताये हुए आदर्शको हम प्रयत्नसे प्राप्त करें ॥ २१ ॥

साम्प्रदायिकविद्वेषानलज्वालाकरालताम् ।

शमयितुं नैव शक्ता अभूमानवधानतः ॥ २२ ॥

साम्प्रदायिक विद्वेषकी भागकी ज्वालाकी मण्डलताको हम भूलसे शान्त नहीं कर सके ॥ २२ ॥

तव एव हतो देशो हन्त प्रणिहता वयम् ।

हतं सौभाग्यमस्माकं निहता सत्यता शिवा ॥ २३ ॥

इसीसे देशका नाश हुआ । हम मारे गये । हमारा सौभाग्य नष्ट हो गया । सत्यताकी बर्बादी हो गयी ॥ २३ ॥

हिंसयाद्य हताहिंसा हिंसितो धर्म उज्ज्वलः ।

हिंसिता हि नराकारा दया निष्ठा क्षमा रमा ॥ २४ ॥

हिंसाने अहिंसाको मार डाला, निर्मल धर्मका बध कर दिया और मनुष्यके रूपमें रही हुई दया, निष्ठा, क्षमा, रमाका भी बध होगया ॥ २४ ॥

मन्तवो दूरमुत्सार्थाः स्वीकार्याः प्रेमतन्त्रवः ।

अरीणामनरीणां च सम्यक्त्वे हि प्रयोजकाः ॥ २५ ॥

शोधको दूर फेंक देना चाहिये । प्रेमतन्त्रका स्वीकार कग्ना चाहिये ।  
क्योंकि शत्रु और मित्रके यही कारण हैं ॥ २५ ॥

भावमेव परित्यज्य नृहिंसाप्रतिहिंसयोः ।

अहिंसा सरल्य भव्या पर्युपास्या मनोरमा ॥ २६ ॥

मनुष्यकी हिंसा और प्रतिहिंसाके भावको छोड़कर सरल, सुन्दर,  
मनोहर अहिंसाकी ही उपासना करनी चाहिये ॥ २६ ॥

अहिंसयैव साम्राज्यमसौ श्वेतं व्यकम्पयत् ।

विजानन्तोप्यजानन्त इवाभूमेति दुःखकृत् ॥ २७ ॥

बापूजीने अहिंसासे ही अप्रेमी साम्राज्यको हिला दिया था । जानते  
हुए भी हम अज्ञानके समान बने इसीने दुःख पैदा किया ॥ २७ ॥

प्रतिजानीमहे सर्वे वयं भारतवासिनः ।

श्रद्धया नो गुरोराज्ञां वक्ष्यामः शिरसा सदा ॥ २८ ॥

हम सब भारतीय प्रतिज्ञा करते हैं कि गुरुकी आज्ञाको हम सदा शिर  
पर धारण करेंगे ॥ २८ ॥

न्यक्तैरि तिरस्कर्तार्यप्युदारां च बन्धुताम् ।

संप्रदश्यं गुरोर्भव्यं गौरवं वर्धयामहे ॥ २९ ॥

घिफारनेवाले और तिरस्कार करनेवालेपर भी हम बन्धुत्व दिलाकर  
गुरुके गौरवको बढ़ावेंगे ॥ २९ ॥

प्रत्यक्षु यापि सम्यक्षु सध्यक्ष्वपि सचेतसः ।

षयं प्रेम प्रदश्यैव साधयिष्याम इष्टताम् ॥ ३० ॥

चाहे प्रतिकूल चलनेवाला हो, अनुकूल चलनेवाला हो, सीधा चलने  
वाला हो, कोई कैसा भी हा, हम पवित्रमनसे प्रेम दिलाकर इष्टता  
पिद्वारेंगे ॥ ३० ॥

न्यञ्जामपि च जिह्वानां पतितानां च दुःखिनाम् ।

सेवा समानभावेन कर्तव्या तत्पदानुगैः ॥ ३१ ॥

कोई नीच हो, कुटिल हो, पतित हो, दुःखी हो, गुरुके अनुयायियोंका धर्म है कि सबकी समान भावसे सेवा करें ॥ ३१ ॥

स्त्रिस्तीया भारतीया चैतेप्येतद्देशजास्ततः ।

तेपि संततयो गाँधेः पितृहीनाश्च तेभवन् ॥ ३२ ॥

भारतीय ईसाई भी इसी देशमें पैदा हुए हैं । अतः वह भी महात्माजीके सन्तान हैं और वह भी पितृहीन हो गये ॥ ३२ ॥

मायां भित्त्वा सदा मायः परमेशपरायणः ।

प्रविसीरामपसार्य गतः पारं भवाब्धितः ॥ ३३ ॥

मायाको फाड़कर सदा माया से पर रहनेवाले, परमेश्वरपरायण महात्माजी पड़दा हटाकर सगरसागरसे पार चले गये ॥ ३३ ॥

तपःकरानुना दग्ध्वा जन्मव्याधिजरामराः ।

सत्येनाहिंसया चापि परब्रह्मत्वमाप्तवान् ॥ ३४ ॥

उन्होंने तपस्वरूप अग्निसे जन्मरूप व्याधि, बरा, मृत्यु आदिको जगत्तर सत्य और अहिंसाके द्वारा झूलानको प्राप्त हो गये ॥ ३४ ॥

संसारे सत्यनिष्ठोसौ बहूकृत्वो जयश्रिया ।

आलिङ्गितो महाग्राहुर्महादेवो ह्यनीदृशः ॥ ३५ ॥

संसारमें इन सत्यनिष्ठ, विशालमुद्रबलि, महान् अद्वितीय देवको विजयश्राने बहुत बार आलिङ्गन किया है ॥ ३५ ॥

अयं तु तस्य देवस्य महीयान्विजयोऽभवत् ।

अस्मिन्नवसरे पुण्ये किमप्यं तत्पदाब्जयोः ॥ ३६ ॥

उनका यह मृत्यु तो सबसे बड़ा विजय हुआ है । इस पवित्र अवसरपर उनके चरण कमलोंमें हम क्या अर्पण करें ? ॥ ३६ ॥

मन्वान सुहृद मृत्यु सर्वदाशिक्षयत्स न ।

मृत्योर्भीतिं परित्यक्तुका भीति सुहृदो भवेत् ॥ ३७ ॥

मृत्युको तो वह सदा मित्र मानते थे और इसीलिये उन्होंने हमें सिखाया है कि हम मृत्युका भय छोड़ दें । मित्रसे भय क्या ? ॥ ३७ ॥

पूर्वजा येन मार्गेण गत्वा परमवाप्नुवन् ।

यता सता स्वय तेन त गन्तु शिक्षिता वयम् ॥ ३८ ॥

जिस मार्गसे चल कर पूर्वजोंने परमेश्वरको प्राप्त किया था उसी मार्गसे स्वयं चलकर हमको भी चलना सिखाया ॥ ३८ ॥

वैरं च वैरिण चापि जेतु द्वेष च विद्वियम् ।

स्नेहेन निर्मलेनैव समादिक्षत्सनात्स न ॥ ३९ ॥

शत्रुता, शत्रु, द्वेष, द्वेषी इन सबको निर्मल प्रेमसे ही जीतनेका उन्होंने सदा हमको आदेश दिया है ॥ ३९ ॥

उपादिक्षदसौ यूथ सत्यमेवेश्वर परम् ।

चित्तेति सेवया तस्य स्वातन्त्र्य पूर्णमाप्नुत ॥४०॥

उन्होंने नित्य ही उपदेश दिया है कि "तुम लोग सत्यको ही परम ईश्वर समझो" और उसकी सेवासे पूर्ण स्वतन्त्रताको = मोक्षको प्राप्त करो ॥ ४० ॥

मध्येरमाक विहरता सह तेन सता कियत् ।

जीवनायोधन जेतु सरल प्रत्यभासत ॥४१॥

जब यह हमारे बीचमें थे तब उनके साथ जीवन युद्धको जीतना कितना सरल प्रतीत होता था ! ॥ ४१ ॥

सदृच्छ्रद्धा साहस स्नेहो धल शीलमभीरता ।

अनुद्वेगो यतेस्तस्य नियतो न सदाश्रय ॥४२॥

उनकी भक्ता, उनका साहस, स्नेह, आत्मिक बल, शील, निर्भयता, अप्यायुलता इत्यादि हमारे निहित ही उत्तम आश्रय थे ॥४२॥

सर्व एव भरोस्माकं दयाया निक्षरे क्षरे ।

आसीन्नहित उदः सोनवसादेन तेन हि ॥४३॥

हमारा सब भार उसी दयाके अमर खेतपर निर्भर था । उस मारको  
ठुन्होंने अबश्य ही बिना यकावटके वहन किया है ॥ ४३ ॥

अपारे तस्य सत्प्रेमपारायारे निमज्ज्य नः ।

अशक्त अपि संप्राप्ता महती शक्तिमिष्टदाम् ॥४४॥

उनके अपार विशुद्ध प्रेमरूप सागरमें डूबकर हमारेमेंसे कितने ही  
अशक्त लोगोंने भी महती शक्तिको प्राप्त कर लिया ॥ ४४ ॥

यदात्रावश्यकी तस्य स्थितिरसीद्रपेक्षिता ।

तदानीं स परित्यज्य गतोस्मानात्मनः पद्म् ॥४५॥

जब कि उनकी यही पर स्थिति आवश्यक रूपसे अवेक्षित थी,  
उस समय वह हमें छोड़कर अपने स्थानको चले गये ॥ ४५ ॥

ततो वयमनायाः स्त्री विवशा भीपरहताः ।

हृदयं वेपतेस्माकं रुदन्ति नयनानि च ॥४६॥

अतः हम अनाथ हैं, लाचार हैं, डरे हैं, हमारा हृदय क्रीप रहा है ।  
हमारी आँखें रो रही हैं ॥ ४६ ॥

अद्यावधि जयस्तस्य जयोस्माकमभूत्सदा ।

परमेव जयस्तस्य परमो नः पराजयः ॥४७॥

अभी तक तो उनका विजय सदा हमारा ही विजय था । परन्तु  
उनका यह विजय हमारा अत्यन्त पराजय है ॥ ४७ ॥

तस्वैवैकः सुतो हन्त मायापाशपराजितः ।

निघ्नन्पुण्यं हि तद्वर्ष्म भूमिमेतानद्रूपयन् ॥४८॥

उन्हींके एक पुनने मायाके पाशसे पराजित होकर उनके पवित्र देहका  
वध करके इस भूमिको दूषित कर दिया ॥ ४८ ॥

परं भयं च नैर्बल्यमिति शब्दद्वयं क्वचित् ।

प्रवेशं नाकरोत्तस्य शब्दस्तोममहानिधौ ॥४९॥

परन्तु भय और निर्बलता यह दो शब्द उनके शब्दकोशमें कमी प्रवेश नहीं पा सके ॥ ४९ ॥

हिंसाद्वेषौ समाश्लिष्टौ संचरेते हि चेतसा ।

भारते तेन नो भीतिरात्मा नष्टो भवेन्न नः ॥५०॥

आज हिंसा और द्वेष साथ मिलकर चित्तपर चढ़कर भारतमें चल रहे हैं । अतः भय है कि हमारा आत्मा नष्ट न हो जाय ॥ ५० ॥

असावदापयन्नो यत्स्वातन्त्र्यं राजनीतिकम् ।

तदिष्टरामराज्यस्य सोपानं प्रथमं हि तत् ॥५१॥

उन्होंने जो हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलायी है, वह तो, उन्हें जो रामराज्य इष्ट था, उसकी पहली ही सीढ़ी है ॥ ५१ ॥

सति मानवदौर्बल्ये सति काले भयप्रदे ।

न हेयं साहसं सर्वेह्येया भीतिरनर्थकृत् ॥ ५२ ॥

यद्यपि मनुष्योंकी दुर्बलता है, और समय भयङ्कर है तो भी कमी किसीको साहस नहीं छोड़ना चाहिये और अनर्थकारी भयका त्याग कर देना चाहिये ॥ ५२ ॥

अहिंसा निश्चितं सत्यमजय्यमपराजितम् ।

शस्त्रं गृहीत्वा प्रत्यूहा विजेया गुस्मार्गीः ॥ ५३ ॥

गुरुके मार्गसे चलकर हमें चाहिये कि अहिंसा और सत्यरूप तीक्ष्ण तथा जो कमी द्वारा नहीं है और दराया नहीं जा सकता ऐसे शस्त्रको प्रदग् करके विद्रोहो जीते ॥ ५३ ॥

धुर्याणेषु तदीयाहामनुसृत्य सतीः क्रियाः ।

अस्मास्वधत्तरेत्तस्य क्षमा शक्तिरभङ्गुरा ॥ ५४ ॥

उनकी आशाना अनुसरण करके पवित्र कर्म करते हुए हममें उनकी अभङ्गुर शक्ति का अवतार हो, यह प्रार्थना है ॥ ५४ ॥

अस्माभिः परिवृत्तस्य तस्य वाणीसुधा यथा ।

पीयते स्म तथा शून्याद्वीयेतास्माभिरज्वरम् ॥ ५५ ॥

हमसे घिरे हुए उन वापूजीकी वाणीरूप अमृतमौ जैसे हम पीते थे  
वैसे ही शून्यमेंसे भी हम शान्त होकर पीते रहें, यही कामना है ॥ ५५ ॥

शब्दास्तस्य च कर्माणि विचारसरणिस्तथा ।

यथा स्फूर्तिमतोकार्गुर्नस्तथाद्यापि कुर्वताम् ॥ ५६ ॥

उनके शब्द, उनके कर्म, उनकी विचारसरणि यह सब जिस प्रकारसे  
हमें स्फूर्तिमान् बनाते रहे हैं वैसे ही आज बनावें, यह अभिलाष है ॥ ५६ ॥

तमोभिर्विलतेश्छन्ने पथि संचारिणो वयम् ।

अन्तरिक्षात्तदीयामां प्राप्नुवाम निरन्तरम् ॥ ५७ ॥

अन्धकारसे ढँके मार्गमें हम चल रहे हैं । अन्तरिक्षमेंसे हम  
उनके प्रकाशको निरन्तर प्राप्त करते रहें यही हृदयकी चाह है ॥ ५७ ॥

रिसयिपति भक्ता चेतना कृष्णगेपा,

गुरुवरमुखपद्मान्निस्सृतां वाक्सुधां ताम् ।

असुपरिचितमार्गे गच्छतां नः शिवाय,

वितरतु कर्णार्द्रः चापि शक्तिं निलीनः ॥ ५८ ॥

इति सर्वतद्भवतद्भ्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

अष्टादश सर्ग

यह पागल बनी हुई लोभी हमारी चेतना श्रीगुरुदेवके कमलमुखसे  
निकली हुई वाणी-सुधाको पीना चाहती है । अत्यन्त अपरिचित मार्गमें  
कल्याणकेलिये जाते हुए, हमें, कहीं छिपे हुए वह कृपाहु शक्ति प्रदान  
करें, यह प्रार्थना है ॥ ५८ ॥

इति परमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभारतारण्डभाषाटीकायाम्

अष्टादशः सर्ग



# एकोनविंशः सर्गः

लार्ड माउन्टबेटनः

जगत्समग्रं सहृदु खितां तदान्वभून्महात्मन्यमरत्वमीयुषि ।  
जगच्छिरोरत्नशिरोमहामणीं महामनुष्यत्वसुरूपधारिणि ॥१॥

जिस समय महात्मा गांधी अमर पदको प्राप्त हुए उस समय जगत् समान ही दुःख अनुभव कर रहा था । वह ससारके श्रेष्ठ मानवोंके श्रेष्ठ शिरोमणि थे, एव महामनुष्यताके सुन्दर रूप थे ॥ १ ॥

महात्मगाधिर्निधनं जगत्तले तथात्र कोटीर्मनुजानमानयत् ।  
ममैव कश्चित्स्वजनो दिवं गतः प्रियोत्तमः सर्वमहत्तमस्त्विति ॥२॥

महात्मा गांधीका अवसान पृथिवीपर और यहाँ भारतमें करोड़ों मनुष्योंकी यह माननेकी विवश किया कि कोई मेरा ही प्रियोत्तम, सर्वमहान् स्वजन स्वर्गवासी होगया है ॥ २ ॥

न केवलं तस्य समीपवासिनश्चिरैण बालपं सह तेन संगताः ।  
गतं दिवं प्रत्युत सर्वमानवा जगन्महामित्रतया रुदन्ति तम् ॥३॥

केवल वही लोग नहीं रो रहे हैं जो चिरकालसे अथवा अल्पकालसे उनसे परिचित थे प्रत्युत सारे ही मनुष्य उन्हें जगत्का महान् मित्र मान कर रो रहे हैं ॥ ३ ॥

स शान्तिदेयो जगतः शिष्यप्रदो महानर्हिंसाप्रतिरूपकः क्षिती ।  
अधन्यकाले निहतो दुरात्मनेत्युवाच माउन्टबेटन् ऋथथान्वितः ॥४॥

धी लार्ड माउन्टबेटनने कहा कि वह जगत् के कल्याणप्रद शान्ति देयता थे । पृथिवी पर वह अहिंसाके महान् प्रतिनिधि थे । दुष्टने उन्हें शूरे समय में मार डाला ॥ ४ ॥

लार्ड माउन्टबेटनस्य धर्मपत्नी

गांधीमहात्मनो मृत्युः स्यादन्ताराष्ट्रिया क्षतिः ।

न केवलं प्रत्युतान्ताराष्ट्रिया घटनाशिवा ॥ ५ ॥

महात्मा गांधीका मृत्यु केवल अन्ताराष्ट्रिय क्षति ही नहीं है प्रत्युत वह अन्ताराष्ट्रिय अमङ्गल घटना भी है ॥ ५ ॥

हृदयं व्यथितं शून्यं मनो बुद्धिर्विकुण्ठिता ।

समाचारेण सर्वेषामेतेन प्राणहारिणा ॥ ६ ॥

इस प्राणहारी समाचारमे सबका हृदय व्यथित है, मन शून्य है और बुद्धि कुण्ठित हो गयी है ॥ ६ ॥

अस्मिन्विसंकटे काले स्वस्याः पर्युरूपान्तिके ।

निवस्तुं कामये येन मनः शान्तिं प्रपत्स्यते ॥ ७ ॥

इस क्षति सङ्कटमय समयमे मैं अपने पतिके पास रहना चाहती हूँ ( उस समय वह मद्रासमें थी ) जिससे मेरा मन शान्त हो ॥ ७ ॥

शिक्षितं गांधिना यद्यदस्मभ्यं पूर्णयोगिना ।

तत्तदाचरितुं सद्यः प्रयत्नं तनवामहे ॥ ८ ॥

पूर्णबोर्गा महात्मा गांधीने हमें जो कुछ सिखाया है उन सबका आचरण करनेके लिये हमें आजसे ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ८ ॥

एतस्मादतिरिक्तो मे नास्ति वाग्बिभवस्ततः ।

महतो नायकस्यास्य स्तोत्रुमिष्टान्गुणानिह ॥ ९ ॥

उस महान् नेताके इष्ट गुणोक्ती स्तुति करनेकेलिये इससे अतिरिक्त मेरे पास शब्द नहीं है ॥ ९ ॥

ग्लाना न्लाना च विदुषो कौटुम्बिकमहाक्षतिम् ।

मन्वानेत्याह माउन्टबेटनस्य कुटुम्बिनी ॥ १० ॥

लार्ड माउन्टबेटनकी धर्मपत्नी लेडी एडविना माउन्टबेटनने दुःखित होकर, उदास होकर कहा कि यह हमारी कौटुम्बिक क्षति हुई है ॥ १० ॥

## पण्डो जार्जः

अखण्डकल्याणगुणार्जनाय लोकस्य सर्वस्य प्रयस्यतोद्य ।  
महात्मनो मोहनदासगाधेर्मृत्योः कथा मेस्त्यशनिप्रपातः ॥११॥

सब लोगोंकेलिये अखण्ड कल्याणगुण उपार्जन करनेकेलिये प्रयास करनेवाले महात्मा मोहनदास गाधीकी आज मृत्युवार्ता मेरेलिये बज्रपात हा है ॥११॥

न केवलं श्रीभरतप्रजानामेपा क्षतिः प्रत्युत सार्वभौमी ।  
अपूरणीया तत आर्तचेता विधिघृते मानवजातिरद्य ॥१२॥

यह क्षति केवल भारतीय प्रजाकी ही नहीं है प्रत्युत सार्वभौम क्षति है और वह अपूरणीय है । अतः आज मानवजातिका चित्त दुःखी है ॥ १२ ॥

नाहं मदीया सहधर्मिणी नो दुःखं महत्सोढुमशक्नुवैतत् ।  
इति ब्रिटेनस्य महानरेन्द्रो जार्जोवदत्पुत्र उपास्य दुःखम् ॥१३॥

ब्रिटेनके महाराज पण्ड जार्ज महानुभावने दुःखी होकर कहा कि न तो मैं ही और न मेरी धर्मपत्नी ही इस महान् दुःखको सह सके हैं ॥१३॥

## वाइसरायस्य जार्ज पण्डं प्रति पत्रम्

निधनं महात्मन इदं मनोरजं ननु विद्यते मनुजजाविहानिकृत् ।  
यसुमत्यपेक्षत इदं महानुरा परिभासता तदयदत्तसद्गुणः ॥१४॥

वाइसरायने छट्टे जार्ज को लिखा कि—महात्माजीका यह मनको रिक्त करनेवाला निधन मानव जातिकी क्षतिकेलिये ही हुआ है । पृथिवी आज व्याकुल होकर यही चाहती है कि उनके दिये हुए सद्गुण प्रकाशित हो ॥१४॥

अयसम्रमानयद्द्वि प्रकाशता निरवद्यमेव पुनरद्य तत्त्रयम् ।  
प्रियता जनेषु सफलेषु शाश्वती नवधो नृणां च कृतिरस्तु सत्यश्रुत् ॥

दुःखित मानव हृदयमें आज उन तीन गुणोंके प्रकाशकी आवश्यकता है:—१—सब लोगोंमें स्यायी प्रेम, २—जिसी भी मनुष्यकी हिंसाका अभाव और ३—सत्वपूर्ण आचरण ॥ १५ ॥

विपदाहृतं गलितमुच्चभारतं दधतोभिमानमिति यज्जगत्कृते ।  
तद्दाद्धि तादृशमभांद्धमानयं सभमित्त्रशत्रुमय निर्विचारकम् ॥१६॥

भारत आज विपत्तिमें है, उसका हृपे चला गया है तो भी उसे अभिमान है कि उसने जगत्केलिये ऐसा ज्वलन्त मानव दिया है जिसकी दृष्टिमें शत्रु और मित्र सब समान थे, और वह निर्विचार था ॥१६॥

यमुनातटादहमुपास्य तस्य तं दहनावधिं विधिमनूनपावनम् ।  
अधुनैव संन्यतृतमार्तचेतसा परिवीक्ष्य क्षिन्नमनसा नृणां गगम् ॥

धर्मी ही मैं यमुनाके किनारेसे उनकी पवित्र दाह क्रियाको देखकर दुःखित मनसे था रहा हूँ । मैंने वहाँ दुःखित लोगोंका एक बहुत बड़ा समूह देखा ॥ १७ ॥

अवलोक्य त जनगणं निरीक्षितं न कदापि कैरपि महाद्भुतायितम् ।  
कठिनं न वक्तुमिदमस्ति मोहने जनता दधाति कियतीं नमाननाम् ॥

जिते कभी किसीने नहीं देखा है, उस अगार जनसमुदायको देखकर यह कहना कठिन नहीं है कि महात्माजीमें जनताका किनना महान् प्रेम क्षार आकर है ॥ १८ ॥

अवभासते न पुनरेव तादृशो नर आपतेदिह जगत्प्रघायिते ।  
जगद्भुत्तरो गुणनिधिर्महात्मनः प्रभविष्यति प्रतिपलं श्रिये हि नः ॥

सब प्रतीत होता है कि इस पारपूर्ण जगत्में फिर वैसा मनुष्य नहीं आवेगा । महात्माजीके लोकोत्तर गुण इस लोगोंके कल्याणके लिये सदा ही समर्थ होंगे ॥ १९ ॥

ऋषिस्वन्महाप्रतिनिधिर्विदोनिष्ठापनिमित्तवृष्टितमतिः सितात्प्रति ।  
इह भारते स्थित उदारमानसः परिवृत्तमत्र निमित्तं विभोक्त्य सः ॥

वाइसरायने पठजाँच महाशयको, यहाँ भारतमें ही रहते हुए, यहाँके सब वृत्तान्त ओंखोसे देखकर, इस प्रकारसे लिखा था ॥ २० ॥

### मदीर श्रीवल्लभभाई महोदयः

कोपाय नायमिह काल उदस्य तस्मात्त श्रीमहात्मपरिपाठितपाठमेव ।  
स्मृत्या शुचं च कलिलं च मनोव्यथां च हित्वा यथासमयमद्य कृतिर्हि कार्यं

यह क्रोध करनेका समय नहीं है । अतः उमे छोडकर महात्माजीके पढाये हुए पाठको स्मरण करके शोक, मलिनता और मनोव्यथाको छोडकर समयके अनुसार कार्य ही करना चाहिये ॥ २१ ॥

तेनोपदिष्टसरणिं स्मृतितोपसार्य रोपेण मत्तमनयो विनयादपेताः ।  
सर्वे वयं यदि भवेम न कोपि लाभो लब्धो भवेदथ भवेम च निन्दनीयाः ॥

उनके बताए हुए मार्गको मुलाकर यदि हम मतवाले और अविनयी बन जायेंगे तो कुछ भी लाभ न होगा और हम सब निन्दाके पात्र बन जायेंगे ॥ २२ ॥

कार्यातिभारविकला निखिल्ला विपन्ना,  
साहाय्यमेत्य परमार्यवरस्य तस्य ।  
गन्तुं भवेम पथि तस्य वयं समर्था,  
हा हन्त हन्त विधिना परिवञ्चिताः स्मः ॥२३॥

हम सब कार्यके भारसे दबे हुए हैं, विपत्तिमें पड़े हुए हैं । उन्हीं परमार्य राष्ट्रपिताकी सहायतासे उनके मार्गमें जानेकेलिये हम समर्थ हैं । हा, विधिने हमको टग लिया ! ॥ २३ ॥

यातो महागुरुरसौ परलोकमार्गं,  
हित्यैव भारमखिलं प्रियभारतस्य ।  
यच्छिक्षितं कृणयाभयदत्र तेन,  
तत्रास्यतेतिनिपुणं विपदास्पदान्नः ॥२४॥

प्रियभारतवा! सब भार छोडकर महागुरु परलोकमें चले गये ।

कृपाकर उन्होंने यहाँ रहते हुए हमें जो कुछ सिखाया है वह विपत्तियोंसे हमारी अच्छी तरह रक्षा करेगा ॥ २४ ॥

श्व. मायमस्य विमल परिपूतदेहो,  
 भस्मावशेष इह विश्वजनप्रणम्यः ।  
 नूनं भविष्यति पर निहितोऽस्मदन्त-  
 र्द्रक्ष्यत्यवश्यमखिलांस्तनयात्रताञ्च ॥२५॥

उनका निर्मल और पवित्र देह जिसे समस्त विश्व प्रणाम करता था, वह सायंकाल अवश्य ही भस्म हो जायगा। परन्तु हमारे भीतर रहकर अवश्य ही हम बालकोंका निरीक्षण करते रहेंगे ॥ २५ ॥

नित्योमरोञ्जर उपात्तपवित्रकायो,  
 लोकानुशिक्षणमिषेण समागतोत्र ।  
 शान्त्या विवेकनिरता वयमद्य तस्य,  
 रत्नाधिकं गुस्त्वचः परिपालयाम ॥२६॥

वह तो नित्य ये, अजर ये, अमर ये, लोगोंको उपदेश देनेके बशनेसे पवित्र शरीर धारण करके आये थे। हमें चाहिये कि शान्तिसे विवेकी बनकर रहनेसे भी अधिक मूल्यवान् उनके वचनका पालन करें ॥ २६ ॥

शोकं समाप्य पथि तेन निदर्शितेद्य,  
 लग्ना भवेम वयमित्यतियुक्तकार्यम् ।  
 श्रीवल्लभः सकलभारतवर्षलोकां-  
 स्तस्मिन्निते परपद् समवोचतैवम् ॥२७॥

शोकको छोड़कर उनके बताये मार्गमें हम लगे जायें, यही सर्वोत्तम कार्य है। जब महात्माजी परम पदसे चले गये उस समय श्री० बल्लभमाईने इस प्रकार उपदेश दिया ॥ २७ ॥

## श्रीकिशोरलालो मशरूवाला

हन्तुं समर्थ इह कोस्ति भवे भवाब्धेः,  
 पारं गतं यतिवरं परमामरं तम् ।  
 येनानतायिविरलेन सितं शरीरं,  
 तेनाप्यमान्यमरतावदातोपि तस्य ॥२८॥

इस संसारमें ससारसागरसे पार चले जानेवाले परम अमर उन यतीश्वरको कौन मार सकता है ? वह तो अमर हो गये थे, इस बातको, जिस विरल आततायीने उनके शरीरका अन्त किया है उसने भी, लाचार होकर, स्वीकार कर लिया है ॥ २८ ॥

कृष्योस्तु यीशुरिह वापि च सोक्रेटीसो,  
 नैते हता अपि हता विदुषां मतेन ।  
 एवं हतो निस्पमो यतिराजराजो,  
 जातोमरोलभत तत्पदमन्तशून्यम् ॥२९॥

श्रीकृष्ण, यीशु और सोक्रेटिस यह मारे गये हैं तो भी विद्वानोंके मतसे अमर ही हैं । इसी प्रकार जिनकी जगत्में कोई उपमा नहीं है, वह परम श्रेष्ठ यतिसम्राट् अमर हुए हैं और उस पदको प्राप्त हुए हैं जिसका कभी अन्त नहीं है ॥ २९ ॥

यो मूढ एनगुरसि प्रजहार हन्तुं,  
 नूनं गतो विफलतामिति कोपि विद्वान् ।  
 सन्दोग्धि नाद्य स यतः प्रभर्षांश्चिरायु-  
 रद्यापि जीवति समृद्धधलो महात्मा ॥३०॥

जिन मूर्खने महाभाबीको मारनेकेलिये छार्टीमें प्रहार किया था, वह अवश्य ही निष्फल गया है, इसमें आद्य किसी विद्वान् समसदासको सन्देह नहीं है । क्योंकि यह तो चिरायु होकर, अधिक बलवान् होकर आद्य भी जीवित ही हैं ॥ ३० ॥

श्रीनाथ सोकटिसमत्र निहत्य नैजो,  
 चेरुं क्षतिं यदुदयोपि यिशुं विनाश्य ।  
 ते यादवा अपि वधं प्रविधाय नन्द-  
 सूनोर्न लाभमदुहन्नणुमात्रमत्र ॥३१॥

श्रीकलेगोने सोक्रेटिसको मारकर, यहूदियोने यीशुको मारकर अपनी ही हानि की थी। उन यादवोंने भी कृष्णका वध करके तनिक भी लाभ प्राप्त नहीं किया ॥ ३१ ॥

एषोपि निखपनरः प्रणिहत्य मूढो,  
 दीनार्तरक्षणपरं शिवरूपमेनम् ।  
 नूनं समस्तजगता सह हिन्दुजाते-  
 श्चक्रे महाशक्तिमनन्यतुलं महेशम् ॥३२॥

इस निर्लज्ज और मूर्ख मनुष्यने दीनों और दुखियोंकी रक्षा करनेवाले अद्वितीय अनुपम शिवरूप महात्माजी ( वे शरीर ) को मारकर अवश्य सम्पूर्ण जगत्के साथ साथ हिन्दु जातिकी महती हानि की है ॥ ३२ ॥

चार्या न कैरपि नरैर्नयनाश्रुधारा,  
 स्वाभाविकी विरहजा बलतः सूता सा ।  
 नो विद्यते परमिहाद्य स कोपि हेतु  
 यो रोदयेन्मुनिकृते कमपि प्रतप्तम् ॥३३॥

विरहजन्य आँसू आँसूमेंसे स्वभावतः नजरदस्तासे निकल आते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। परन्तु नापूकेलिये किसी उन्तप्त पुरुष अथवा स्त्रीको रोनेकेलिये कोई भी कारण नहीं है ॥३३॥

श्रीमद्यतोन्द्रकृतसेतुमुपास्य गच्छन्,  
 घोरे भजार्णव उदात्तमना यशस्वी ।  
 सत्याप्रदिप्रवर एतदनन्तमज्य -  
 श्रद्धाकरः समवदत्स किशोरलालः ॥३४॥



इस भयङ्कर ससारसागरके ऊपर महात्माजीने जो पुल बाँधा है उसी पर चलते हुए सत्याग्रहियोंमें श्रेष्ठ अनन्त भव्य श्रद्धाके आकर श्री किशोरलालमशरूवालाने कहा था ॥ ३४ ॥

### श्रीमीरावहिन

द्वावेवाश्रयोऽसीन्मम बापू त्तथेश्वर ।

इदानीं तावुर्भा जातावभिन्नौ नियतित्वत् ॥३५॥

मेरे दो ही आश्रय थे, बापू और ईश्वर । आज मेरे भाग्यसे दोनों एक हो गये ॥ ३५ ॥

आकर्णयन्त्या वृत्तं तद्दुःखदं महदेव मे ।

वन्दिता गमयदूद्वारमात्मानमुदजीघटत् ॥३६॥

जब मैंने इस अत्यन्त दुःखद समाचार को सुना तो आत्माको बन्दी बनानेवाला दरवाजा खुल गया ॥ ३६ ॥

स आत्मा यतिराजस्य सर्वस्वस्य ममाद्भुतः ।

सर्वशक्तिमयो योगी प्राविशच्च मदात्मनि ॥ ३७ ॥

बापू मेरे सर्वस्व थे । उनका अद्भुत, सर्वशक्तिमय और योगी आत्मा मेरे आत्मामें प्रविष्ट हो गया ॥ ३७ ॥

बापू शाश्वतमेवास्त स आत्मा शाश्वतो मतः ।

अहं शाश्वत एवास्मीत्येव नन्वनुभूयते ॥३८॥

बापू शाश्वत हैं, वह आत्मा शाश्वत है, मैं भी शाश्वत ही हूँ, ऐसा आज मुझे अनुभव होता है ॥ ३८ ॥

नो सदेहः प्रियो बापू मध्यगो नोद्य यद्यपि ।

समीपतर एवास्ते परमात्मा परात्मन ॥३९॥

यद्यपि बापूजी आज सदेह हमारे बीचमें नहीं हैं । परन्तु उन महान् आत्माका आत्मा अत्यन्त समीप है ॥ ३९ ॥

न भविष्यति देहोयं न वियोगस्तत्रापि नौ ।  
अन्तराले गते चास्मिन्भविष्यावो निरन्तरौ ॥४०॥

जब यह देह नहीं होगा तब भी मेरा और तुम्हारा वियोग नहीं होगा ।  
प्रत्युत इस देहरूप अन्तरालके दूर होनेपर हमदोनों निरन्तर अन्तरालछूट्य  
चन जावेंगे ॥ ४० ॥

तस्य सर्वज्ञदेवस्य शब्दा भव्याः सनातनाः ।  
बुद्धार्थका इदानीं ते तदानीमनितार्थकाः ॥४१॥

उन सर्वज्ञ देवके वह मव्य सनातन शब्द उस समय तो अगज्ञार्थ  
थे—उनके अर्थका ज्ञान मुझे नहीं था और अब उनके अर्थका पता  
लगा है ॥ ४१ ॥

पशुलोकं हृषीकेशे मया गन्तुं निमन्त्रितः ।  
मृतस्य गणना का स्यादित्यवादीत्स सर्ववित् ॥४२॥

जब मैंने हृषीकेश ऋषिकेशमें पशुलोकमें आनेकेलिये उन्हें आमन्त्रण  
दिया तब उन्होंने कहा था कि “मरे हुएकी क्या गिनती करनी है।” ॥४२॥

मर्माधिष्ठ इमे शब्दा भयदा अपि रक्षिताः ।  
ईश्वरप्रार्थनाशब्दैः साकमेव मया हृदि ॥४३॥

यह मर्मभेदी शब्द यद्यपि भयङ्कर थे तो भी मैंने इन्हें अपने हृदयमें  
ईश्वर-प्रार्थनाके शब्दोंके साथ रख छोड़ा था ॥ ४३ ॥

उपवासदिनान्यासन्स्मारकाणि महाप्रभोः ।  
तेषां च शब्दजातानां पश्चादासीदचिन्तता ॥४४॥

उनके वह शब्द, उनके उपवास (दिल्ली उपवास) के दिनोंमें  
याद आते थे—अर्थात् कदाचित् उपवासमें उनका नदर शरीर पल  
बाय—परन्तु उपवासकी समाप्तिके पश्चात् मैं निश्चिन्त बनी थी ॥४४॥

समाप्तानुपवासानां ते शब्दा नीरहस्यकाः ।  
अभवन्निति मे ज्ञानमभवत्तदनेहसि ॥४५॥

उपवामकी समाप्तिमें मुझे ऐना अनुभव हुआ कि वापूके उन शब्दोंमें कोई रहस्य समाया हुआ नहीं था ॥ ४५ ॥

परं तत्त्वविदः शब्दाः सत्यरूपस्य सत्पतेः ।

भविष्यदर्थसम्पन्ना आसन्नित्यद्य मे स्फुटम् ॥४६॥

परन्तु आज मुझे स्पष्ट हुआ है कि तत्त्वज्ञानी और सत्यस्वरूप उन वापूके शब्द भविष्यमें होनेवाली घटनाके सूचक थे ॥ ४६ ॥

विधिना निर्मिते तस्मिन्सन्ध्याकाले समाहिता ।

आन्दोलनं महागलानेरहमन्वभवं भवे ॥४७॥

उस विधिनिर्मित सन्ध्याकालमें मैं समाधिमें बैठी थी और मैंने जगत्में महती ग्लानिके स्पन्दनका अनुभव किया ॥ ४७ ॥

उद्धाराय मनुष्याणामवतारस्य शोणितैः ।

लक्षिता पृथिवी भूयः कम्पमाना वराकिका ॥४८॥

मनुष्योंके उद्धारके लिये अवतारके रक्तसे पुनः काँपती हुई दीन पृथिवी खींची गयी है ॥ ४८ ॥

नेदं पापं भवेद्व्यक्तेः प्रत्येकयुगभाविनाम् ।

मनुष्याणां हि तत्तेन रक्ष्यास्ते भक्तशोणितैः ॥४९॥

यह पाप एक व्यक्तिना नहीं है । प्रत्येक युगमें आनेवाले सभी मनुष्यों का यह पाप है । अतः उन पापी मनुष्योंकी रक्षा ईश्वरभक्तके रक्तसे ही हो सकती है ॥ ४९ ॥

जानीमस्तस्य कर्तव्यकर्माणि विततानि तत् ।

तेषां पूर्तये यत्नः कार्यः प्राणपणेन हि ॥५०॥

हम उनके फैले हुए कर्तव्य कर्मोंको जानते हैं । अतः उनकी पूर्तिपेलिये हमें प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये ॥५०॥

यातु भेदो मनुष्येभ्यो धर्मयर्णविकल्पितः ।

हिंसा नदयत्यसत्यं च प्रलयं यातु सर्वथा ॥५१॥

मनुष्योमैसे धर्मकृत तथा वर्णकृत भेद चला जाना चाहिये । हिंसा और अत्याचार नाश ही जाना चाहिये ॥५१॥

मन्थदण्डश्च मनसः कर्तव्यपथदशिका ।  
सर्वश्रेयस्करी जीयादितिमीरावचः सुधा ॥५२॥

मनके लिये मन्थनदण्ड समान, कर्तव्यमार्गको दिखानेवाली, सबका श्रेय करनेवाली श्रीमीरावचिनकी यह वाणीसुधा विजयिनी बने ॥ ५२ ॥

### श्रीमद्बुलकलामाजादः

यातेनाद्य दिवं दयाजलनिधौ सर्वात्मके सर्वधि—

द्यायातोस्तिमहाविपन्नजलनिधिर्नाशाय नः सर्वथा ।

तस्यात्मा तदिदं वचद्व विमलं पन्थाश्च संदर्शितः,

कल्याणाय समन्ततो भवतु नो दुःखाटवी धाम्यताम् ॥५३॥

आज वह दयासागर स्वर्ग चलेगये । हमारे नाशके लिये विपत्तिरूप महासागर उपस्थित है । उनका आत्मा, उनका यह वचन, और दिखाया हुआ मार्ग, दुःखके जंगलमें भटकते हुए हम सबके कल्याणके लिये हो ॥ ५३ ॥

यात्रा तेन समापितात्र कृतिना लोकोत्तरं स्वं यशो,

दिक्षुर्ध्वं च वितन्वता सफलित स्वं जीवनं चावनौ ।

अस्माकं च नया दधाति पदवीं नव्ये पथि क्लेशिते,

सा तस्यैव कृपाबलादनुदिनं संपूर्णतामेप्स्यति ॥५४॥

उन्होंने इस जगत्की यात्रा पूरी की है । सभी दिशाओंमें, ऊपर भी, अपना अद्भुत यश फैलाकर अपना जीवन पृथिवीपर सफल किया है और अब हमारी नयी यात्रा क्लेशमय नवीन मार्गमें पदवीं दधाति शुरू होती है । वह उन्हींकी कृपासे सम्पूर्ण होगी ॥ ५४ ॥

हिन्दूमुस्लिमयोरनैक्यमिह चेद्वृद्धिं गतं स्यास्तदा,

देशस्यास्य भविष्यति प्रलयकृद्धानिर्महाभीतिदा ।

इत्येवं समबोधयत्स सकलान्दुःखाधिसन्तापितः,

श्रीमद्विद्वद्बुलकलाम इसलाम्विद्यामहाचारिधिः ॥५५॥

दुःखितहृदयसे श्री मौलाना अबुलमन्नाम आज़ाद साहेबने सवफो कहा कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें यदि फूट बढ़ती ही रही तो इस देशकी बहुत बड़ी भयंकर हानि होगी ॥ ५५ ॥

### श्रीपुरुषोत्तमदास टंडनः

निजतन्त्रभारतगुरुत्वमथ विदितकीर्तिकायकः ।

गांधिरखिलजनताविपदः परिनाशनेसमुदितेऽभे समे ॥५६॥

प्रथितकीर्तिवाले श्रीमहात्मा गांधीजी और स्वतन्त्रभारतका गुरुत्व यह दोनों ही जनताकी विपत्तिकः नाश करनेके लिये समानरूपसे उदय हुए थे ॥ ५६ ॥

जगतीह कुत्रचिदपि प्रसरति यदि नाम भारतम् ।

तत्र परमबुधसन्ततिभिरभिपूजितस्य महतोपि नाम तत् ॥ ५७ ॥

संसारमें कहीं पर भी यदि भारतका नाम फैलता है—जाता है तो वहाँ विद्वानोंसे पूजित श्रीमहात्माजीका भी यह नाम जाता ही है ॥ ५७ ॥

अविनाशनामकृतिकं परहितविहितस्वमानसम् ।

गांधिमुपनतपरात्मसुदर्शनमथ विनाश्य तं पितरमास्म विना तम् ॥५८॥

जिनका नाम और कर्म दोनों ही अमर हैं, परायेके हितमें जिन्होंने अपना मन लगा दिया था, जिन्होंने ईश्वरका साक्षात्कार किया था, आज हम उन्हीं राष्ट्रपिताको नष्ट करके उनके बिना हम रह गये ॥ ५८ ॥

इति टंडनः स पुरुषोत्तम उदितदयः सभासदः ।

आह विकलितमना निरतो जनसेवने स्वयमपीह पण्डितः ॥५९॥

दयालु भी पुरुषोत्तमदासटण्डनजीने व्याकुल मनसे, प्रजासेवामें स्वयं भी लगे हुए, इस प्रकारसे समामें बैठनेवालोंको कहा ॥ ५९ ॥

### श्रीगोविन्दरूपभपन्तः

श्रीमान्देवो मोहनो भारतस्य निर्मातासौ सर्वज्ञः शरण्यः ।  
यातो लोकं ब्रह्मविद्यापराणां हित्वा सर्वान्न. क्षणेनैव भूमे. ॥६०॥

श्रीमान् देवस्वरूप महात्मा मोहनदासजी भारतके निर्माता थे,  
सर्वमानवोंको शरण देनेवाले थे। आन क्षणभरमे हमको छोड़कर पृथिवीसे  
उत्तम लोकमें चले गये वहाँ ब्रह्मज्ञाना वाते हैं ॥ ६० ॥

स्वातन्त्र्य तत्स्थापयित्वात्र देशे लोके लोके भारतीकीर्तिगाथाम् ।  
ख्याता कृत्वा भारतस्यैकनाथो यातो हा हा कुड्यते भारतीयैः ॥६१॥

इस भारत देशमें स्वतन्त्रताकी स्थापना करके, प्रत्येक लोकमें  
भारतकी कीर्तिगाथा फैलाकर, भारतमें एकमात्र नाथ चले गये। भारतीय  
आज रो रहे हैं ॥ ६१ ॥

सर्वप्राहि क्रूरमासोत्तमोऽ कोणे कोणे भारतस्य चगायाम् ।  
रुद्ध्वा मार्गं सखितं तेन सर्वे भ्रान्ता आसन्मार्गतदृच्योतनेन ॥६२॥

भारतभूमिक कोने कोनेमें वह सर्वग्राही क्रूर अन्धकार मार्ग रोककर  
वर्तमान था। अतः मार्गभ्रष्ट होकर सब भ्रान्त हो गये थे ॥ ६२ ॥

वन्धुर्नन्धुं विद्विषन्नास्त भूमात्रस्या ग्लानिर्नतते स्म स्वकीये ।  
उच्चैः सन्त्येत्तेत्र नीचैरमी स्युर्लौका एव भ्रान्तिविभ्रष्टमार्गा ॥६३॥

इस भूमिमें भाइ भाईके साथ द्वेष करता था, जो अपने थे उनमें  
हमें ग्लानि थी, यह ऊँच हैं और वह नीच हैं, इस प्रकारकी भ्रान्तिये  
सोग मार्गभ्रष्ट हो गये थे ॥ ६३ ॥

धर्मस्थानं धर्मनामा त्रिधर्मोसत्यं सत्यस्थानमात्मस्य सम्यक् ।  
प्रावर्तिष्ट प्रच्युता श्रेयसस्ते लोका भूमी भारतस्यादिमस्य ॥६४॥

इस प्राचीन भारतभूमिमें धर्मस्थानोंपर धर्मनामधारी अर्थात् और  
सत्यके स्थानपर असत्य आक्रमण करने के लिये लुभ्या था। अतः सब लोक  
कल्याणसे च्युत हो गये थे ॥ ६४ ॥

आलस्यं वा दीर्घनिद्रालुता वा स्वार्थो मोहो द्रोह ऐश्वर्यकान्तिः ।  
एते रोगाः स्वालयं संविधाय क्रूरा आसन्संस्थिताः स्वेच्छयैव ॥६५॥

आलस्य, ऊँघ, स्वार्थ, मोह, द्रोह, घनेच्छा यह सब रोग स्वेच्छासे  
यहाँ अपना घर बनाकर बैठ गए थे ॥ ६५ ॥

मार्गाः सर्वे छादिता रागरोषध्वान्तावेगान् नैव दृष्टिप्रसारः ।  
वम्भ्रम्यन्ते स्मैव सर्वे अनाथा नासीत्कश्चित्पारदृश्या व्यथानाम् ॥६६॥

राग, रोष रूप अन्धकारके वेगके कारण सब मार्ग ढँके हुए थे ।  
कहीं कुछ दीखता नहीं था । सब अनाथ बनकर इधर-उधर भटक  
रहे थे । दुःखोंका अन्त करनेवाला कोई नहीं था ॥ ६६ ॥

तस्मिन्काले घोरघोरे महात्मा गांधिर्देवो सोहनाख्यः समागात् ।  
भित्त्वा भित्त्वा ध्वान्तमध्वान्तरूपो देशं ह्येनं सप्रकाशं व्यतानीत् ॥६७॥

उसी अतिघोर समयमें श्रीमहात्माजी आये और स्वयम् अध्वान्तरूप  
-प्रकाशस्वरूप होनेसे ध्वान्त-अन्धकारको फाड़ फाड़कर इस देशको  
उन्होंने प्रकाशमय बनादिया ॥ ६७ ॥

आसीन्नित्यं निस्सहायाश्रयोसौ रक्षालीनो दीनहीनादिकानाम् ।  
येषां नाभूत्कोपि देवो दयालुस्तस्यासावासीन्महादेवदेवः ॥६८॥

वह सदा निस्सहायोंके आश्रय थे, दीनों और हीनोंकी रक्षामें लीन  
थे । जिनका कोई भी नहीं था उनके वह दयालु देव और महादेव थे ॥६८॥

हा हा सैपा देवता सर्वरूपा स्वीयं लोकं द्वारमाधाय किञ्चित् ।  
त्यक्त्वा दीनानस्मदादीन्प्रयातो गोविन्दः श्रीपन्त एयं समूचे ॥६९॥

हा, हा, वह सर्वरूप देवता हम दीनोंको छोड़कर किसी बहानेसे  
अपने लोकमें चले गये, ऐसा श्रीगोविन्दबल्लभपन्तने कहा ॥ ६९ ॥

गोविन्दवल्लभ उदात्तमनास्तपस्वी,  
धीमद्यतीन्द्रमभिष्टक्ष्य वचांस्यमूनि ।

लक्त्वा प्रणीय हृदये प्रशर्मं स्वकीय,  
आश्वासनं स लभते स्म कथंचिदेव ॥७०॥

पण्डित श्रीगोविन्दवल्हमण्ठवीने महात्मार्याके विषयमें इतने बचन  
कहकर अपने हृदयमें शान्ति स्थापन करके विसा प्रकार आश्वासन प्राप्त  
क्रिया ॥ ७० ॥

### श्रीसम्पूर्णानन्दः

दिव्यो देवः श्रीमहापुरुषोऽसौ सर्वाङ्गीणं जीवनं संप्रजीय ।  
दत्त्वा सत्यं साम्यमास्वाप्य धर्मं सन्मर्माणं संप्रदृश्य प्रयातः ॥७१॥

वह दिव्य महापुरुष सर्वाङ्गीण जीवन बीकर, सत्य हमें देकर, समताकी  
स्थापना करके, पवित्र मर्मवाले धर्मको विसाकर चले गये ॥ ७१ ॥

शक्तिः कार्यं संविधातुं भवेद्येत्सर्वो लोकः सर्वकर्माधिकारः ।  
एवं तत्त्वं सर्वलोकत्रयं दत्त्वा प्रायालोकं स्वीयमस्मान्महात्मा ॥७२॥

यदि कार्य करनेकी शक्ति हो तो सभी लोग सब कर्मोंके अधिकारी  
हैं, ऐसा तत्त्व सबको देकर श्रीमहात्माओं दस लोकमें स्वलोकको चले  
गये ॥ ७२ ॥

श्रीसम्पूर्णानन्द ऊचे मनस्वी सर्वानेवं भिन्नभिन्नार्थद्रष्टृन् ।  
अन्यास्तेन स्वं च संतोष्य विद्वाञ्छोकज्यालां शान्तरूपां चकार ॥७३॥

विद्वान्, मनस्वी श्रीसम्पूर्णानन्दवीने भिन्नभिन्न विचारवालोंको  
दस प्रकार कहा और उससे अन्योको तथा अपनेको भी सन्तुष्ट करके  
शोककी ज्वालाको किसी प्रकार शांत किया ॥ ७३ ॥

### चक्रवर्ती श्रीगजगोपालाचार्यः

लुण्ठितः स महानिधिरन्न केनचिद्विरतपूर्णतमेन ।  
एषु दुःखत्रिपलेषु महेशो रक्षताद्विकलभारतमद्य ॥७४॥

किसी महाशर्पने उस महानिधिको लूट लिया । इन दुःखके क्षणमें  
व्याकुल भारतकी भगवान् रक्षा करे ॥ ७४ ॥



प्रेयसः सकलभारतभूमेर्देशनेतृनयनस्य च तस्य ।

प्राप्य ते बलिमनुत्तममर्ध्यं नश्यता विशय एव घृणा च ॥७५॥

समस्त भारतभूमिके परमप्रिय और देशके नेताओंकी आँख समान उनके सर्वभेष्ट और अर्ध्य बलि को पाकर संदेह और घृणा यह दोनों ही यहाँसे नष्ट होवें ॥ ७५ ॥

भारतक्षितिरियं विकलास्ति क्रौञ्चविच्छिर इवार्तमनस्कः ।

आद्यकाव्यकविसम्मुखमेव व्याधबाणहतदृद्यसुहृत्कः ॥७६॥

आज भारतभूमि उस प्रकारसे विकल है जैसा कि वह क्रौञ्च पक्षी विकल था जिसका एक प्रिय साथी व्याधके बाणसे बाल्मीकि ऋषिके सामने मारा गया था ॥ ७६ ॥

तां निरीक्ष्य घटनां कर्णाद्रश्रीमहर्षिवदनोद्गतवाचः ।

हेतुतामुपगताः प्रति काव्यं रामचन्द्रचरितामृतपूर्णम् ॥७७॥

उस घटनाको देखकर करुणासे आर्द्र महर्षि बाल्मीकिके मुखसे जो वचन निकले थे वह रामचरितसे पूर्ण काव्यके प्रति हेतु बन गये थे ॥७७॥

तद्वदेव परिदेवयतां नो यवन्नतो विगलदक्षरमाला ।

मोहनस्य भवतादतिभव्यं काव्यमेव रचये जनतायाः ॥७८॥

उसी प्रकारसे रोते हुए हमारे मुखसे जो अक्षरमाला निकल रही है वह जनताके आनन्दके लिये भगवान् मोहनका अतिभव्य काव्य बने ॥७८॥

प्रेमसत्यपरिरक्षणहेतोः स्वानसून्व्यसृजदद्य महर्षिः ।

तस्य मूल्यमभिरक्षितुकामैस्तत्र कार्यमिह यत्र सुयोग्यम् ॥७९॥

प्रेम और सत्यकी रक्षाके निमित्त महर्षिने आज अपने प्राणोंका विसर्जन किया है । जिन्हें उस त्यागके मूल्यकी रक्षा करनी है उन्हें यह कुछ भी नहीं करना चाहिये जो अत्यन्त योग्य न हो ॥ ७९ ॥

आश्रयः न विपुलः पतितानां सत्यदेवपरिरक्षक ईड्यः ।

अथ तद्विरहमाप्य निराशा हा गता विनिहता विधिना ते ॥८०॥

वह पतितोके महान् आश्रय थे । सत्यदेवके प्रशसनीय सरस्वरु थे । आज वह सब उनके विरहसे निराश हुए हैं । विधिने उन्हें मार डाला ॥ ८० ॥

अद्य कष्टसमये स विधात्रा हा हृतः परमदुर्बलदेवः ।

शासनं च विधिना हतकेन वञ्चितं विषमकाल लपेत्य ॥८१॥

आज कष्टके समयमें परम दुर्बलोके देव महात्माजीको विधाताने उठा लिया । तथा दुष्ट भाग्यने आकर भारत सरकारको विषम कालमें टग दिया ॥ ८१ ॥

चक्रवर्ती महाविद्वान् राजगोपाल इत्यमुम् ।

अशोचत्पुण्यसम्राजं शोकापहतचेतसा ॥ ८२ ॥

महाविद्वान् चक्रवर्ता राजगोपालाचार्यजीने पुण्यके सम्राट् उन महात्माजीके लिये शोकातुरचित्तसे इस प्रकार शोक प्रकट किया ॥ ८२ ॥

डाक्टर भगवानदासः

येनापरे फलिकलङ्कजुषोपि काले,

संरक्षिता अभयवागभिनन्दनेन ।

स स्वं न रक्षितुमपारयदेवदेव,

लीलालयस्य च परस्य महापरत्वम् ॥८३॥

जिस महापुरुषने पापियों और अपराधियोंको भी अभयवाचन देकर सम्यपर बचा लिया था वही अपनेको न बचा सका । यही लीलालय परमेश्वरका परमेश्वरत्व है ॥ ८३ ॥

भव्ये भवेपि नियमोयमुपस्थितो वा,

हन्याञ्जनस्तमिह यः परिरक्षितुं तम् ।

यावन्मृतिं प्रयतमानमकल्मषं किं,

हन्तुं ववाञ्छ यतिमद्य परिष्कृतो यत् ॥८४॥

क्या इस जगत्का यही तो नियम नहीं है कि जो जिसकी बचानेके

लिये मरणपर्यन्त प्रयत्न करे उसी निर्दोष आत्माका वही वध कर डाले !  
इसीलिये उपकृत महात्माजीको मारनेकी इच्छा की ॥ ८४ ॥

सर्वे गता उपकृतिप्रवणा नरेन्द्रा,  
एतेन विस्तृततमेन यथा पुरापि ।

श्रीमन्महात्मधरणीमणिरेष पुण्यः,  
प्रापत्स्वमन्तमिह निश्चितमेव पुण्यम् ॥८५॥

उपकारपरायण सभी महापुरुष इसी विस्तृत मार्गसे पहले भी गये  
हैं । पवित्र श्रीमहात्माजी निश्चय ही पवित्र मृत्युको प्राप्त हुए हैं ॥ ८५ ॥

ये तस्य नोतिविषये विपमा अभूवं-  
स्तेष्वद्य तद्गुणमहत्त्वमुदाहरन्ति ।  
तस्यागिता तदथ मानवताहितत्वं,  
लोकाश्रु घाहयति सन्ततमद्य कोष्णम् ॥८६॥

जो लोग उनकी नीतिसे सहमत नहीं थे वह भी उनके गुणोंके  
महत्त्वका गान कर रहे हैं । उनका वह त्याग और मानवताकी हितैषिता  
आज लोगोंके गर्म आँसूको बहा रहे हैं ॥ ८६ ॥

तत्त्वज्ञानस्य मञ्जूषा व्यवहारनिरङ्कुशः ।  
इत्यभिप्रैद्विचारेण भगवान्दासडाक्टरः ॥ ८७ ॥

तत्त्वज्ञानके मण्डार और सब व्यवहारमें स्वतन्त्र श्री० डाक्टर  
भगवान्दासजीने विचारके साथ यह अभिप्राय प्रकट किया था ॥ ८७ ॥

श्रीराधाकृष्णन् सर्वपल्ली

जातं प्रहारमधिगत्य महात्मदेहे,  
शार्दूरवर्ण्यहृदयोन्मथशीलदुःखम् ।  
शुक्लपनायिरहितं तद्भूदिदानीं,  
यातः पथिप्रतमदेहभृदद्य यन्मः ॥८८॥

महात्माजीके शरीरपर प्रहारको जानकर हृदयकोशिला देनेपाता अवर्ण-  
नीय शुकलपनायीत दुःख हुआ । वह यन्दनीय पथिप्र देहघारी चले गये ॥८८॥

सर्वसहा भगवती मतिरास्त यस्य,  
 सत्प्रेरणाप्रबलशाश्वतवारिधारा ।  
 निर्दोषतायनिमहीपतिरार्यवर्यः,  
 सोप्याहृतदच निहृतदच विचित्रमेतत् ॥८९॥

जिनकी बुद्धि भगवती सबको सहन कर लेती थी, जो सच्ची प्रेरणाके लिये प्रबल नित्य वारिधारा थे, जो निर्दोषताके केन्द्र थे, वह आर्यवर्य भी घायल किये गये और मारे गये, यह विचित्र है ॥ ८९ ॥

विद्वच्छिरोमणिसमर्च्यपद्योजपाद—

श्रीमोहनोरसि यदि क्षतिसंविधावा ।  
 अस्मिन्युगोप्यधिघरं श्वसिति क्षणेन,  
 मुञ्जातयीशुबलिकृत्गणोस्ति जीवन् ॥ ९० ॥

यदि परमविद्वानोंसे भी पूज्यपाद श्रीमहात्माजीकी छातीमें गोली मारनेवाला इस युगमें भी है तो यह कहना होगा कि मुकरात, यीशुकी बलिदान देनेवालाका गण अभी भी सुलसे बी रहा है ॥ ९० ॥

आसीदतीतयुगजीवितधर्मरूप-

स्तदेहद्धानिमपि मोहपरा अकुर्म ।  
 ज्योतिः परं तद्वदक्षमिद् स्थितं स-  
 त्पद्यां प्रकाशपद्बीमुपनेष्यते नः ॥ ९१ ॥

वह तो अतीतकालके जीते धर्मके रूप थे । अज्ञानबश हमने उनके भी देहकी हानि कर डाली । उनकी दी हुई महान् ज्योति यहाँ रहकर हमको प्रकाशमय मार्गमें ले जायगी ॥ ९१ ॥

विद्वं समस्तमिद् जीवितकाममद्य,  
 यद्यस्ति तर्हि तद्वक्षितवर्त्म हित्वा ।  
 हिंसामपास्य नितरां तदुपास्य सत्यं,  
 शुद्धिं व्रजेदिति परः परिनिष्ठिवोष्वा ॥ ९२ ॥

यदि समस्त जगत् जीनेकी इच्छा रखता हो तो जो मार्ग उन्होंने नहीं बताया है उसे छोड़कर, हिंसाका त्यागकरके, सत्यका ग्रहणकरके शुद्धि प्राप्त करे, यही अन्तिम मार्ग है ॥ ९२ ॥

तद्दानयानविकलो विवशोतिदुःखै-  
 विंचामहाजलनिधिः किल सर्वपल्ली ।  
 सज्ज्योतिराकरयतिक्षितिपस्य राधा—  
 कृष्णन्नुवाद सुगुणानिति वस्तुविज्ञः ॥ ९३ ॥

महात्माजीके नाश और गमनसे विकल, दुःखसे पराधीन, विद्यासागर, सर्वपल्ली श्रीराधाकृष्णनने सत् ज्योतिके आकर महात्माजीके गुणोंका इस प्रकार वर्णन किया ॥ ९३ ॥

आचार्यः जे० बी० कृपलानी

भवतीह तस्य न शरीरमुज्ज्वलं निखिलस्य निस्त्वकजनस्य दुःखहृत् ।  
 उपदिष्टमस्य मुखयत्नं चेद्वयं न कदापि संपरिहरेम शं भवेत् ॥९४॥

समस्त मरीचिके दुःखोंका नाश करनेवाला महात्माजीका शरीर तो अक्षय नहीं रहा है । परन्तु उन्होंने जिय सत्याग्रहपथका उपदेश दिया है, उसका यदि हम त्याग नहीं करें तो हमारा कल्याण होगा ही ॥९४॥

मरणं तदीयमिति बोधनक्षमं न ययं तदीयशमशिष्योत्सुकः ।  
 अथ येन दुःखदमिदं कृतं भवेत्कथं पृथक्ता कथं कृद्दानुगोलिका ॥९५॥

उनका अथगान यह सूचित करता है कि हम उनकी शान्तिकी शिक्षापेलिये उमुर नहीं है । अन्यथा यह दुःखद कार्य क्यों होता है ? वहाँ तो पृथक्ता और वहाँ आगही गोलियाँ ॥ ९५ ॥

यदि सत्यमस्तु शरणं गता नृणां तद्विंशतप्रवृत्तमपि धयन्तु से ।  
 श्रापिर्मम एव भविता राजातनां विपरीतता च विपदा निमग्नश्रमम् ॥९६॥

यदि सत्यमस्तु श्रापिर्मम एव भविता राजातनां विपरीतता च विपदा निमग्नश्रमम् ॥९६॥

भी वह पालन करें। यही सनातन ऋषिधर्म होगा। इससे विपरीत तो विपत्तियोंको आनन्वित करने जैसा ही है ॥ ९६ ॥

उपदिष्टमत्र जनवासु यन्मुनि स्वयमप्यनिद्रमभजत्तदेव सः ।  
जगता परीक्षणमिदं स्म गृह्यते गतवान्स पारमिति नात्र संशयः ॥९७॥

श्री महात्माजीने जनताको जिस तत्त्वका उपदेश दिया है और जिसका वह स्वयं मौ व्याचरण करते थे, जगत् उसकी परीक्षा ले रहा था। महात्माजी उर्चीर्ण हो गये, इसमें सन्देह नहीं था ॥ ९७ ॥

अविजातशत्रुरपि यत्र घातितो,  
इतमाग्यमेव भरतक्षमातटम् ।  
न विदेशिरायमपि यत्कृतं क्वचित्त-  
दकारि भारतमुतेन केनचित् ॥९८॥

जहाँ अज्ञातशत्रु भी मारा जाता है वह देश वस्तुतः इतमाग्य ही है। विदेशी शासनने भी जो काम नहीं किया वही काम भारतके एक पुत्रने कर दिया ॥ ९८ ॥

शुभमाग्यमाजनमिमे वयं यतो,  
यत्रिरागमत्स कृपयास्मदादिषु ।  
परतन्त्रतातिमधितान्त्रनाडिषु,  
पतनानुभूतिविकलाविमानुषः ॥९९॥

हमारा धन्य माग्य है कि श्री महात्माजी कृपाकर हमारे बीचमें पधारे थे। हमारी आन्त्र नाडियाँ परतन्त्रतासे निचो ली गयी थीं। महात्माजी हमारे पतनको देखकर बहुत व्याकुल थे ॥ ९९ ॥

अभवद्विनाशपथिकाश्रयाश्रमो,  
घतदेश एष हृदयानुभङ्गनम् ।  
इदमस्ति तेन सकृदै समन्वितं  
र्यतिदर्शितेन हि पथा प्रयायताम् ॥१००॥

यह देश विनाशरूप पथिकके आभयके लिये आश्रम बन गया है। यह जो बन गया है यह हृदयको तोड़ डालनेवाला कृत्य है। सबको इकट्ठे होकर श्रीमहात्माजीके बताये मार्गसे ही चलना चाहिये ॥ १०० ॥

गलितादरा अपि वयं धरातले,  
कृपया हि यस्य परिवेष्टितादराः ।  
स गुरुः पिता स सुहृदार्तरक्षको,  
गतएव हन्त निखिलान्विहाय नः ॥१०१॥

पृथिवीपर हमारा कोई मान नहीं था। जिसकी ही कृपासे हम मानवान् बने वह हमारा गुरु, हमारा पिता, हमारा मित्र, दीनबन्धु हम सबको छोड़कर चला गया ॥ १०१ ॥

अथ धर्मजातिगतभेदमर्दना-  
कुटिलप्रवृत्तिपरिवृत्तिसेवनात् ।  
यतिराजशिक्षणशिरोवधारणा-  
निजमातृभूमिगुरुतामघामहै ॥१०२॥

धर्म और जातिके भेदको मिटा देनेसे, कुटिल प्रवृत्तिकी बदल डालनेसे, तथा यतिराजकी शिक्षाको शिरोधारण करनेसे हम मातृभूमिके गौरवकी रक्षा करें ॥ १०२ ॥

मृतिजीवने समतया मते मते  
यतिशेखरस्य विजरामरस्य हि ।  
मृतिमाप्य सर्वविधवेदनाधहि-  
निजरूपमापदविलम्बमीश्वरः ॥१०३॥

श्री महात्माजी अजर और अमर थे। उनकी दृष्टिमें मरण और जीवन दोनों ही समान थे। मृत्युके पश्चात् वह तो शीघ्र ही सब प्रकारकी वेदनासे अलग जो उनका स्वरूप था उसे प्राप्त हो गये ॥१०३॥

सृतिरेष नामपदितस्य तस्यका-  
प्यथ भारतं प्रतिगतं समुन्नतेः ।

सकलाश्रयः श्रुतिवचः प्रबोधितं,  
गत एव धाम स तु रामनामतः ॥१०४॥

उनकी तो कोई क्षति हुई ही नहीं। वह तो श्रीरामनामके प्रतापसे वेदप्रतिपादित नित्य धामको चले गये। परन्तु भारत उन्नतिसे पीछे हट गया ॥ १०४ ॥

कृपलानिरेवमनिशं हृदा तप-  
न्नुपदेशनामुपदिशाल्लगद्गुरोः ।

कथमप्यपारविषदः पथः सदा,  
शिवतां च भारतभुयं निनीयति ॥१०५॥

आचार्य कृपलानी इस प्रकार हृदयमें सन्तप्त होते हुए तथा दृग्-  
द्गुरुके उपदेशोंको लोगोको उपदेश करते हुए किसी प्रकारसे भी  
भारतभूमिको अपार निषक्तिके मार्गको फलत्यागकी धोर ले जाना  
चाहते हैं ॥ १०५ ॥

अचार्य नरेन्द्रदेवः

लीलां समापयद्दहो महितः स्वकीयां,  
पुण्यात्ममिर्विबुधचारुचयेः सदैव ।  
एतद्युगस्य स महापुरुषोभियन्धः,  
श्रद्धामूर्तिर्निखिलविश्वयुवप्रकाण्डैः ॥१०६॥

पुण्यात्माओं, विद्वानोंके समूहों से उमा ही पूजित तथा विश्वके  
श्रद्धापूर्ण समस्त विद्वानोंके बन्दनीय इस युगके महापुरुष श्रीमहात्माजीने  
असे, अपनी लीला समाप्त की ॥ १०६ ॥

षाध्यात्मिकीः प्रियतरा उपदेशमाला,  
सामाजिकीर्नवनवा व्यवहाररीतीः ।  
सोशिक्षयन्मगदन्तकलामहेशः,  
सौद्योतयत्पुनरपि श्रुतिमात्मनीनाम् ॥१०७॥



उन्होंने जगत्को आध्यात्मिक उपदेश और नवीन नवीन सामाजिक व्यवहारकी रीतियोंका शिक्षण दिया । अनन्तकलाके अधिष्ठाता उन्होंने आत्मकल्याणके प्रकाशको पुनः प्रकाशित किया ॥ १०७ ॥

संत्यज्य दिव्यविभवो यदि मृत्युशय्या,  
पुण्यानुभाव इह राष्ट्रपिता श्यसेत्सः ।  
देहास्थिरत्वमखिलान्परिवोध्य शिष्या-  
न्भूयोपि भव्यपदवीं प्रतिपादयेत् ॥ १०८ ॥

दिव्यविभूतिवाले वह राष्ट्रपिता यदि मृत्युशय्याको छोड़कर पुनः जीवन धारण करते तो फिरसे सब मानवोंको देहकी अस्थिरताका उपदेश करके भव्यमार्गका प्रतिपादन करते ॥ १०८ ॥

प्रेम्णा शमेन गुरुणा रचिते चित्तेन,  
सत्येन वर्त्मनि परे जगदर्पयेत् ।  
पादं यदि कचिदपि स्वलति न पश्ये-  
त्पश्येत्परात्मपदवीं गतरोपरागम् ॥ १०९ ॥

श्री महात्माजीने प्रेम, शान्ति और सत्यसे जिस मार्गका निर्माण किया है यदि जगत् उसमें पादार्पण करे तो वह कभी स्वलित न हो प्रत्युत राम दोष आदिसे रहित होकर मोक्षको प्राप्त करे ॥ १०९ ॥

उत्थानवर्त्मनि रता निरता अजस्रे,  
सत्ये निरञ्जनगुरुप्रतिपादिष्वेव्ये ।  
भूयास्म तस्य कृपयेति नरेन्द्रदेव,  
आचार्य आह यतिराजवियोगतप्तः ॥ ११० ॥

श्रीमहात्माजीक वियोगसे संतप्त होकर आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवजीने कहा कि उत्थानमार्गमें लगे हुए हम सब उन्हींकी कृपासे उन्हींके बताये हुए श्रेष्ठ, अविनाशी, सत्यमें निरत रहें, ऐसी प्राथना है ॥ ११० ॥

## भारत सर्कार

सातत्येन जगदुपादिशन्महात्मा,  
 सत्यं धर्ममविचलं तथातिपुण्यम् ।  
 नीचानीचविभिदया प्रणङ्क्ष्यति श्रीः,  
 सर्वे सन्ति सपितृका इति प्रबोधम् ॥ १११ ॥

श्री महात्माजीने हमें सदा अतिपवित्र, अविचल सत्यका उपदेश दिया है। उन्होने यह उपदेश भी दिया है कि नीच, ऊँचके भेदसे भीका नाश हो जायगा। हम सब एक ही पिताके पुत्र हैं ॥ १११ ॥

सर्वस्यां व्यपगलदुष्चनीचतायां,  
 लक्षाधीशधनजनाद्यभावभाजि ।  
 विद्याहीनसकलशास्त्रमण्डिते च,  
 साम्यं दत्त्वा गत इतो मनुष्यजाती ॥ ११२ ॥

जिसमेंसे ऊँच नीच भाव निकला जा रहा है उस मनुष्य जातिमें, चाहे कोई लक्षाधीश हो अथवा धनजन आदिसे रहित हो, चाहे विद्याहीन हो, चाहे सकलशास्त्रसे मण्डित हो-समानता देकर वह यहाँसे चले गये ॥११२॥

प्रागान्भारतभुवि जन्मना निजस्य,  
 पावित्र्यं सुशुचिमना विधाय सम्यक् ।  
 निर्दोषं शमसमतादिपुण्यकार्यं,  
 कृत्वा कर्तुमपि भुवि प्रबोध्य सर्वान् ॥ ११३ ॥

अत्यन्त पवित्रमनवाले श्रीमहात्माजी भारतभूमिमें अपने जन्मसे पवित्रता पैदा करके निर्दोष, शान्ति और समता आदि पुण्यकार्य करके पृथ्वीपर सबको वहीं सब करनेकेलिये भी उपदेश देकर चले गये ॥११३॥

## विंशः सर्गः

विरलामवने तस्मिन्यस्मिन्यतिरुपावसत् ।  
द्वादशवासरात्पूर्वं तस्य देहमशाययत् ॥१॥

११ दिन ही पूर्व जिस विरलामवनमें श्रीमहात्माजीने उपवास किया था उसीमें उनके शरीरको सुला दिया गया ॥ १ ॥

समाचारं निश्चम्यैव श्रीजवाहरनेहरूः ।  
बल्लभोश्च ययतुस्तत्र नितरां बापुबल्लभौ ॥२॥

समाचारको सुनते ही बापूजीके अतिप्रिय पण्डित श्रीजवाहिरलालजी नेहरू और सदार श्रीबल्लभभाई वहाँ गये ॥ २ ॥

भारतराष्ट्रजनकः सर्वभूक्षेमसाधकः ।  
श्रीमोहनो गतः स्वस्य लौकैलोकमिति श्रुतम् ॥३॥

लोगोंने यह सुना कि भारतराष्ट्रपिता, सर्व जगत्के कल्याण करनेवाले श्रीमहात्माजी अपने लोकको पधार गये ॥ ३ ॥

हाहाकारेण नित्दिलं जगदध्रं प्रपूरितम् ।  
दिशोपि विदिशः पूर्णाः शोकोच्छ्वाससमीरणैः ॥४॥

हाहाकारसे समस्त जगदाकाश भर गया । दिशाएँ भी विदिशाएँ शोककी आहोंसे भर गयीं ॥ ४ ॥

अद्याभवन्निराधारा हा हा हन्त बसुन्धरा ।  
अभिव्याप्तो भवदचाद्याभव्यैः सन्तमसैर्वत ॥५॥

आज अगुंघरा निराधार बन गयी । ससार आज अन्धकारसे व्याप्त हो गया ॥ ५ ॥

अद्याग् जवाहरो जातः रसनातो रसो गतः ।  
बल्लभोपि पराधीनस्तदानीमभवच्छुचः ॥६॥

तस्य प्रयततपोबलेन भारतीयं,  
 राज्यं जातमिह ततस्तदीयकामम् ।  
 सर्वांशेन सफलमाविधातु मद्य,  
 प्रतिज्ञा क्रियत उदात्तशासनेन ॥ ११४ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

एकोनविंशः सर्गः

उन्हींके सयत तपोबलसे यहाँ भारतीय शासन स्थापित हुआ है ।  
 अतः उनकी इच्छाको सर्वांशमें सफल करनेके लिये आज भारतसर्कार  
 प्रतिज्ञा करती है ॥ ११४ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपज्ञभास्वराष्ट्रभाषाटीकायां

एकोनविंशः सर्गः



## विंशः सर्गः

विरलामवने तस्मिन्यस्मिन्यतिरुपावसत् ।  
द्वादशवासरात्पूर्वं तस्य देहमशाययत् ॥१॥

१२ दिन ही पूर्व जिस विरलामवनमें श्रीमहात्माजीने उपवास किया था उसीमें उनके शरीरको मुखा दिया गया ॥ १ ॥

समाचारं निशम्यैव श्रीजवाहरनेहरूः ।  
बह्मोश्च ययतुस्तत्र नितरां बापुबह्मौ ॥२॥

समाचारको सुनते ही बापूजीके अतिप्रिय पण्डित श्रीजवाहिरलालजी नेहरू और उदार श्रीबह्मभाई वहाँ गये ॥ २ ॥

भारतराष्ट्रजनकः सर्वभूक्षेमसाधकः ।  
श्रीमोहनो गतः स्वस्य लोकैलोकमिति श्रुतम् ॥३॥

लोगोंने यह सुना कि मातराद्रुपिता, सर्व जगत्के कल्याण करनेवाले श्रीमहात्माजी अपने लोकको पधार गये ॥ ३ ॥

हाहाकारेण निरिलं जगदभ्रं प्रपूरितम् ।  
दिशोपि विदिशः पूर्णाः शोकोच्छ्वाससमीरणैः ॥४॥

हाहाकारसे समस्त जगदाकाश भर गया । दिशाएँ और विदिशाएँ शोककी आहोसे भर गयीं ॥ ४ ॥

अद्याभवन्निराधारा हा हा हन्त वसुन्धरा ।  
अभिव्याप्तो भवदचाद्याभव्यैः सन्तमसैर्वत ॥५॥

आज वसुधरा निराधार बन गयी । सभार आज अन्धकारसे व्याप्त हो गया ॥ ५ ॥

अचाग् जवाहरो जातः रसनातो रसो गतः ।  
बह्मोपि पराधीनस्तदानीमभवच्छुचः ॥६॥

उस समय प० जवाहिरलालजी बोल नहीं सकते थे । उनकी जीम सूख गयी थी । सर्दारवल्लभभाई भी उस समय शोकपराधीन हो गये थे ॥ ६ ॥

वैपमानस्वरः श्रीमान्वाचया कम्पमानया ।  
जवाहरो वृत्तमेतद्भारते समजूधुपत् ॥७॥

कौपते हुए, आवाजवाले पण्डितजीने कौपती हुई जीमसे इस समाचारको भारतमें घोषित किया ॥ ७ ॥

तत्रारात्रि जनाः सर्वे वीतनिद्रा अजागरुः ।  
द्वितीये दिवसे देहं पुत्रस्तस्य समस्कृत ॥८॥

वहाँ सबकी नींद उड़ गयी थी । सभी रातभर जागते रहे । दूसरे दिन महात्माजीके पुत्र श्रीदेवदासगाधीने उनके देहका संस्कार किया ॥ ८ ॥

देहो महात्मनस्तस्य खट्वायां शायितोभवत् ।  
नेत्रे निमीलिते आस्तामनावृतमुरः क्षतम् ॥९॥

महात्माजीके देहको पलगपर मुला दिया गया । आँखें बन्द थीं और घायल छाती उघाडी थी ॥ ९ ॥

पावने तस्य कण्ठे च खादीमाला व्यशोभत ।  
अद्यापि वदनं चारु पद्मशोभामचूचुरत् ॥१०॥

पवित्र गलेमें खादीकी माला शोभा देती थी । मुख तो अभी भी कमलसे भी अधिक सुन्दर था ॥ १० ॥

तत्रत्या मेदिनी सर्वा पुष्पराजैः समावृता ।  
धृतदीपोज्वलत्तत्र चन्दनागुरुधूपितः ॥११॥

यहाँकी पृथिवी गुलाबसे ढँक गयी थी । चन्दन, अगरसे धूपित धृतदीप वहाँ जल रहा था ॥ ११ ॥

सर्दारवल्लभो राजकुमारयमृतकोरका ।

गोविन्दवल्लभः पन्तः समतिष्ठन्त भूरिभिः ॥१२॥

सर्दारवल्लभमाई, श्रीराजकुमारी यमृतकोर, पण्डित गोविन्दवल्लभपन्त बहुत लोगोंके साथ वहाँ बैठे थे ॥ १२ ॥

सर्वेषामेव देशानां प्रतिनिध्यं हि विभ्रतः ।

पुष्पमाला यतीशस्य तदा देहे समर्पिवन् ॥१३॥

सब देशोंके प्रतिनिधियोंने उस समय महात्माजीके शरीरपर पुष्पमालाएँ अर्पण कीं ॥ १३ ॥

त्रिटिश्राज्यप्रतिनिधिर्लाहं माउन्ट वेदनः ।

उभाभ्यां स्वीयकन्याभ्यां कृष्णवस्त्रः समागतत् ॥१४॥

ब्रिटिशराज्यके प्रतिनिधि वाइगराय लाहँ माउन्ट वेदन अपनी दोनों कन्याओंके साथ काले वस्त्रके साथ आए ॥ १४ ॥

चम्बा श्रीभारतीयस्य शासनस्य सुमोटरम् ।

आनीतं तत्र भञ्जं च समुन्नतमकारयत् ॥१५॥

भारतसर्कारकी सेना मोटर ले आयी थी । उस पर ऊँचा मंच बनाया गया था ॥ १५ ॥

श्वेतेन खादिवस्त्रेण मोटरं तत्समावृतम् ।

पुष्पैर्नानाविधैस्तत्रोपरिभागः समावृतः ॥१६॥

सफेद खादीसे वह मोटर ढाँक दी गयी थी । उसके ऊपर नाना प्रकारके फूल बिछाए गये थे ॥ १६ ॥

तत्रैव जगद्चर्यस्य शवः संस्थापितोभवत् ।

संनिधौ पादयोः श्रीमान् वल्लभः समतिष्ठत् ॥१७॥

उसी पर जगत्पूजनीय महात्माजीका देह रखा गया । धरणीके पास श्रीवल्लभमाई बैठे हुए थे ॥ १७ ॥

पादोने द्वादशहोरे मध्याह्ने निरगाद्रथः ।  
विरलाभवनादित्या जयकारपुरस्सरः ॥१८॥

पौने बारह बजे दोपहरको दिल्लीमें विरला भवनसे जयजयकारके साथ रथ निकला ॥ १८ ॥

सोसौ शवरथः श्रीमानकृष्यत मिष्टद्रुभुजैः ।  
वायुस्थलजलादीनां सैनिकैः श्रद्धया ततः ॥१९॥

उस रथको वायुसेना, स्थलसेना, जलसेनाके सैनिक श्रद्धाके साथ खींचते थे ॥ १९ ॥

बलभो बलदेवश्च नेहरूश्च जवाहरः ।  
गांधिर्देवदासश्च तं शवं पर्यवारयन् ॥२०॥

पण्डित जवाहिरलालजी, सर्दारबल्लभभाई, सर्दार बलदेवसिंह तथा श्रीदेवदासगांधी शवके चारों ओर बैठे थे ॥ २० ॥

राजेन्द्रः कृपलानी च पन्तगोविन्दवल्लभः ।  
बह्वोन्ये च नेतारः समावृण्वन्यतेः शवम् ॥२१॥

बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी, आचार्य जीवतराम भगवान्दास कृपलानी, पण्डित गोविन्दवल्लभपन्त और दूसरे बहुतसे नेता शवके चारों ओर बैठे थे ॥ २१ ॥

गोरखासैनिकाः सर्वे पादाताः सैनिकास्तथा ।  
व्यापृतास्स्परिताः सर्वे रथमार्गसमीकृतौ ॥२२॥

गोरखा सैनिक और पैदल सैनिक रथके मार्गको बराबर करनेमें झट ल्या गये थे ॥ २२ ॥

गव्युविमितमार्गेषु गृहा गृहखलानि च ।  
विद्युत्स्तम्भा षपथास्तरयो जनविप्लुताः ॥२३॥

चार मारलके रास्ते भर घर, घरका ऊपरी भाग, बिजलीके स्तम्भे, ठरमार्ग और गृह सब आदमियोंसे भरे हुए थे ॥ २३ ॥



मृतोपि स महानात्मा जीवन्निव निरन्तरम् ।  
मनुष्यसागरं कर्पणपुरो याति स्म धीश्वरः ॥२४॥

जैसे जीवित अवस्थामें वह मनुष्योंमें अपने पीछे खींचते थे वैसे ही मृतावस्थामें भी वह मनुष्यसागरको खींचते हुए जा रहे थे ॥ २४ ॥

जना अगणिता आमन्त्रशान्तिरासीदपूर्विका ।  
आकाशं पूरितं सम्यग्जयशब्दैर्महात्मनः ॥२५॥

मनुष्य तो पार बिनाके थे, शान्ति अपूर्व थी, और "महात्मागार्थिका जय" इन शब्दोंसे आकाश भर गया था ॥ २५ ॥

विहरा नीरवा आसन्निष्कम्पा अनोकहाः ।  
सहस्ररश्मिनिस्तेजा वायुरासीद्गलद्रतिः ॥२६॥

पत्नी चुप थे । वृक्ष निष्कम्प लडे थे । सूर्य निस्तेज था और वायुकी गति क्षीण हो गयी थी ॥ २६ ॥

नभो नीलाम्बरवृतं शोकसंवेगमूर्च्छितम् ।  
जयध्वनिमिषकीर्णं स्वयं दुःखेन नीरवम् ॥२७॥

आकाश कालावन्न पहिने हुए था । शोकके वेगसे मूर्च्छित था । जयध्वनिसे पूर्ण था परन्तु स्वयं दुःखसे चुपचाप था ॥ २७ ॥

देहलीद्वारसन्निधे वायुसेना। प्रयानतः ।  
अल्पकालान्तरालेन कुसुमानि समाकिरन् ॥२८॥

दिल्लीदरवाजेके पास वायुसेनायें आकाशयानसे थोड़ी-थोड़ी देरमें फूल बर्साती थी ॥ २८ ॥

नभसो नीलिमा तस्मिन्काले मिथ्यात्वमाभजत् ।  
पुष्परेणुमयं भातं निखिलं व्योममण्डलम् ॥२९॥

उस समय आकाशका नीलापन छूटा पड़ गया था । सम्पूर्ण आकाशमण्डल पुष्परेणुमय हो गया था ॥ २९ ॥

चतुर्होरावसरेसौ विशत्या चाधिकैः पलैः ।

राजघाटं रथं प्राप यमुनायास्तटोत्तमम् ॥३०॥

चार बज्रकर बीस मिनटपर वह रथ यमुनाजीके राजघाट तटपर पहुँच गया ॥ ३० ॥

पूर्वस्यां यमुनासेतोः रक्तदुर्गस्य पृष्ठके ।

यतिराजशवं दग्धुं वेदिका निर्मिताभवत् ॥३१॥

यमुनापुलकी पूर्व दिशामें, लाल किलेके पीछे, महात्माजीके शवका दाह करनेके लिये वेदी बनायी गयी थी ॥ ३१ ॥

अष्टहस्तमिता दीर्घा विस्तृतापि तथैव च ।

हस्तद्वयमिता चोच्चैर्वेदिरासीदनुत्तमा ॥३२॥

वह सुन्दर वेदी आठ हाथ लम्बी, आठ हाथ चौड़ी और दो हाथ ऊँची थी ॥ ३२ ॥

होराधेन चतुर्होरे तस्यां वेदौ महामुनेः ।

अवतार्य रथात्तस्मात्पवित्रः शायितः शवः ॥३३॥

सादेचार बजे महात्माजीका पवित्र शव उस रथसे उतारकर उस वेदिपर मुलाया गया ॥ ३३ ॥

शर्मा रामधनो विद्वानस्नपयच्छवं तदा ।

यामुनेन जलेनापि वेदौ तस्यां महात्मनः ॥३४॥

विद्वान् रामधनशर्माजीने उस वेदीपर महात्माजीके शरीरको यमुना जलसे स्नान कराया ॥ ३४ ॥

मणानां पद्मदशकं चान्दनं फाष्टमास्थितम् ।

फपूरं सेटकाः पद्मदशैकमणलाङ्गली ॥३५॥

द्रव्याण्यन्यानि योग्यानि चतुर्मणमितं घृतम् ।

एतैः सुपस्तुभिस्तस्य शर्मान्त्येष्टिमकारयत् ॥३६॥

पन्द्रह मन ( बंगाली तौल ) चन्दनकी लकड़ी, पन्द्रह सेर कपूर, एक मन नारियल, चारमन घी, दूसरे भी मुगन्धित द्रव्य इन सब वस्तुओं से रामघनशर्माने अन्त्येष्टि संस्कार कराया ॥ ३५-३६ ॥

पलैः पञ्चभिरुने पञ्चहोरे ब्रजदिने ।  
सायाह्ने च सुतस्तस्य देवदासो गुणान्वितः ॥३७॥  
सर्वेषामग्निशमने यतिराजशवे तदा ।  
ध्वनिभिर्वेदमन्त्राणामग्निं प्रावेशयद्वृत ॥३८॥

सायंकाल जब दिन ढल रहा था तब चार बजकर पंचावन मिनटपर महात्माजीके ( छोटे ) पुत्र श्रीदेवदास गाधीने वेदमन्त्रोंके साथ महात्मा जीके उस शरीर ( मृत ) में अग्निप्रवेश कराया जो मृत होकर भी सबकी आगको शान्त कर रहा था ॥३७॥३८॥

अस्तंगते दिवानाथे प्रजानाथशयस्तथा ।  
भस्मीभूय प्रकाशाढ्यस्तमोहन्ता बभौ पुनः ॥३९॥

जब सूर्य अस्त हो गया था तब महात्माजीका शव भी भस्म होकर प्रकाशपुञ्ज बनकर अन्धकारका नाश करनेवाला होकर फिरसे शोभित होने लगा ॥ ३९ ॥

साश्रुकण्ठा गलद्वानी गतरत्ना गताश्रया ।  
निष्प्रकाशमनाः सर्वा जनता संन्यवर्तत ॥४०॥

गला भरा हुआ था, दाणी लडखडा रही थी, रत्न चला गया था, आश्रय टूट चुका था, मन प्रकाशहीन था, ऐसी जनता लोट आयी ॥४०॥

चितारक्षावृते तत्र सैनिकाः स्थापितास्तदा ।  
प्रातःकाले पुनर्लोकान्चितास्पर्शाय बभ्रजुः ॥ ४१ ॥

चिताकी रक्षा करनेकेलिये सकारने वहाँ सैनिक सैनात कर दिये । प्रातःकाल होते ही फिर लोग चितास्पर्श करनेकी वहाँ गये ॥४१॥

श्रीमाञ्जुवाहरस्तत्र चितावेद्यां हतप्रभः ।

मालां समर्पयामास पुष्परजविनिर्मिताम् ॥ ४२ ॥

पण्डित जवाहरलालजीने प्रभाशून्य होकर चिताकी वेदीपर गुलाबका हार घटाया ॥ ४२ ॥

विधिवद्वेदवाणीभिः पूजां कृत्वा च भस्मनः ।

तृतीयस्मिन्दिने सोमवारेभूत्संचितं हि तत् ॥ ४३ ॥

तीसरे दिन सोमवारको ( जो श्रीमहाःमाजीका मौनवार था, ) वेदमन्त्रोंसे श्रीभस्मकी विधिवत् पूजा करके भस्मसंचय किया गया ॥ ४३ ॥

गाङ्गेयेन जलेनैतद्वेदपाठपुरस्सरम् ।

अभिषिच्य व्यघात्ताम्रपात्रे पावित्र्यसंभते ॥ ४४ ॥

वेदपाठ करके गङ्गाजलसे उस भस्मका अभिषेक करके पवित्र ताम्रपात्रमें पधरा दिया गया ॥ ४४ ॥

भस्मसंग्रहकालेपि राजदूता विदेशिनः ।

पद्मसम्पादका सर्वे देशदेशान्तरागताः ॥ ४५ ॥

भस्मके संग्रह करनेके समय भी विदेशीय राजदूत तथा देश-देशान्तरसे समाचार पत्रोंके सम्पादक सब आ गये थे ॥ ४५ ॥

वह्यो हिन्दवस्तत्र नेतारो मुस्लिमास्तथा ।

निखिलाः प्रान्तपालाश्च सर्वे एव उपस्थिताः ॥ ४६ ॥

वहाँपर बहुतसे हिन्दूनेता, मुस्लिमनेता, और सब गवर्नर, यह सब उपस्थित थे ॥ ४६ ॥

द्वादश्यां फर्यरीमासे भस्मर्षोः कियानपि ।

महता मुप्रबन्धेन प्रक्षिप्तो यमुनाजले ॥ ४७ ॥

ता० १२ फरवरी १९४८ ई० गुरुवारको बड़े भारी प्रबन्धके साथ उस भस्मका घोड़ा-या भाग यमुनाजीमें डाला गया ॥ ४७ ॥

महापुण्यात्मनस्तस्य द्रष्टुं भस्मविसर्जनम् ।

पारा वैदेशिका लोका यमुनासेतुसंस्थिताः ॥ ४८ ॥

श्रीमहात्मार्याके भस्मविसर्जनका दर्शन करनेकेलिये नागरिक और विदेशीय लोग यमुनापुलपर खड़े थे ॥ ४८ ॥

तीर्थराजे प्रयागे च मुनिवृन्दाभिपूजिते ।

त्रिवेण्यां भस्म विस्रष्टुं प्रबन्धोनुत्तमोभवत् ॥ ४९ ॥

मुनियोसि सेवित तीर्थराजप्रयागमें त्रिवेर्गामें भस्मविसर्जन करनेके लिये बहुत सुन्दर प्रबन्ध हुआ था ॥ ४९ ॥

विशिष्टधूमयानेन पताकामूपितेन च ।

प्रयागं भस्म तन्नेतुं प्रातिष्ठन्त च नायकाः ॥ ५० ॥

पताकाओंसे सजार्थी हुई रेलगाड़ीके द्वारा उठ भस्मको प्रयाग लेजानेके लिये नेता लोगोंने प्रत्यान किया ॥ ५० ॥

धूमयानं हरिद्वणं सर्वशोभाकरं परम् ।

लसद्राष्ट्रपताकाभिः पुष्पमालाविभूषितम् ॥ ५१ ॥

चतुर्भिश्च शतलोकैः परिपूर्णं समन्ततः ।

देहलीस्टेशने द्रष्टुं जनानां कोटयः स्थिताः ॥ ५२ ॥

जिसका रंग हरा था, शोभा अपार थी, राष्ट्रझंडोंसे जो शोभित थी, फूलोंकी मालासे जो सजार्थी गयी थी, चार सौ मनुष्य जिसमें बैठे थे, उठ रेलगाड़ीको देखनेकेलिये करोड़ों आदमी दिल्ली स्टेशनपर उपस्थित हुए ॥ ५१ ॥

अङ्घ्रितेशोकचक्रेण सिंहमुद्राभिरङ्घ्रिते ।

महाभाग्ये च तद्याने शासनस्था यशस्विनः ॥ ५३ ॥

स्वदेशीयविदेशीयाः पत्रकाराश्च सैनिकाः ।

उच्चाधिकारिणः भस्म संरक्षापिकृताः समे ॥ ५४ ॥

उठ गाड़ीमें अघोरचक्र लगा हुआ था, सिंहकी मुद्राएँ लगी थीं । उसमें बैठनेवाले शासनके लोग थे, स्वदेशीय और विदेशीय पत्रकार

ये, सैनिक ये, उच्च अधिकारी ये । वह सब भस्मकी रक्षाकेलिये नियुक्त थे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

व्यवस्थां वह्नियानस्य निरीक्ष्य च परीक्ष्य च ।

जवाहरो जवेनागात्तीर्थराजं खवर्त्मना ॥ ५५ ॥

पण्डित जवाहिरलालजी रेलगाड़ीकी व्यवस्था देखकर और परीक्षा करके विमानसे प्रयाग चले गये ॥ ५५ ॥

अग््नियानविभागस्याध्यक्षज्ञानमथायिना ।

प्रबन्धोक्रियत श्रेष्ठः तस्यया नस्य भस्मनः ॥ ५६ ॥

रेलविभागके अध्यक्ष श्री जानमयारीने उस भस्मकेलिये गाड़ीका उत्तम प्रबन्ध किया था ॥ ५६ ॥

तत्रैकस्मिन्महाभागे विभागे यानमध्यगे ।

चतुष्पादमधिष्ठाय चतुष्पादं व्यराजत ॥ ५७ ॥

गाड़ीके बीचों बीच एक विभागमें एक चौकी रखी गयी थी और उसके ऊपर दूसरी चौकी शोभा देती थी ॥ ५७ ॥

घस्त्रेण खदरेणेमे चतुष्पादे स्तुते उभे ।

उपरिष्ठे चतुष्पादे भस्मपात्रं न्यधीयत ॥ ५८ ॥

दोनों ही चौकियों खदरसे ढंकी हुई थीं । ऊपरकी चौकीपर भस्मपात्र रखा हुआ था ॥ ५८ ॥

रक्षायै तस्य पात्रस्य सैनिकानां चतुष्टयी ।

प्रामाणिकी च सश्रद्धा शासनेन न्ययुज्यत ॥ ५९ ॥

उस भस्मपात्रकी रक्षाकेलिए सवारकी ओरसे प्रामाणिक और श्रद्धा-पार सैनिक तैनात किये गये थे ॥ ५९ ॥

अग््नियानस्थितिस्थानेष्वखिलेषु च सैनिकाः ।

पण्णियुक्ताः स्थिता आसन्नक्षितुं भस्म भास्वरम् ॥ ६० ॥

सर्वां स्टेयनोरं छ छ सैनिक मन्मदीं रक्षाकेलिये नियुक्त मे ॥ ६० ॥

सर्वत्रैव पथि प्रेष्टदेहमस्मानुदर्शनम् ।

कर्तुं संगता आसन्नसंख्येया महाजनाः ॥ ६१ ॥

रान्तेमे सर्वां जगह उत्र परमाश्रयदेहके मस्सना दर्शन करनेकेलिये  
अगणित लोग रक्षके होते मे ॥ ६१ ॥

दिल्लीतो गावियावादं यद्वियानमुपागमत् ।

अलीगढं ततः प्रापत् टूंडलां च ततः परम् ॥ ६२ ॥

गार्दी दिल्लीसे गावियावाद, अलीगढ होकर टूंडला पहुँची ॥ ६२ ॥

कानपुरं ततः प्रागात्प्रयागं यज्ञपावितम् ।

इदानीं मत्सना तेन पुपुपन्तं स्वमादरात् ॥ ६३ ॥

टूंडलासे गार्दी कानपुर पहुँची । वटासे प्रयागमें गाडी पहुँच गयी ।  
प्रयाग यज्ञोत्सवे तो पवित्र ही था और अब उग्र मम्मते अपनेको पवित्र करना  
चाहता था ॥ ६३ ॥

वद्वृष्टुं श्रीमहादेवमस्स पूतं परं जनाः ।

दूर दूरतरात्प्रापुः प्राप्तुमेव कृतार्थताम् ॥ ६४ ॥

उन महान् देवके परम पवित्र मस्सका दर्शन करनेकेलिये और  
इतार्थ होनेकेलिये दूर दूरसे लोग वहाँ आये मे ॥ ६४ ॥

संगताः पूर्वमेवासन्प्रयागे कुम्भपर्वणि ।

वहवस्तेन संमर्द्धः कल्पनातीत, उत्थितः ॥ ६५ ॥

प्रयागमें कुम्भका पर्व था अतः पहिलेसे ही बहुतसे लोग रजडे थे ।  
अतः मस्स के समय कल्पनातीत भीड रफटी थी ॥ ६५ ॥

एको रथो महास्तन्न दारवः सुविभूषितः ।

पताकाभिध्वंजैश्चैव दर्शनीयो व्यतिष्ठत ॥ ६६ ॥

वहाँ स्टेयनपर पताकाओं और ध्वजोंसे विभूषित अत एव दर्शनीय  
एक लकड़ीसा महान् रथ तैयार था ॥ ६६ ॥

भस्मपात्र महामूल्यमवतार्य रथात्तत ।  
स्थापयामासतुस्तस्मिन्नथे नेह्रुवल्लभौ । ६७ ॥

उस गाड़ीपरस महामूल्य भस्मपात्रको उतारकर ५० जबाहिरलालजी और सदाखल्लभभाई पटेल, दोनोने उस रथपर स्थापित किया ॥ ६७ ॥

रथो महान् पुनस्तत्र मण्डपो निरमीयत ।  
मध्येमण्डप भव्य सिंहासनमुपरिथितम् ॥ ६८ ॥

एक तो रथ ही बहुत बड़ा था उस पर मण्डपके मध्यभागमें एक सिंहासन रखा हुआ था ॥ ६८ ॥

तस्मिन्सिंहासने देवदेवस्य तनुभस्मन ।  
कियानेवांश उल्क्षेप्तु त्रिवेण्यां सन्यधीयत ॥ ६९ ॥

उस सिंहासनपर महामाजीके भस्मका थोड़ासा भाग त्रिवेणीमें पधरानेके लिये रखा गया ॥ ६९ ॥

अहो रथस्य वैशात्यमहो शोभा महीयसी ।  
पुष्पहारमहाराजिराजितस्य पताकिन ॥ ७० ॥

पुष्पहारों और पताकाओंसे सुशोभित उस रथकी विशालताकी क्या कहें ? उसकी बड़ी शोभाका कैसे वर्णन हो ? ॥ ७० ॥

जनाना कोटयस्तत्र मार्गे भस्म दिदृक्षुव ।  
चिरेण समतिष्ठन्त विगतस्पन्दचक्षुष ॥ ७१ ॥

भस्मके दर्शनके लिये रास्तेमें निर्निमेष ( आँखकी पलक गिराय बिना ही ) देरसे लोग लड़े थे ॥ ७१ ॥

भस्मोद्धूलितसद्गात्र कैलासशिखरे स्थित ।  
महादेव इव ध्यात मण्डपस्य च भस्म तत् ॥ ७२ ॥

जैसे कैलासके शिखरपर भस्म लगाय हुए शङ्करजी ही न हों, इस प्रकारस उस मण्डपन स्थित भस्मको लोगोंने समझा ॥ ७२ ॥



सर्वेषामग्रतो गच्छन्मोटरं ध्वनिवर्धकम् ।

हृदये संनिधायैव श्रावयद्द्यूत्तमन्तिमम् ॥ ७३ ॥

सबसे आगे एक मोटर थी । उसमें लाउड स्पीकर रखा हुआ था ।  
अब कहाँ क्या होगा उसकी सूचना वह ध्वनिवर्धक यन्त्र दे रहा था ॥ ७३ ॥

पादातैर्गौरस्त्रासैन्यैरश्वारोद्देश्य सैनिकैः ।

अनुयातो रथो यातस्त्रिवेणीसंगमं तदा ॥ ७४ ॥

रथके पीछे-पीछे गोरखा फौज थी, घोड़ेसवार सैनिक थे । वह रथ  
त्रिवेणीसंगमपर पहुँच गया ॥ ७४ ॥

गङ्गा च यमुना चैव महाभागा सरस्वती ।

भस्मरूपमुपायान्तमपश्यन्विष्णुमीहितम् ॥ ७५ ॥

गङ्गा, यमुना और सरस्वतीने भस्मरूपसे आते हुए भगवान् विष्णुको  
देखा ॥ ७५ ॥

तद्दर्शनेन सर्वासां हृदयं शैत्यमस्पृशत् ।

तच्च स्वहृदये धातुं सर्वा एव तरङ्गिताः ॥ ७६ ॥

भस्मदर्शनसे ही तीनों पवित्र नदियोंका हृदय शीतल हो गया ।  
उस भस्मको अपने हृदयमें धारण करनेके लिये सभी तरङ्गित हो  
गयी थीं ॥ ७६ ॥

अनन्तादेव कालात्सा सुगुप्तापि सरस्वती ।

प्राकट्यमुपगम्यैव भस्म सश्रद्धमप्रहीत् ॥ ७७ ॥

अनन्तकालसे गुप्त रही हुई सरस्वतीने प्रकट होकर श्रद्धाके साथ उस  
भस्मको ग्रहण कर लिया ॥ ७७ ॥

आगता च महानौका सर्वपुण्यमहेश्वरी ।

महापुण्यं महादेवभस्म तद्धृदये न्यधात् ॥ ७८ ॥

सर्वपुण्योकी रानी बैठी एक बड़ी नाव आयी और वह भस्म उसमें  
रखा गया ॥ ७८ ॥

शनैः शनैश्चालाशु नृत्यन्तीव कृतार्थिता ।

देवदुर्लभदेहस्य भस्मस्पर्शमुदान्विता ॥ ७९ ॥

कृतार्थ होकर नाचती हुईके समान वह नौम देवोंको भी दुर्लभ महात्माजीके देहके भस्मके स्पर्शसे प्रसन्न होकर धीरे धीरे चली ॥७९॥

वेदमन्त्राक्षराण्यैः प्रार्थनागीतिकारणैः ।

रामनाम समुच्चार्य भस्मपात्रं जलेर्पितम् ॥ ८० ॥

वेदमन्त्रोंके घोषके साथ, प्रार्थना गानके साथ, श्रीरामनामका उच्चारण करके वह भस्मपात्र त्रिवेणीमें रख दिया गया ॥ ८० ॥

आसीदुन्मना गंगा हरेः पादसरोजजा ।

निरस्तशोकसन्तापा तदाभूद्भस्मसंगतः ॥ ८१ ॥

विष्णुभगवान्के चरणकमलमें निकली हुई गङ्गा ध्याकुल बन गयी थी। परन्तु उस भस्मके सम्पर्कसे उसके शोक और सन्ताप दूर हो गये ॥ ८१ ॥

कृष्णसंगात्कृष्णजला सा कृष्णान्तर्मनाः सदा ।

यमस्त्रसा क्षणं जाता सिता तद्भस्मसंगते ॥ ८२ ॥

श्रीकृष्णके संगसे कृष्ण जलवाली और कृष्ण अन्तःकरणवाली यमराजकी बहिन यमुना भी क्षणभरके लिये महात्माजीके भस्मके सयोगसे श्वेत निर्मल बन गयी ॥ ८२ ॥

सरस्वती चिरेणासीत्तत्र गुप्ता प्रियवदा ।

नराकारा बहिर्याता भस्मपिष्टवृत्त्याथ सा ॥ ८३ ॥

प्रियभाषिणी सरस्वती अनन्त वर्षोंसे वह गुप्त थी। वह भी मनुष्योंके रूपमें भस्मस्पर्श करनेकी इच्छासे बाहर आ गयी ॥ ८३ ॥

चिद्यन्ते भारवे पुण्या यायत्यः सरितो नदाः ।

संभेदाः पुण्यकासारा भस्मना पाविताश्च ते ॥ ८४ ॥

भारतमें बितनी पवित्र नदियाँ हैं, नद हैं, सगम हैं, पवित्र सरोवर हैं, वह सभी उस भस्मसे पवित्र किये गये ॥ ८४ ॥

सर्वहृत्पाथां श्रीकाश्यां हरिश्चन्द्रस्य घट्टके ।

गङ्गायां पूतपापायां यतेर्भस्म न्यधीयत ॥८५॥

श्री काशीमें गंगाके हरिश्चन्द्र घाटपर महात्माजीका भस्म विसर्जित हुआ ॥ ८५ ॥

हरद्वारे भवद्वारविभेदकुशले पुनः ।

नरपीड्यां महापूज्यमभवन्निहितं च तत् ॥८६॥

ससारको दूर करनेवाले हरद्वारमें हरकी पैड़ीमें वह महापूज्य भस्म पधरा दिया गया ॥ ८६ ॥

गढमुक्तेश्वरे गङ्गा यमुना मथुरापुरे ।

श्रीमतो देवदेवस्य निदघाते च भस्म तत् ॥८७॥

गढमुक्तेश्वरमें गंगाने और मथुरामें यमुनाने देवोंके देव महात्माजीके भस्मको रख लिया है ॥ ८७ ॥

देहरादूननगरे त्रिवेणीघाटनामके ।

श्रीमीरा विदुषी वीरा प्रावाहयत तत्पुनः ॥८८॥

देहरादूनमें त्रिवेणी घाटपर उस भस्मको विदुषी श्री मीरा बहिनने पधरा दिया ॥ ८८ ॥

श्रीसोरोघाट्टकेत्याख्ये तीर्थस्थानेधिभीष्मसु ।

अयोध्याया सरय्यां तन्न्यक्षिप्यत महच्छुचि ॥८९॥

सोरोघाटमें गंगाजीमें, अयोध्यामें, सरयूजीमें वह महत् पवित्र वस्तु पधरा दी गयी ॥ ८९ ॥

रामपूरनवावेन सभार्येण प्रवाहितम् ।

देहलीतस्तदानीतं सङ्गमे कोसिमल्लयोः ॥९०॥

अपनी बेगमके साथ रामपुरके नवाबने ।  
भस्मको कोसी और महलके सगममें प्रतिष्ठित ।

सिन्धु ।  
मिढीलायां च सरिति पावनं भस्म

उस प्रख्यात दाडीमें, महासागरमें और  
वह पवित्र भस्म आज भी शोभित है ॥ ९१ ॥

गोधरानगरे मह्यां गोहाट्यां च  
घट्टे च निदधे श्रीमान् भस्माकबर

गोधरामें, महीनदीमें तथा श्री अकबर  
घाटपर उस भस्मको पधराया ॥ ९२ ॥

धुव्री च गोलपाडा च तेजपूरं च  
डिब्रगढं सिलहटं शिलौंगं च  
कुकीलमुखदेसंगमुखे च  
इम्फालं जोरहाटं चेत्याद्येषु  
महात्मनः शरीरस्य च  
ब्रह्मपुत्रे जनैर्भ्रज्यैर्निक्षिप्तं

धुव्री, गोलपाडा, तेजपुर, सादिया, ।  
शिवसागर, कुकीलमुख, देसंगमुख,  
आदि नगरों और स्थानोंमें ब्रह्मपुत्र नदमें  
भस्म भावुक लोगों द्वारा रख दिया गया ॥ ९३ ॥

उदीच्यां फालिकाताया दिशि च  
तस्यामपि च तद्भस्म राजते च

फलकसेकी उत्तर दिशामें हुगली नदी है,  
पधरा दिया गया ॥ ९४ ॥

त्रिवेण्यां घट्टदेशेषु च  
कंसायत्यां च तत्रैव नगरे च

वीरभूमे च सूरौ च सतीघाटे महौजसि ।

श्रीमौराक्ष्यां महानद्यां भस्मतेजः प्रकाशते ॥९८॥

बङ्गालमें हुगली शहरके पास त्रिवेणीमें, मेदिनापुरमें, पंचावती नदीमें, वीरभूम जिलेमें सुरि टाउनके पास मौराक्षी नदीके सतीघाट पर उस भस्मका तेज प्रकाशित होता है ॥९७-९८॥

अधिब्राह्मणपाटेपि कुचोनद्यां विराजते ।

ब्रह्मतत्त्वविदस्तस्य श्रीयतेर्भस्मन्तो लयः ॥९९॥

ब्राह्मणपाढाके Kuo कुचो नदीमें ब्रह्मतत्त्ववेत्ता श्रीमहात्माजीका मस्म शोभित हो रहा है ॥ ९९ ॥

रामपुरहट्टपाद्वे संघाटायां च तद्यतेः ।

ब्रह्मपुत्रनदे लाङ्गलबन्धे तद्भस्म शोभते ॥१००॥

Rampurhat रामपुरहट्टके पास Shanghata संघाटा नदीमें और नारायणगंज के पास ब्रह्मपुत्र नदीके Langalbandh लाङ्गल-बन्धमें वह भस्म सुशोभित है ॥ १०० ॥

सरमाया सिलहटे भारतीयमहागुरोः ।

भस्मतवस्मनन्ताय कालाय च विशोभते ॥१०१॥

सिलहटमें Surma सरमा नदीमें भारतके महागुरुका वह भस्म अनन्त कालके लिये शोभा दे रहा है ॥ १०१ ॥

राशी-शुशाङ्गी-तिनाम्नोः पर्वतयोर्यतस्ततः ।

नदीषु प्रवहन्तीषु प्रस्रवणीषु तद्गतम् ॥१०२॥

राशी और शुशाङ्गी नामक पर्वतोंमें बहती बहती हुई नदियोंमें उस भस्मका विसर्जन हुआ ॥ १०२ ॥

परशुरामकुण्डेपि तल्लालेश्वर धारुआ ।

रामतीराज्यनृपतिर्निदघाते परैः सह ॥१०३॥

परशुरामकुण्डके तल्लालेश्वर धारुआ । रामतीराज्यनृपतिर्निदघाते परैः सह ॥१०३॥

अपनी बेगमके साथ रामपुरके नवाबने दिल्लीसे लाये गये हुए  
भस्मको कोसी और महलके सगममें प्रतिष्ठित किया ॥ ९० ॥

दाण्ड्यां तस्यां महासिन्धौ वारडोल्यां यतेस्तनोः।

मिढीलायां च सरिति पावनं भस्म राजते ॥९१॥

उस प्रख्यात दाढीमें, महासागरमें और वारडोलोमें मिढीला नदीमें  
वह पवित्र भस्म आज भी शोभित है ॥ ९१ ॥

गोधरानगरे मह्यां गोहाट्यां सुखलेद्वरे।

घट्टे च निदधे श्रीमान् भस्माकवर हैदरी ॥९२॥

गोधरामें, महीनदीमें तथा श्री अकबर हैदरीने गोहाटीमें सुखलेश्वर  
घाटपर उस भस्मको पधराया ॥ ९२ ॥

धुत्री च गोलपाडा च तेजपूरं च सादिया।

डिब्रगढं सिलहटं शिलोंगं शिवसागरम् ॥९३॥

धुकीलमुखदेसंगमुत्ते च कोहिमा तुरा।

इम्फालं जोरहाट चेत्याद्येषु नगरेषु च ॥९४॥

महात्मनः शरीरस्य भास्वरं भस्म पावनम्।

ब्रह्मपुत्रे जनैर्भव्यैर्निक्षिप्तं श्रद्धया मुहुः ॥९५॥

धुत्री, गोलपाडा, तेजपुर, सादिया, डिब्रगढ, सिलहट, शिलोंग,  
शिवसागर, धुकीलमुख, देसंगमुख, कोहिमा, तुरा, इम्फाल, जोरहाट  
आदि नगरों और स्थानोंमें ब्रह्मपुत्र नदमें महात्माजीके शरीरका पवित्र  
भस्म भाग्य लीनों द्वारा रज दिया गया ॥ ९३-९४-९५ ॥

एदीच्यां कालिदासाया दिशि हुगली पयस्विनी।

तस्यामपि च तद्भस्म राजते सर्षपावनम् ॥९६॥

कटकनेरी उत्तर दिशामें हुगली नदी है, उगमें भी यह पवित्र भस्म  
पधरा दिया गया ॥ ९६ ॥

त्रिवेण्यां पद्मदेशेषु हुगलीनगरान्तिके।

बंभाय्यां च तत्रैव नगरे मेदिनापुरे ॥९७॥

वीरभूमे च सूर्यं च सतीघाटे महोजसि ।

श्रीमौराक्ष्यां महानद्यां मस्मतेजः प्रकाशते ॥९८॥

बङ्गालमें हुगली शहरके पास त्रिवेणीमें, मेदिनापुरमें, झंझावती नदीमें, वीरभूम बिदेमें सुरि टाउनके पास मौण्डा नदीके उत्तीघाट पर उस मस्मका तेज प्रकाशित होता है ॥९७-९८॥

अधिब्राह्मणपादेषि कुयोनद्यां विराजते ।

ब्रह्मतत्त्वविदस्तस्य श्रीयतेर्मस्मनो लवः ॥९९॥

ब्राह्मणराजाके Kuo कुवो नदीमें ब्रह्मतत्त्ववेत्ता श्रीमहामार्जीका मस्त शोभित हो रहा है ॥ ९९ ॥

रामपुरहट्टपादेषु संपाट्यायां च तद्यतेः ।

ब्रह्मपुत्रनदे लाङ्गलबन्धे तद्भस्म शोभते ॥१००॥

Rampurhat रामपुरहाटके पास Shanghata शंघाटा नदीमें और नाशयगंज के पास ब्रह्मपुत्र नदीके Langalbandh लाङ्गल-बन्धमें वह मस्त सुशोभित है ॥ १०० ॥

सरमाया सिलहटे भारतीयमहागुरोः ।

भस्मतवत्स्मनन्ताय कालाय च विशोभते ॥१०१॥

सिलहटमें Surma सरमा नदीमें भारतके महागुरुका वह मस्त अत्यन्त कालके लिये शोभा दे रहा है ॥ १०१ ॥

राश्री-शुशाङ्गी-निनाम्नोः पर्यतयोर्यत्स्वतः ।

नदीषु प्रवहन्तीषु प्रस्रवणीषु तद्गतम् ॥१०२॥

राश्री और शुशाङ्गी नामक परतोंमें बहती तहाँ चरती हुई नदियोंमें उस मस्तका दिग्दर्शन हुआ ॥ १०२ ॥

परशुरामकृण्डेषि तल्लारिदयर याम्बुजा ।

रामनीराज्यनृपतिर्निदधाते परैः सह ॥१०३॥

परशुरामकृण्डके तल्लारिदयर याम्बुजा । रामनीराज्यनृपतिर्निदधाते परैः सह ॥१०३॥

श्री० ओ० के० दास लोखेश्वर वरुधा और खामती स्टेटके राजाने  
अन्य लोगोंके साथ परशुराम कुण्डमें उस भस्मको पधराया ॥ १०३ ॥

धाकधाकशिने यत्र श्रीचैतन्यो व्यजायत ।

महात्मनः शरीरस्य भस्म तद्राजते शिवम् ॥१०४॥

जहाँ श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जन्म हुआ था वहाँ धाकधाकशिनमें  
वह भस्म अर्पित हुआ था ॥ १०४ ॥

हैदराबादराज्ये च निजामोस्मानसागरौ ।

संगत्य दधतुर्भस्म देवदेवस्य पावनम् । १०५॥

हैदराबादस्टेटमें दो सागर हैं—१ निजाम सागर २—उस्मानसागर  
इन दोनोंके सगमपर महाप्रभुका भस्म रखा हुआ है ॥ १०५ ॥

बैङ्गलोरे च पश्चिमवाहिन्यां राजघाटके ।

महीशूरेपि तस्यां तत् निहितं सार्वलौकिकम् ॥ १०६ ॥

बैंगलोरमें पश्चिमवाहिनीके राजघाटपर तथा मैसूरमें भी उसी नदीमें  
वह भस्म रखा दिया गया ॥ १०६ ॥

भद्रायां शैवलिन्यां च संगमे तुङ्गभद्रयोः ।

ताव्यां नद्यां च काश्मीरे भस्म तद्राजते पुनः ॥ १०७ ॥

भद्रा नदीमें तथा तुङ्ग और भद्राके सगममें एवं काश्मीरमें तावी  
नदीमें वह भस्म शोभित हो रहा है ॥ १०७ ॥

आज्यां श्रीराजकोटे च समुद्रे पोरबन्दरे ।

श्रीदामोदरकुण्डे तत्सौराष्ट्रेस्ति जुनागडे ॥ १०८ ॥

राजकोटमें आज्ञी नदीमें, पोरबन्दरमें समुद्रमें और जुनागढमें दामोदर  
कुण्डमें वह भस्म विद्यमान है ॥ १०८ ॥

मौरव्यां धौलनाथस्य सयिधे मञ्जुनामिका ।

सरिदद्यापि संघत्ते भस्म तद् देहजं यतेः ॥ १०९ ॥



मौरवीमें धौलनाथके पास मन्धु नदी आज भी उस मस्की धारण कर रही है ॥ १०९ ॥

गोण्डले जामनगरे तच्छ्रमिपती स्वयम् ।

भस्मादाय महदिव्यं दधाते दिव्यगारिणि ॥ ११० ॥

गोण्डल और जामनगरके राजाने स्वयं उस दिव्य मस्की लेकर दिव्य जलमें रख दिया ॥ ११० ॥

समुद्रे भावनगरे विलम्बाभूपतिश्च तत् ।

न्यदधाद्विल्वगङ्गायां यतिदेहस्य पावनम् ॥ १११ ॥

भावनगरमें समुद्रमें और विलम्बाके टाकुर साहेबने उस मस्की विल्वगङ्गामें पधरा दिया ॥ १११ ॥

बालायां तथोन्नत्तगङ्गायां तस्य भूपतिः ।

माण्डव्यां चापि कच्छेपु क्रीके श्रीकृपलानिजिः ॥ ११२ ॥

बालान्टेमें बालाके राजाने उन्नत्तगङ्गामें और कच्छमें माण्डवीमें श्रीकृपलानीजिने क्रीक नदीमें मन्म स्थापन किया ॥ ११२ ॥

शिप्रायामुञ्जयिन्यां च तथेन्दोरेघिनर्मदम् ।

धारेपि कोटेश्वरस्य नर्मदायामुपान्तिके ॥ ११३ ॥

ठडैनमें शिप्रानदीमें, इन्दोरमें नर्मदामें, धारमें कोटेश्वरके पास मन्मस्थानन किया गया ॥ ११३ ॥

मोपाले च महाकाये राजभाने सरोवरे ।

सेवानामृत्यायां सरिति पानारेपि महाशुभे ॥ ११४ ॥

मोपालके महाशरोर तथा नेवान नदीमें, एवन् पीनार स्थानमें भी मन्म पधराया गया ॥ ११४ ॥

जयलपुरे तिल्याराघटके नामदे यतेः ।

देहशेषोमयत्क्षितः श्रेयसे महते नृणाम् ॥ ११५ ॥

जबलपुरमें नर्मदामें तिलवारा घाटपर, लोगोके कल्याणकेलिये महात्माजीका देहशेष—भस्म पधराया गया ॥ ११५ ॥

अकोलायां च वाघोलीसविधे पूणनामिका ।

विराजते स्रोतस्प्रती तस्यां तत्संन्यधीयत ॥११६॥

अकोलामें वाघोलीके पास पूर्ण नदीमें भस्म रख दिया गया ॥११६॥

हरिहरे तुङ्गभद्रा भस्मादाय तु तच्छुचि ।

प्रसन्नवदना देवी राजतेद्य कृतार्थिता ॥११७॥

हरिहरमे तुङ्गभद्रा उस पवित्र भस्मको प्राप्त करके आन कृतार्थ हो गयी है ॥ ११७ ॥

बेलगामे च काम्रेसकूपे तन्नहितं पुनः ।

आलन्दी सविधे नद्यामिन्द्राण्यमपि तद्गतम् ॥११८॥

बेलगाँवमें काम्रेस कूपमें और आलन्दीके पास इन्द्राणी नदीमें वह भस्म पधराया गया ॥ ११८ ॥

नरसोबावाडीस्थाने कृष्णायां पण्डरे पुरे ।

चन्द्रभागेतिविख्यातनद्यां तद्भस्म शोभते ॥११९॥

नरसोबावाडीमें, कृष्णानदीमें तथा पण्डरपुरमें चन्द्रभागा नदीमें वह भस्म सुशोभित है ॥ ११९ ॥

गोकर्णे कोटितीर्थे च तथा कोल्हापुरेपि तत् ।

पञ्चगङ्गे नरसिंहवाप्यामपि च राजते ॥१२०॥

गोकर्णमें कोटितीर्थके पास, कोल्हापुरमें पञ्चगङ्गा और नरसिंह वावडीमें वह भस्म शोभित है ॥ १२० ॥

श्रीकृष्णावर्णयोः पुण्ये संगमे मीरजे पुनः ।

सांगल्यां चापि कृष्णायां पावनं तद्विशोभते ॥१२१॥

मीरजमें कृष्णा और वर्णाके संगममें और सांगलीमें कृष्णा नदीमें वह भस्म सुशोभित है ॥ १२१ ॥

गोवायां सागरे तच्च स्थानेषु बहुषु प्रभोः ।  
पवित्रं परमं भस्म निक्षिप्तं देवदुर्लभम् ॥१२२॥  
गोवामें समुद्रमें बहुतसे स्थानोंमें वह देवदुर्लभ पवित्र भस्म पधराया  
गया ॥ १२२ ॥

मद्रासे च महासिन्धौ श्रीरङ्गेपि च धार्मिके ।  
कावेर्यामम्भापट्टणवट्टे तत्स्थापितं महत् ॥१२३॥  
मद्रासमें महासागरमें और श्रीरङ्गमें कावेरीमें अम्भापट्टण घाटपर  
वह महनीय भस्म पधराया गया ॥ १२३ ॥

रामेश्वरे रत्नाकरमहोदध्योश्च संगमे ।  
सविधे च रामसेतोस्तदासीन्निहितं शुचि ॥१२४॥  
रामेश्वरमें रत्नाकर और महोदधिके संगममें सेतुके पास वह पवित्र  
भस्म पधराया गया ॥ १२४ ॥

कन्याकुमारीसंस्थाने सिन्धूनां संगमे पुनः ।  
त्रयाणां निहितं भस्म जयत्यद्यापि सर्वदम् ॥१२५॥  
कन्याकुमारीमें तीन समुद्रोंके संगममें वह भस्म पधराया गया और  
आज भी वह विजयी है ॥ १२५ ॥

तिरुकोईलुरे पुण्ये पेन्नारेधिमवानि च ।  
नेन्नयत्याः पुलान्याश्च संगमे मैङ्गलोरके ॥१२६॥  
पवित्र तिरुकोईलुरमें पेन्नार और भवानी नदियोंमें तथा मैङ्गलोरमें  
नेन्नवती और पुलान्याके संगममें ॥ १२६ ॥

फालीकटं च भारतपुत्रायां नोयले तथा ।  
कृष्णायां विजयवाढानगरे तत्समर्पितम् ॥१२७॥  
फालीकटमें भारतपुत्रा और नोयल नदियोंमें तथा बेववाढा (विजय-  
वाह) में कृष्णा नदीमें वह भस्म समर्पित हुआ ॥ १२७ ॥

गोदावर्यां तथा राजमाहेन्द्र्यां नासिके तथा ।

रामकुण्डेभवत्क्षिप्तं पावनं भस्म तत्पुनः ॥१२८॥

राजमाहेन्द्रीमें गोदावरी नदीमें तथा नासिकमें भी गोदावरीमें राम-  
कुण्डमें वह भस्म पधराया गया ॥ १२८ ॥

चौपाट्यां मोहमय्यां च सागरे च जुहुस्थले ।

जलन्धरे सतलजे तदासीत्तत्समर्पितम् ॥१२९॥

बम्बईमें समुद्रमें चौपाटीपर, जुहूमें—जहाँ महात्माजी बहुत बार  
शान्तिके लिये निवास करते थे—समुद्रमें, और जलन्धरमें सतलज नदीमें  
उस समय वह भस्म पधराया गया ॥ १२९ ॥

कपूर्थलानगरे व्येनाख्ये निर्झरे पुनः ।

निहितं तच्च संमान्यमजमेरे च पुष्करे ॥१३०॥

कपूर्थलामें व्येन हारनेमें और अजमेरमें, पुष्कर सरोवरमें वह भस्म  
पधराया गया ॥ १३० ॥

• बनास-चम्बल-सीपाख्यनदीना संगमे शुचौ ।

जयपुरे जगन्नाथदेहभस्म विराजते ॥१३१॥

जयपुरमें बनास, चम्बल और सीप नदियोंके संगममें महात्माजीका  
देहभस्म शोभित हो रहा है ॥ १३१ ॥

बीकानेरे च मुभगे कोलायतसरोवरे ।

चन्द्रभागायां च प्रजनगरेप्यस्ति शोभितम् ॥१३२॥

बीकानेरमें कोलायत सरोवरमें और प्रजनगरमें चन्द्रभागामें वह  
भस्म मुशोभित है ॥ १३२ ॥

अर्बुदे च नरीनाम्नि महापुण्ये सरोवरे ।

देवयान्यां च निहितं तत्साभिरमरोवरे ॥१३३॥

अर्बुद (आषू) में नर्वा ताहाबमें और अर्बिर सरोवर—देवयानांमें  
वह भस्म पधराया गया ॥ १३३ ॥

झाबुयाराज्ये शुचि तदेवझारीसरिज्जले ।  
 मुचुकुन्दे धौरुपुरे संनिहितं सरोवरे ॥१३५॥  
 झबुआ स्टेटमें देवझारी नदीमें और धौलपुरमें मुचुकुन्द सरोवरमें  
 वह भस्म निहित है ॥ १३५ ॥

ओरछायां च वेतवानद्यां कलकतापुरे ।  
 गङ्गायां सर्वदरिद्र्यदारिण्यां तन्न्यधीयत ॥१३५॥  
 ओरछामें वेतवानदीमें और कलकतामें भागीरथी नदामें उसे  
 पधराया गया ॥ १३६ ॥

गङ्गागण्डकयोः पुण्ये संगमे पटनापुरे ।  
 गयायां फल्गुसरिति राच्यां दामोदरे पुनः ॥१३७॥  
 पटनामें गङ्गा और गण्डकके संगमपर, गयामें फल्गु नदीमें और  
 राच्यामें दामोदर नदीमें ॥ १३७ ॥

मोतीद्वार्यां नारायण्यां विपराख्ये च घट्टके ।  
 श्रोमद्गोदावरोगंजवाटे तदधिशोभते ॥१३८॥  
 मोतीद्वारीमें नारायणी नदीमें, विपरावाट और गोदावरीगंज वाटपर  
 वह भस्म सुशोभित है ॥ १३८ ॥

पालनपुरे वनासे पालनपुरभूमुजा ।  
 नवाग्राह्येन तद्भस्म लोकेः सार्धं न्यधीयत ॥१३९॥  
 पालनपुरमें वनासे नवाग्रहाह्येन लोकोके साथ उक्त भस्मको बनाल  
 नदीमें पधरा दिया ॥ १३९ ॥

लूणागलाभिवे स्थाने केदारेश्वरपार्श्वगे ।  
 सरितां तिस्र्यां चापि संगमे भस्म शोभते ॥१४०॥  
 लूणागलामें केदारेश्वरके पास तीन नदियोंके संगममें वह भस्म  
 शोभित है ॥ १४० ॥

सुरते नगरे ताप्या खम्भाते च महोदधौ ।  
महापुरुषदेहस्य भस्मलेशो विशोभते ॥१४१॥

सुरत शहरमें तापी नदीमें, खमातमें समुद्रमें उन महापुरुषका  
देहभस्म शोभित हो रहा है ॥ १४१ ॥

देरा इस्माइलखानसविधे सिन्धुवारिणि ।  
ढाकानगरे लागलबुन्दे भस्माधिराजते ॥१४२॥

देरा इस्माइलखानके पास सिन्धु नदीमें और ढाकामें लगल बुन्दमें  
भस्म शोभा दे रहा है ॥ १४२ ॥

कटके च सातजुयां श्रीपुर्यां च महोदधौ ।  
मयूरभजनगरे वैतरण्या विराजते ॥१४३॥

कटकमें सातजुरीमें, पुरीमें समुद्रमें, मयूरभजमें वैतरणीमें वह भस्म  
शोभा दे रहा है ॥ १४३ ॥

केयानरेपि तस्यां च चाडोदे चाधिनर्मदम् ।  
फोल्ग्योसविधे सिन्धौ बुद्धस्नाते च घट्टवे ॥१४४॥  
फातरगामासविधेप्यधिमाणिकगङ्गवे ।  
त्रिकोमालीसविधेपि सागरे भस्म राजते ॥१४५॥

केयानरमें भी वैतरणी नदीमें, चाडोदमें नर्मदामें, फोल्ग्योफ पास  
समुद्रमें—जहाँ बुद्ध भगवान् स्नान करते थे उस घाटपर, फातरगामाफे  
पास मानिक गङ्गामें, त्रिकोमालीके पास समुद्रमें भस्म विराजता  
है ॥ १४४-१४५ ॥

फेण्टगामादमशिखरे जाहनासविधे तथा ।  
विरिमलाइसलिले भस्म तन्निहित तदा ॥१४६॥

फाण्टीमें आत्मश शिखरपर, जाहनाफ पास विरिमलाइमें उस  
तमपर वह भस्म पपराया गया है ॥ १४६ ॥

पुण्ये चाहमदावादे यत्र साक्षात्प्रतीक्ष्यते ।

वर्षपूर्वगन्निधासेन जनतां समशिक्षयन् ॥१४७॥

और जहाँपर बहुत वर्षोंतक महात्माजीने साक्षात् रहकर लोगोंको उपदेश दिया था उस अहमदाबाद में—॥१४७॥

अन्यत्रापि गतं भस्म भारतीयभुरो बहिः ।

आफरीदावरयां च भगवद्भस्म शोभते ॥१४८॥

मान्तवानुभवा के वाहर भी श्रीमहात्माजी का भस्म गया है ।  
अफ्रिका में भी वह शोभा दे रहा है ॥ १४८ ॥

मोम्बासानगरे श्रीमान्पुरुषोत्तम उत्तमः ।

श्रीमद्विनयिनीजानिर्यते घर्ममर्मवित् ॥१४९॥

मोम्बासा शहर में श्रीमान् पुरुषोत्तमदासजी निवास करते हैं (विनकी पत्नी विनयिनी ( विनु बहिन ) हैं । वह घर्म क्या है, इसके मर्मको जानते हैं ॥ १४९ ॥

दिव्यं तद्भस्म संगृह्य विनयिन्या ययौ सह ।

योगारूढं त्रिञ्जानगरं मोदरेण स वर्त्मना ॥१५०॥

वह श्रीमती विनुबहिनके साथ भस्म लेकर मोदरके मार्गसे युगाब्दा प्रान्तके त्रिञ्जा नगरमें गये ॥ १५० ॥

जलप्रसतान्विधिधान् रम्याणि च वनानि च ।

गन्धवृत्तीनां परिक्रान्यञ्छुद्धारत्नः शतद्वयम् ॥१५१॥

अन्यानपि समादाय मोम्बासीयजनान्वहन् ।

मार्गेऽपि संमिलितान्कर्षन् जिज्ञांस आत्तवान् ॥१५२॥

बहुत से घरने आदिको, रमणीय जङ्गलोंको इजार माइल पारकर के, मोम्बामा के और भी बहुतसे लोगोंको लेकर तथा मार्ग में संमिलित होनेवालोंको आँचते हुए वह त्रिञ्जा पहुँच गये ॥ १५१ ॥ १५२ ॥

विस्मृता तत्र चास्माक वैदिकानां महाप्रिया ।

भारताच्च पृथग्भूय नीला वहति शाभना ॥१५३॥

हमने जिसे भुला दिया है और जो वैदिकों को अतिप्रिय थी वह नीला नदी वहाँ भारतसे अलग शहर बह रहा है ॥ १५३ ॥

महासरोवराद्भूमौ मधुरादतुलादपि ।

लब्धजन्मा मधायामा सरिन्नीला प्रकाशते ॥१५४॥

जिसकी तुलना नहीं हो सकती ऐसे एक विशालकाय सरोवरसे बह लम्बी चौड़ी नीला नदी जन्म लेकर प्रकाशमें आती है ॥१५४॥

अभूतपर्यसंमर्दो भस्माधानाहनि प्रियः ।

नारीणां च नराणां च नीलायाः प्राञ्जले तटे ॥१५५॥

नीलाके विशाल तटपर स्त्री पुरुषोंका एक बड़ा भारी समुदाय, भस्म पधरानेके दिन वहाँ इकट्ठा हुआ था ॥ १५५ ॥

प्रयाणामेव पूर्वोयाफ्रिकायास्तु समागता ।

प्रान्तानां प्रान्तपालाश्च समालाकुसुमाकराः ॥१५६॥

पूर्वीय अफ्रिकाके केनिया, टामानिका और युगाण्डा तीनों ही प्रान्तोंके गवर्नर हाथमे फूल माला लेकर वहाँ पहुँच गये थे ॥ १५६ ॥

अब्जलयः सुमनसां ते सर्वे भस्मसम्पुटे ।

अर्पयामासुराह्लादादपारादादरादपि ॥१५७॥

उन सब लोगोंने अपार आनन्द से और आदर से भस्म पात्र-पर फूलों की अञ्जलिया चढ़ायीं ॥ १५७ ॥

श्रीनीलापीति विज्ञाय सर्वेषां च महागुरोः ।

भारताद्भस्म सविधे तस्या एति जहर्ष सा ॥ ५८॥

श्री० नीला को जब यह पता लगा कि सब कें महागुरु धर्महात्मा-कीका भस्म भारतसे मेरे पास आ रहा है तब वह प्रसन्न हो गयी ॥ १५८ ॥



सरावा सप्रमोदा च सवेगा साभिलाषिका ।

कूर्दमाना च नृत्यन्ती विषवार मनोमुदम् ॥१५९॥

आवाज के साथ, आनन्द के साथ, वेगके साथ, हन्डाओके साथ, नाचती और कूदती हुई उसने अपने मानसिक आनन्दको प्रकट किया ॥ १५९ ॥

विनयिन्याः कराभ्यां तद्भस्मपात्रं महाधनम् ।

शिवाभाईपटलेन गृहीत्वा मुमुदे चिरम् ॥१६०॥

श्री० विनयिनी ( विनु ) बरिनके हाथोंमेंसे महान् धनरूप उस भस्मपात्रको श्री शिवामाईपटेल ( बैरिस्टर ) ने ले लिया और वह प्रसन्न हुए ॥ १६० ॥

जयतात्सर्वदा श्रीमान्महात्मा मोहनः प्रभुः ।

इति घोषाः सहस्रेभ्यो मुखेभ्यो वहिराययुः ॥१६१॥

श्रीमान् महात्माजी सदा विनयी रहें, यह घोष हवारों मुखों से निकलने लगा ॥ १६१ ॥

शिवाभाई गतस्तीरं नीलायाः सर्वशम्पुपः ।

भस्मपात्रकरः श्रीमान्गौरवेण शनैः शनैः ॥१६२॥

श्रीशिवाभाई पटेल हाथमें भस्मपात्र लिये हुए आदर के साथ धीरे धीरे सर्व कर्यागवारी नीलाके तटपर गये ॥ १६२ ॥

धन्यस्य लोकवित्तस्य मोहनस्य महात्मनः ।

सपात्रं हृदये तस्यास्तेन मया न्यधीयत ॥१६३॥

धन्य और समस्त के धनसमान महात्माजी के उस भस्मके पात्रके सहित नीलाके हृदय में उन्होंने रख दिया ॥ १६३ ॥

महता हर्षभारेण नृत्यन्ती पुण्यवारिका ।

गभीरा दर्शनीया सा तदादायाद्रजद्रुतम् ॥१६४॥

बड़े भारी हर्षके साथ पवित्रजल वाली, गंभीर और दर्शनीय वह नीला भस्मको लेकर नाचती हुई शीघ्र ही दौड़ गयी ॥ १६४ ॥

तस्मिन्नेवाफ्रिकादेशे जिगीनाम्नो महागिरेः ।

दृष्टे रूपगुणाभ्यां द्वे कन्ये रन्तुं वहिर्गते ॥१६५॥

उसी पूर्व अफ्रिकामें जिगीनामक महान् पर्वतकी रूप और गुणोत्तै युक्त मनोहर दो कन्याएं खेलनेकेलिये बाहर निकलीं ॥ १६५ ॥

रममाणे अरण्येषु बहून्पुष्पलताद्रुमान् ।

सस्मरतुः संगते ते न चिरं पितुरालयम् ॥१६६॥

बंगलामें खेलती हुई वह दोनों बहिनें बहुत से फूल, लता और घुँघुँके साथ मिलती रहीं और चिरकाल तक पिताके घरका स्मरण नहीं किया ॥ १६६ ॥

स्वसारौ भिन्नवर्तमानौ वने सम्प्राप्तयौवने ।

विहरन्त्यौ यथाकामं पुनरेकत्र संगते ॥१६७॥

जङ्गल में दोनों बहिनें युवावस्थाको प्राप्त हुईं । दोनोंने अलग अलग मार्ग पकड़े । यथेच्छ विहार करती हुईं दोनों फिर एक जगह आकर मिल गयीं ॥ १६७ ॥

एकीभूते च यत्रोभे प्रेम्णा धीका च योनिया ।

तत्रापि यतिराजस्य भस्मलेशोभवद्वितः ॥१६८॥

वह धीका और योनिया यह दोनों नदिया प्रेमसे जहाँपर एक हो जाती हैं वहा भी—उस सङ्गमस्थानमें भी यतिराजका भस्म पधराया गया ॥ १६८ ॥

देशे देशे सर्वस्मिस्तस्यार्घ्यं शान्त्याह्वयं भस्म,

नद्या नद्यां पुण्यायां कासारे वा घाण्यां सदाः ।

नीत्या नीत्या लांका. स्नेहश्रद्धाकाराः सोत्कास्ते,

घन्यं राण्यं पुण्यं रम्यं प्राङ् स्थार्यं सम्प्राश्यन् ॥१६९॥

स्नेह और श्रद्धाकी मूर्तिके समान ठसुक लेगोने उस घन्य, गन्य, पवित्र, रम्य, प्राण्य, स्वाप्य भरमजो छे लेकर समी देशों में पवित्र नदियों में, पवित्र तालाबों में और पवित्र चादटियों में अर्पण कर दिया ॥ १६९ ॥

तन्त्रैः प्रामाणिकैरेव ग्रन्थोर्यं सौरमाभिधः ।

मया भगवदाचार्ययतिना यत्नतः कृतः ॥१७०॥

मैंने इस ग्रंथको प्रामाणिक साधनोंके द्वारा अवपूर्वक बनाया है ॥ १७० ॥

एरुमप्यक्षरं मात्रा नैकात्रास्त्यप्रमाणिता ।

सर्वथा शुद्धरूपोय महाग्रन्थो विभाज्यताम् ॥१७१॥

इसमें न तो एक भी अक्षर अप्रामाणिक है और न एक मात्रा अप्रामाणिक है । अतः इस महाग्रन्थ को सब प्रकार से शुद्धरूप समझना चाहिये ॥ १७१ ॥

वसुन्व्योमनभोनेत्रमिते यैक्रमघत्सरे ।

वशास्ते च सिते पक्षे तृतीयाया पूर्तिमागमत् ॥१७२॥

वैशाख शुद्धपक्ष तृतीया ( अशुभ्य तृतीया ) उ० २००८ वि० में यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ ॥ १७२ ॥

पूर्वीय आफ्रिकादेशे मोम्बासाख्ये महापुरे ।

श्रीमन्नेषजिसत्सूनु रामत्रिः कानत्रिस्तथा ॥१७३॥

पूर्वीय अफ्रिका के माम्बासा शहर में श्रीमान् मेघजी भाई के श्रीरामजी और श्रीकानजी दो पुत्र हैं ॥ १७३ ॥

कनीयान्कानत्रिः श्रीमान्शृणु ज्यायांसमात्मनः ।

आत्मानादाय पूज्याया जनन्या आसनः शिवाम् ॥१७४॥

श्रीकानजीमांसे अपने बड़े भाई श्रीरामजी भाईको पूजकर और अपनी पूज्य माताजी की पवित्र आश लेकर—॥ १७४ ॥

## एकविंशः सर्गः

महापुरुषरत्नस्य श्रीमद्गान्धिमहात्मनः ।

संक्षिप्याधोपत्ते सद्भिः पीयता चरितामृतम् ॥ १ ॥

महापुरुषो मे श्रेष्ठ श्रीमहान्नागाधीश्वर मक्षेप मे चिन्तामृत  
अरण्यं क्वा जाता है । मञ्जरी बिम्बा पान करे-येवन करे ॥ १ ॥

सवत्सरेस्तु बोद्धव्यः सर्वत्रैवाय प्रेशवः ।

मातृत्वात् त्रियेनाम वेद्यं तस्यैव पाठकः ॥ २ ॥

इस प्रकरण में सर्वत्र ईश्वरी मन् ही सबन्ध मयज्ञता चाहिये ।  
तथा अग्रजी महीनेकी ही मन्था और त्रिये मन्था जाननी  
चाहिये ॥ २ ॥

प्रहृतरुंगनब्रह्ममिते सवत्सरे महान् ।

मासे च दशमे देवो द्वितीयायामवातरत् ॥ ३ ॥

एतद्ग्रन्थप्रकाशाय सर्वं सच्छ्रद्धया व्ययम् ।  
अकरोद्देशसेवायै वादान्यं पूजयच्छ्रद्धया ॥१७५॥

देशकी सेवाके लिये तथा अपनी उदारताका ध्यान रखकर इन ग्रन्थोंके प्रकाशित करनेका सब व्यय किया है ॥ १७५ ॥

धन्या माता पिता धन्यो धन्यः स परमः पुमान् ।  
गांधीर्महात्मनो दिव्ये चरिते यन्मनोभवत् ॥१७६॥

उनकी माता भी धन्य हैं, पिता भी धन्य हैं और वह स्वयं भी धन्य हैं, जिनका मन महात्मागांधीजी के पवित्र चरितमें लगा है ॥ १७६ ॥

जयन्तु गुरुपादाब्जरेणवः सुप्रकाशिताः ।  
जनुपान्धोऽपि याच्छ्रद्धया गन्तव्यं याति निर्भयम् ॥१७७॥

श्रीगुरुदेवके चरणों के रेणुओंका विजय हो जिनका आश्रय लेकर अन्मान्ध भी अपने गन्तव्य स्थानपर निर्भय पहुँच जाता है ॥ १७७ ॥

श्रीसाकेतपुरीललामललनालीरैकसत्साधनं  
श्रीमद्राममनोहरार्यचरणाम्भोजेषु भृङ्गायितः ।  
रागद्वेषकुलानलो भगवदचार्य सुधीः सद्गती ।  
कृत्वा काव्यमिदं यति स्तद्व्यं शान्तिं परां प्रापयन् ॥१७८॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

इति सर्वसंप्रसवतः परमहंसपरिघाजकरवामिथीमद्भगवदाचार्यपण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

विंशः सर्गः

ॐ

## एकविंशः सर्गः

महानुरपरत्नस्य श्रीमद्गान्धिमहात्मनः ।

सक्षिप्याधीषणे सद्भिः पीयता चरित्तामृतम् ॥ १ ॥

महापुराणो मे श्रेष्ठ श्रीमहात्मनागाधीशोका मक्षेपमे चन्तितामृत  
अर्पणं किया जाता है । मञ्जन विमका पान करें-भवन कर ॥ १ ॥

सवत्सरस्तु बोद्धव्यः सधर्मवान् यथावत् ।

भामनाम तियेनाम वेद्यं तस्यैव पाठकं ॥ २ ॥

इस प्रकरणमें सर्वथ ईश्वरी मन् ही गवन्गर ममज्ञाना चाहिय ।  
तथा अग्रजी महीनकी ही मख्या और तिथि मख्या जाननी  
चाहिय ॥ ० ॥

ग्रहतर्काङ्गव्रह्ममिते मन्वत्सरे महान् ।

मासे च दशमे देवो द्वितीयायामवातरत् ॥ ३ ॥

ता० ० जकटूबर मन् १८६९ ई० वो महात्माजीका अवतार  
हूया । अवतार अर्थात् जन्म ॥ ३ ॥

लोकहस्तिवसुब्रह्ममिते वत्सरे मूनिः ।

श्रीमत्स्त्रुरिका देवो पर्यणेष्ये यदास्विनीम् ॥ ४ ॥

मन् १८८३ ई० मे श्रीमती कम्बूगवाके माय भुनका विवाह  
हूया ॥ ४ ॥

वसुवसुवसुब्रह्ममिते सदासारेव मः ।

चतुर्ष्यां नवमे मासे लन्दनेष्येनुमम्यगान् ॥ ५ ॥

ता० ६ मिनम्बर १८८८ ई० मे अध्यक्ष कम्बूके लिये वह  
मञ्जन गये ॥ ५ ॥

प्रहवसुवसुब्रह्मामिते सवत्सरे यति ।

निरामिषाशिना मध्ये तत्र व्याख्यानमातनोत् ॥ ६ ॥

१८८९ ई० में लण्डनमें मासाहार न करनेवालोके बीचमें  
महात्माजीन (प्रथम) व्याख्यान दिया ॥६॥

ब्रह्मप्रहवसुब्रह्मामिते सवत्सरेभवत् ।

षष्ठे मासे दशम्या च वैरिष्टरपदान्वित ॥ ७ ॥

ता० १० जून १८९१ ई० में वह वैरिष्टर बन ॥ ७ ॥

लोकप्रहवसुब्रह्मामिते सवत्सरेगमत ।

दक्षिणात्माफ्रिका षष्ठे मासि भारतवर्षतः ॥ ८ ॥

जून मन १८९३में महात्माजी भारतसे दक्षिण अफ्रिका  
गय ॥ ८ ॥

अभियोग च य जेतु जगाम यतिरफ्रिकाम् ।

समाधान च तस्याभूदधिमे वत्सरे शुभम् ॥ ९ ॥

जिम मुवदमकी जीतनेके लिये वह दक्षिण अफ्रिका गय थ  
अमुका अगच्छप अर्थात् १८९४ ई० में समाधान हुआ ॥ ९ ॥

ततोपि सोधिमे षष्ठे नंटेले मोहनोभवत् ।

महान्यायालये माय प्राङ्घिवाक् सदाशिव ॥ १० ॥

उक्त अधिम सवमें अर्थात् १८९५ ई० में वह नंटेलेके मुन्नीम  
वार्डमें एहवाकट हुए ॥ १० ॥

सस्मिन्नेवाङ्घ्रे धीमार्द्रहाले वसता सताम् ।

भारतीयजनानां स निर्ममौ मर्तो सगम् ॥ ११ ॥

उगा सालमें नंटेलेमें रहावाक भाग्यीपोकी एक बड़ी सभा  
(नंटेले भाग्याय वापस) का निर्माण किया ॥ ११ ॥

रसप्रह्वसुब्रह्ममिने संवत्सरे मुनिः ।

षष्ठे मासे क्रियायोगी भारते स न्यवर्तत ॥ १२ ॥

जून मन् १८९६ ई० में कर्मयोगी महान्माजी भारत  
लौटे ॥ १२ ॥

निसिलंभारतीयः स समाहूतः पुनर्यपी ।

नवम्बरे च नैटालं द्वारपुत्रममन्वितः ॥ १३ ॥

नैटालनिवासी भारतीयोके बुलानेमें महान्माजी नवम्बर महीनेमें  
वाल बच्चोके माय पुन नैटाल गये ॥ १३ ॥

श्रुतिप्रह्वसुब्रह्ममिने त वत्सरे सिताः ।

द्वन्द्वे द्वेषसन्दग्धाः प्राहरन्निष्टकादिभिः ॥ १४ ॥

मन् १८९७ ई० में द्वपमे भरे दृष्ट अग्रजोने महान्माजीको  
इंटी ओर पत्न्यीमे माग ॥ १४ ॥

प्रह्वसुब्रह्ममिनेसी वत्सरे प्रभुः ।

अथै शोवरसग्रामे मिनाद्रगानां सहायताम् ॥ १५ ॥

मन् १८९९ ई० में महान्माजीन बांयन-पुत्रमे अग्रजोको मदद  
की ॥ १५ ॥

ब्रह्मधोमप्रह्वसुब्रह्ममिनेभ्ये भारतं पुनः ।

आगाश्य दतां ज्ञानं पर्यात्मपरिध्रमम् ॥ १६ ॥

मन् १९०१ ई० में महान्माजी पुन भारत जाये और इवरी  
स्दिनि जाननेके लिये परियमसूत्र उर्हाने भारत-ग्रमन  
रिया ॥ १६ ॥

गुणधोमप्रह्वसुब्रह्ममिनेभ्ये भारतं पुनः ।

प्रापिनो दक्षिणातीर्णां कामं चन्द्रिययावमी ॥ १७ ॥



सन १९०३ ई० में भारतीय बन्धुजीकी प्रार्थनास वह पुन  
दक्षिण अफ्रिका गय ॥ १७ ॥

ट्रान्सवालमुपेत्यासावारभे प्राङ्ग्विवाकताम् ।

ब्रिटिशभारतीयाना सस्यःमेवामतिष्ठित ॥ १८ ॥

ट्रान्सवालमें जाकर उन्होंने वैरिक्टरी शुरु की और ट्रान्सवाल  
ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना की ॥ १८ ॥

युगव्योमग्रहब्रह्मामितेन्दे समपीपवत् ।

इण्डियन ओपीनियमितिख्यातमुदन्तदम् ॥ १९ ॥

सन १९०४ ई० में इण्डियन ओपीनियन् नामके प्रसिद्ध  
समाचार पत्रका उन्होंने सम्पादन किया ॥ १९ ॥

लोकोत्तर महापुण्य ब्रह्मचयमहाव्रतम् ।

रसव्योमग्रहब्रह्मामिते ययैग्रहीदसौ ॥ २० ॥

सन १९०६ ई०में महात्माजीन परम पवित्र अद्वितीय ब्रह्म  
चयव्रतका स्वीकार किया ॥ २० ॥

अस्मिन्नेव सुषुष्येन्दे सत्याग्रहपद बभौ ।

जुलूविद्रोह उत्पन्ने क्षताल्लोकान्यपेवत् ॥ २१ ॥

इसी सालमें सत्याग्रह शब्दकी उत्पत्ति हुई। जब जुलू विद्रोह  
उत्पन्न हुआ तो महात्माजीन घायलकी सेवा की। जुलू=दक्षिण  
अफ्रिकाके हवंगी ॥ २१ ॥

ध्योमलिङ्गवसुब्रह्मामितेन्दे षोडशे तिथौ ।

मास एकादशे प्राप्नुंटेऽल भारता इत् ॥ २२ ॥

१६ नवम्बर १८६० ई० में यहाँग बहुतस भारतीयों नटाल  
पहुँच ॥ २२ ॥

उस समय वहाकी सरकारन अपन मनोरथकी सिद्धिके लिय निम्नलिखित एक व्यवस्थापत्र बनाया ॥ २८ ॥

भारतीयनरं सर्वेनारीभिर्बालकैरपि ।

प्रवेशपत्र सप्राह्यं स्यात् तस्मिन्प्रदेशके ॥ २९ ॥

भारतीय स्त्री पुरुष बच्च सबको इस दशमे रहनके लिय प्रवेशपत्र लना चाहिय ॥ २९ ॥

प्रवेशपत्रग्रहण क्रियते चेन्न केनचित् ।

अपराधी स मन्तव्यस्तस्य कारानिवेशनम् ॥ ३० ॥

यदि कोई प्रवेशपत्र नही लेगा तो वह अपराधी माना जायगा और उस जलकी मजा दी जायगी ॥ ३० ॥

प्रार्थना स्वशरीरस्थ चिह्नं चेत्किञ्चिदस्तु तत् ।

दात्रा प्रवेशपत्रस्य लेख्यं तस्मृतिपुस्तके ॥ ३१ ॥

प्रवेशपत्र चाहनवालोके शरीरपर यदि कोई निशान हो तो रजिष्ट्रार उसे रजिष्ट्रारमें नोट कर ले ॥ ३१ ॥

प्रवेशपत्रसंप्राप्त्यं प्रार्थनापत्रिकाङ्गके ।

अगुल्मीनां दशानां च प्रतीकं तस्य गृहघताम् ॥ ३२ ॥

प्रवेशपत्र पानके लिय जो अर्जी दी जाव उस पर प्रार्थीकी दशा अङ्गुलियोके निशान लन चाहिय ॥ ३२ ॥

तत्रासन्नेयमाद्यास्तु प्रतिबन्धा अनेकश ।

ते च भारतवर्षस्य मानभङ्गकरा ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

एम तो उस व्यवस्थापत्रमें अनक प्रतिबन्ध थ। वह सभी भारतदेशका मानभङ्ग करनेवाण थ ॥ ३३ ॥

सर्वं सहन्ते कृतिनः क्षमाशीलास्तपस्विनः ।

सहन्ते न कदापिह मानमङ्गमध्वनुदम् ॥ ३४ ॥

क्षमाशील तपस्वी महात्मा मवहुछ मह लेते है परन्तु हृदयको पीटित करनेवाले मानमङ्गको वह महन नही करते ॥ ३४ ॥

रसव्योमग्रहब्रह्मवत्सरे सत्यसद्गुरम् ।

जोहानिसुवर्गनगरे तेने मानं स रक्षितुम् ॥ ३५ ॥

मानको रक्षाके लिये महात्माजीने मन् १९०६ ई० में जोहानिम-  
वर्गमें मत्याग्रह शुरु कर दिया ॥ ३५ ॥

मुख्याधिष्ठातृता यातस्तत्र स्मट्से महाजड ।

बाधा पीडा परा चक्रे यतो तदनुयायियु ॥ ३६ ॥

अफ्रिकामें महाजड स्मट्स मुख्य शासक था । उसने महात्माजी  
और उनके अनुयायाको भारी दु स दिया ॥ ३६ ॥

सत्याग्रहविधानेन दुःखान्यविगणय्य ते ।

त्यागेन सत्यवादेन समयुध्यन्त निर्भया ॥ ३७ ॥

महात्माजी और उनके अनुयायियोंने मत्याग्रह करके, मव  
दु खाकी परवा किये बिना, त्याग और सत्यसे, निर्भय होकर युद्ध  
किया ॥ ३७ ॥

मुनिव्योमग्रहब्रह्ममिमे सदत्सरे यति-

जान्यद्वर्या तियौ त्रिंशो विजिग्येसमरं स तम् ॥ ३८ ॥

ता० ३०-१-१९०३ ई० में महात्माजीने उम युद्धमें विजय  
प्राप्त किया ॥ ३८ ॥

अगस्ते चाग्रिमे वर्ये षोडश्या च तियौ पुनः ।

बभञ्ज स्ववचः स्मट्सस्ततो जग्यमजायत ॥ ३९ ॥

ता० १६-८-१९०८ ई० में जनरल् स्मट्कने अपनी प्रतिज्ञाका  
भंग किया ॥ ३९ ॥

वेदब्रह्मप्रह्वब्रह्ममिते सवत्सरे मुहु ।

स्मट्सो जितो जितर इवेता विजयोभूग्महात्मन ॥ ४० ॥

मन् १९१४ ई० में पुन स्मट्स और दूमरे सभी अग्रज वहा पराजित हुआ ॥ ४० ॥

शरब्रह्मप्रह्वब्रह्ममितेब्दे सितभूभुजा ।

कंसरे हिन्दमित्याख्यपदकेन समर्चित ॥ ४१ ॥

मन १९१५में अग्रज सरकारन महात्माजीको कंसर हिन्दका पदक देकर सम्मानित किया ॥ ४१ ॥

अस्मिन्नेव शुभे वर्षे श्रीरवीन्द्रकवीश्वरै ।

प्रायुज्यत यतीन्द्रार्थे महात्मेतिविशेषणम् ॥ ४२ ॥

असी साल श्री रवीन्द्रबाबून महात्माजीके लिये महात्मा शब्दका प्रयोग किया ॥ ४२ ॥

द्वाविंशतितथो मासे पञ्चमेस्मिन्ह वत्सरे ।

सत्याग्रहाथम नृण्य कोचरये ह्यतिष्ठिपत् ॥ ४३ ॥

२२ मअी १९१५ ई०के दिन कोचरब गाव (अहमदावाद)म अुन्होन सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना की ॥ ४३ ॥

श्रीमन्मदनमोहनमालवीयो विनिर्ममी ।

महत्सारस्वत धाम चाराणस्यां महौजसि ॥ ४४ ॥

रसब्रह्मप्रह्वब्रह्ममितेब्दे स महानृपि ।

फेन्नृवर्षा चतुर्वर्षा च धीमास्तदुदजीघटत् ॥ ४५ ॥

श्रीमान् पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने काशीमें विश्व-विद्यालय बनाया था। अमुका अदुघाटन महात्माजीन ता० ४२-१६ अी० में किया ॥ ४४, ४५ ॥

ऋषिब्रह्मप्रह्वब्रह्मवत्सरे विजयी महान् ।

चम्पारण्ये महापुद्गं सत्याग्रहमयाननीन् ॥ ४६ ॥

महान् विजयी महान्मार्जाने १९१७ ई० में चम्पारन (विहार) में  
महान् गन्धाग्रहपुद्ग छेड किया ॥ ४६ ॥

तियो सप्तदशैर्ब्रह्ममासस्यारब्ध तं रणम् ।

मईमासान्तिमे जानो दिने तस्य महाजयः ॥ ४७ ॥

१७ अप्रैलको अूम युद्धका मुन्होने आरम्भ किया था और ३१  
मश्रीकां महान् विजय प्राप्त हुआ ॥ ४७ ॥

ऋषिब्रह्मप्रह्वब्रह्मामिने सवत्सरे तियो ।

योइश्या जूनमासस्य साभ्रमत्यामुक्ताम सः ॥ ४८ ॥

१६-६-१९१७ जी० को महत्तनाजी भावरमतीमें रहने लग ।  
कोचरदका आश्रम भावरमतीमें गया ॥ ४८ ॥

नगरेहमदावादे वन्मरे च तनः परे ।

वद्वयन्तोयप्रमिशा यतिर्युद्धमजोगपन् ॥ ४९ ॥

मन् १९१८में अहमदावादके मिलके मजदूरोंको युद्धमें विजय  
दिलाया ॥ ४९ ॥

खेडासत्याग्रहे प्राप्य विजयं परमोज्ज्वलम् ।

सूत्रचक्रसमुद्धारं वर्षेस्मिन्नेव सोकरोत् ॥ ५० ॥

जिनो वरं खेडाके सत्याग्रहमें ज्वलन्त विजय प्राप्त करके चरन्वेजा  
अुद्धार किया ॥ ५० ॥

ग्रहब्रह्मप्रह्वब्रह्मामिने संवत्सरे यतिः ।

षष्ठ्यामब्रह्ममानस्य दुःखलज्जानताननः ॥ ५१ ॥

राउलेटविधानस्य मुस्यष्टं भटपमाचरत् ।

नवजीवनपत्रस्य समारंभे प्रकाशनम् ॥ ५२ ॥

बहुत दुःख और लज्जाके साथ सन् १९१९ आी०वे अप्रैल मासकी चौथी तारीखका उन्होंने रौलेट एक्टका खुल्लमखुल्ला भंग किया। अिसी वर्ष नवजीवन साप्ताहिक पत्रका आरम्भ किया ॥ ५१।५२ ॥

खनयनप्रह्वहृवत्सरगस्तमासि च ।

राष्ट्रसप्तद्विधानानि परिवर्त्य ह्यमानयत् ॥ ५३ ॥

अगस्त १९२० आी० म अखिल भारत राष्ट्रिय महासभाके नियमों को बदलकर स्वीकृत कराया ॥ ५३ ॥

विच्छेद सहयोगस्य शासनेन प्रचारित ।

राष्ट्रियविद्यापीठानां स्थापनं यतिना कृतम् ॥ ५४ ॥

अिसी वर्ष सरकारके साथ असहयोगका प्रचार किया और राष्ट्रिय विद्यापीठोंकी स्थापना की। ॥ ५४ ॥

नेत्रनेत्रप्रह्वहृमिन्ते सवत्सरेशुभे ।

पञ्चम्या च द्वितीयस्मिन् मासे समजायत ॥ ५५ ॥

चीरीचीराभिधे ग्रामे शासनप्रजयोर्महान् ।

दुसह कलिरेतस्मात्सत्याग्रहमयारुणत् ॥ ५६ ॥

ता० ५-२-१९२२ आी० को चीरीचीरा गावमें सरकार और प्रजामें अमह्वय युद्ध हानके कारण सत्याग्रहको अुन्होंने बन्द रखा ॥ ५५।५६ ॥

देशे सर्वत्र सजात शासनं दुर्व्यवस्थितम् ।

पञ्जाये च महान्यायमाचरच्छासनं तदा ॥ ५७ ॥

देशमें सर्वत्र शासन अव्यवस्थित अथवा दुर्व्यवस्थित हो गया। सरकारन पजावमें बडा भारी अन्याय किया ॥ ५७ ॥

तत्र शान्त्यं प्रजन्मार्गे माचंस्य वशमे तिथी ।

निर्गृहीतस्तथा पट्टभिर्षयैः कारां प्रवेशित ॥ ५८ ॥

पञ्जाबमें याति स्थापनके लिये जाने हुआ महात्माजी मार्चकी १०वीं तारीखको पकड लिये गये और ६ वर्षका कारावास दण्ड अन्हें दिया गया ॥ ५८ ॥

वेदनेत्रप्रह्वह्यमिने संवत्सरेभवत् ।

फेब्रुवर्या भवद्रुण्यं कर्तामुक्तोभवद्यतिः ॥ ५९ ॥

ता० ५-२-१९२४ औ०में महात्माजी बीमार पड़े और जेलमें छोड दिय गये ॥ ५९ ॥

वाणनेत्रप्रह्वह्यमिने संवत्सरेभवत् ।

हिन्दुमुस्लिमसत्प्रेमशीयित्यं भाग्यदोषतः ॥ ६० ॥

सन् १९२५में हिन्दुओं और मुसलमानोंमें भाग्यदोषसे प्रेम कम हो गया — अनवनाश हो गया ॥ ६० ॥

एकविंशति दिवसानुपवासान्महेद्वरः ।

प्रमसंस्थापनार्यापि द्वयोर्जात्योः समाचरत् ॥ ६१ ॥

दोनों जातियोंमें प्रेम-स्थापनके लिये महात्माजीने २१ दिन तक उपवास किया ॥ ६१ ॥

चक्षांशं च महता यत्नेन समतिष्ठिषत् ।

विदेशिवाससा देशाद्बहिष्कारमकारयन् ॥ ६२ ॥

बड़े परिश्रमसे अन्होंने चक्षु-शक्ति स्थापना की। देशमें विदेशीय बस्त्रोका बहिष्कार कराया ॥ ६२ ॥

ऋषिनेत्रप्रह्वह्यमिने संवत्सरेकरोत् ।

सादीवस्त्रप्रचाराय भारते भ्रमणं यतिः ॥ ६३ ॥

१९२७ ई०में सादी प्रचारके लिये भारतमें भ्रमण किया ॥ ६३ ॥

यत्नेनेत्रप्रह्वह्यमिने तेन च वत्सरे ।

साहोरनगरे पूर्णस्वानन्द्यं हि समर्पितम् ॥ ६४ ॥

१९२९में लाहोर काग्रेसमें पूर्ण स्वतंत्रताका समर्थन किया ॥ ६४ ॥

नभ कालग्रहग्रहामिते सवत्सरे यति ।

षड्विंशो च त्रिथो मासे प्रथमे प्रथमान्वय । ॥ ६५ ॥

सर्वभारतभूपुत्रे पूर्णस्वातन्त्र्यहेतवे ।

महतीमकारयद्देव प्रतिज्ञा सर्वशकरीम् ॥ ६६ ॥

१९३० आ० में जनवरीकी २६ तारीखको पूर्णस्वतंत्रताके लिय सब भारतीयोंसे अन्होन प्रतिज्ञा कराजी ॥ ६५-६६ ॥

त्रिथो च द्वादशे मार्चमासस्य क्षारबन्धनम् ।

भूक्नु गन्तु तदा दाडोमाश्रमात्प्रस्थितो निजात् ॥ ६७ ॥

ता० १२३ १९३०को नमक कानून तोड़नेके लिय सत्याग्रह आश्रम साबरमतीमे प्रस्थान किया ॥ ६७ ॥

अभवद्घोरसग्राम प्रजाशासनयोर्मिथ ।

यत्र तत्र तन श्रोमाग्निगृहीत पुनर्मुनि ॥ ॥ ६८ ॥

मरकार और प्रजामें जहा तहा घोर सग्राम हुआ । अन महात्माजी पुन पकड लिय गय ॥ ६८ ॥

ग्रहलोकग्रहग्रहामिते सवत्सरे प्रभु ।

मुक्त पुनर्गंतो धीमाल्लन्दन गोलससदि ॥ ६९ ॥

पुन जलमसे छूटकर मन् १९३१मे गोलमज परिषदमें सम्मिलित होनेके लिय लदन गय ॥ ६९ ॥

भारतस्य मुख भूत्वा सर्वतन्त्रस्वतन्त्रताम् ।

गृहीत्वा भाषणं स्वस्पाकृत मूढ सदोगृहम् ॥ ७० ॥

भारतवर्षका मुख बनकर और सब कुछ करने बहनकी पूर्णस्वतंत्रता लेकर वहा जन भाषणत नभागृहको मूढ बना दिया ॥ ७० ॥



ततो निवृत्त एवामो मुग्धापुर्यां न्यगृह्यत ।

सपद्येव परं श्रीमान्मुश्नः कारागृहादृषिः ॥ ७१ ॥

वक्ष्ये — लण्डनने लौडने ही पुन वह बम्बजीमें पकड लिख गये । परन्तु शीघ्र ही जल्म छाड दिख गये ॥ ७१ ॥

चतुर्वे नार्वंमासस्य नियो गान्धीविनोर्नहत् ।

सन्धिपत्र महामूल्यमनवल्लिखित तदा ॥ ७२ ॥

जुमी नाल ता० ८ नार्वंको गांधी जिनके सन्धिपत्र लिखा गया ॥ ७२ ॥

नेत्रलोकग्रहबह्यमितेन्दे पुनरोश्वरः ।

सत्याग्रह महापुद्गमारभतात्र भूभुजा ॥ ७३ ॥

मन् १९३२ जी० में पुन श्री महात्माजीन मरवारके नाय सत्याग्रहनुद्घना आरभ किया ॥ ७३ ॥

निगृहीतः पुनर्दीनबन्धुः सर्वाश्रयो महान्

यरोडाश्रयनगृहे स्थापितः शासनेन सः ॥ ७४ ॥

मबक महान् आश्रय वह दीनबन्धु पुन पकडे गये और यरोडा जेलमें रख गये ॥ ७४ ॥

हिन्दुजातेः पूयकर्तुमन्यजान् हिन्दुजातिजान् ।

सितशासनमित्राणा प्रयत्नः समभूत्फलो ॥ ७५ ॥

हिन्दुजातिसे अन्यजोको — जो कि हिन्दू ही है — अलग करनेके लिये अंग्रेजी राज्यके मित्रोका प्रयत्न सफल हुआ ॥ ७५ ॥

तद्विरोधाय बन्धोद्घिरपवासान्त आ मृतेः ।

सद्यः प्रारभत श्रीमास्तस्मिन्सद्यनि बन्दिनाम् ॥ ७६ ॥

अुमका विरोध करनेके लियं पूज्यचरण श्री महात्माजीने यरोडा जेलमें ही आगरणान् अुपवासका आरभ किया ॥ ७६ ॥

मासे सितम्बरे विंशे तिथावनशनं महत् ।

समारब्धं च षड्विंशे समाप्तिमगमच्छुभम् ॥ ७७ ॥

ता० २०-९ को अुपवासका आरम्भ हुआ था और ता० २६को अुमका सुखद अन्त हो गया ॥ ७७ ॥

लोकलोकप्रहृष्टमिन्दे पुनरेव सः ।

सत्याग्रहमहायुद्धं समारभत विश्वदुक् ॥ ७८ ॥

सन् १९३३ जी० में पुन सर्वद्रष्टा महात्माजीने सत्याग्रहयुद्धका प्रारम्भ किया ॥ ७८ ॥

निग्रहश्च पुनस्तस्य पुनर्मुषित पुनग्रहः ।

एव पुनः पुनश्चक्रमचलच्छत्रुचालितम् ॥ ७९ ॥

पुन निग्रह पुन मोक्ष, पुन निग्रह, पुन मोक्ष इम प्रकारमे धनुका चलाया हुआ चक्र चलना रहा ॥ ७९ ॥

वेदकालप्रहृष्टमिन्दे सवत्सरे कृता ।

ग्रामोद्योगीयसप्तस्य स्थापना देशशङ्कते ॥ ८० ॥

सन् १९३४ ई० में अुन्होंने ग्रामाद्योग मधकी स्थापना देशहितके लिय की ॥ ८० ॥

षड्युगप्रहमर्वात्मवत्सरेकृता सद्यतिः ।

सेवाग्रामाधमं पुष्यं सर्वदुःखविनाशनम् ॥ ८१ ॥

सन् १९३६ जी०में महात्माजीने सेवाग्राम-आधमकी स्थापित किया ॥ ८१ ॥

ऋषिकामप्रहृष्टमिन्दे स्थाधमे सुधी ।

विद्यानवप्रारम्भं कृतवान्कृतिना धरः ॥ ८२ ॥

सन् १९३७में श्री० में महात्माजीने नवीन विद्यापद्धतिका आरम्भ किया ॥ ८२ ॥

श्रीराष्ट्रियमहाहस्ते शामनं भारतस्य तत् ।

आशिकं प्राप्तमेतेन देशेभूच्छान्तिराशिकी ॥ ८३ ॥

अुमी माल काप्रेनके अधिकारमें भारतका आशिक शामन आया ।  
अिममे देशमें आशिक शांति हुयी ॥ ८३ ॥

ग्रहकालग्रहव्रह्मिने सवत्सरेकरोत् ।

राजकोटमहीपालो भङ्गो वचन आत्मनः ॥ ८४ ॥

मन् १९३९बी० में राजकोट नरेशने अपना वचनमग किया ॥ ८४ ॥

कूपये चरतस्तस्य वारणाय प्रयत्नवान् ।

आ मृतेश्पवासेषु सतस्थे श्रीपतीश्वरः ॥ ८५ ॥

बुभागमें जाने हुअे अुग राजाको रोकनेके लिये प्रयत्न करनेवाटे  
महान्माजी आमरणान् अुपवासमें बैठ गये ॥ ८५ ॥

राजा समग्रिः स्वस्य दोषं तं ज्ञातवांस्तदा ।

उपवामक्रमं त्यक्त्वा यनीशस्त्रिनुरा गतः ॥ ८६ ॥

राजा और राजाके दीवानने भी अुम दोषको पहचान लिया ।  
तब महान्माजी अुपवास छोडकर त्रिपुरा काप्रेनके अुपवेशनमें चले  
गये ॥ ८६ ॥

मिनेम्बरे तृतीयायां पुनर्बुद्धमब्रूधुयन् ।

श्रीराष्ट्रियसभाशिष्टिं सर्वप्रं व ममापयन् ॥ ८७ ॥

मिनेम्बरकी तीसरी तारीखको फिर बुद्धकी घोषणा  
की और काप्रेन सरकारोंका आमकाज बन्द कर दिया ॥ ८७ ॥

नमोवेदग्रहव्रह्मिने वैयस्मिन्कोटके ।

सत्याग्रहः समारब्धः श्रीविनोवाप्रणीरभूत् ॥ ८८ ॥

मन् १९४०में पुन बुद्धोंने वैयस्मिन् मन्याग्रहका आरम्भ किया ।  
श्री विनोवाकी अुमके प्रथम मन्याग्रही चुने गये थे ॥ ८८ ॥

मासे सितम्बरे विशे तियावनशन महत् ।

समारब्ध च षड्विंशे समाप्तिमगमच्छुभम् ॥ ७७ ॥

ता० २०-९ को अुपवासका आरभ हुआ था और ता० २६को अुमका सुखद अन्त हो गया ॥ ७७ ॥

लोकलोकप्रहृष्टमिहमितेव्ये पुनरेव स ।

सत्याग्रहमहापुद्ग समारभत विश्वदृक् ॥ ७८ ॥

सन् १९३३ ओ० में पुन सर्वद्रष्टा महात्माजीने सत्याग्रहपुद्गका प्रारभ किया ॥ ७८ ॥

निप्रहृश्च पुनस्तस्य पुनर्मुक्ति पुनर्ग्रह ।

एव पुन पुनश्चक्रमचलच्छत्रुचालितम् ॥ ७९ ॥

पुन निप्रह पुन मोक्ष, पुन निप्रह, पुन मोक्ष इस प्रकारमे शत्रुका चलाया हुआ चत्र चलता रहा ॥ ७९ ॥

वेदशालप्रहृष्टमिहमिते सवत्सरे कृता ।

ग्रामोद्योगीयसधस्य स्थापना देशशकृते ॥ ८० ॥

सन् १९३४ ई० में अुन्हाने ग्रामाद्याग मधकी स्थापना देशहितके लिये की ॥ ८० ॥

षडपुण्यप्रहसर्वात्मवत्सरेकृता सद्यति ।

सेवाग्रामाधम पुण्य सर्वशुलविनाशनम् ॥ ८१ ॥

सन् १९३६ ओ०में महात्माजीने सेवाग्राम आश्रमका स्थापित किया ॥ ८१ ॥

श्रुदिविद्याप्रहृष्टमिहमितेव्ये स्वाधमे सुधी ।

विद्यानवम्भारम्भ कृतवान्कृतिना वर ॥ ८२ ॥

सन् १९३७में श्री० में महात्माजीने नवीन विद्यापद्धतिका आरभ किया ॥ ८२ ॥

श्रीराष्ट्रीयसभाहस्ते शासन भारतस्य तत् ।

आशिक प्राप्तमेतेन देशेभूच्छान्तिराशिकी ॥ ८३ ॥

अुसी साल काग्रेसके अधिकारमें भारतका आशिक शासन आया ।  
अिससे देशमें आशिक शांति हुअी ॥ ८३ ॥

ग्रहकालग्रहब्रह्मिने सबत्सरेकरोत् ।

राजकोटमहीपालो भङ्गो वचस आत्मन ॥ ८४ ॥

सन् १९३९बी० में राजकोट नरेशने अपना वचनभंग किया ॥ ८४ ॥

कुपये चरतस्तस्य वारणाय प्रयत्नवान् ।

आ मृतोरुपपातेषु सतस्थे धीवतीश्वर ॥ ८५ ॥

कुमार्गमें जाते हुअे अुस राजाको रोकनेके लिय प्रयत्न कग्नेवाठ  
महात्माजी आमरणान्न अुपवासमें बैठ गये ॥ ८५ ॥

राजा समन्त्रिक स्वस्य दोष त ज्ञातवास्तदा ।

अुपवासक्रम त्यक्त्वा यतीशस्त्रिपुरां गत ॥ ८६ ॥

राजा और राजाके दीवानने भी अुस दोषको पहचान लिया ।  
तत्र महात्माजी अुपवास छाडकर त्रिपुरा काग्रेसके अधिकारमें चल्  
गये ॥ ८६ ॥

सितेम्बरं तृतीयाया पुनर्द्वन्द्वमज्जघुषत् ।

श्रीराष्ट्रीयसभाशिष्टि सर्त्रैव ममापयत् ॥ ८७ ॥

सितम्बरकी तीसरी तारीखको फिर अुन्होंने युद्धकी घोषणा  
की और काग्रेस सरकारोका कामनाज बन्द करा दिया ॥ ८७ ॥

नभोवेदग्रहब्रह्मिने वैयक्तिकोद्भवे ।

सत्याग्रहं समारब्ध श्रीविनोबाप्रणीरभूत् ॥ ८८ ॥

सन् १९४०में पुन अुन्होंने वैयक्तिक सत्याग्रहका आरम्भ किया ।  
श्री विनोबाजी अुसके प्रथम सत्याग्रही चुने गये थे ॥ ८८ ॥

ब्रह्मवेदप्रह्वब्रह्ममितेव्दे राष्ट्रसददः ॥

पृथग्भूय स्थितोकस्मात्त्यागभूमिराड् यति ॥ ८९ ॥

मन १९४१म वह काग्रेसमे अकस्मात् अलग हो गये ॥ ८९ ॥

त्रेवदेदप्रह्वब्रह्ममितेव्दे पुनरप्रहीत् ।

शासन राष्ट्रसदसो देशरक्षणरायण ॥ ९० ॥

सन् १९४२में पुन काग्रेसकी वागडोर अपने हाथमें अन्हाने ल ली ॥ ९० ॥

अष्टम्यामष्टमे मासे भारतत्यागघोषणाम् ।

सिनशासनकर्णेषु हठात्प्रावेशयद्यति ॥ ९१ ॥

८ अगस्तको अग्रेजी राज्यके कानोमें जबरदस्तीमे भारत छोड देनेकी घोषणाको घुसा दी ॥ ९१ ॥

नवम्यामप्रहीद्वेदेतराजस्त नेनृभि सह ।

आगाखानीप्रासादे स्यापित पुष्यपत्तने ॥ ९२ ॥

९वी तारीखको सब नताओंके साथ वह पकड लिये गये और अन्हें पूनामें आगाखामहलमें कैद कर लिया गया ॥ ९२ ॥

महादेवो गत स्वर्गं तत्रैव पुरतो मुने ।

पञ्चदश्या तियो तस्माच्छ्रीमानुदमनायत ॥ ९३ ॥

वहा ही महात्माजीके मामने ही १५ वी अगस्तको श्री महादेवभाजी देसाजी स्वर्गवासी बने। जिसमे महात्माजीका मन निप्र हो गया ॥ ९३ ॥

वेदवेदप्रह्वब्रह्ममितेव्दे श्रीमहात्मन ।

द्वाविंशो च फरवर्षा धर्मपत्नी दिव गता ॥ ९४ ॥

२२ फरवरी १९४४का महात्माजीकी धर्मपत्नी श्री कम्पूरवा परमधाम चली गयी ॥ ९४ ॥

मई मासस्य षष्ठ्या स मुक्तः कारागृहात्तिसौ ।

ततो बहूनि कार्याणि भारतस्पोकरोद्विः ॥ ९५ ॥

ता० ६ मई १९४४ का श्री महात्माजी जेलसे मुक्त हुए ।  
बाहर भारतमें रहकर अन्होंने बहुत कार्य किये ॥ ९५ ॥

मुहम्मद अली जिन्नाप्रेरिता मुस्लिमास्तदा ।

हिन्दूहत्यादिकार्येषु व्यावृत्ता मूढबुद्धयः ॥ ९६ ॥

मुहम्मदअली जिन्नाने मुसलमानोंका अज्ञान दिया था अत मूर्ख  
मुसलमान हिन्दुओंको मारने, लूटने, धमन्तर कराने, न्त्रियोंका  
अप्ट करनेके काममें लग गये थे ॥ ९६ ॥

पञ्जाबे च तथा सीमप्रान्ते रंशाचक्षुर्भंगाम् ।

मनःसन्तानकाना च स्तुत्या कम्पः प्रजापते ॥ ९७ ॥

पञ्जाब और सीमाप्रान्त (पेनाबरकी और) जो राक्षसी कृत्य  
किये गये थे अन्के स्मरणमें मैं रोमाव हो जाता हूँ ॥ ९७ ॥

नोवाक्षस्यां नुमन्माना महोत्पान्तान्तमासुजन् ।

शमनाय ततस्तेषा ययौ धीमाक्षबासलीम् ॥ ९८ ॥

नोवाखाणो (बंगाल) में मुसलमानोंने बड़ा नागी अत्याचार  
किया था। अन्को शान करनेके लिये बुद्धिमान् महात्माजी  
नोवाखली गये ॥ ९८ ॥

श्रुतिरेदृष्टब्रह्मिनि सवत्सरे प्रभुः ।

पद्मघां यात्रां समारम्भ्य स नोवाक्षलिमग्दले ॥ ९९ ॥

सन् १९४७ में महात्माजीने नोवाखाली त्रिभेमें पैदल  
गये परमे यात्रा शुरू की ॥ ९९ ॥

विहारे च ततः पश्चाद् हिन्दूनां मन्युशान्तये ।

अग्नाभ्यत्कृपया धीमान्तरो विश्वहिर्निपिता ॥ १०० ॥

उनके पश्चात् विहारमें कुछ अने हुए हिन्दुओंको शान करनेके  
लिये उन्होंने (विहारमें) अग्ना किया ॥ १०० ॥

साहाय्यमाधातुमसौ कुरानिनां,  
दिल्ल्यां तदापत्तिविषण्णमानस ।  
वस्तुभ्रुतिप्राहपरत्नसमिते,  
निरन्तता स प्रविवेश वत्सरे ॥१०१॥

महात्माजीन १९४८ ई० में उपवासका आरम्भ किया ॥१०१॥

अगस्तमासस्य च पञ्चदश्या,  
यते प्रतापेन च मध्यरात्रे ।  
दास्यादसौ देश इतो विमुक्ति,  
धन्या धय स्म स च धन्य एव ॥१०२॥

इसी साठ १५ वी अगस्तको महात्माजीके प्रतापसे आधीरातमें यह विशाल दश मुक्त हुआ। वह तो धन्य है ही हम सब भी धन्य हुए ॥ १०२ ॥

गांधि स्वीयगृहे निवास्तनिरतो ह्याराधन थीगिर,  
कृत्वा लन्दनमदधीत्य च तत्रो वैरिष्टरत्व गत ।  
अफ्रीकामुपगम्य भारतभुवो जातान्स्थितास्तत्र नृन्,  
साहाय्यन कृतार्थयज्ञय सिताञ्जित्वाप्ययी भारतम ॥१०३॥

महात्मा गांधीजी अपने घरमें राजकोटमें रहते हुए सरस्वतीकी आराधना करके अर्थात् विद्याध्ययन करके लन्दन गये। वहाँ पढ़कर वैरिष्टर बन। अफ्रीकाम जाकर भारतमें पैदा हुए भारतीय लोगोंको जा वही रहते थे — सहायतास कृताय बनाकर अफ्रीकोको जीतकर भारत आये ॥ १०३ ॥

भारतदेशमुपेत्य साबरमतीतटघां वसन्नाथमे,  
सधामान्बहुशं प्रवर्षं स जयन्नार्थप्रजानामरीन् ।  
हिन्दूमुस्लिमयो सखित्वमिह सत्सत्याप्य चोद्धार्य ता-  
मस्तूदशशमिशाग्मयत परितः सर्वाविकारान्वितान् ॥१०४॥



महात्माजोने भारतमें आकर सावरमतीके किनारे रहते हुए, बहुत ने सत्याग्रह सशामोको शुरू किया और उसमें आयंप्रजाके शत्रुओंको जोता । हिन्दू और मुसलमानोंकी भ्रमैरीका स्थापन करके पतित हुए लोगोंका उद्धार करके मर्वाधिकारमन्वित बना दिया ॥ १०४ ॥

देशोपं शतवर्षतोप्यधिकतः श्वेताह्वग्लोकैः कृतो,  
विद्याबुद्धिधनादिभिः परिभूतोप्येभिः स्वतन्त्रेतरः ।  
सेवाप्रामनिवामशील ऋषिराट्छान्तो विजित्याखिला-  
स्तान्संस्थाप्य गतः स्वराज्यमत्तुलं लोकोत्तरेयाध्वना ॥१०५॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामि-

थोमद्भूगवदाचार्यशण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे

एकविंशः सर्गः

मौ वर्षसे भी अधिक वर्षोंसे, विद्या, बुद्धि और धनस पूरे भा तो भी इस देशको, अश्रंजोने पराधीन बना रखा था । सेवाप्रामके शान्त ऋषि लोकोत्तर मार्गसे कभी नहीं था—एने स्वराज्यकी स्थापना करके चले गये ॥ १०५ ॥

इति परमहंसपरिव्राजकस्वामिथोमद्भूगवदाचार्यशण्डितराजप्रणीते

पारिजातसौरभे स्वोपतभारतराष्ट्रभाषाटीकायाम्

एकविंशः सर्गः